



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, अप्रैल 7—अप्रैल 13, 2019, शनिवार/चैत्र 17—चैत्र 23, 1941
No. 15] NEW DELHI, APRIL 7—APRIL 13, 2019, SATURDAY/CHAITRA 17— CHAITRA 23, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2018

का.आ. 524—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में राजस्व विभाग के अधीन कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर तथा इसके अधीनस्थ संभागों के 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है :-

[फा. सं. ई-11017/3/2017-हिन्दी-2 डीओआर डीओआर]

डॉ. सतीश चन्द्र, संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

New Delhi, the 15th March, 2018

S.O. 524.—In pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government, hereby notifies O/o Principle Commissioner, Central Goods & Service Tax, Jaipur and Subordinate Zones, Offices under the department of Revenue, where more than 80% staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[F. No. E-11017/3/2017-Hindi-II DOR DOR]

Dr. SATISH CHANDRA, Jt. Director (OL)

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2019

का.आ. 525.—भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक श्री विपिन आनंद को दिनांक 1.4.2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त निगम का सदस्य नियुक्त करती है।

[फा. सं. ए-15011/02/2018-बीमा-I]

मृत्युंजय सिंह, अवर सचिव

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 2nd April, 2019

S. O. 525.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Life Insurance Corporation of India Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby appoints Sh. Vipin Anand, Managing Director, Life Insurance Corporation of India as Member of the said Corporation with effect from 1.04.2019 for a period of five years or upto the date of his superannuation or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. A-15011/02/2018-Ins.I]

MRITUNJAY SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2019

का. आ. 526.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (1987 में यथा संशोधित) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में **भारतीय स्टेट बैंक** के सूचीबद्ध कार्यालयों/शाखाओं को अधिसूचित करती है, जिनके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है : -

क्र.सं.	बैंक का नाम	कार्यालयों/शाखाओं की संख्या
1.	भारतीय स्टेट बैंक	198
	कुल	198

[फा. सं. 11016/2/2017-हिं.(अधि.)]

शैलेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने वाले कार्यालयों / शाखाओं की सूची (बेंगलूरु मंडल)

- | | |
|---|--|
| 1. भारतीय स्टेट बैंक
नेहरू एक्सटेंशन शाखा, मालुर (40088)
पीबी नं.3, न्यू पोस्ट ऑफिस रोड,
मालुर, कोलार - 563130 | 8. भारतीय स्टेट बैंक
होसकोटे एडीबी शाखा (1808)
तम्मै गौड़ा एक्सटेंशन
होसकोटे
बेंगलूरु ग्रामीण - 562114 |
| 2. भारतीय स्टेट बैंक
गौरीपेट शाखा (40080)
पीबी नं.3, स्पाक्स रोड,
गौरीपेट
कोलार - 563101 | 9. भारतीय स्टेट बैंक
नरसपुरा शाखा (18309)
करिनयकनहल्ली गांवव,
कसाबा हुबली,
मालुर तालुक,
कोलार - 563130 |
| 3. भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय:3 (40591)
बैंक रोड शाखा के ऊपर,
बैंक रोड
तुमकुर - 572101 | 10. भारतीय स्टेट बैंक
हुलिबेले शाखा (40523)
हुलिबेले
भंगारपेट तालुक
कोलार - 563114 |
| 4. भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय : 4 (40677)
बैंक रोड शाखा के ऊपर,
बैंक रोड
तुमकुर - 572101 | 11. भारतीय स्टेट बैंक
भंगारपेट शाखा (11292)
भंगारपेट मुख्य रोड
भंगारपेट
कोलार - 563114 |
| 5. भारतीय स्टेट बैंक
एसएमई होसकोटे(11293)
श्री वैष्णव अर्केड,
सर वीवी एक्सटेंशन,
पुरानी मद्रास सड़क,
रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने, होसकोटे,
बेंगलूरु ग्रामीण - 562114 | 12. भारतीय स्टेट बैंक
निट्टूर शाखा (40405)
गुब्बी तालुक
तुमकुर - 572223 |
| 6. भारतीय स्टेट बैंक
जडिगनहल्ली शाखा (40193)
पीबी नं.4, मैसूरु बैंक रोड,
जडिगनहल्ली,
कोलार - 562114 | 13. भारतीय स्टेट बैंक
डोड्डागुणी शाखा (40389)
294,"अंजनाद्री",
पुरानी मुख्य सड़क डोड्डागुणी,
गुब्बी तालुक
तुमकुर - 572211 |
| 7. भारतीय स्टेट बैंक
चोकाहल्ली शाखा (40733)
न 233/188/111
चोकाहल्ली इंडीस्ट्रीयल एरिया गेट, | 14. भारतीय स्टेट बैंक
अम्मासंद्रा शाखा (40177)
पीबी नं 1, बिरला सर्कल, |

- आदित्यपट्टना, अम्मासंद्रा, तुरुवकेरे
तुमकुर - 572211
- सर एम विश्वेश्वरैया म्यूजियम कॉम्प्लेक्स
मुद्दनहल्ली,
चिक्कबल्लापुर - 562101
15. भारतीय स्टेट बैंक
रोजारपल्लीक्रॉस शाखा (41122)
व्येकटेश्वर कॉम्प्लेक्स,
होलुर रोड,
वलगेरनहल्ली क्रॉस, श्रीनिवासपुर,
कोलार - 563126
22. भारतीय स्टेट बैंक
जिल्ला अदालिता भवन
चिक्कबल्लापुर शाखा (41043)
सिदलगट्टा रोड, अनकनूर
जिल्ला अदालिता भवन
चिक्कबल्लापुर - 562101
16. भारतीय स्टेट बैंक
वेमगल शाखा (40851)
चिंतामणि रोड,
कोलार
कोलार - 563157
23. भारतीय स्टेट बैंक
एपीएमसी यार्ड
चिक्कबल्लापुर शाखा (40414)
पीवी नं 4, एमजी रोड
चिक्कबल्लापुर
चिक्कबल्लापुर - 562101
17. भारतीय स्टेट बैंक
देवनहल्ली एयरकार्गो
कॉम्प्लेक्स शाखा (11353)
मैसर्स मेजिस एविएशन बोम्बा कॉम्प्लेक्स
बैंगलुरु अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड
बैंगलुरु ग्रामीण - 560300
24. भारतीय स्टेट बैंक
आरवीवी कॉम्प्लेक्स
चिक्कबल्लापुर शाखा (40082)
पीवी नं 2, नं. 21/1,
बैंगलुरु - बेल्लारी रोड,
चिक्कबल्लापुर
चिक्कबल्लापुर - 562101
18. भारतीय स्टेट बैंक
सादाहल्ली शाखा (40483)
सादाहल्ली पोस्ट
देवनहल्ली तालुक
बैंगलुरु ग्रामीण - 562110
25. भारतीय स्टेट बैंक
रामनगरम शाखा (4998)
मधु कॉम्प्लेक्स, बी एम रोड,
आईजूर, रामनगरम्
रामनगर - 571511
19. भारतीय स्टेट बैंक
बाशेट्टीहल्ली शाखा (40878)
444, एसवीवी एनक्लेव,
डोड्डाबल्लापुर मेन रोड
बाशेट्टीहल्ली, डोड्डाबल्लापुर
बैंगलुरु ग्रामीण - 561203
26. भारतीय स्टेट बैंक
पुराना बस स्टैंड रोड
रामनगरम शाखा (40031)
1501, पीवी नं. 1,
शेरिफ कॉम्प्लेक्स,
पुराना बस स्टैंड रोड, रामनगरम्
रामनगरम् - 562159
20. भारतीय स्टेट बैंक
बी जी एस नगर देवहल्ली शाखा (41188)
393 बीजीएस कॉम्प्लेक्स,
वीरसंद्रा गांव, अलुरडूडुनहल्ली
देवनहल्ली, डोड्डाबल्लापुर रोड
बैंगलुरु ग्रामीण - 562110
27. भारतीय स्टेट बैंक
जनता कॉलोनी बिड्डी शाखा (70803)
महादेवाय बिल्डिंग, मैसूर रोड,
कंचनकुप्पे, बिड्डी - हुबाली
बैंगलुरु ग्रामीण - 562109
21. भारतीय स्टेट बैंक
मुद्दनहल्ली (40776)

- | | |
|---|---|
| <p>28. भारतीय स्टेट बैंक
बीएमरोड बिड़दी शाखा (40676)
नं. 342/1,
बिड़दी पुलिस स्टेशन के आगे
बैंगलुरु - मैसूर रोड, बिड़दी,
रामनगरम तालुक,
बैंगलुरु ग्रामीण - 562129</p> | <p>35. भारतीय स्टेट बैंक
बटवाडी (7962)
एसएलएन टावर्स, विद्यानगर
बीएच रोड
तुमकुर - 572103</p> |
| <p>29. भारतीय स्टेट बैंक
बिड़दी शाखा (4235)
बैंगलुरु - मैसूर रोड
बिड़दी, बैंगलुरी ग्रामीण - 562109</p> | <p>36. भारतीय स्टेट बैंक
सिद्धगंगामठ शाखा (41125)
क्यातसंद्रा
तुमकुर - 572104</p> |
| <p>30. भारतीय स्टेट बैंक
तुमकुर शाखा (3717)
वोक्कालिगरा संघ कॉम्प्लेक्स
प्रथम तल, एमजी रोड, तुमकुर
तुमकुर - 572101</p> | <p>37. भारतीय स्टेट बैंक
एपीएमसी बटवाडी शाखा (41104)
#588, एपीएमसी रोड
बटवाडी बाईपास
तुमकुर - 572103</p> |
| <p>31. भारतीय स्टेट बैंक
बैंक रोड तुमकुर शाखा (40092)
पीबी नं. 5, नं. 97:1, बैंक रोड,
तुमकुर - 572101</p> | <p>38. भारतीय स्टेट बैंक
सिद्धगंगा एक्सटेंशन तुमकुर शाखा (4033)
पीबी नं. 120
बी एच रोड
तुमकुर - 572102</p> |
| <p>32. भारतीय स्टेट बैंक
दाबसपेट शाखा (40731)
नं. 435/452/4,
प्रथम तल, उडुनेश्वर कॉम्प्लेक्स
राष्ट्रीय राजमार्ग :4
सर्विस रोड दोबासपेट
बैंगलुरु ग्रामीण - 562111</p> | <p>39. भारतीय स्टेट बैंक
तुमकुर यूनिवर्सिटी शाखा (40850)
सरकारी विज्ञान कॉलेज परिसर,
तुमकुर यूनिवर्सिटी कैंपस, बीएच रोड,
तुमकुर - 572103</p> |
| <p>33. भारतीय स्टेट बैंक
मारुति कॉम्प्लेक्स दाबसपेट (21507)
प्रथम तल,
मारुति कॉम्प्लेक्स, मधुगिरी रोड,
दाबसपेट सर्कल,
दाबसपेट, नेलमंगला
बैंगलुरु ग्रामीण - 562111</p> | <p>40. भारतीय स्टेट बैंक
एसएमई तुमकुर शाखा (16486)
चौथा क्रॉस, अशोक नगर,
तुमकुर यूनिवर्सिटी कैंपस के सामने,
बीएच रोड तुमकुर
तुमकुर - 572101</p> |
| <p>34. भारतीय स्टेट बैंक
हीरेहल्ली शाखा (40393)
हीरेहल्ली औद्योगिक एस्टेट कॉम्प्लेक्स
हीरेहल्ली, तुमकुर - 572168</p> | <p>41. भारतीय स्टेट बैंक
एसआईटी एक्सटेंशन तुमकुर (7969)
एसआईटी मेन रोड
हिमगिरी मेशन
तुमकुर - 572101</p> |
| | <p>42. भारतीय स्टेट बैंक
एस एस पुरम तुमकुर (41147)
श्रीवारु बिल्डिंग, प्रथम ए क्रॉस</p> |

- उप्परहल्ली रेल्वे गेट के पास
तुमकुर - 572102
- नियर बस स्टैंड,
यादगिरी -
43. भारतीय स्टेट बैंक
सदाशिवनगर तुमकुरू (40686)
197/2955, एसजीआर कॉम्प्लेक्स
देवगौड़ा लेआउट, कुणिगल रोड
तुमकुर - 572102
51. भारतीय स्टेट बैंक,
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय V
मंत्रालय रोड,
रायचूर - 584 101
44. भारतीय स्टेट बैंक
राघवेन्द्रनगर (40574)
प्रथम ए क्रॉस,
कैलाश आश्रम के पास,
शेटीहल्ली मैन, तुमकुर
तुमकुर - 572102
52. भारतीय स्टेट बैंक,
बी एल डी. एसोसिएशन शाखा
विजयपुर
53. भारतीय स्टेट बैंक,
सैनिक स्कूल शाखा
सैनिक स्कूल परिसर,
विजयपुर
45. भारतीय स्टेट बैंक
विनायकनगर एक्सटेंशन तुमकुर (40282)
पीबी नं.43, बीएच रोड,
विनायकनगर एक्सटेंशन,
तुमकुर - 572101
54. भारतीय स्टेट बैंक,
आजाद नगर शाखा
रोड, स्टेशन रोड
रायचूर
46. भारतीय स्टेट बैंक
प्रशासनिक कार्यालय - 08
सुपर मार्केट
कलबुर्गी - 585 101
55. भारतीय स्टेट बैंक ,
एम जी रोड शाखा
एम जी रोड,
रायचूर
47. भारतीय स्टेट बैंक,
क्षेत्रीय व्यावसाय कार्यालय - I
तिम्मापुर सर्कल,
कलबुर्गी - 585 101
56. भारतीय स्टेट बैंक,
कडगंची शाखा,
कडगंची
कलबुर्गी - 585311
48. भारतीय स्टेट बैंक,
क्षेत्रीय व्यावसाय कार्यालय -II
नेहरुगंज, कलबुर्गी - 585 101
57. भारतीय स्टेट बैंक,
कालगी शाखा,
कालगी
कलबुर्गी - 585312
49. भारतीय स्टेट बैंक,
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय III,
पहली मंजिल ,सुपर मार्केट ,
कलबुर्गी - 585101
58. भारतीय स्टेट बैंक
महगांव शाखा,
महगांव, कलबुर्गी - 585316
50. भारतीय स्टेट बैंक,
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय IV
59. भारतीय स्टेट बैंक,
कोतनूर शाखा,

- न. 3/53, जेवरगी रोड
कोतनूर
कलबुर्गी 585103
60. भारतीय स्टेट बैंक
मलखेड शाखा, मलखेड,
कलबुर्गी - 585317
61. भारतीय स्टेट बैंक
कापनूर शाखा,
हुमनाबाद रोड, कापनूर
कलबुर्गी -585104
62. भारतीय स्टेट बैंक,
मेका कॉलोनी शाखा
हगरा क्रास, रिगं रोड,
कलबुर्गी - 585104
63. भारतीय स्टेट बैंक,
गुलबर्गा शाखा,
हैदराबाद -कर्नाटक चेंबर ऑफ
कॉमर्स बिल्डिंग ,
बिहाइंड पोलीस स्टेशन सुपर मार्केट
गुलबर्गा
64. भारतीय स्टेट बैंक,
जेवरगी कॉलोनी शाखा,
गुलबर्गा प्लॉट नंबर 72
सहकार भवन जवरगी कॉलोनी,
गुलबर्गा - 585102
65. भारतीय स्टेट बैंक,
ओम नगर
बिलगुंदी गार्डन,
सेडम रोड,
गुलबर्गा - 585105
66. भारतीय स्टेट बैंक,
चिंचोली एडीबी शाखा,
मेन रोड,
पोस्ट ऑफिस चंद्रपुर
गुलबर्गा - 585307
67. भारतीय स्टेट बैंक,
अंकुर इंडस्ट्रियल एस्टेट ब्रांच,
गुलबर्गा शाहबाद रोड,
अंकुर सीतापुर तालुक
गुलबर्गा - 585229
68. भारतीय स्टेट बैंक,
स्टेशन बाजार ब्रांच गुलबर्गा
सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के सामने
एमएसके मिल रोड
गुलबर्गा - 585102
69. भारतीय स्टेट बैंक,
बसवेश्वर चौक जेवरगी बीजापुर रोड,
गेवरगी, गुलबर्गा - 585310
70. भारतीय स्टेट बैंक,
सेडम साईराम काबरा कांप्लेक्स,
मेन रोड - 585222
71. भारतीय स्टेट बैंक,
हाई कोर्ट सर्किट ब्रांच,
गुलबर्गा बिंदापुर कॉलोनी,
गुलबर्गा - 585103
72. भारतीय स्टेट बैंक,
रिंग रोड गुलबर्गा
प्लॉट नंबर 8 खताल कांप्लेक्स
राम मंदिर के पास
गुलबर्गा - 585102
73. भारतीय स्टेट बैंक,
आलंद रोड,
प्लॉट नंबर 9 586
एलआईजी 1 केएचबी
विजयनगर कॉलोनी आनंद
गुलबर्गा - 585101
74. भारतीय स्टेट बैंक,
एस एम ई शाखा, गुलबर्गा
नंबर 8/ 1305/ 66
बाबी यूनिटी कांप्लेक्स
कपूरनूर इंडस्ट्रियल एरिया हुमनाबाद रोड,
गुलबर्गा

- | | |
|---|--|
| <p>75. भारतीय स्टेट बैंक,
गुलबर्गा मेन ब्रांच,
सुपर मार्केट,
गुलबर्गा - 585101</p> | <p>गुलबर्गा यूनिवर्सिटी कैंपस,
सेडम रोड, गुलबर्गा - 585105</p> |
| <p>76. भारतीय स्टेट बैंक,
हुमनाबाद रोड ब्रांच,
नेहरू गंज,
गुलबर्गा बंदूक वाला बिल्डिंग गंज,
गुलबर्गा</p> | <p>83. भारतीय स्टेट बैंक,
विद्या नगर शाखा,
गुलबर्गा केएसआरटीसी के पास,
जेवरगी क्रॉस, एमएसके मिल रोड,
गुलबर्गा - 585102</p> |
| <p>77. भारतीय स्टेट बैंक,
शाहबाद रोड,
गुलबर्गा बस स्टैंड के निकट,
स्टेशन रोड, शाहबाद,
गुलबर्गा - 585228</p> | <p>84. भारतीय स्टेट बैंक,
दरगाह गुलबर्गा,
नंबर 5/1/ नंबर /6651
हजरत ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह के पास,
नवाज बाजार
गुलबर्गा - 585104</p> |
| <p>78. भारतीय स्टेट बैंक,
चिंचोली c/11/160
कोटाकी बिल्डिंग मेन रोड,
बीदर क्रॉस चिंचोली,
गुलबर्गा - 585307</p> | <p>85. भारतीय स्टेट बैंक,
पुराना हॉस्पिटल एरिया,
स्टेशन रोड , गुलबर्गा - 585101</p> |
| <p>79. भारतीय स्टेट बैंक,
न्यू PWD क्वार्टर, जेवरगी,
बीएसएनएल ऑफिस के पास,
जेवरगी
गुलबर्गा - 585310</p> | <p>86. भारतीय स्टेट बैंक,
यस बी टेंपल रोड ,
गुलबर्गा ,लाल गिरी क्रॉस
गुलबर्गा - 585103</p> |
| <p>80. भारतीय स्टेट बैंक,
सेडम रोड शाखा,
3-9/8-2 कोर्ट के पास,
मेन रोड, सेडम,
गुलबर्गा - 585222</p> | <p>87. भारतीय स्टेट बैंक,
हुसैन गार्डन गुलबर्गा,
जिलानाबाद
गुलबर्गा - 585103</p> |
| <p>81. भारतीय स्टेट बैंक,
तिम्मपुरी सर्कल,
गुलबर्गा मराठी साहित्य मंदिर के पास
गुलबर्गा - 585102</p> | <p>88. भारतीय स्टेट बैंक,
जय नगर क्रॉस,
सेडम रोड,
टेक्रो कॉम्प्लैक्स
कलबुर्गी - 585101</p> |
| <p>82. भारतीय स्टेट बैंक,
यूनिवर्सिटी ब्रांच,</p> | <p>89. भारतीय स्टेट बैंक,
हुमनाबाद रोड,
प्लॉट नंबर 57/1 सर्वे नंबर 128,
रेवनसिद्देश्वर कॉलोनी .
नियर TV स्टेशन
गुलबर्गा - 585104</p> |

- | | |
|---|---|
| <p>90. भारतीय स्टेट बैंक,
जगत सर्कल गुलबर्गा
नियर STD , दरगाह रोड,
गुलबर्गा - 585101</p> | <p>98. भारतीय स्टेट बैंक,
इंडी शाखा , बीजापुर रोड,
इंडी, बीजापुर – 586209</p> |
| <p>91. भारतीय स्टेट बैंक,
यस पी सी रोड,
सुपर मार्केट कॉम्प्लेक्स
गुलबर्गा - 585102</p> | <p>99. भारतीय स्टेट बैंक,
कोल्हार शाखा
मुख्य सड़क, कोल्लार,
बासवन बागवेदी तल्लिक,
बीजापुर – 586210</p> |
| <p>92. भारतीय स्टेट बैंक,
राम मंदिर रोड ,
गुलबर्गा पीएनटी कॉलोनी
ओल्ड जेवरगी रोड
गुलबर्गा</p> | <p>100. भारतीय स्टेट बैंक,
निडगुंदी शाखा
पुराने बस स्टैंड के पास,
बसवन बागवेदी तल्लिक,
बीजापुर – 586213</p> |
| <p>93. भारतीय स्टेट बैंक,
स्टेशन रोड सेडम
नंबर 11 सर्वे नंबर 917/1
के सामने स्टेशन रोड
सेडम</p> | <p>101. भारतीय स्टेट बैंक,
बिजापुर ट्रजरी शाखा
पोस्ट बॉक्स संख्या 27,
बीजापुर, डी सी ऑफिस कम्पौंडिविट
बीजापुर – 586101</p> |
| <p>94. भारतीय स्टेट बैंक,
ईएसआई हॉस्पिटल ,
सेलम रोड ,
गुलबर्गा 585106</p> | <p>102. भारतीय स्टेट बैंक,
आळंद शाखा
चिललाल कॉम्प्लेक्स
श्रीराम मार्केट आळंद,
गुलबर्गा - 585302</p> |
| <p>95. भारतीय स्टेट बैंक,
मुददेबिहाल
स्टेट बैंक रोड
मुददेबीहाल,
बीजापुर - 586212</p> | <p>103. भारतीय स्टेट बैंक,
अफज़लपुर शाखा
श्री शिवपुष्पा संगोली बिल्डिंग
बस स्टैंड आफज़लपुर जिले के पास
गुलबर्गा - 58530</p> |
| <p>96. भारतीय स्टेट बैंक,
बसवनबगेवाडी
बसवनबगेवाडी
बीजापुर रोड
बीजापुर, 586203</p> | <p>104. भारतीय स्टेट बैंक,
चडचना शाखा
56 ए / 1 ए 2,
श्री अवाजी बिल्डिंग
पंढरपुर रोड चैडाचन,
इंडी तुलका
बीजापुर – 586205</p> |
| <p>97. भारतीय स्टेट बैंक,
सिंदगी
पोस्ट बैग नं .1,
जेवरगी रोड सिंदगी
बीजापुर 586128</p> | <p>105. भारतीय स्टेट बैंक,
आदर्श नगर बिजापुर</p> |

- नं. मिग-40,
आश्रम रोड आदर्श नगर,
बीजापुर – 586101
106. भारतीय स्टेट बैंक,
देवरहिप्परगी शाखा
863, मलहरी कॉम्प्लेक्स,
गुलबर्गा रोड के पास बस स्टैंड:
देवरहिप्परगी,
तालुका सिंदगी,
बीजापुर – 586115
107. भारतीय स्टेट बैंक,
जलनगर शाखा
एसबीआई बीजापुर मुख्य शाखा
बीएलडीजी स्टेशन रोड
बीजापुर – 586101
108. भारतीय स्टेट बैंक,
चालुक्य नगर बिजापुर
पुजारी कॉम्प्लेक्स,
लिंगद रोड तुलका-बिजापुर
बीजापुर – 586103
109. भारतीय स्टेट बैंक,
मेन रोड आळंद
तासिल परिसर,
तासिल कार्यालय के पास मुख्य रोड आळंद
गुलबर्गा - 585302
110. भारतीय स्टेट बैंक,
एस एस फ़्रोन्ट रोड बिजापुर
पी.बी नं.26, एस एस फ़्रंट रोड
बिजापुर 586101
111. भारतीय स्टेट बैंक,
तालिकोट, पीबी नं 21,
सीटीएस नं 1/48 एमजी रोड,
बाजार यार्ड, तिलिकोट,
बीजापुर – 586 214
112. भारतीय स्टेट बैंक,
टेंपल रोड बबगेवाडी
भू-तल, सीटीएस संख्या: 1760
- ओपीपी बसवेश्वर मंदिर
ओपीपी बसावेश्वर मंदिर – 586203
113. भारतीय स्टेट बैंक,
गब्बुर शाखा आरबीओ 5
प्लॉट नं .8 / 1 और 2,
ब्लॉक 9, आदित्य नगर मुख्य सड़क,
गब्बुर देवदुर्गा तलुक,
रायचूर – 584113
114. भारतीय स्टेट बैंक,
कलमाला शाखा आरबीओ 5
लिंगसुर रोड,
कारियप्पा टाटा मंदिर
देवदुर्ग तालुक, कलमाला
रायचूर - 584136
115. भारतीय स्टेट बैंक,
देवदुर्ग, आरबीआर 5
जहीरुद्दीन पाशा सर्ल
देवदुर्ग तालुका
रायचूर - 584111
116. भारतीय स्टेट बैंक,
जुरागी शाखा / आरबीओ 1
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए
पीडब्ल्यूडी क्वार्टर,
जर्वेगी तालूक
जिला गुलबर्गा - 585310
117. भारतीय स्टेट बैंक
मुधोल शाखा, औरद तालुक,
बिदर जिला
118. भारतीय स्टेट बैंक
लखनगाव शाखा,
भल्की तालुका
बिदर, कर्नाटक
119. भारतीय स्टेट बैंक
लाडवन्ती शाखा
बसवक्कल्याण,
बिदर जिला कर्नाटक

- | | |
|--|---|
| 120. भारतीय स्टेट बैंक
शिंधनूर शाखा
डॉ तिम्मन गौडर कॉम्प्लेक्स
कुस्टगी रोड
शिन्धनूर, कर्नाटक | 949, 1ए, संपिगे रोड
हासन - 573 201 |
| 121. भारतीय स्टेट बैंक
यू.ए.एस. कॉम्प्लेक्स शाखा
लिंगसगुर, रायचूर, कर्नाटक | 128. भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय 5 चिक्कमंगलूर
C/O एसबीआई होसमाने एक्सटेंशन शाखा
होसमाने एक्सटेंशन
चिक्कमंगलूर -577101 |
| 122. भारतीय स्टेट बैंक
शिरवार शाखा
शिवगंगाम्मा बिल्डिंग
लिंगसगुर रोड, मानवी तालुक
रायचूर, कर्नाटक | 129. भारतीय स्टेट बैंक
एसएमई शाखा
कात्यायनी महामाया कॉम्प्लेक्स
पीवीएस कलाकुंज के पास, कोडियलबैल
मंगलूर - 575003 |
| 123. भारतीय स्टेट बैंक
प्रशासनिक कार्यालय 5, मंगलूर
मंजूषा भवन,
बीजै चर्च रोड
मंगलूर - 575004 | 130. भारतीय स्टेट बैंक
संतेकट्टे (उडुपी) शाखा
पोस्ट बॉक्स सं. 1,
वाया: कल्लियनपुरा
संतेकट्टे (उडुपी) |
| 124. भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय 1 मंगलूर
एस्सेल टावर्स, तीसरी मंजिल
बंट छात्रावास रोड
मंगलूर -575003 | 131. भारतीय स्टेट बैंक
उडुपी सिटी शाखा
श्यामला कॉम्प्लेक्स
श्री कृष्णा मठ रोड
बड़गुपेट उडुपी - 576101 |
| 125. भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय 2 मंगलूर
मंजूषा भवन
बीजै चर्च रोड,
मंगलूर - 575004 | 132. भारतीय स्टेट बैंक
मल्ले शाखा
शिवय्या कॉम्प्लेक्स
मेन रोड, मल्ले - 576118 |
| 126. भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय 3 उडुपी
बन्नंजे, शीरीवीडु
सीतालक्ष्मी कॉम्प्लेक्स
उडुपी - 576101 | 133. भारतीय स्टेट बैंक
कुंदापुरा शाखा
सिरी भवन
कुंदेश्वरा मंदिर रोड
कुंदापुरा -576201 |
| 127. भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय 4 हासन | 134. भारतीय स्टेट बैंक
अंबागिलु शाखा
द्वार संख्या 10-28
एच काव्या आर्केड
कलसंका रोड, अंबागिलु |

- | | |
|--|--|
| <p>135. भारतीय स्टेट बैंक
नेताजी क्रास रोड, उडुपी शाखा
पीबी 76, रहमान कमर्शियल कॉम्प्लैक्स,
नेताजी क्रास रोड, उडुपी</p> | <p>वैष्णवी रेजिडेंसी, पहली मंजिल
मणिपाल - पकला रोड
मणिपाल - 576104</p> |
| <p>136. भारतीय स्टेट बैंक
कुंचेव्यालु शाखा
शृंगेरी तालुक
चिकमगलूर - 577139</p> | <p>143. भारतीय स्टेट बैंक
हरिहर स्ट्रीट शृंगेरी शाखा
पी बी संख्या 1, हरिहर स्ट्रीट
शृंगेरी - 577139
चिकमगलूर जिला</p> |
| <p>137. भारतीय स्टेट बैंक
बैलूर शाखा
द्वार संख्या. 2/68,
डॉ. अरूर क्लीनिक एवं
नर्सिंग होम के पास
बैलूर - 574102</p> | <p>144. भारतीय स्टेट बैंक
हेब्री शाखा
सक्कु मैसन
मेन रोड, हेब्री - 576112
उडुपी जिला</p> |
| <p>138. भारतीय स्टेट बैंक
बालेहोन्नूर शाखा
वीएसएसएसएन भवन,
जयसी सर्किल के पास
बालेहोन्नूर - 577112</p> | <p>145. भारतीय स्टेट बैंक
जयापुरा शाखा
वेंकटनाग कॉम्प्लैक्स, मेन रोड
जयापुरा - 577123
चिकमगलूर जिला</p> |
| <p>139. भारतीय स्टेट बैंक
ब्रह्मावरा शाखा
सिटी सेंटर, पहली मंजिल
एनएच 66
ब्रह्मावरा - 576213</p> | <p>146. भारतीय स्टेट बैंक
कोटेश्वरा शाखा
लक्ष्मी देवी कॉम्प्लैक्स,
श्री पट्टाभी रामचंद्र मंदिर के सामने
मारुति वाना रोड
कोटेश्वरा - 576222</p> |
| <p>140. भारतीय स्टेट बैंक
डीसी कंपाउंड मणिपाल शाखा
निचली मंजिल
शांभवी सवरण, पेरम्पल्ली रोड
मणिपाल - 576104</p> | <p>147. भारतीय स्टेट बैंक
कुंजीबेट्टु शाखा
श्री लक्ष्मी गणेश कंपाउंड
कुंजीबेट्टु
उडुपी - 576102</p> |
| <p>141. भारतीय स्टेट बैंक
दुर्गाकृपा कॉम्प्लैक्स शाखा
दुर्गाकृपा कॉम्प्लैक्स
मेन रोड
सिद्धापुरा (कुंदापुरा) - 576229</p> | <p>148. भारतीय स्टेट बैंक
मणिपाल शाखा
मधुवन सराय, निचली मंजिल
स्मृति भवन के पास
टाईगर सर्किल, मणिपाल</p> |
| <p>142. भारतीय स्टेट बैंक
ईश्वर नगर शाखा</p> | <p>149. भारतीय स्टेट बैंक
एनएच 17 रोड शाखा</p> |

- समीर वाणिज्यिक कॉम्प्लैक्स
एनएच 17
ब्रह्मावरा - 576213
150. भारतीय स्टेट बैंक
पर्कला शाखा
भूदारा टावर
मेन रोड
पर्कला - 576107
151. भारतीय स्टेट बैंक
कोप्पा शाखा
मेन रोड
बस स्टैंड के पास
कोप्पा - 577126
152. भारतीय स्टेट बैंक
कर्कला शाखा
270 वार्ड संख्या 2, निचली मंजिल
होटल प्रकाश भवन, अनंतशयना
कर्कला - 574104
153. भारतीय स्टेट बैंक
बेलाविनाकोडिगे शाखा
उत्तमेश्वरा शाखा
उत्तमेश्वरा पोस्ट
कोप्पा तालुक - 577126
154. भारतीय स्टेट बैंक
काउप शाखा
आशियाना
निचली मंजिल, एनएच 66,
काउप, उडुपी जिला - 576106
155. भारतीय स्टेट बैंक
ट्रेजरी शाखा
एलआईसी कंपाउंड, अज्जरकाड,
उडुपी - 576101
156. भारतीय स्टेट बैंक
पडुबिद्री शाखा पीबी संख्या 1,
श्री महालक्ष्मी कॉम्प्लैक्स
पडुबिद्री - 574111
157. भारतीय स्टेट बैंक
निलुवागिलु शाखा
निलुवागिलु, कोप्पा तालुक
चिकमगलूर - 577120
158. भारतीय स्टेट बैंक
सालिग्राम शाखा
श्री महालक्ष्मी दामोदर कॉम्प्लैक्स
मेन रोड, सालिग्राम - 576225
159. भारतीय स्टेट बैंक
सलमार कर्कला शाखा
नं. 120/1 मेन रोड
सलमार
कर्कला - 574104
160. भारतीय स्टेट बैंक
एसबीआई इन टच शाखा
#8-1-138 ई4 पहली मंजिल,
श्री मां एन्क्लेव
उडुपी मणिपाल रोड
कुंजीबेट्टु पोस्ट, उडुपी
161. भारतीय स्टेट बैंक
थेकट्टे शाखा
कौस्तुभ, बस स्टैंड के पास
थेकट्टे, उडुपी जिला - 576231
162. भारतीय स्टेट बैंक
उद्यावरा शाखा
राज सदन, उद्यावरा - 574118
163. भारतीय स्टेट बैंक
येदतेरे ब्यांदूर शाखा
एनएच 66
कावेरी कॉम्प्लैक्स
ब्यांदूर - 576214
164. भारतीय स्टेट बैंक
सुभाष रोड, कोप्पा शाखा
पीबी संख्या 8, सुभाष रोड
बस स्टैंड के पास
कोप्पा - 577126

165. भारतीय स्टेट बैंक
हाई स्कूल रोड हावेरी शाखा
पीबी संख्या 3, पुतालाकर भवन
हाई स्कूल रोड
हावेरी - 581110
166. भारतीय स्टेट बैंक
राणेबेन्नूर एडीबी शाखा
एडीबी रोड, राणेबेन्नूर - 581115
जिला: हावेरी
167. भारतीय स्टेट बैंक
राणेबेन्नूर शाखा
बेल्लारी भवन, स्टेशन रोड
राणेबेन्नूर - 581115
जिला: हावेरी
168. भारतीय स्टेट बैंक
पीबी रोड राणेबेन्नूर शाखा
निरीक्षण बंगले के पास
पीबी रोड, राणेबेन्नूर - 581115
जिला: हावेरी
169. भारतीय स्टेट बैंक
पीबी रोड हरिहर शाखा
पीबी संख्या 8
एच 584 श्री सोमकृपा
पुणे-बेंगलोर रोड
हरिहर - 577601
170. भारतीय स्टेट बैंक
दोडबात्ती शाखा
डी सं.. 44/सी पुणे-बेंगलोर रोड
दोडबात्ती - 577566
171. भारतीय स्टेट बैंक
भीमसमुद्रा शाखा
वीरभद्रेश्वरा मंदिर के निकट
भीमसमुद्रा शाखा
चित्रदुर्गा - 577520
172. भारतीय स्टेट बैंक
जेसीआर एक्सटेंशन चित्रदुर्गा शाखा
नं. 120, पहली मंजिल
जेसीआर एक्सटेंशन
चित्रदुर्गा - 577501
173. भारतीय स्टेट बैंक
विद्यानगर चित्रदुर्गा
साइट सं. 43,
दूसरी मंजिल, मित्रालय लेआउट
मेदेहल्ली रोड, विद्यानगर लेआउट
चित्रदुर्गा - 577502
174. भारतीय स्टेट बैंक
चित्रदुर्गा, डीसीआरएम कॉम्प्लेक्स
आरएमसी रोड
चित्रदुर्गा - 577501
175. भारतीय स्टेट बैंक
बीडी रोड चित्रदुर्गा
पीबी संख्या. 7, सं. 2726
बेंगलोर -धारवाड़ रोड
चित्रदुर्गा - 577501
176. भारतीय स्टेट बैंक
वीपी एक्सटेंशन चित्रदुर्गा
निचली मंजिल आर पी पैरेडाइज भवन
वी पी एक्सटेंशन मेन रोड
चित्रदुर्गा - 577501
177. भारतीय स्टेट बैंक
प्रशांत नगर चित्रदुर्गा
अप्पाजी परिसर,
साइट संख्या 1278,
5 वां ब्लॉक
स्टेडियम रोड,
चित्रदुर्गा - 577501
178. भारतीय स्टेट बैंक
प्रशासनिक कार्यालय 6 दावणगेरे
दूसरी मंजिल, नं. 44,
बीएससी एवन्यू,
अक्क महादेवी रोड
पी जे एक्सटेंशन,
दावणगेरे - 577002
179. भारतीय स्टेट बैंक
आरबीओ 1 दावणगेरे प्र.का.
दावणगेरे 6/119, मंडीपेट
दावणगेरे - 577001

180. भारतीय स्टेट बैंक
मंडीपेट
पीबी संख्या 6
6-119 मंडीपेट
दावणगेरे - 577001
181. भारतीय स्टेट बैंक
दावणगेरे
नं. 44 बीएससी एवन्यू,
पीजे एक्सटेंशन
अक्कामहादेवी रोड
दावणगेरे -577002
182. भारतीय स्टेट बैंक
प्रशासनिक कार्यालय-4, मैसूर (40425)
साहूकार चन्नय्या मार्ग,
कुवेम्पुनगर
मैसूर : 570009
183. भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय : I, (13184)
नं. 76, होन्नासिरी टॉवर्स,
साहूकार चन्नय्या मार्ग,
सरस्वतीपुरम
मैसूर : 570009
184. भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय : II, (40592)
साहूकार चन्नय्या मार्ग,
कुवेम्पुनगर
मैसूर : 570009
185. भारतीय स्टेट बैंक
जयलक्ष्मीपुरम तृतीय ब्लॉक शाखा (40384)
नं. 46, तृतीय ब्लॉक,
जयलक्ष्मीपुरम, मैसूर
मैसूर : 570012
186. भारतीय स्टेट बैंक
एसबीआई इनटच शाखा (19119)
नं. 2927, सीयूबीएस के सामने,
गोकुलम मुख्य मार्ग,
वी. वी. मोहल्ला, मैसूर
मैसूर : 570002
187. भारतीय स्टेट बैंक
बिड्डी शाखा (4235)
प्रशासनिक कार्यालय -3,
#69 सीआरएस कॉम्प्लेक्स,
बेंगलूर मैसूर रोड,
तालुका रामनगरम ,
बिड्डी- 562 109 ,
188. भारतीय स्टेट बैंक
मलुर शाखा (13747),
प्रशासनिक कार्यालय -3,
श्री साई कॉम्प्लेक्स,
बीएम रोड दोड्डमलुर,
चेन्नपटना,
ग्रामीण बेंगलूर- 571501
189. भारतीय स्टेट बैंक
यलहंका न्यू टाउन शाखा (51194),
प्रशासनिक कार्यालय -2,
1, पहला मेन रोड,
यलहंका न्यू टाउन,
बेंगलूर - 560 064
190. भारतीय स्टेट बैंक
विजयपुरा शाखा(11286),
प्रशासनिक कार्यालय -3,
नंदिनी शिक्षा ट्रस्ट स्कूल भवन,
चन्नरायपटनम रोड ,
विजयपुरा -562 135
191. भारतीय स्टेट बैंक
कॉफी बोर्ड लेआउट शाखा (13281),
प्रशासनिक कार्यालय -2,
अक्षय अपूर्व अपार्टमेंट भूतल जी1&जी2 ,
हेब्बाल, केम्पापुरा,
बेंगलूर- 560 024
192. भारतीय स्टेट बैंक
चोलानगर शाखा(11820),
प्रशासनिक कार्यालय -2,
69, पीएनटी प्लाज़ा,

- आरटी नगर पोस्ट,
चोलानगर, बेंगलूर- 560032
193. भारतीय स्टेट बैंक
इंद्रा महिला शाखा (17041),
प्रशासनिक कार्यालय -2,
#221, 13वां क्रॉस, इंद्रानगर,
दूसरा स्टेज, बेंगलूर-560 038
194. भारतीय स्टेट बैंक
मुन्नेकोलालू शाखा (16296),
प्रशासनिक कार्यालय -2,
76 वागदेवी विलास पीयू कालेज,
मुन्नेकोलालू, मारथहल्लीपोस्ट,
बेंगलूर- 560037
195. भारतीय स्टेट बैंक
एचएसआर लेआउटशाखा (40663),
प्रशासनिक कार्यालय -2,
30, 14 वां क्रॉस,
9वां मेन, 6वां सैक्टर,
एचएसआर लेआउट ,
- बेंगलूर - 560 102
196. भारतीय स्टेट बैंक
अनेकल शाखा (167665),
प्रशासनिक कार्यालय -2,
10/8, 10ए/10ए, पटेल कम्प्लेक्स,
तालुका कार्यालय अनेकल,
बेंगलूर-562106
197. भारतीय स्टेट बैंक
राजाजीनगर दूसरा ब्लॉक शाखा(16873),
प्रशासनिक कार्यालय -1,
2041, राजाजीनगर,
दूसरा ब्लॉक , बेंगलूर- 560010
198. भारतीय स्टेट बैंक
कुरुवरहल्ली शाखा(17346),
प्रशासनिक कार्यालय -1,
34, कर्नाटक लेआउट,
कुरुवरहल्ली,
मेन रोड, बेंगलूर-560086

New Delhi, the 8th April, 2019

S.O. 526.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended in 1987), the Central Government, hereby notifies the listed Offices/ Branches of **State Bank of India**, more than 80% of the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi:-

Serial No.	Name of the Bank	Number of Offices/ Branches
1.	State Bank of India	198
	Total	198

[F. No. 11016/2/2017-OL(Noti.)]

SHAILESH KUMAR SINGH, Jt. Director (OL)

**LIST OF OFFICES / BRANCHES TO BE NOTIFIED UNDER RULE 10(4)
OF THE OFFICIAL LANGUAGE RULE 1976**

- | | |
|---|---|
| <p>1. STATE BANK OF INDIA
NEHRU EXTENSION,
MALUR BRANCH (40088)
PB NO 3,
NEW POST OFFICE ROAD
MALUR
KOLAR, KARNATAKA – 563130</p> | <p>2. STATE BANK OF INDIA
GOWRIPET BRANCH (40080)
PB NO 3 SPARKS ROAD
GOWRIPET
KOLAR, KARNATAKA – 563101</p> <p>3. STATE BANK OF INDIA
REGIONAL BUSINESS OFFICE:3 (40591)</p> |
|---|---|

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| | UPSTAIRS BANK ROAD BRANCH
BANK ROAD
TUMKUR, KARNATAKA – 572101 | 13. | STATE BANK OF INDIA
DODDAGUNI BRANCH (40389)
294,"ANJANADRI",
OLD MAIN ROAD DODDAGUNI,
GUBBI TALUK,
TUMKUR, KARNATAKA – 572211 |
| 4. | STATE BANK OF INDIA
REGIONAL BUSINESS OFFICE:4 (40677)
UPSTAIRS BANK ROAD BRANCH
BANK ROAD
TUMKUR, KARNATAKA – 572101 | 14. | STATE BANK OF INDIA
AMMASANDRA BRANCH (40177)
P.B.NO 1 BIRLA CIRCLE,
ADITYAPATTANA
AMMASANDRA,
TURUVEKERE TALUK
TUMKUR,
KARNATAKA – 572211 |
| 5. | STATE BANK OF INDIA
SME HOSKOTE BRANCH (11293)
SRI VAISHNAVI ARCADE,
SIR V V EXTENSION
OLD MADRAS ROAD,
OPP RELIANCE PETROL BU
HOSKOTE, BANGALORE RURAL,
KARNATAKA – 562114 | 15. | STATE BANK OF INDIA
ROJARPALLICROSS BRANCH (4112)
VENKATESWARA COMPLEX,
HOLUR ROAD
VALGERNAHALLI CROSS,
SRINIVASPUR TALUK,
KOLAR, KARNATAKA – 563126 |
| 6. | STATE BANK OF INDIA
JADIGENAHALLI BRANCH (40193)
PB NO 4, MYSORE BANK ROAD,
JADIGENAHALLI,
KOLAR, KARNATAKA – 562114 | | |
| 7. | STATE BANK OF INDIA
CHOKKAHALLI BRANCH (40733)
NO 233/188/111
CHOKKAHALLI INDUSTRIAL AREA
GATE,
CHINTAMANI ROAD,
HOSAKOTE TALUK
BANGALORE RURAL,
KARNATAKA – 562114 | 16. | STATE BANK OF INDIA
VEMAGAL BRANCH (40851)
CHINTAMANI ROAD
KOLAR TALUK
KOLAR, KARNATAKA – 563157 |
| 8. | STATE BANK OF INDIA
HASKOTE ADB BRANCH (1808)
THAMME GOWDA EXTENSION,
HOSKOTE,
BANGALORE,
KARNATAKA – 562114 | 17. | STATE BANK OF INDIA
DEVANAHALLI AIRCARGO COMPLEX
BRANCH (11353)
M/S. MENZIES AVIATION BOBBA
COMPLEX
BENGALURU INTERNATIONAL
AIRPORT LTD
BANGALORE RURAL,
KARNATAKA - 560300 |
| 9. | STATE BANK OF INDIA
NARSAPURA BRANCH (18309)
KARINAYAKANAHALLI VILLAGE
KASABA HOBLI,
MALUR TALUK
KOLAR, KARNATAKA – 563130 | 18. | STATE BANK OF INDIA
SADAHALLY BRANCH (40483)
SADHALLI POST
DEVANAHALLY TALUK
BANGALORE DIST,
KARNATAKA - 562110 |
| 10. | STATE BANK OF INDIA
HULIBELE BRANCH (40523)
HULIBELE,
BANGARPET TALUK
KOLAR – 563114 | 19. | STATE BANK OF INDIA
BASETTIHALLI BRANCH (40878)
444, S V B ENCLAVE,
DODDABALLAPURA
MAIN ROAD,
BASETTIHALLI,
DODDABALLAPUR
BANGALORE RURAL – 561203 |
| 11. | STATE BANK OF INDIA
BANGARPET BRANCH (11292)
BANGARPET MAIN ROAD
BANGARPET
KOLAR,
KARNATAKA – 563114 | 20. | STATE BANK OF INDIA
B G S NAGAR DEVANAHALLI BRANCH
(41188)
393 BGS COMPLEX,
BEERASANDRA (VILL),
ALURDUDDANAHALLI (POST),
DEVANAHALLI (T
DEVANHALLI : DODBALLAPUR ROAD
BANGALORE RURAL - 562110 |
| 12. | STATE BANK OF INDIA
NITTUR BRANCH (40405)
GUBBI TALUK,
TUMKUR DIST - 572223 | | |

- | | |
|---|--|
| <p>21. STATE BANK OF INDIA
MUDDENAHALLI BRANCH (40776)
SIR M. VISVESVARAYA MUSEUM
COMPLEX
MUDDENAHALLI
CHICKBALLAPUR DIST - 562101</p> <p>22. STATE BANK OF INDIA
ZILLAADALITHABHAVANA BRANCH
CHICKBALLAPUR BRANCH (41043)
SIDLAGHATTA ROAD, ANAKANUR
ZILLA ADALITHA BHAVANA.
CHICKBALLAPUR, KOLAR DIST – 562101</p> <p>23. STATE BANK OF INDIA
APMCYARDCHICKBALLAPUR BRANCH
(40414)
PB NO 4, M G ROAD
CHICKBALLAPUR
KOLAR DIST - 562101</p> <p>24. STATE BANK OF INDIA
R.V.VCOMPLEX CHICKBALLAPUR
BRANCH (40082)
PB NO.2, NO.21/1
BANGALORE:BELLARY ROAD
CHICKABALLAPUR - 562101</p> <p>25. STATE BANK OF INDIA
RAMANAGARAM BRANCH (4998)
MADHU COMPLEX,
B.M. ROAD, AIJOOR
RAMANAGARAM – 571511</p> <p>26. STATE BANK OF INDIA
OLD BUS STAND ROAD
RAMANAGARAM BRANCH (40031)
1501 PB NO 1
SHERIFF COMPLEX,
OLD BUS STAND ROAD
RAMANAGARAM – 562159</p> <p>27. STATE BANK OF INDIA
JANATHA COLONY BIDADI BRANCH
(70803)
MAHADEVAYA BUILDINGS
MYSORE ROAD KANCHANA KUPPE
BIDADI HOBALI BENGALURU – 562109</p> <p>28. STATE BANK OF INDIA
BMROAD BIDADI BRANCH (40676)
NO.342/1, NEXT TO BIDADI POLICE
STATION
BANGALORE : MYSORE ROAD, BIDADI,
RAMANAGARAM TQ;
B'LORE RURAL DT - 562129</p> <p>29. STATE BANK OF INDIA
BIDADI BRANCH (4235)
BANGALORE MYSORE ROAD
BIDADI
BANGALORE RURAL - 562109</p> <p>30. STATE BANK OF INDIA
TUMKUR BRANCH (3717)
VOKKALIGARA,</p> | <p>SANGHA COMPLEX,
1ST FLOOR,M.G. ROAD,
TUMKUR – 572101</p> <p>31. STATE BANK OF INDIA
BANK ROAD TUMKUR BRANCH (40092)
PB NO.5, NO.97:1, BANK ROAD
TUMKUR - 572101</p> <p>32. STATE BANK OF INDIA
DOBASPET BRANCH (40731)
NO.435/452/4, 1ST FLOOR,
UDDANESWARA COMPLEX
NH NO. 4 SERVICE ROAD DOBBSPET
BANGALORE RURAL - 562111</p> <p>33. STATE BANK OF INDIA
MARUTI COMPLEX DABASPET BRANCH
(21507)
I FLOOR,MARUTHI COMPLEX,
MADHUGIRI ROAD
DOBASPET CIRCLE, DOBASPET,
TALUKA NELAMNGALA
BANGALORE URBAN - 562111</p> <p>34. STATE BANK OF INDIA
HIREHALLI BRANCH (40393)
HIREHALLY INDUSTRIAL ESTATE
COMPLEX
HIREHALLY
TUMKUR – 572168</p> <p>35. STATE BANK OF INDIA
BATAWADI BRANCH (7962)
S.L.N.TOWERS, VIDYANAGAR,
B H ROAD
TUMKUR – 572103</p> <p>36. STATE BANK OF INDIA
SIDDAGANGAMUTT BRANCH (41125)
KYATASANDRA
TUMKUR – 572104</p> <p>37. STATE BANK OF INDIA
APMCBATAWADI BRANCH (41104)
#588, APMC ROAD
BATAWADI BYEPASS,
TUMKUR - 572103</p> <p>38. STATE BANK OF INDIA
SIDDAGANGAEXTN TUMKUR BRANCH
(40334)
PB NO 120
B H ROAD
TUMKUR – 572102</p> <p>39. STATE BANK OF INDIA
TUMKUR UNIVERSSSITY BRANCH
(40850)
GOVT. SCIENCE COLLEGE PREMISES
TUMKUR UNIVERSITY CAMPUS
BH ROAD, TUMKUR - 572103</p> <p>40. STATE BANK OF INDIA
SME BRANCH TUMKUR (16486)
4TH CROSS, ASHOK NAGAR
OPP: TUMKUR UNIVERSITY CAMPUS
B H ROAD TUMKUR - 572101</p> |
|---|--|

- | | |
|--|--|
| <p>41. STATE BANK OF INDIA
S.I.T.EXTENSION TUMKUR (7969)
S.I.T.MAIN ROAD
HIMAGIRI MANSION
TUMKUR – 572102</p> <p>42. STATE BANK OF INDIA
S.S.PURAM TUMKUR (41147)
SRIVARRU BUILDING, 1ST A CROSS
NEAR UPPARAHALLI RAILWAY GATE,
TUMKUR – 572102</p> <p>43. STATE BANK OF INDIA
SADASHIVANAGARA TUMKUR(40686)
197/2955, SGR COMPLEX,
DEVE GOWDA LAYOUT,
KUNIGAL ROAD
TUMKUR – 571102</p> <p>44. STATE BANK OF INDIA
RAGHAVENDRANAGAR (40574)
1ST A CROSS,
NEAR KAILASH ASHRAM,
SETTYHALLY MAIN,
TUMKUR - 572102</p> <p>45. STATE BANK OF INDIA
VINAYAKANAGAR EXTN TUMKUR
(40282) PB NO 43, B H ROAD
VINAYAKNAGAR EX TUMKUR
TUMKUR – 572101</p> <p>46. STATE BANK OF INDIA,
ADMINISTRATIVE OFFICE
KALABURGI, KARNATAKA, 585101</p> <p>47. STATE BANK OF INDIA,
REGIONAL BUSINESS OFFICE - I
THIMMAPUR CIRCLE ,
KALBURGI, KARNATAKA - 585 101</p> <p>48. STATE BANK OF INDIA,
REGIONAL BUSINESS OFFICE - II
NEHARUGANJ,
KALBURGI, KARNATAKA 585 101</p> <p>49. STATE BANK OF INDIA
REGIONAL BUSINESS OFFICE - III
FIRST FLOOR,
SUPERMARKET
KALABURAGI – 585101</p> <p>50. STATE BANK OF INDIA
REGIONAL BUSINESS OFFICE
NEAR BUS STAND,
YADGIRI DISTRICT
KARNATAKA</p> <p>51. STATE BANK OF INDIA,
REGIONAL BUSINESS OFFICE,
MANTRALAYA ROAD,
RAICHUR, KARNATAKA - 584 101</p> <p>52. STATE BANK OF INDIA,
BLD ASSOCIATION BRANCH,
VIJAYAPURA, KARNATAKA</p> | <p>53. STATE BANK OF INDIA,
SAINIK SCHOOL BRANCH
SAINIK SCHOOL
BIJAPUR, KARNATAKA</p> <p>54. STATE BANK OF INDIA
AZAD NAGAR
STATION ROAD,
RAICHUR KARNATAKA</p> <p>55. STATE BANK OF INDIA,
MG ROAD BRANCH
MG ROAD ,
RAICHUR, KARNATAKA</p> <p>56. STATE BANK OF INDIA,
KADAGANCHI BRANCH,
KADAGANCHI
DIST KALABURAGI – 585311</p> <p>57. STATE BANK OF INDIA
KALAGI BRANCH,
KALAGI
DIST. KALABURAGI – 585312</p> <p>58. STATE BANK OF INDIA,
MAHAGOAN BRANCH,
MAHAGOAN
KALABURAGI – 585316</p> <p>59. STATE BANK OF INDIA
KOTNOOR BRANCH,
NO. 3/53 JEVARAGI ROAD
KOTONUR
KALABURAGI 585103</p> <p>60. STATE BANK OF INDIA
MALAKHED BRANCH,
MALAKHED,
TALUK SEDAM,
KALABURAGI – 585317</p> <p>61. STATE BANK OF INDIA
KAPANOOR BRANCH,
HUMANABAD ROAD
KALABURAGI -585104</p> <p>62. STATE BANK OF INDIA
MECCA COLONEY BRANCH,
HAGARA CROSS,
RING ROAD
KALABURAGI – 585104</p> <p>63. STATE BANK OF INDIA
GULBARGAHYDERABAD
KARNATAKA
CHAMBER OF COMMERCE BUILDING
BEHIND POLICE STATION
SUPERMARKET GULBARGA</p> <p>64. STATE BANK OF INDIA
JEWARGI COLONY
PLOT NUMBER 72,
SAHAKAR BHAVAN
JEWARGI COLONY
GULBARGA – 585102</p> |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| <p>65. STATE BANK OF INDIA
OM NAGAR
BILGUNDI GARDEN
SEDAM ROAD
GULBARGA – 585105</p> <p>66. STATE BANK OF INDIA
CHINCHOLI ADB,
MAIN ROAD,
POST OFFICE CHANDRAPUR
GULBARGA – 585307</p> <p>67. STATE BANK OF INDIA
BHANKUR INDUSTRIAL ESTATE,
GULABURGASHAHABAD ROAD
ANKUR TALUK CHITTAPUR
GULBARGA – 585229</p> <p>68. STATE BANK OF INDIA
STATION BAZAR GULBARGA
OPPOSITE GOVERNMENT PRINTING
PRESS
MSK MILL ROAD GULBARGA
GULBARGA – 585102</p> <p>69. STATE BANK OF INDIA
JEWARGI BASAVESHWARA CHOWK
BIJAPUR ROAD JEWARGI
GULBARGA – 585310</p> <p>70. STATE BANK OF INDIA
SEDAM
SAIRAM KABRA COMPLEX
MAIN ROAD
SEDAM - 585 222</p> <p>71. STATE BANK OF INDIA
HIGH COURT CIRCUIT BRANCH
GULBARGA BIDDAPUR COLONY
HIGH COURT RING ROAD
GULBARGA – 585103</p> <p>72. STATE BANK OF INDIA
RING ROAD GULBARGA
LOT NUMBER 08 KADHAL COMPLEX
NEAR RAM MANDIR RING ROAD
GULBARGA – 585102</p> <p>73. STATE BANK OF INDIA
ALAND ROAD
PLOT NUMBER 09 586 LIG 1 KHB
VIJAYANAGAR COLONY ALAND
GULBARGA – 585101</p> <p>74. STATE BANK OF INDIA
SME BRANCH, GULBARGA
NUMBER 8 1305 BAR 66,
BARBIE UNITY COMPLEX,
NEAR OFFICE OF THE KIADB KAPNOOR
INDUSTRIAL AREA
HUMNABAD ROAD
GULBARGA</p> <p>75. STATE BANK OF INDIA
SUPER MARKET GULBARGA
SUPER MARKET GULBARGA – 585101</p> | <p>76. STATE BANK OF INDIA
HUMNABAD ROAD,
NEHRU GUNJ GULBARGA
7 / 663111 AND 7 / 66311
BANDUKWALA BUILDING
FIRST FLOOR
HUMNABAD ROAD NEAR GUNJ
GULBARGA</p> <p>77. STATE BANK OF INDIA
SHAHABAD GULBARGA
BESIDE BUS STAND
STATION ROAD SHAHABAD
GULBARGA – 585228</p> <p>78. STATE BANK OF INDIA
CHINCHOLI
C/11 BY 160 KOTA KI BUILDING
MAIN ROAD
BIDAR CROSS CHINCHOLI
GULBARGA – 585307</p> <p>79. STATE BANK OF INDIA
NEW PWD QUARTERS JEWARGI
NEW PWD QUARTERS
BESIDE BSNL OFFICE JEWARGI
GULBARGA – 585310</p> <p>80. STATE BANK OF INDIA
MAIN ROAD SEDAM
3-9 DASH 8 2 FIND 3-8-17 BAR ONE
NEAR COURT MAIN ROAD SEDAM
GULBARGA - 585222</p> <p>81. STATE BANK OF INDIA
TIMMAPURI CIRCLE GULBARGA
MARATHI SAHITYA MANDIR MANDAL
COURT ROAD TIMMAPURI CIRCLE
GULBARGA – 585102</p> <p>82. STATE BANK OF INDIA
UNIVERSITY BRANCH GULBARGA
GULBARGA UNIVERSITY CAMPUS
SEDAM ROAD
GULBARGA – 585105</p> <p>83. STATE BANK OF INDIA
VIDYANAGAR GULBARGA
KSRTC COMPOUND JEWARGI CROSS
MSK MILL ROAD
GULBARGA – 585102</p> <p>84. STATE BANK OF INDIA
DARGAH GULBARGA
HOUSE NUMBER 5-1 DASH 6651
NEAR DARGAH HAZRAT KHWAJA
BANDA NAWAZ BAZAAR ROJA
GULBARGA 585104</p> <p>85. STATE BANK OF INDIA
OLD HOSPITAL AREA
GULBARGA 5-6 KNC BRANCH
KHAJA NAGAR NAGARI COMPLEX
KBN HOSPITAL
STATION ROAD GULBARGA
GULBARGA – 585101</p> |
|--|--|

- | | |
|--|---|
| <p>86. STATE BANK OF INDIA
SB TEMPLE ROAD GULBARGA
SB TEMPLE CAMPUS
LALGIRI CROSS
SB TEMPLE ROAD
GULBARGA – 585103</p> <p>87. STATE BANK OF INDIA
HUSSAIN GARDEN GULBARGA
BESIDE MIRCHI GODOWN
MSK MILL ROAD
HUSSAINI GARDEN JEELANABAD
GULBARGA 585103</p> <p>88. STATE BANK OF INDIA
JAYANAGAR CROSS SEDAM ROAD
HOUSE NUMBER 2-9 1066 C2
FIRST FLOOR
TECHNO COMPLEX
JAYANAGAR CROSS
SEDAM ROAD
KALBURGI – 585101</p> <p>89. STATE BANK OF INDIA
HUMNABAD ROAD
PLOT NUMBER 57
BAR ONE SURVEY NUMBER 128
REVANSIDDESHWAR COLONY
NEAR TV STATION
HUMNABAD ROAD
KALBURGI – 585104</p> <p>90. STATE BANK OF INDIA
JAGAT CIRCLE GULBARGA
HOUSE NUMBER 4 601 BA 126 Y TU
FIRST FLOOR
MOHAMMADI COMPLEX
NEAR STBT DARGA ROAD
GULBARGA – 585101</p> <p>91. STATE BANK OF INDIA
SPC ROAD GULBARGA
PB NUMBER 32 PLOT NUMBER 67
SUPER MARKET COMPLEX
SPC ROAD
GULBARGA - 585102</p> <p>92. STATE BANK OF INDIA
RAM MANDIR ROAD GULBARGA
FIRST FLOOR
DARSHAN APARTMENT
PNT COLONY,
OLD JEWARGI ROAD
GULBARGA</p> <p>93. STATE BANK OF INDIA
STATION ROAD SEDAM
PLOT NUMBER 11
SURVEY NUMBER 917/1/3
OPPOSITE YOUTH CLUB
RAILWAY STATION ROAD
SEDAM</p> <p>94. STATE BANK OF INDIA
ESI HOSPITAL SEDAM ROAD
PLOT NUMBER 37 & 46
OPPOSITE ESI HOSPITAL</p> | <p>SEDAM ROAD
GULBARGA - 585106</p> <p>95. STATE BANK OF INDIA
MUDDEBIHAL BRANCH
STATE BANK ROAD MUDDEBIHAL
BIJAPUR – 586212</p> <p>96. STATE BANK OF INDIA
BASAVAN BAGEWADI BRANCH
BIJAPUR ROAD
BIJAPUR -586203</p> <p>97. STATE BANK OF INDIA
SINDGI BRANCH
POST BAG NO.1,
JEWARGI ROAD, SINDGI
BIJAPUR- 586128</p> <p>98. STATE BANK OF INDIA
INDI BRANCH
BIJAPUR ROAD,
INDI, BIJAPUR – 586209</p> <p>99. STATE BANK OF INDIA
KOLHAR BRANCH
MAIN ROAD, KOLHAR
BASAVAN BAGEWADI TALUK
BIJAPUR – 586210</p> <p>100. STATE BANK OF INDIA
NIDGUNDI BRANCH
NEAR OLD STAND,
BASAVAN BAGEWADI TALUK
BIJAPUR – 586213</p> <p>101. STATE BANK OF INDIA
BIJAPUR TREASURY BRANCH
POST BOX NO 27,
BIJAPUR D C OFFICE COMPOUND
BIJAPUR – 586101</p> <p>102. STATE BANK OF INDIA
ALAND BRANCH
CHILLAL COMPLEX
SRIRAM MARKETALAND
GULBARGA – 585302</p> <p>103. STATE BANK OF INDIA
AFZALPUR BRANCH
SRI SHIVAPUTRAPPA SANGOLI BLDG
NEAR BUS STAND AFJALPUR
GULBARGA - 585301</p> <p>104. STATE BANK OF INDIA
CHADACHAN BRANCH
56A/1A2, SRI AWAJI BLDG.
PANDHARPUR ROAD CHADACHAN,
INDI – 586205</p> <p>105. STATE BANK OF INDIA
ADARSH NAGAR
BIJAPUR BRANCH
NO MIG-40, ASHRAM ROAD
ADARSHA NAGAR
BIJAPUR – 586101</p> |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| <p>106. STATE BANK OF INDIA
DEVRHIPPARGI BRANCH
863, MALHARI COMPLEX,
GULBARGA ROAD
NEAR BUS STAND
DEVARHIPPARGITQ SINDAGI
BIJAPUR – 586115</p> <p>107. STATE BANK OF INDIA
JALANAGAR BRANCH
SBI BIJAPUR MAIN BR BLDG
STATION ROAD ,
BIJAPUR – 586101</p> <p>108. STATE BANK OF INDIA
CHALUKYANAGAR
BIJAPUR BRANCH
PUJARI COMPLEX,
LINGAD ROAD
BIJAPUR – 586103</p> <p>109. STATE BANK OF INDIA
MAIN ROAD, ALAND BRANCH
THASIL PREMISES
NEAR THASIL OFFICE,
MAIN ROAD ALLAND
GULBARGA – 585302</p> <p>110. STATE BANK OF INDIA
S S FRONT ROAD
BIJAPUR BRANCH
PB NO 26, , S S FRONT ROAD
BIJAPUR – 586101</p> <p>111. STATE BANK OF INDIA
TALIKOTI BRANCH
PB NO 21, CTS NO 1/48 M G ROAD,
MARKET YARD, TALIKOTE,
BIJAPUR – 586214</p> <p>112. STATE BANK OF INDIA
TEMPLE ROAD,
BASAVANA BAGEWADI BRANCH
GROUND FLOOR, CTS NO:1760
OPP BASAVESHWAR TEMPLE
BASAVANA BAGEWADI – 586203</p> <p>113. STATE BANK OF INDIA
GABBUR BRANCH,
PLOT NO.18/1&2,
BLOCKNO.9.
ADITY NAGAR MAIN ROAD,
GABBUR, DEVADURGA,
RAICHUR</p> <p>114. STATE BANK OF INDIA
KALMALA BRANCH
LINGSUR ROAD,
OPP.KARAYAPPA TATA TEMPLE
KALMALA DEVADURGA TALUK
RAICHUR - 584136</p> <p>115. STATE BANK OF INDIA
DEVADURGA BRANCH
NEAR ZAHEERUDDIN
PASHA CIRLE DEVADURGA,
RAICHUR – 584111</p> | <p>116. STATE BANK OF INDIA
JEWARGI BRANCH
NEW PWD QURTERS
JEWARGI
GULBURGA – 585310</p> <p>117. STATE BANK OF INDIA
MUDHOL BRANCH
AURAD TALUK,
BIDAR DISTRICT</p> <p>118. STATE BANK OF INDIA
LAKHANGAON BRANCH ,
BHALKI TALUK , BIDAR</p> <p>119. STATE BANK OF INDIA
LADWANTI BRANCH
BASAVAKLYANA,
BIDAR</p> <p>120. STATE BANK OF INDIA
SHINDHANUR BRANCH
DR TIMMANNAGOUDAR COMPLEX
KUSTAGI ROAD
SHINDHANUR</p> <p>121. STATE BANK OF INDIA
UAS COMPLEX BRANCH,
LINGASGUR
RAICHUR</p> <p>122. STATE BANK OF INDIA
SHIRWAR BRANCH
SHIVAGANGAMMA BUILDING
LINGASGUR ROAD
MANAVI</p> <p>123. STATE BANK OF INDIA
ADMIN OFFICE 5 MANGALORE
MANJUSHA BUILDING
BEJAI CHURCH ROAD,
MANGALORE - 575004</p> <p>124. STATE BANK OF INDIA
RBO 1 MANGALORE
ESSEL TOWERS, 3 RD FLOOR
BUNT'S HOSTEL ROAD
MANGALORE -575003</p> <p>125. STATE BANK OF INDIA
RBO 2 MANGALORE
MANJUSHA BUILDING
BEJAI CHURCH ROAD,
MANGALORE - 575004</p> <p>126. STATE BANK OF INDIA
RBO 3 UDUPI
BANNANJE , SHIRIBEEDU
SEETHALAXMI COMPLEX
UDUPI - 576101</p> <p>127. STATE BANK OF INDIA
RBO 4 HASSAN
949, 1A, SAMPIGE ROAD
HASSAN - 573 201</p> <p>128. STATE BANK OF INDIA
RBO 5 CHICKMAGALUR</p> |
|--|--|

	C/O SBI HOSAMANE EXTENTION BRANCH, HOSAMANE EXTENSION CHIKKAMAGALUR -577101	139.	STATE BANK OF INDIA BRAHMAVARA BRANCH CITY CENTER, 1ST FLOOR NH 66 BRAHMAVARA -576213
129.	STATE BANK OF INDIA SME BRANCH KATYAYANI MAHAMAYA COMPLEX NEAR PVS KALAKUNJ, KODIALBAIL MANGALORE-575003	140.	STATE BANK OF INDIA DC COMPOUND MANIPAL BRANCH GROUND FLOOR SHAMBHAVI SOVEREIGN PERAMPALLI ROAD MANIPAL - 576104
130.	STATE BANK OF INDIA SANTHEKATTE (UDUPI) BRANCH POST BOX NO.1, VIA:KALLIANPURA SANTHEKATTE (UDUPI)	141.	STATE BANK OF INDIA DURGAKRUPACOMPLEX BRANCH DURGA KRIPA COMPLEX MAIN ROAD SIDDAPURA (KUNDAPURA) - 576229
131.	STATE BANK OF INDIA UDUPI CITY BRANCH SHYAMALA COMPLEX SHRI KRISHNA MUTT ROAD BADAGUPET UDUPI - 576101	142.	STATE BANK OF INDIA ESHWARA NAGAR BRANCH VAISHNAVI RESIDENCY", FIRST FLOOR, MANIPAL-PARKALA ROAD, MANIPAL - 576104
132.	STATE BANK OF INDIA MALPE BRANCH SHIVAYYA COMPLEX MAIN ROAD, MALPE - 576118	143.	STATE BANK OF INDIA HARIHAR STREET SRINGERI BRANCH PB NO 1 HARIHAR STREET SRINGERI - 577139 CHICKMAGALUR DIST
133.	STATE BANK OF INDIA KUNDAPURA BRANCH SIRI BUILDING KUNDESHWARA TEMPLE ROAD KUNDAPURA -576201	144.	STATE BANK OF INDIA HEBRI BRANCH SAKKU MANSION MAIN ROAD, HEBRI - 576112 DISTRICT UDUPI
134.	STATE BANK OF INDIA AMBAGILU BRANCH DOOR NO.10-28H "KAYYA'S ARCADE, 1ST FLOOR, KALSANKA ROAD, AMBAGILU	145.	STATE BANK OF INDIA JAYAPURA BRANCH VENKATNAG COMPLEX, MAIN ROAD, JAYAPURA - 577123 CHICKMAGALUR DISTRICT
135.	STATE BANK OF INDIA NETHAJI CROSS RD UDUPI BRANCH PB 76, REHMAN COMMERCIAL COMPLEX, NETHAJI CROSS ROAD UDUPI	146.	STATE BANK OF INDIA KOTESHWARA BRANCH LAXMI DEVI COMPLEX, OPP: SHRI PATTABHI RAMCHANDRA TEMPLE, MARUTHI VANA ROAD, KOTESHWARA - 576222
136.	STATE BANK OF INDIA KUNCHEBYLU BRANCH SRINGERI TALUK CHICKMAGALUR – 577139	147.	STATE BANK OF INDIA KUNJIBETTU BRANCH SRI LAXMI GANESH COMPOUND KUNJIBETTU UDUPI – 576102
137.	STATE BANK OF INDIA BAILUR BRANCH DOOR NO. 2/68, NEAR DR.AROOR CLINIC & NURSING HOME, BAILUR - 574102	148.	STATE BANK OF INDIA MANIPAL BRANCH MADHUVAN SERAI, GROUND FLOOR NEAR SMRITHI BHAVAN TIGER CIRCLE, MANIPAL
138.	STATE BANK OF INDIA BALEHONNUR BRANCH VSSSN BLDG, NEAR JAYCEE CIRCLE BALEHONNUR -577112		

- | | |
|--|---|
| <p>149. STATE BANK OF INDIA
NH 17 ROAD BRANCH
SAMEER COMMERCIAL
COMPLEX N H 17
BRAHMAVARA – 576213</p> <p>150. STATE BANK OF INDIA
PARKALA BRANCH
BHOODARA TOWER
MAIN ROAD
PARKALA - 576107</p> <p>151. STATE BANK OF INDIA
KOPPA BRANCH
MAIN ROAD
NEAR BUS STAND
KOPPA - 577126</p> <p>152. STATE BANK OF INDIA
KARKALA BRANCH
270 WARD NO. 2 GROUND FLOOR
HOTEL PRAKASH BUILDING,
ANANTHASHAYANA
KARKALA - 574104</p> <p>153. STATE BANK OF INDIA
BELAVINAKODIGE BRANCH
UTTAMESHWARA VILLAGE
UTTAMESHWARA POST
KOPPA TALUK - 577126</p> <p>154. STATE BANK OF INDIA
KAUP BRANCH
ASHIYANA
GROUND FLOOR, NH 66
KAUP, UDUPI DIST -576106</p> <p>155. STATE BANK OF INDIA
TREASURY BRANCH BRANCH
LIC COMPOUND,
AJJARKAD, UDUPI-576101</p> <p>156. STATE BANK OF INDIA
PADUBIDRI BRANCH
PB NO1 SRI MAHALAKSHMI
COMPLEX,PADUBIDRI-574111</p> <p>157. STATE BANK OF INDIA
NILUVAGILU BRANCH
NILUVAGILU, KOPPA TALUK
CHICKMAGALUR - 577120</p> <p>158. STATE BANK OF INDIA
SALIGRAMA BRANCH
SRI MAHALAKSHMI DAMODAR
COMPLEX
MAIN ROAD, SALIGRAMA - 576225</p> <p>159. STATE BANK OF INDIA
SALMAR KARKALA BRANCH
NO 120/1 MAIN ROAD
SALMAR
KARKALA - 574104</p> <p>160. STATE BANK OF INDIA
SBI INTOUCH BRANCH
#8-1-138 E4 FIRST FLOOR,</p> | <p>SHREE MAA
ENCLAVE,
UDUPI MANIPAL ROAD
KUNJIBETTU POST, UDUPI.</p> <p>161. STATE BANK OF INDIA
THEKKATTE BRANCH
KAUSTUBHA NEAR BUS STAND
THEKKATTE
UDUPI DISTT - 576231</p> <p>162. STATE BANK OF INDIA
UDYAVARA BRANCH
RAJ SADAN, UDYAVARA - 574118</p> <p>163. STATE BANK OF INDIA
YEDTHERE BYNDOOR BRANCH
NH 66
CAUVERY COMPLEX
BYNDOOR – 576214</p> <p>164. STATE BANK OF INDIA
SUBHASH RD KOPPA BRANCH
PB NO. 8 SUBHAS RD
NEAR BUS STAND
KOPPA – 577126</p> <p>165. STATE BANK OF INDIA
HIGH SCHOOL ROAD HAVERI
PBNO.3,PUTHALAKAR BUILDING
HIGH SCHOOL ROAD
HAVERI - 581110</p> <p>166. STATE BANK OF INDIA
RANEBENNUR ADB
A.D.B ROAD, RANNEBENNUR
581115
DIST:HAVERI</p> <p>167. STATE BANK OF INDIA
RANEBENNUR
BELLARY BUILDING,
STATION ROAD
RANEBENNUR - 581115
DIST:HAVERI</p> <p>168. STATE BANK OF INDIA
PBROAD RANEBENNUR
NEAR INSPECTION BUNGLOW
P B ROAD
RANEBENNUR - 581115
DIST:HAVERI</p> <p>169. STATE BANK OF INDIA
PB ROAD HARIHAR
PB NO 8
H 584 SRI SOMAKURPA
POONA BANGALORE ROAD
HARIHAR - 577601</p> <p>170. STATE BANK OF INDIA
DODDABATHI
D NO. 44/C PUNE - BANGALORE ROAD
DODDABATHI - 577566</p> |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| <p>171. STATE BANK OF INDIA
BHEEMASAMUDRA
BESIDES VEERABHADRESHWARA
TEMPLE
B' DURGA MAIN ROAD,
BHEEMASAMUDRA VILLAG
CHITRADURGA - 577520</p> <p>172. STATE BANK OF INDIA
JCREXTN CHITRADURGA
NO 120 I FLOOR
JCR EXTENSION
CHITRADURGA - 577501</p> <p>173. STATE BANK OF INDIA
VIDYANAGAR CHITRADURGA
SITE NO. 43, 2ND CROSS,
MITRA LAY OUT
MEDEHALLI ROAD,
VIDYANAGAR LAYOUT
CHITRADURGA - 577502</p> <p>174. STATE BANK OF INDIA
CHITRADURGA
DCRM COMPLEX
R M C ROAD
CHITRADURGA - 577501</p> <p>175. STATE BANK OF INDIA
BDROADCHITRADURGA
PB NO.7, NO.2726
BANGALORE - DHARWAD ROAD
CHITRADURGA - 577501</p> <p>176. STATE BANK OF INDIA
V P EXTENSION CHITRADURGA
GROUND FLOOR
R P PARADISE BUILDING
V P EXTENSION MAIN ROAD
CHITRADURGA - 577501</p> <p>177. STATE BANK OF INDIA
PRASHANTNAGAR CHITRADURGA
APPAJI PARISAR,
SITE NO. 1278, 5TH BLOC
STADIUM ROAD,
CHITRADURGA - 577501</p> <p>178. STATE BANK OF INDIA
ADMIN OFFICE 6 DAVANGERE NW 3
2ND FLOOR NO.44,
BSC AVENUE,
AKKAMAHADEVI ROAD
PJ EXTENSION ,
DAVANGERE - 577002</p> <p>179. STATE BANK OF INDIA
RBO 1 DAVANGERE AO 6
DAVANGERE
6/119, MANDIPET
DAVANGERE - 577001</p> <p>180. STATE BANK OF INDIA
MANDIPET
P B NO 6
6-119 MANDIPET,
DAVANAGERE - 577001</p> | <p>181. STATE BANK OF INDIA
DAVANGERE
NO. 44 BSC AVENUE, PJ EXTENSION
AKKAMAHADEVI ROAD
DAVANGERE - 577002</p> <p>182. STATE BANK OF INDIA
ADMINISTRATIVE OFFICE-4,
MYSURU (40425)
SAHUKAR CHANNAIAH ROAD,
KUVEMPUNAGAR
MYSURU: 570009</p> <p>183. STATE BANK OF INDIA
REGIONAL BUSINESS OFFICE : I, (13184)
NO.76, HONNASIRI TOWERS,
SAHUKAR CHANNAIAH ROAD,
SARASWATIPURAM
MYSURU: 570009</p> <p>184. STATE BANK OF INDIA
REGIONAL BUSINESS OFFICE : II, (40592)
SAHUKAR CHANNAIAH ROAD,
KUVEMPUNAGAR
MYSURU: 570009</p> <p>185. STATE BANK OF INDIA
JAYALAKSHMIPURAM
3rd BLOCK BRANCH (40384)
NO. 46, 3rd BLOCK,
JAYALAKSHMIPURAM,
MYSURU
MYSURU:570012</p> <p>186. STATE BANK OF INDIA
SBI INTOUCH BRANCH (19119)
NO. 2927, OPP. CUBS
GOKULAM MAIN ROAD,
V. V. MOHALLA, MYSURU
MYSURU: 570002</p> <p>187. STATE BANK OF INDIA,
BIDADI BRANCH (4235), AO-3
#69, CRS COMPLEX
TQ: RAMANAGARAM ,
BIDADI - 562 109</p> <p>188. STATE BANK OF INDIA,
MALUR BRANCH (13747), AO-3
SAI COMPLEX B M ROAD,,
DODDA MALLUR, CHANNAPATNA
BANGALORE RURAL- 571501</p> <p>189. STATE BANK OF INDIA,
YALAHANKA
NEW TOWN BRANCH (51194), AO-2
NO.1, 1ST A MAIN ROAD
YELAHANKA NEW TOWN,
BANGALORE 560 064</p> <p>190. STATE BANK OF INDIA,
VIJAYAPURA BRANCH (11286), AO -2
EDUCATIONAL TRUST SCHOOL
BUILDING,
CHANNARAYAPATNA ROAD,
VIJAYPURA- 562 135.</p> |
|--|--|

- | | |
|---|---|
| <p>191. STATE BANK OF INDIA,
COFFEE BOARD LAYOUT BRANCH
(13281).AO-2,
AKSHAYA APOORVA' APPARTMENTS,
GROUND FLOOR,
G1 & G2, HEBBAL, KEMPAPURA,
BANGALORE 560 024.</p> <p>192. STATE BANK OF INDIA,
CHOLA NAGAR BRANCH(11820),AO-2
NO 69, PNT PLAZA, R T NAGAR POST,
CHOLA NAGAR, BANGALORE 560 032</p> <p>193. STATE BANK OF INDIA,
INDIRA MAHILA
BRANCH (17041), AO-2,
#221, 13TH CROSS,
INDIRANAGAR 2ND STAGE,
BANGALORE- 560 038</p> <p>194. STATE BANK OF INDIA,
MUNNEKOLALU BRANCH (16296). AO-2,
NEAR VAGDEVI VILAS PU COLLEGE
MUNNEKOLALU MARTHAHALLI POST
BANGALORE-560037</p> | <p>195. STATE BANK OF INDIA,
HSR LAYOUT BRANCH (40663),AO-2,
NO. 30, 14TH CROSS,
9TH MAIN, 6TH SECTOR
H.S.R.LAYOUT,
BANGALORE- 560 102</p> <p>196. STATE BANK OF INDIA,
ANEKAL BRANCH (16765), AO-2,
10A/8A, PATEL COMPLEX TALUKA
OFFICE ROAD
ANEKAL-562106</p> <p>197. STATE BANK OF INDIA,
RAJAJI NAGAR
2ND BLOCK BRANCH(16873), AO-1,
NO 2040, 1 RAJAJINAGAR
2ND BLOCK
BANGALORE-560010</p> <p>198. STATE BANK OF INDIA,
KURUBARAHALLI
BRANCH (17346), AO-1,
34, KARNATAKA LAYOUT ,
KURUBARAHALLI MAIN ROAD,
BANGALORE-560086</p> |
|---|---|

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2019

का.आ. 527.—केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (1987 में यथा संशोधित) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में **भारतीय स्टेट बैंक** के सूचीबद्ध कार्यालयों/शाखाओं को अधिसूचित करती है, जिनके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है : -

क्र.सं.	बैंक का नाम	कार्यालयों/शाखाओं की संख्या
1.	भारतीय स्टेट बैंक	351
	कुल	351

[फा. सं. 11016/2/2017-हिं.(अधि.)]

शैलेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने वाले कार्यालयों/शाखाओं की सूची

- | | |
|--|---|
| <p>1. भारतीय स्टेट बैंक
शास्त्री नगर शाखा
पी एंड टी चौराहा भोपाल
मध्य प्रदेश -462003</p> <p>2. भारतीय स्टेट बैंक
सलैया शाखा
सलैया, भोपाल
मध्य प्रदेश - 462003</p> <p>3. भारतीय स्टेट बैंक
एस बी आई इन्टच शाखा
टीटी नगर, भोपाल
मध्य प्रदेश - 462003</p> | <p>4. भारतीय स्टेट बैंक
ऋषि नगर शाखा
बिटुन मार्केट, भोपाल
मध्य प्रदेश - 462003</p> <p>5. भारतीय स्टेट बैंक
रंगमहल चौराहा शाखा
टी टी नगर, भोपाल
मध्य प्रदेश - 462003</p> <p>6. भारतीय स्टेट बैंक
कॉमर्शियल स्ट्रीट शाखा
भोपाल
मध्य प्रदेश - 462004</p> |
|--|---|

- | | |
|---|---|
| 7. भारतीय स्टेट बैंक
चूनाभट्टी शाखा
कोलार रोड, भोपाल
मध्य प्रदेश – 462042 | 16. भारतीय स्टेट बैंक
इंदौर रोड खंडवा शाखा
बुरहानपुर, खंडवा
मध्य प्रदेश – 450001 |
| 8. भारतीय स्टेट बैंक
अयोध्या नगर शाखा
निजामुद्दीन रोड, भोपाल
मध्य प्रदेश – 462022 | 17. भारतीय स्टेट बैंक
पिपरिया रोड सोहागपुर शाखा
सोहागपुर
मध्य प्रदेश – 461771 |
| 9. भारतीय स्टेट बैंक
होलसेल मार्केट शाखा
देवकी नगर, भोपाल
मध्य प्रदेश – 462038 | 18. भारतीय स्टेट बैंक
इंग्लिश विला शाखा,
बैरागढ़ चिचली कोलार रोड
भोपाल
मध्य प्रदेश – 462042 |
| 10. भारतीय स्टेट बैंक
दुनावा शाखा
मुल्तई, बैतूल
मध्य प्रदेश – 460663 | 19. भारतीय स्टेट बैंक
एसबीआई इनटच शाखा
एम पी नगर ज़ोन 1,
भोपाल
मध्य प्रदेश – 462011 |
| 11. भारतीय स्टेट बैंक
बंगरसिया शाखा
चिकलौद रोड, भोपाल
मध्य प्रदेश – 462026 | 20. भारतीय स्टेट बैंक
जाटखेडी शाखा,
58, ज्योति नगर, भोपाल
मध्य प्रदेश – 462026 |
| 12. भारतीय स्टेट बैंक
खुदरा आस्ति केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र - 2
मिसरोद रोड, भोपाल
मध्य प्रदेश – 462026 | 21. भारतीय स्टेट बैंक
हँडिया शाखा, हँडिया, हरदा
मध्य प्रदेश – 461331 |
| 13. भारतीय स्टेट बैंक
एसएमई मंडीदीप शाखा
गोहर गंज, रायसेन
मध्य प्रदेश – 462046 | 22. भारतीय स्टेट बैंक
वैगन कोच फैक्ट्री शाखा,
कृष्णानगर, भोपाल
मध्य प्रदेश – 462010 |
| 14. भारतीय स्टेट बैंक
वीआईपी रोड छिंदवाडा शाखा
मधुवन कॉलोनी,
छिंदवाडा
मध्य प्रदेश – 480001 | 23. भारतीय स्टेट बैंक
पीबीबी लालघाटी शाखा,
लालघाटी, भोपाल
मध्य प्रदेश – 462030 |
| 15. भारतीय स्टेट बैंक
वैयक्तिक बैंकिंग शाखा
खंडवा, खरगोन
मध्य प्रदेश – 450001 | 24. भारतीय स्टेट बैंक
11 मील क्रॉस स्ट्रीट शाखा
11 मील, भोपाल
मध्य प्रदेश – 462001 |

- | | |
|--|---|
| <p>25. भारतीय स्टेट बैंक
द्वारका धाम शाखा
संजय नगर, करौंद,
भोपाल
मध्य प्रदेश - 462038</p> | <p>34. भारतीय स्टेट बैंक
रेडीमेड कॉम्प्लेक्स शाखा
मंगल नगर, इंदौर
मध्य प्रदेश - 452011</p> |
| <p>26. भारतीय स्टेट बैंक
कटारा शाखा,
कटारा हिल्स, भोपाल
मध्य प्रदेश - 462043</p> | <p>35. भारतीय स्टेट बैंक
तिलक नगर शाखा
विवेकानंद कॉलोनी,
इंदौर
मध्य प्रदेश - 452018</p> |
| <p>27. भारतीय स्टेट बैंक
बुधनी शाखा, बुधनी, सीहोर
मध्य प्रदेश - 466445</p> | <p>36. भारतीय स्टेट बैंक
बिचौली मर्दाना शाखा
दिलपसंद बिल्डिंग, इंदौर
मध्य प्रदेश - 452010</p> |
| <p>28. भारतीय स्टेट बैंक
तिलवाड़ा रोड शाखा,
नालंदा विहार, जबलपुर
मध्य प्रदेश - 482003</p> | <p>37. भारतीय स्टेट बैंक
आर्मी वार कॉलेज शाखा
महू, इंदौर
मध्य प्रदेश - 453441</p> |
| <p>29. भारतीय स्टेट बैंक
पन्ना रोड सतना शाखा
ट्रांसपोर्ट नगर, सतना
मध्य प्रदेश - 485001</p> | <p>38. भारतीय स्टेट बैंक
कनाडिया शाखा
कनाडिया रोड, इंदौर
मध्य प्रदेश - 452016</p> |
| <p>30. भारतीय स्टेट बैंक
खुदरा आस्ति लघु एवं
मध्यम उद्यम केंद्र
अशोक विहार कॉलोनी,
तिली रोड, सागर
मध्य प्रदेश - 470001</p> | <p>39. भारतीय स्टेट बैंक
गांधी नगर शाखा
गांधी नगर, इंदौर
मध्य प्रदेश - 452010</p> |
| <p>31. भारतीय स्टेट बैंक
खजराना शाखा
चन्द्रलोक कॉलोनी, इंदौर
मध्य प्रदेश - 452018</p> | <p>40. भारतीय स्टेट बैंक
केशर बाग रोड शाखा
नेमा नगर, इंदौर
मध्य प्रदेश - 452009</p> |
| <p>32. भारतीय स्टेट बैंक
पालदा शाखा
पालदा नेमवार रोड इंदौर
मध्य प्रदेश - 452020</p> | <p>41. भारतीय स्टेट बैंक
टी सी एस शाखा
छोटा बांगरदा
इंदौर
मध्य प्रदेश - 452005</p> |
| <p>33. भारतीय स्टेट बैंक
मुसाखेड़ी शाखा
रिंग रोड, इंदौर
मध्य प्रदेश - 452001</p> | <p>42. भारतीय स्टेट बैंक
हातोद शाखा, हातोद, इंदौर
मध्य प्रदेश - 453111</p> |

- | | |
|--|--|
| 43. भारतीय स्टेट बैंक
फूटी कोठी शाखा
सुदामा नगर, इंदौर
मध्य प्रदेश – 452009 | 52. भारतीय स्टेट बैंक
संतोषी नगर शाखा
संतोषी नगर, रायपुर
छत्तीसगढ़ - 492007 |
| 44. भारतीय स्टेट बैंक
कालापीपल शाखा
शुजालपुर रोड
मध्य प्रदेश – 465337 | 53. भारतीय स्टेट बैंक
खुरशीपार शाखा,
भिलाई, दुर्ग
छत्तीसगढ़ - 490 001 |
| 45. भारतीय स्टेट बैंक
उन्हेल शाखा
उन्हेल, उज्जैन
मध्य प्रदेश – 456221 | 54. भारतीय स्टेट बैंक
कचना शाखा,
ग्रीन ग्लोरी परिसर, कचना
रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492007 |
| 46. भारतीय स्टेट बैंक
नागझिरी शाखा
देवास रोड, उज्जैन
मध्य प्रदेश – 456010 | 55. भारतीय स्टेट बैंक
सदर बाजार शाखा
रायपुर
छत्तीसगढ़ - 492001 |
| 47. भारतीय स्टेट बैंक
बडोद शाखा
बडोद, आगर
मध्य प्रदेश – 465550 | 56. भारतीय स्टेट बैंक
जांगला शाखा
भैरमगढ़, बस्तर
छत्तीसगढ़ - 494450 |
| 48. भारतीय स्टेट बैंक
जीरन शाखा
जीरन, नीमच
मध्य प्रदेश - 458336 | 57. भारतीय स्टेट बैंक
मुटनपाल शाखा
बस्तानार, बस्तर
छत्तीसगढ़ - 490010 |
| 49. भारतीय स्टेट बैंक
खुदरा आस्ति केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र -2
बसंत विहार, इंदौर
मध्य प्रदेश - 452010 | 58. भारतीय स्टेट बैंक
बोरजे शाखा
धनोरा, बीजापुर
छत्तीसगढ़ - 494444 |
| 50. भारतीय स्टेट बैंक
खुदरा आस्ति लघु एवं
मध्यम उद्यम केंद्र
मित्र निवास रोड, रतलाम
मध्य प्रदेश – 457001 | 59. भारतीय स्टेट बैंक
पोन्डुम शाखा
दंतेवाड़ा
छत्तीसगढ़ – 494111 |
| 51. भारतीय स्टेट बैंक
पुलगांव चौक शाखा
पुलगांव चौक बालौद रोड,
दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 491001 | 60. भारतीय स्टेट बैंक
विशेषीकृत मुद्रा प्रबंधन शाखा
बैरन बाजार, रायपुर
छत्तीसगढ़ – 492001 |

- | | |
|---|---|
| <p>61. भारतीय स्टेट बैंक
ब्रांसागुडा शाखा,
उसूर, बीजापुर
छत्तीसगढ़ – 494447</p> <p>62. भारतीय स्टेट बैंक
राजिम शाखा, गरियाबंद
छत्तीसगढ़ – 493885</p> <p>63. भारतीय स्टेट बैंक
हटकारा शाखा
भानुप्रतापपुर कांकेर
छत्तीसगढ़ – 494870</p> <p>64. भारतीय स्टेट बैंक
प्रलेख अभिलेखागार केंद्र
उरला, रायपुर
छत्तीसगढ़ - 493221</p> <p>65. भारतीय स्टेट बैंक
हॉस्पिटल रोड शाखा
खरसिया, रायगढ़
छत्तीसगढ़ – 496661</p> <p>66. भारतीय स्टेट बैंक
महापल्ली शाखा
जामगांव रोड, रायगढ़
छत्तीसगढ़ – 496001</p> <p>67. भारतीय स्टेट बैंक
लघु एवं मध्यम उद्यम सक्ती शाखा
सक्ती, जॉजगीर चाँपा
छत्तीसगढ़ – 495689</p> <p>68. भारतीय स्टेट बैंक
लघु एवं मध्यम उद्यम अंबिकापुर शाखा
अंबिकापुर, सरगुजा
छत्तीसगढ़ – 497001</p> <p>69. भारतीय स्टेट बैंक
दतिया शाखा
दतिया
मध्य प्रदेश - 475661</p> | <p>70. भारतीय स्टेट बैंक
ग्वालियर शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474001</p> <p>71. भारतीय स्टेट बैंक
इंडस्ट्रियल एस्टेट शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474003</p> <p>72. भारतीय स्टेट बैंक
मेला रोड शाखा, ग्वालियर
मध्य प्रदेश - 474002</p> <p>73. भारतीय स्टेट बैंक
पिछोर शाखा, पिछोर
शिवपुरी
मध्य प्रदेश – 473995</p> <p>74. भारतीय स्टेट बैंक
रामबाग कॉलोनी शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474002</p> <p>75. भारतीय स्टेट बैंक
जयेन्द्रगंज शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474009</p> <p>76. भारतीय स्टेट बैंक
वैयक्तिक बैंकिंग फूलबाग शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474007</p> <p>77. भारतीय स्टेट बैंक
डबरा शाखा
डबरा, ग्वालियर
मध्य प्रदेश - 475110</p> <p>78. भारतीय स्टेट बैंक
सिटी सेंटर शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474011</p> <p>79. भारतीय स्टेट बैंक
कृषि विकास शाखा
दतिया
मध्य प्रदेश – 475661</p> |
|---|---|

- | | |
|--|--|
| 80. भारतीय स्टेट बैंक
मोती महल शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474007 | ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474011 |
| 81. भारतीय स्टेट बैंक
मुरार शाखा , ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474006 | 91. भारतीय स्टेट बैंक
बीएसएफ़ टेकनपुर शाखा
टेकनपुर, ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 475005 |
| 82. भारतीय स्टेट बैंक
सेंवड़ा शाखा
सेंवड़ा. , दतिया
मध्य प्रदेश – 475692 | 92. भारतीय स्टेट बैंक
लघु एवं मध्यम उद्यम शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474001 |
| 83. भारतीय स्टेट बैंक
जी. आर. मेडिकल कॉलेज शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474009 | 93. भारतीय स्टेट बैंक
कलेक्ट्रेट शाखा ग्वालियर
मध्य प्रदेश - 474001 |
| 84. भारतीय स्टेट बैंक
बिलौआ शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 475001 | 94. भारतीय स्टेट बैंक
डी आर डी ई शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474009 |
| 85. भारतीय स्टेट बैंक
करहिया शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश - 475220 | 95. भारतीय स्टेट बैंक
एयरपोर्ट रोड शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474002 |
| 86. भारतीय स्टेट बैंक
हस्तिनापुर शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 475002 | 96. भारतीय स्टेट बैंक
नया बाजार शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474009 |
| 87. भारतीय स्टेट बैंक
सालोन भिटारी शाखा
दतिया
मध्य प्रदेश – 475336 | 97. भारतीय स्टेट बैंक
भितरवार शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 475220 |
| 88. भारतीय स्टेट बैंक
उचाड़ शाखा दतिया
मध्य प्रदेश – 475675 | 98. भारतीय स्टेट बैंक
टंडन कॉम्प्लेक्स शाखा
दमोह
मध्य प्रदेश – 470661 |
| 89. भारतीय स्टेट बैंक
कुलैथ शाखा ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474010 | 99. भारतीय स्टेट बैंक
सदगुनवा शाखा
दमोह, मध्य प्रदेश - 470661 |
| 90. भारतीय स्टेट बैंक
मयूर मार्केट शाखा , | 100. भारतीय स्टेट बैंक
गणेश मार्केट शाखा
पन्ना मध्य प्रदेश – 488001 |

- | | |
|--|--|
| 101 भारतीय स्टेट बैंक
ट्रांसपोर्ट नगर शाखा
ट्रांसपोर्ट नगर
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474010 | 111 भारतीय स्टेट बैंक
बारादरी चौराहा मुरार शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474006 |
| 102 भारतीय स्टेट बैंक
न्यू कलेक्ट्रेट शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474011 | 112 भारतीय स्टेट बैंक
सुभाषगंज डबरा शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 475110 |
| 103 भारतीय स्टेट बैंक
बुजुर्ग डबरा शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 475110 | 113 भारतीय स्टेट बैंक
पटेल रोड भांडेर शाखा
दतिया
मध्य प्रदेश – 475335 |
| 104 भारतीय स्टेट बैंक
नई सड़क शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश - 474001 | 114 भारतीय स्टेट बैंक
लघु एवं मध्यम उद्यम शाखा
लश्कर
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474001 |
| 105 भारतीय स्टेट बैंक
ओल्ड ग्वालियर रोड शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474003 | 115 भारतीय स्टेट बैंक
कंपू शाखा, ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474009 |
| 106 भारतीय स्टेट बैंक
आईटीएम यूनिवर्सिटी कैम्पस शाखा
आईटीएम यूनिवर्सिटी,
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474001 | 116 भारतीय स्टेट बैंक
मेन रोड भितरवार शाखा
ग्वालियर, मध्य प्रदेश – 475220 |
| 107 भारतीय स्टेट बैंक
मुरार कैन्ट शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474006 | 117 भारतीय स्टेट बैंक
आंतरी शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 475001 |
| 108 भारतीय स्टेट बैंक
मेडिकल कॉलेज शाखा
दतिया
मध्य प्रदेश – 475661 | 118 भारतीय स्टेट बैंक
हजीरा शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474002 |
| 109 भारतीय स्टेट बैंक
एसबीआई इन्टच शाखा
ग्वालियर मध्य प्रदेश – 474011 | 119 भारतीय स्टेट बैंक
बिछोदना शाखा
दतिया
मध्य प्रदेश – 475335 |
| 110 भारतीय स्टेट बैंक
थाटीपुर शाखा, ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474010 | 120 भारतीय स्टेट बैंक
गांधी रोड शाखा
दतिया
मध्य प्रदेश - 475661 |

- | | |
|---|--|
| 121 भारतीय स्टेट बैंक
रतवाई (पारसेन) शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474005 | 131 भारतीय स्टेट बैंक
मुरैना शाखा
मुरैना
मध्य प्रदेश – 476001 |
| 122 भारतीय स्टेट बैंक
अलापुर शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474002 | 132 भारतीय स्टेट बैंक
सबलगढ़ शाखा
मुरैना
मध्य प्रदेश – 476229 |
| 123 भारतीय स्टेट बैंक
भलका शाखा , दतिया
मध्य प्रदेश – 475335 | 133 भारतीय स्टेट बैंक
भिंड शाखा भिंड
मध्य प्रदेश - 477001 |
| 124 भारतीय स्टेट बैंक
एएफ़एस महाराजपुर शाखा
महाराजपुर
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474020 | 134 भारतीय स्टेट बैंक
कृषि विकास शाखा
जौरा, मुरैना
मध्य प्रदेश – 476221 |
| 125 भारतीय स्टेट बैंक
गांधी रोड शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474002 | 135 भारतीय स्टेट बैंक
कृषि विकास शाखा
सबलगढ़, मुरैना
मध्य प्रदेश – 476229 |
| 126 भारतीय स्टेट बैंक
लक्ष्मीगंज अनाज मंडी शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474001 | 136 भारतीय स्टेट बैंक
बानमोर शाखा
मुरैना
मध्य प्रदेश – 476444 |
| 127 भारतीय स्टेट बैंक
पटेल नगर शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474011 | 137 भारतीय स्टेट बैंक
आलमपुर शाखा
भिंड
मध्य प्रदेश – 477449 |
| 128 भारतीय स्टेट बैंक
हुजरात रोड शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474009 | 138 भारतीय स्टेट बैंक
जीवाजीगंज मंडी शाखा
जीवाजीगंज , मुरैना
मध्य प्रदेश – 476001 |
| 129 भारतीय स्टेट बैंक
पड़ाव शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 474007 | 139 भारतीय स्टेट बैंक
झुंडपुरा शाखा
मुरैना
मध्य प्रदेश – 476226 |
| 130 भारतीय स्टेट बैंक
मोहना शाखा
ग्वालियर
मध्य प्रदेश – 475330 | 140 भारतीय स्टेट बैंक
थरा शाखा
मुरैना
मध्य प्रदेश – 476117 |

- | | |
|---|--|
| 141 भारतीय स्टेट बैंक
सराय छौला शाखा
मुरैना
मध्य प्रदेश – 476001 | 151 भारतीय स्टेट बैंक
कैलारस शाखा , मुरैना
मध्य प्रदेश – 476224 |
| 142 भारतीय स्टेट बैंक
बसैया शाखा
मुरैना
मध्य प्रदेश – 476011 | 152 भारतीय स्टेट बैंक
पोरसा शाखा
मुरैना
मध्य प्रदेश – 476115 |
| 143 भारतीय स्टेट बैंक
मांगरोल शाखा
मुरैना
मध्य प्रदेश – 476229 | 153 भारतीय स्टेट बैंक
मौ शाखा ,
भिंड
मध्य प्रदेश – 474009 |
| 144 भारतीय स्टेट बैंक
बडागांव (नावली) शाखा
मुरैना
मध्य प्रदेश - 476554 | 154 भारतीय स्टेट बैंक
मिहोना शाखा ,
भिंड
मध्य प्रदेश – 477441 |
| 145 भारतीय स्टेट बैंक
मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र शाखा
भिंड
मध्य प्रदेश – 477117 | 155 भारतीय स्टेट बैंक
मुरैना तिराहा अम्बाह शाखा
मुरैना
मध्य प्रदेश - 476111 |
| 146 भारतीय स्टेट बैंक
कलेक्ट्रेट भिंड शाखा
कलेक्ट्रेट परिसर
भिंड
मध्य प्रदेश – 477001 | 156 भारतीय स्टेट बैंक
जौरा (मुरैना) शाखा
मुरैना
मध्य प्रदेश - 476221 |
| 147 भारतीय स्टेट बैंक
गोहद शाखा , भिंड
मध्य प्रदेश – 477117 | 157 भारतीय स्टेट बैंक
परेड चौराहा शाखा
भिंड
मध्य प्रदेश - 477001 |
| 148 भारतीय स्टेट बैंक
मेहगांव शाखा
भिंड
मध्य प्रदेश – 477557 | 158 भारतीय स्टेट बैंक
मौ रोड गोहद शाखा
भिंड
मध्य प्रदेश - 477116 |
| 149 भारतीय स्टेट बैंक
लहार शाखा
भिंड
मध्य प्रदेश – 477445 | 159 भारतीय स्टेट बैंक
मो रोड मेहगांव शाखा
भिंड
मध्य प्रदेश - 477557 |
| 150 भारतीय स्टेट बैंक
अम्बाह शाखा
मुरैना
मध्य प्रदेश – 476111 | 160 भारतीय स्टेट बैंक
भिंड भांडेर रोड लहार शाखा
भिंड
मध्य प्रदेश - 477445 |

- | | |
|--|---|
| 161 भारतीय स्टेट बैंक
एम एस रोड मुरैना शाखा
मुरैना
मध्य प्रदेश – 476001 | 171 भारतीय स्टेट बैंक
गांधी मार्ग शाखा
कैलारस, मुरैना
मध्य प्रदेश – 476224 |
| 162 भारतीय स्टेट बैंक
रामपुरकलाँ शाखा
मुरैना
मध्य प्रदेश – 476245 | 172 भारतीय स्टेट बैंक
नोगांव शाखा
छतरपुर
मध्य प्रदेश – 471201 |
| 163 भारतीय स्टेट बैंक
सुमावली शाखा, मुरैना
मध्य प्रदेश – 476003 | 173 भारतीय स्टेट बैंक
छतरपुर शाखा
छतरपुर
मध्य प्रदेश - 471001 |
| 164 भारतीय स्टेट बैंक
रामपहाड़ी शाखा
मुरैना
मध्य प्रदेश - 476229 | 174 भारतीय स्टेट बैंक
टीकमगढ़ शाखा
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश – 472001 |
| 165 भारतीय स्टेट बैंक
गाता शाखा
भिंड
मध्य प्रदेश – 477557 | 175 भारतीय स्टेट बैंक
बिजावर शाखा छतरपुर
मध्य प्रदेश - 471405 |
| 166 भारतीय स्टेट बैंक
अजनार शाखा
भिंड
मध्य प्रदेश – 477415 | 176 भारतीय स्टेट बैंक
निवाड़ी शाखा
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश - 472442 |
| 167 भारतीय स्टेट बैंक
कचनाव कलां शाखा
भिंड
मध्य प्रदेश – 477557 | 177 भारतीय स्टेट बैंक
एडीबी छतरपुर शाखा
छतरपुर
मध्य प्रदेश – 471001 |
| 168 भारतीय स्टेट बैंक
रायतपुरा शाखा
भिंड
मध्य प्रदेश - 477116 | 178 भारतीय स्टेट बैंक
ओरछा (प्रतापपुरा) शाखा
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश – 471201 |
| 169 भारतीय स्टेट बैंक
लहार रोड शाखा
भिंड
मध्य प्रदेश – 477001 | 179 भारतीय स्टेट बैंक
राजनगर शाखा
छतरपुर
मध्य प्रदेश – 471625 |
| 170 भारतीय स्टेट बैंक
इमली चौक शाखा
पोरसा, मुरैना
मध्य प्रदेश – 476115 | 180 भारतीय स्टेट बैंक
बड़ा मल्हेरा शाखा
छतरपुर
मध्य प्रदेश – 471311 |

- | | |
|--|---|
| 181 भारतीय स्टेट बैंक
बलदेवगढ़ शाखा
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश – 472111 | 191 भारतीय स्टेट बैंक
दिगोड़ा शाखा
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश – 472331 |
| 182 भारतीय स्टेट बैंक
बक्सवाहा शाखा
छतरपुर
मध्य प्रदेश – 471318 | 192 भारतीय स्टेट बैंक
पलेरा शाखा
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश - 472221 |
| 183 भारतीय स्टेट बैंक
चाँदला शाखा
छतरपुर
मध्य प्रदेश – 471525 | 193 भारतीय स्टेट बैंक
गुलगंज शाखा
छतरपुर
मध्य प्रदेश – 471301 |
| 184 भारतीय स्टेट बैंक
गढ़ी मल्हेरा शाखा
छतरपुर
मध्य प्रदेश - 471411 | 194 भारतीय स्टेट बैंक
एसएमई शाखा
छतरपुर
मध्य प्रदेश – 471001 |
| 185 भारतीय स्टेट बैंक
हरपालपुर शाखा
छतरपुर
मध्य प्रदेश – 471111 | 195 भारतीय स्टेट बैंक
बडागांव शाखा
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश – 472010 |
| 186 भारतीय स्टेट बैंक
जतारा शाखा
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश – 472118 | 196 भारतीय स्टेट बैंक
लिधौरा शाखा
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश – 472246 |
| 187 भारतीय स्टेट बैंक
खजुराहो शाखा
छतरपुर
मध्य प्रदेश – 471606 | 197 भारतीय स्टेट बैंक
परसानिया शाखा
छतरपुर
मध्य प्रदेश – 471009 |
| 188 भारतीय स्टेट बैंक
लौंडी शाखा
छतरपुर
मध्य प्रदेश - 471515 | 198 भारतीय स्टेट बैंक
रंगोली शाखा
छतरपुर
मध्य प्रदेश – 471408 |
| 189 भारतीय स्टेट बैंक
पृथ्वीपुर शाखा
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश – 472336 | 199 भारतीय स्टेट बैंक
टीला निवाड़ी (पुच्छीकरगुवान शाखा)
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश – 472442 |
| 190 भारतीय स्टेट बैंक
सटई शाखा
छतरपुर
मध्य प्रदेश – 471408 | 200 भारतीय स्टेट बैंक
जेवर शाखा
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश - 472331 |

- | | |
|---|---|
| 201 भारतीय स्टेट बैंक
कलेक्ट्रेट शाखा
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश – 472001 | 211 भारतीय स्टेट बैंक
पीली कोठी रोड शाखा
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश – 472001 |
| 202 भारतीय स्टेट बैंक
चौक बाजार शाखा
छतरपुर
मध्य प्रदेश – 471001 | 212 भारतीय स्टेट बैंक
पन्ना रोड शाखा
छतरपुर
मध्य प्रदेश - 471001 |
| 203 भारतीय स्टेट बैंक
घुवारा शाखा
छतरपुर
मध्य प्रदेश – 471313 | 213 भारतीय स्टेट बैंक
गुना शाखा
गुना
मध्य प्रदेश – 473001 |
| 204 भारतीय स्टेट बैंक
खड़गपुर शाखा
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश - 472115 | 214 भारतीय स्टेट बैंक
कृषि विकास शाखा
सारंगपुर, राजगढ़
मध्य प्रदेश - 465697 |
| 205 भारतीय स्टेट बैंक
खोरा शाखा
पन्ना
मध्य प्रदेश – 488222 | 215 भारतीय स्टेट बैंक
कृषि विकास शाखा
खिलचीपुर, राजगढ़
मध्य प्रदेश – 465679 |
| 206 भारतीय स्टेट बैंक
बेनीसागर पन्ना शाखा
पन्ना
मध्य प्रदेश – 488001 | 216 भारतीय स्टेट बैंक
गेल कॉम्प्लेक्स विजयपुर शाखा
गुना
मध्य प्रदेश - 473112 |
| 207 भारतीय स्टेट बैंक
बारीगढ़ शाखा
छतरपुर
मध्य प्रदेश – 471510 | 217 भारतीय स्टेट बैंक
बावडीखेड़ा (एनएफएल कॉम्प्लेक्स) शाखा
गुना
मध्य प्रदेश – 473111 |
| 208 भारतीय स्टेट बैंक
गौरिहर शाखा
छतरपुर
मध्य प्रदेश - 471516 | 218 भारतीय स्टेट बैंक
बड़ोत शाखा
गुना
मध्य प्रदेश – 473001 |
| 209 भारतीय स्टेट बैंक
नोगांव सिटी शाखा
छतरपुर
मध्य प्रदेश – 471201 | 219 भारतीय स्टेट बैंक
बरसत शाखा
गुना
मध्य प्रदेश – 473287 |
| 210 भारतीय स्टेट बैंक
हटवारा रोड शाखा
छतरपुर
मध्य प्रदेश – 471001 | 220 भारतीय स्टेट बैंक
राजगढ़ शाखा
राजगढ़
मध्य प्रदेश - 473335 |

- | | |
|---|--|
| 221 भारतीय स्टेट बैंक
जीरापुर शाखा
राजगढ़
मध्य प्रदेश – 465691 | 231 भारतीय स्टेट बैंक
माचलपुर शाखा
राजगढ़
मध्य प्रदेश – 465693 |
| 222 भारतीय स्टेट बैंक
ब्यावरा शाखा
राजगढ़
मध्य प्रदेश – 465674 | 232 भारतीय स्टेट बैंक
खुजनेर शाखा
राजगढ़
मध्य प्रदेश - 465687 |
| 223 भारतीय स्टेट बैंक
नरसिंहगढ़ शाखा
राजगढ़
मध्य प्रदेश – 465669 | 233 भारतीय स्टेट बैंक
उद्वैतगंज शाखा
नरसिंहगढ़
राजगढ़
मध्य प्रदेश – 465669 |
| 224 भारतीय स्टेट बैंक
बीनागंज शाखा
गुना
मध्य प्रदेश – 473118 | 234 भारतीय स्टेट बैंक
सारंगपुर शाखा
राजगढ़
मध्य प्रदेश – 465697 |
| 225 भारतीय स्टेट बैंक
आरोन शाखा
गुना
मध्य प्रदेश – 473101 | 235 भारतीय स्टेट बैंक
खिलचीपुर शाखा
राजगढ़, मध्य प्रदेश – 465769 |
| 226 भारतीय स्टेट बैंक
पचौर शाखा
राजगढ़
मध्य प्रदेश – 465683 | 236 भारतीय स्टेट बैंक
राजमहल शाखा
राजगढ़ (ब्यावरा)
मध्य प्रदेश – 465661 |
| 227 भारतीय स्टेट बैंक
जामनेर शाखा
गुना
मध्य प्रदेश – 473287 | 237 भारतीय स्टेट बैंक
शासकीय व्यवसाय शाखा
गुना
मध्य प्रदेश – 473001 |
| 228 भारतीय स्टेट बैंक
तलेन शाखा
राजगढ़
मध्य प्रदेश - 465680 | 238 भारतीय स्टेट बैंक
चाचोड़ा शाखा
गुना
मध्य प्रदेश – 473118 |
| 229 भारतीय स्टेट बैंक
सुथलिया शाखा
राजगढ़
मध्य प्रदेश – 465677 | 239 भारतीय स्टेट बैंक
राघोगढ़ शाखा
गुना
मध्य प्रदेश – 473226 |
| 230 भारतीय स्टेट बैंक
बरखेड़ा गिर्द शाखा
गुना
मध्य प्रदेश – 473249 | 240 भारतीय स्टेट बैंक
कुंभराज शाखा
गुना
मध्य प्रदेश – 473222 |

- | | |
|--|---|
| 241 भारतीय स्टेट बैंक
जवाहर मार्ग आरोन शाखा
गुना
मध्य प्रदेश – 473101 | 251 भारतीय स्टेट बैंक
इकलेरा शाखा
राजगढ़
मध्य प्रदेश - 465418 |
| 242 भारतीय स्टेट बैंक
मकसूदनगढ़ शाखा
गुना
मध्य प्रदेश – 473287 | 252 भारतीय स्टेट बैंक
एनएफएल विजयपुर शाखा
गुना
मध्य प्रदेश – 473111 |
| 243 भारतीय स्टेट बैंक
रुठियाई शाखा
गुना
मध्य प्रदेश - 473110 | 253 भारतीय स्टेट बैंक
परवाह शाखा
गुना,, मध्य प्रदेश – 473105 |
| 244 भारतीय स्टेट बैंक
बमोरी शाखा, गुना
मध्य प्रदेश – 473105 | 254 भारतीय स्टेट बैंक
फूलखेड़ी शाखा
राजगढ़
मध्य प्रदेश – 465769 |
| 245 भारतीय स्टेट बैंक
ओल्ड एबी रोड ब्यावरा शाखा
राजगढ़
मध्य प्रदेश – 465661 | 255 भारतीय स्टेट बैंक
लालोनी शाखा
गुना
मध्य प्रदेश - 473001 |
| 246 भारतीय स्टेट बैंक
मयाना शाखा
गुना
मध्य प्रदेश – 473233 | 256 भारतीय स्टेट बैंक
सडियाकुआँ शाखा
राजगढ़
मध्य प्रदेश – 465679 |
| 247 भारतीय स्टेट बैंक
पढ़ाना शाखा
राजगढ़
मध्य प्रदेश - 465684 | 257 भारतीय स्टेट बैंक
कलेक्ट्रेट कैंपस गुना शाखा
गुना
मध्य प्रदेश – 473001 |
| 248 भारतीय स्टेट बैंक
उदनखेड़ी शाखा
राजगढ़
मध्य प्रदेश – 465683 | 258 भारतीय स्टेट बैंक
पंचायत भवन जीरापुर शाखा
राजगढ़
मध्य प्रदेश – 465691 |
| 249 भारतीय स्टेट बैंक
पगारा शाखा
गुना
मध्य प्रदेश – 473303 | 259 भारतीय स्टेट बैंक
कुरावर शाखा
राजगढ़
मध्य प्रदेश - 465674 |
| 250 भारतीय स्टेट बैंक
बरखेडा हाट शाखा
गुना
मध्य प्रदेश – 473101 | 260 भारतीय स्टेट बैंक
सुभाष चौक पचोर शाखा
राजगढ़
मध्य प्रदेश – 465683 |

- | | |
|--|---|
| 261 भारतीय स्टेट बैंक
हाट रोड गुना शाखा
गुना
मध्य प्रदेश – 473001 | 271 भारतीय स्टेट बैंक
चंदेरी शाखा
अशोकनगर
मध्य प्रदेश - 473446 |
| 262 भारतीय स्टेट बैंक
मंडी क्षेत्र गुना शाखा
गुना
मध्य प्रदेश – 473001 | 272 भारतीय स्टेट बैंक
पिछोर शाखा
शिवपुरी
मध्य प्रदेश – 473995 |
| 263 भारतीय स्टेट बैंक
बोड़ा शाखा
राजगढ़
मध्य प्रदेश - 465685 | 273 भारतीय स्टेट बैंक
नरवर शाखा
शिवपुरी
मध्य प्रदेश – 473880 |
| 264 भारतीय स्टेट बैंक
शिवपुरी शाखा
शिवपुरी
मध्य प्रदेश – 473551 | 274 भारतीय स्टेट बैंक
विजयपुर शाखा, श्योपुरकलां
मध्य प्रदेश – 476332 |
| 265 भारतीय स्टेट बैंक
कोलारस शाखा
शिवपुरी, मध्य प्रदेश – 473770 | 275 भारतीय स्टेट बैंक
पीवीवी शिवपुरी
शिवपुरी
मध्य प्रदेश - 473551 |
| 266 भारतीय स्टेट बैंक
श्योपुरकलां शाखा
श्योपुरकलां
मध्य प्रदेश – 476337 | 276 भारतीय स्टेट बैंक
मगरोनी शाखा
शिवपुरी
मध्य प्रदेश - 473880 |
| 267 भारतीय स्टेट बैंक
अशोकनगर शाखा
अशोकनगर
मध्य प्रदेश - 473338 | 277 भारतीय स्टेट बैंक
दिल्ली दरवाजा चंदेरी शाखा
अशोकनगर
मध्य प्रदेश – 473446 |
| 268 भारतीय स्टेट बैंक
देहरवारा शाखा
शिवपुरी
मध्य प्रदेश – 473774 | 278 भारतीय स्टेट बैंक
स्टेशन रोड शाखा
अशोकनगर
मध्य प्रदेश – 473331 |
| 269 भारतीय स्टेट बैंक
करेरा शाखा
शिवपुरी
मध्य प्रदेश – 473660 | 279 भारतीय स्टेट बैंक
सिटी शाखा
मुंगावली, अशोकनगर
मध्य प्रदेश - 473443 |
| 270 भारतीय स्टेट बैंक
मुंगावली शाखा
अशोकनगर
मध्य प्रदेश – 473443 | 280 भारतीय स्टेट बैंक
गुरुद्वारा चौक शिवपुरी शाखा
शिवपुरी
मध्य प्रदेश – 473551 |

- | | |
|---|--|
| 281 भारतीय स्टेट बैंक
ए बी रोड कोलारस शाखा
शिवपुरी
मध्य प्रदेश - 473770 | श्योपुरकलां
मध्य प्रदेश - 476335 |
| 282 भारतीय स्टेट बैंक
चंदेरी रोड पिछोर शाखा
शिवपुरी
मध्य प्रदेश - 473995 | 292 भारतीय स्टेट बैंक
बड़ौदा (मोरेना) शाखा
श्योपुरकलां
मध्य प्रदेश - 476339 |
| 283 भारतीय स्टेट बैंक
स्टेशन रोड श्योपुरकलां शाखा
श्योपुरकलां
मध्य प्रदेश - 476337 | 293 भारतीय स्टेट बैंक
लुकवासा शाखा, शिवपुरी
मध्य प्रदेश - 473588 |
| 284 भारतीय स्टेट बैंक
मंडी विजयपुर शाखा
श्योपुरकलां
मध्य प्रदेश - 476332 | 294 भारतीय स्टेट बैंक
दिनारा शाखा
शिवपुरी
मध्य प्रदेश - 473665 |
| 285 भारतीय स्टेट बैंक
ईसागढ़ शाखा
अशोकनगर
मध्य प्रदेश - 473535 | 295 भारतीय स्टेट बैंक
रन्नोद शाखा
शिवपुरी
मध्य प्रदेश - 473781 |
| 286 भारतीय स्टेट बैंक
पोहरी शाखा
शिवपुरी, मध्य प्रदेश - 473775 | 296 भारतीय स्टेट बैंक
पंडोला शाखा
श्योपुरकला
मध्य प्रदेश - 476339 |
| 287 भारतीय स्टेट बैंक
बदरवास शाखा शिवपुरी
मध्य प्रदेश - 473558 | 297 भारतीय स्टेट बैंक
कदवाया शाखा
अशोकनगर
मध्य प्रदेश - 473335 |
| 288 भारतीय स्टेट बैंक
गांधी रोड करेरा शाखा
शिवपुरी
मध्य प्रदेश - 473665 | 298 भारतीय स्टेट बैंक
गसवानी शाखा
श्योपुरकला
मध्य प्रदेश - 476333 |
| 289 भारतीय स्टेट बैंक
मुख्य बाजार नरवर शाखा
शिवपुरी
मध्य प्रदेश - 473880 | 299 भारतीय स्टेट बैंक
सारसखेड़ी शाखा
अशोकनगर
मध्य प्रदेश - 473335 |
| 290 भारतीय स्टेट बैंक
गांधी चौक खनियाधाना शाखा
शिवपुरी
मध्य प्रदेश - 473990 | 300 भारतीय स्टेट बैंक
रेहटवास शाखा
अशोकनगर
मध्य प्रदेश - 473440 |
| 291 भारतीय स्टेट बैंक
करहल शाखा | 301 भारतीय स्टेट बैंक
ओंडेर शाखा |

- अशोकनगर
मध्य प्रदेश - 473443
- 302 भारतीय स्टेट बैंक
मलवानी शाखा शिवपुरी
मध्य प्रदेश - 472995
- 303 भारतीय स्टेट बैंक
शिवपुरी न्यूब्लॉक शाखा
शिवपुरी
मध्य प्रदेश - 473551
- 304 भारतीय स्टेट बैंक
बैराड शाखा
शिवपुरी
मध्य प्रदेश - 473793
- 305 भारतीय स्टेट बैंक
दमोह शाखा
दमोह
मध्य प्रदेश - 470661
- 306 भारतीय स्टेट बैंक
पन्ना शाखा
पन्ना
मध्य प्रदेश - 488001
- 307 भारतीय स्टेट बैंक
हट्टा शाखा
दमोह
मध्य प्रदेश - 470775
- 308 भारतीय स्टेट बैंक
कृषि विकास शाखा दमोह
मध्य प्रदेश - 470661
- 309 भारतीय स्टेट बैंक
अभाना शाखा
दमोह
मध्य प्रदेश - 470662
- 310 भारतीय स्टेट बैंक
अजयगढ़ शाखा
पन्ना
मध्य प्रदेश - 488220
- 311 भारतीय स्टेट बैंक
अमानगंज शाखा
पन्ना, मध्य प्रदेश - 488441
- 312 भारतीय स्टेट बैंक
देवेंद्रनगर शाखा
पन्ना
मध्य प्रदेश - 488333
- 313 भारतीय स्टेट बैंक
हिंडोरिया शाखा
दमोह
मध्य प्रदेश - 470771
- 314 भारतीय स्टेट बैंक
जबेरा शाखा
दमोह
मध्य प्रदेश - 470881
- 315 भारतीय स्टेट बैंक
पटेरा शाखा दमोह
मध्य प्रदेश - 470772
- 316 भारतीय स्टेट बैंक
पथरिया (दमोह) शाखा
दमोह
मध्य प्रदेश - 470666
- 317 भारतीय स्टेट बैंक
पवाई शाखा
पन्ना
मध्य प्रदेश - 488446
- 318 भारतीय स्टेट बैंक
तेंदुखेड़ा शाखा
दमोह
मध्य प्रदेश - 470880
- 319 भारतीय स्टेट बैंक
ककरहती शाखा
पन्ना
मध्य प्रदेश - 488059
- 320 भारतीय स्टेट बैंक
सलेहा शाखा
पन्ना
मध्य प्रदेश - 488333
- 321 भारतीय स्टेट बैंक
शाहनगर शाखा
पन्ना
मध्य प्रदेश - 488448

- | | |
|--|--|
| 322 भारतीय स्टेट बैंक
दमोह सिटी शाखा
दमोह
मध्य प्रदेश - 470661 | 332 भारतीय स्टेट बैंक
खांदेरी शाखा
दमोह
मध्य प्रदेश - 470673 |
| 323 भारतीय स्टेट बैंक
बटियागढ़ शाखा
दमोह
मध्य प्रदेश - 470673 | 333 भारतीय स्टेट बैंक
बीरा शाखा
पन्ना
मध्य प्रदेश - 488220 |
| 324 भारतीय स्टेट बैंक
मझगवां शाखा
पन्ना
मध्य प्रदेश - 488220 | 334 भारतीय स्टेट बैंक
किन्द्राहों शाखा
दमोह
मध्य प्रदेश - 470666 |
| 325 भारतीय स्टेट बैंक
सेमरिया शाखा
पन्ना
मध्य प्रदेश - 488001 | 335 भारतीय स्टेट बैंक
देवडोंगरा शाखा
दमोह
मध्य प्रदेश - 470772 |
| 326 भारतीय स्टेट बैंक
हिनोतकला शाखा
दमोह
मध्य प्रदेश - 470775 | 336 भारतीय स्टेट बैंक
सांगा शाखा
दमोह
मध्य प्रदेश - 470880 |
| 327 भारतीय स्टेट बैंक
नरसिंहगढ़ (दमोह) शाखा
दमोह
मध्य प्रदेश - 470675 | 337 भारतीय स्टेट बैंक
हरदुवाही शाखा
पन्ना
मध्य प्रदेश - 488050 |
| 328 भारतीय स्टेट बैंक
रायपुरा पन्ना शाखा
पन्ना
मध्य प्रदेश - 488442 | 338 भारतीय स्टेट बैंक
पुरेना शाखा
पन्ना
मध्य प्रदेश - 488441 |
| 329 भारतीय स्टेट बैंक
फूटेरा कलां शाखा दमोह
मध्य प्रदेश - 470673 | 339 भारतीय स्टेट बैंक
पन्ना सिटी शाखा
पन्ना
मध्य प्रदेश - 488001 |
| 330 भारतीय स्टेट बैंक
गुन्नौर शाखा
पन्ना
मध्य प्रदेश - 488442 | 340 भारतीय स्टेट बैंक
मुहान्द्रा शाखा
पन्ना, मध्य प्रदेश - 488442 |
| 331 भारतीय स्टेट बैंक
पटना राजा शाखा
दमोह
मध्य प्रदेश - 470901 | 341 भारतीय स्टेट बैंक
खुदरा आस्ति केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र
ग्वालियर
मध्य प्रदेश - 474009 |

- | | |
|--|--|
| 342 भारतीय स्टेट बैंक
केंद्रीकृत समाशोधन प्रक्रिया केंद्र
ग्वालियर
मध्य प्रदेश - 474001 | 347 भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय
शिवपुरी
मध्य प्रदेश - 473551 |
| 343 भारतीय स्टेट बैंक
लघु एवं मध्यम उद्यम केंद्र
ग्वालियर
मध्य प्रदेश - 474011 | 348 भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय
दमोह
मध्य प्रदेश - 470661 |
| 344 भारतीय स्टेट बैंक
प्रलेख अभिलेखागार केंद्र
ग्वालियर
मध्य प्रदेश - 474006 | 349 भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय
गुना
मध्य प्रदेश - 473001 |
| 345 भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय - 1
ग्वालियर
मध्य प्रदेश - 474011 | 350 भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय
छतरपुर
मध्य प्रदेश - 471001 |
| 346 भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय - 2
ग्वालियर
मध्य प्रदेश - 474011 | 351 भारतीय स्टेट बैंक
प्रशासनिक कार्यालय
ग्वालियर
मध्य प्रदेश - 474009 |

New Delhi, the 8th April, 2019

S.O. 527.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended in 1987), the Central Government, hereby notifies the listed Offices/ Branches of **State Bank of India**, more than 80% of the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi:-

Serial No.	Name of the Bank	Number of Offices/ Branches
1.	State Bank of India	351
	Total	351

[F. No.11016/2/2017-OL(Noti.)]

SHAILESH KUMAR SINGH, Jt. Director (OL)

List of Branches / Offices to be notified under rule 10 (4) of Official Language Rule 1976

- | | |
|---|--|
| 1. State Bank of India
Shastri Nagar Branch
P & T Square, Bhopal
Madhya Pradesh - 462003 | 4. State Bank of India
Rishi Nagar branch
Bittan Market, Bhopal
Madhya Pradesh - 462003 |
| 2. State Bank of India
Salaiya branch
Salaiya, Bhopal
Madhya Pradesh - 462003 | 5. State Bank of India
Rang Mahal Chauraha Branch
T T Nagar, Bhopal
Madhya Pradesh - 462003 |
| 3. State Bank of India
SBI In Touch Branch TT Nagar, Bhopal
Madhya Pradesh - 462003 | 6. State Bank of India
Commercial Street Branch
Bhopal, Madhya Pradesh - 462004 |

- | | |
|--|---|
| 7. State Bank of India
Chunabhatti Branch
Kolar Road, Bhopal
Madhya Pradesh – 462042 | 20. State Bank of India
Jatkhedhi Branch
58, Jyoti Nagar, Bhopal
Madhya Pradesh – 462026 |
| 8. State Bank of India
Ayodhya Nagar Branch
Nizamuddin Road, Bhopal
Madhya Pradesh – 462022 | 21. State Bank of India
Handia Branch
Handia, Harda
Madhya Pradesh – 461331 |
| 9. State Bank of India
Wholesale Market Branch,
Devki Nagar, Bhopal
Madhya Pradesh: 462038 | 22. State Bank of India
Wagon Coach Factory Branch,
Krishna Nagar, Bhopal
Madhya Pradesh – 462010 |
| 10. State Bank of India
Dunawa Branch
Multai, Betul
Madhya Pradesh – 460663 | 23. State Bank of India
PBB Lalghati Branch
Lal Ghati, Bhopal
Madhya Pradesh – 462030 |
| 11. State Bank of India
Bangrasia Branch
Chiklod Road, Bhopal
Madhya Pradesh – 462026 | 24. State Bank of India
11 Miles Cross Street Branch
11 miles, Bhopal
Madhya Pradesh – 462001 |
| 12. State Bank of India
Retail Asset Centralized Processing Centre - 2
Misrod Road,
Bhopal
Madhya Pradesh – 462026 | 25. State Bank of India
Dwarka Dham Branch
Sanjay Nagar, Karond,
Bhopal
Madhya Pradesh – 462038 |
| 13. State Bank of India
SME Mandideep Branch
Goharganj, Raisen
Madhya Pradesh – 462046 | 26. State Bank of India
Katara Branch,
Katara Hills, Bhopal
Madhya Pradesh – 462043 |
| 14. State Bank of India
VIP Road Chhindwara Branch
Madhuban Colony Chhindwara
Madhya Pradesh – 480001 | 27. State Bank of India
Budhni Branch
Budni, Sehore
Madhya Pradesh – 466445 |
| 15. State Bank of India
Personal Banking Branch,
Khandwa, Khargone
Madhya Pradesh – 450001 | 28. State Bank Of India
Tilwara Road Branch,
Nalanda vihar, Jabalpur,
Madhya Pradesh – 482003 |
| 16. State Bank of India
Indore Road Khandwa Branch
Burhanpur, Khandwa
Madhya Pradesh – 450001 | 29. State Bank of India
Panna Road Satna Branch
Transport Nagar, Satna
Madhya Pradesh – 485001 |
| 17. State Bank of India
Pipariya Road Sohagpur Branch
Sohagpur
Madhya Pradesh – 461771 | 30. State Bank of India
Retail Asset Small & Medium Enterprises
Centre
Ashok Vihar Colony Tilli Road, Sagar
Madhya Pradesh – 470001 |
| 18. State Bank of India
English Villa Branch,
Bairagarh-Chichli Kolar Road,
Bhopal
Madhya Pradesh – 462042 | 31. State Bank of India
Khajrana Branch
Chandralok Colony, Indore
Madhya Pradesh - 452018 |
| 19. State Bank of India
SBI In Touch Branch
M. P. Nagar, Zone - 1, | 32. State Bank of India
Palda Branch |

	Palda Nemawar Road, Indore Madhya Pradesh – 452020		Unhel, Ujjain Madhya Pradesh – 456221
33.	State Bank of India Musakhedi Branch Ring Road, Indore Madhya Pradesh – 452001	46.	State Bank of India Nagziri Branch Dewas Road, Ujjain Madhya Pradesh – 456010
34.	State Bank of India Ready Made Complex Branch Mangal Nagar, Indore Madhya Pradesh – 452011	47.	State Bank of India Barod Branch Barod, Agar Madhya Pradesh - 465550
35.	State Bank of India Tilak Nagar Branch Vivekanand Colony, Indore Madhya Pradesh - 452018	48.	State Bank of India Jeeran Branch Jeeran, Neemuch Madhya Pradesh – 458336
36.	State Bank of India Bicholi Maradana Branch Dilpasand Building, Indore Madhya Pradesh – 452010	49.	State Bank of India Retail Asset Centralized Processing Centre 2 Basant Vihar, Indore Madhya Pradesh - 452010
37.	State Bank of India Army War College Branch Mhow, Indore Madhya Pradesh – 453441	50.	State Bank of India Retail Asset Small & Medium Enterprises Centre Mitra Niwas Road, Ratlam Madhya Pradesh – 457001
38.	State Bank of India Kanadia Branch Kanadia Road, Indore Madhya Pradesh - 452016	51.	State Bank of India Pulgaon Chowk Branch Pulgaon Chowk Balod Road Durg, Chhattisgarh – 491001
39.	State Bank of India Gandhi Nagar Branch Gandhi Nagar, Indore Madhya Pradesh – 452010	52.	State Bank of India Santoshi Nagar Branch Santoshi Nagar, Raipur Chhattisgarh – 492007
40.	State Bank of India Keshar Bagh Road Branch Nema Nagar, Indore Madhya Pradesh – 452009	53.	State Bank of India Khurshipar Branch Bhilai, Durg Chhattisgarh -490001
41.	State Bank of India TCS Branch Chhota Bangrada, Indore Madhya Pradesh – 452005	54.	State Bank of India Kachana Branch, Green Glory Parisar, Kachana, Raipur, Chhattisgarh – 492007
42.	State Bank of India Hatod Branch Hatod, Indore Madhya Pradesh - 453111	55.	State Bank of India Sadar Bazar Branch Raipur Chhattisgarh – 492001
43.	State Bank of India Foothi Kothi Branch Sudama Nagar, Indore Madhya Pradesh - 452009	56.	State Bank of India Jangala Branch Bhairamgarh, Bastar Chhattisgarh - 494450
44.	State Bank of India Kalapipal Branch Shujalpur Road Madhya Pradesh - 465337	57.	State Bank of India Mutanpal Branch Bastanar, Bastar Chhattisgarh – 490010
45.	State Bank of India Unhel Branch	58.	State Bank of India Borje Branch

	Dhanora, Bijapur Chhattisgarh – 494444	71.	State Bank of India Industrial Estate Branch Gwalior Madhya Pradesh – 474003
59.	State Bank of India Pondum Branch, Dantewada Chhattisgarh - 494111	72.	State Bank of India Mela Road branch Gwalior Madhya Pradesh – 474002
60.	State Bank of India Specialised Currency Administration Branch Byron Bazar, Raipur Chhattisgarh – 492001	73.	State Bank of India Pichhore Branch Picchore Shivpuri Madhya Pradesh – 473995
61.	State Bank of India Bansaguda Branch, Usoor, Bijapur Chhattisgarh - 494447	74.	State Bank of India Rambagh Colony Branch Gwalior Madhya Pradesh - -474002
62.	State Bank of India Rajim Branch Gariyaband Chhattisgarh - 493885	75.	State Bank of India Jayendraganj Branch Gwalior Madhya Pradesh – 474009
63.	State Bank of India Hatkara Branch, Bhanupratappur, Kanker Chhattisgarh - 494870	76.	State Bank of India Personal Banking Phoolbagh Branch Gwalior Madhya Pradesh – 474007
64.	State Bank of India Document Archival Centre, Urla, Raipur Chhattisgarh - 493221	77.	State Bank of India Dabra Branch Dabra, Gwalior Madhya Pradesh - 475110
65.	State Bank of India Hospital Road Branch Kharsia, Raigarh Chhattisgarh – 496661	78.	State Bank of India City Centre Branch Gwalior Madhya Pradesh – 474011
66.	State Bank of India Mahapalli Branch Jamgaon Road, Raigarh Chhattisgarh – 496001	79.	State Bank of India Agriculture Development Branch Datia Madhya Pradesh – 475661
67.	State Bank of India Small & Medium Enterprises Sakti Branch Sakti, Janjgir Champa Chhattisgarh – 495689	80.	State Bank of India Moti Mahal Branch Gwalior Madhya Pradesh – 474007
68.	State Bank of India Small & Medium Enterprises Ambikapur Branch Ambikapur, Surguja Chhattisgarh – 497001	81.	State Bank of India Morar Branch Gwalior Madhya Pradesh – 474006
69.	State Bank of India Datia Branch Datia Madhya Pradesh – 475661	82.	State Bank of India Seondha Branch Seondha Datia Madhya Pradesh – 475692
70.	State Bank of India Gwalior Branch Gwalior Madhya Pradesh – 474001	83.	State Bank of India G. R. Medical College Branch Gwalior Madhya Pradesh – 474009

- | | |
|---|---|
| 84. State Bank of India
Billaua Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 475001 | 97. State Bank of India
Bhitarvar Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 475220 |
| 85. State Bank of India
Karahiya Branch
Gwalior
Madhya Pradesh - 475220 | 98. State Bank of India
Tandon Complex Branch
Damoh
Madhya Pradesh – 470661 |
| 86. State Bank of India
Hastinapur Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 475002 | 99. State Bank of India
Sadgunwa Branch
Damoh
Madhya Pradesh – 470661 |
| 87. State Bank of India
Salon Bhitari Branch
Datia
Madhya Pradesh – 475336 | 100. State Bank of India
Ganesh Market Branch
Panna
Madhya Pradesh – 488001 |
| 88. State Bank of India
Uchad Branch
Datia
Madhya Pradesh - 475675 | 101. State Bank of India
Transport Nagar Branch
Transport Nagar
Gwalior
Madhya Pradesh – 474010 |
| 89. State Bank of India
Kulaith Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 474010 | 102. State Bank of India
New Collectorate Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 474011 |
| 90. State Bank of India
Mayur Market Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 474011 | 103. State Bank of India
Buzurg Dabra Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 475110 |
| 91. State Bank of India
B.S.F. Tekanpur Branch
Tekanpur
Gwalior
Madhya Pradesh – 475005 | 104. State Bank of India
Nai Sadak Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 474001 |
| 92. State Bank of India
Small and Medium
Enterprises Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 474001 | 105. State Bank of India
Old Gwalior Road Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 474003 |
| 93. State Bank of India
Collectorate Branch
Gwalior
Madhya Pradesh - 474001 | 106. State Bank of India
ITM University Campus Branch
ITM University,
Gwalior
Madhya Pradesh – 474001 |
| 94. State Bank of India
D.R.D.E. Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 474009 | 107. State Bank of India
Morar Cantt. Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 474006 |
| 95. State Bank of India
Airport Road Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 474002 | 108. State Bank of India
Medical Collage Branch
Datia
Madhya Pradesh – 475661 |
| 96. State Bank of India
Naya Bazar Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 474009 | 109. State Bank of India
Sbi Intouch Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 474011 |

- | | |
|---|--|
| 110 State Bank of India
Thatipur Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 474010 | 123 State Bank of India
Bhalka Branch
Datia
Madhya Pradesh – 475335 |
| 111 State Bank of India
Baradari Chouraha Morar Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 474006 | 124 State Bank of India
A F S Maharajpur Branch
Maharajpur
Gwalior
Madhya Pradesh – 474020 |
| 112 State Bank of India
Subhash Ganj Dabra Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 475110 | 125 State Bank of India
Gandhi Road Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 474002 |
| 113 State Bank of India
Patel Road Bhandar Branch
Datia
Madhya Pradesh – 475335 | 126 State Bank of India
Laxmiganj Grain Mandi Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 474001 |
| 114 State Bank of India
Small & Medium Enterprises Branch
Lashkar
Gwalior
Madhya Pradesh – 474001 | 127 State Bank of India
Patel Nagar Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 474011 |
| 115 State Bank of India
Kampoo Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 474009 | 128 State Bank of India
Huzrat Road Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 474009 |
| 116 State Bank of India
Main Road Bhitwar Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 475220 | 129 State Bank of India
Padav Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 474007 |
| 117 State Bank of India
Antri Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 475001 | 130 State Bank of India
Mohana Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 475330 |
| 118 State Bank of India
Hajira Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 474002 | 131 State Bank of India
Morena Branch
Morena
Madhya Pradesh – 476001 |
| 119 State Bank of India
Bichhodana Branch
Datia
Madhya Pradesh – 475335 | 132 State Bank of India
Sabalgarh Branch
Morena
Madhya Pradesh – 476229 |
| 120 State Bank of India
Gandhi Road Branch
Datia
Madhya Pradesh – 475661 | 133 State Bank of India
Bhind Branch
Bhind
Madhya Pradesh – 477001 |
| 121 State Bank of India
Ratwai (Parsen) Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 474005 | 134 State Bank of India
Agiculture Development Branch
Joura, Morena
Madhya Pradesh – 476221 |
| 122 State Bank of India
Alapur Branch
Gwalior
Madhya Pradesh – 474002 | 135 State Bank of India
Agiculture Development Branch
Sabalgarh
Morena
Madhya Pradesh – 476229 |

- | | |
|---|--|
| 136 State Bank of India
Banmore Branch
Morena
Madhya Pradesh - 476444 | 149 State Bank of India
Lahar Branch
Bhind
Madhya Pradesh – 477445 |
| 137 State Bank of India
Alampur Branch
Bhind
Madhya Pradesh – 477449 | 150 State Bank of India
Ambah Branch
Morena
Madhya Pradesh – 476111 |
| 138 State Bank of India
Jiwajiganj Mandi Branch
Jiwajiganj
Morena
Madhya Pradesh – 476001 | 151 State Bank of India
Kailaras Branch
Morena
Madhya Pradesh – 476224 |
| 139 State Bank of India
Jhundpura Branch
Morena
Madhya Pradesh – 476226 | 152 State Bank of India
Porsa Branch
Morena
Madhya Pradesh – 476115 |
| 140 State Bank of India
Thara Branch
Morena
Madhya Pradesh – 476117 | 153 State Bank of India
Mau Branch
Bhind
Madhya Pradesh – 474009 |
| 141 State Bank of India
Sarai Chola Branch
Morena
Madhya Pradesh – 476001 | 154 State Bank of India
Mihona Branch
Bhind
Madhya Pradesh – 477441 |
| 142 State Bank of India
Besaiya Branch
Morena
Madhya Pradesh – 476011 | 155 State Bank of India
Morena Tiraha Ambah Branch
Morena
Madhya Pradesh – 476111 |
| 143 State Bank of India
Mangrol Branch
Morena
Madhya Pradesh – 476229 | 156 State Bank of India
Joura (Morena) Branch
Morena
Madhya Pradesh – 476221 |
| 144 State Bank of India
Badagaon (Naoli) Branch
Morena
Madhya Pradesh - 476554 | 157 State Bank of India
Parade Chouraha Branch
Bhind
Madhya Pradesh - 477001 |
| 145 State Bank of India
Malanpur Industrial Area Branch
Bhind
Madhya Pradesh – 477117 | 158 State Bank of India
Mau Road Gohad Branch
Bhind
Madhya Pradesh – 477116 |
| 146 State Bank of India
Collectorate Bhind Branch
Collectorate Premises
Bhind
Madhya Pradesh – 477001 | 159 State Bank of India
Moh Road Mehgaon Branch
Bhind
Madhya Pradesh – 477557 |
| 147 State Bank of India
Gohad Branch
Bhind
Madhya Pradesh – 477117 | 160 State Bank of India
Bhind-Bhander Road Lahar Branch
Bhind
Madhya Pradesh - 477445 |
| 148 State Bank of India
Mehgaon Branch
Bhind
Madhya Pradesh – 477557 | 161 State Bank of India
M.S. Road Morena Branch
Morena
Madhya Pradesh – 476001 |
| | 162 State Bank of India
Rampur Kalan Branch |

Morena Madhya Pradesh – 476245	176 State Bank of India Niwari Branch Tikamgarh Madhya Pradesh – 472442
163 State Bank of India Sumaoli Branch Morena Madhya Pradesh – 476003	177 State Bank of India Agriculture Development Branch Chhatarpur Madhya Pradesh – 471001
164 State Bank of India Rampohari Branch Morena Madhya Pradesh - 476229	178 State Bank of India Orcha (Pratappura) Branch Tikamgarh Madhya Pradesh – 471201
165 State Bank of India Gata Branch Bhind Madhya Pradesh – 477557	179 State Bank of India Rajnagar Branch Chhatarpur Madhya Pradesh – 471625
166 State Bank of India Ajnar Branch Bhind Madhya Pradesh – 477415	180 State Bank of India Bada Malhera Branch Chhatarpur Madhya Pradesh – 471311
167 State Bank of India Kachnav Kalan Branch Bhind Madhya Pradesh – 477557	181 State Bank of India Baldeogarh Branch Tikamgarh Madhya Pradesh - 472111
168 State Bank of India Rayatpura Branch Bhind Madhya Pradesh – 477116	182 State Bank of India Buxwaha Branch Chhatarpur Madhya Pradesh – 471318
169 State Bank of India Lahar Road Branch Bhind Madhya Pradesh – 477001	183 State Bank of India Chandla Branch Chhatarpur Madhya Pradesh – 471525
170 State Bank of India Imli Chowk Branch Porsa, Morena Madhya Pradesh – 476115	184 State Bank of India Garhi Malhera Branch Chhatarpur Madhya Pradesh – 471411
171 State Bank of India Gandhi Marg Branch Kellaras, Morena Madhya Pradesh – 476224	185 State Bank of India Harpalpur Branch Chhatarpur Madhya Pradesh – 471111
172 State Bank of India Nowgong Branch Chhatarpur Madhya Pradesh – 471201	186 State Bank of India Jatara Branch Tikamgarh Madhya Pradesh – 472118
173 State Bank of India Chhatarpur Branch Chhatarpur Madhya Pradesh - 471001	187 State Bank of India Khajuraho Branch Chhatarpur Madhya Pradesh – 471606
174 State Bank of India Tikamgarh Branch Tikamgarh Madhya Pradesh – 472001	188 State Bank of India Londi Branch Chhatarpur Madhya Pradesh - 471515
175 State Bank of India Bijawar Branch Chhatarpur Madhya Pradesh – 471405	

189 State Bank of India Prothvipur Branch Tikamgarh Madhya Pradesh – 472336	Chhatarpur Madhya Pradesh – 471001
190 State Bank of India Satai Branch Chhatarpur Madhya Pradesh – 471408	203 State Bank of India Ghuwara Branch Chhatarpur Madhya Pradesh - 471313
191 State Bank of India Digoda Branch Tikamgarh Madhya Pradesh – 472331	204 State Bank of India Khargapur Branch Tikamgarh Madhya Pradesh – 472115
192 State Bank of India Palera Branch Tikamgarh Madhya Pradesh – 472221	205 State Bank of India Khora Branch Panna Madhya Pradesh – 488222
193 State Bank of India Gulganj Branch Chhatarpur Madhya Pradesh – 471301	206 State Bank of India Beni Sagar Panna Branch Panna Madhya Pradesh – 488001
194 State Bank of India S. M. E. Branch Chhatarpur Madhya Pradesh – 471001	207 State Bank of India Barigarh Branch Chhatarpur Madhya Pradesh – 471510
195 State Bank of India Badagaon Branch Tikamgarh Madhya Pradesh – 472010	208 State Bank of India Gaurihar Branch Chhatarpur Madhya Pradesh – 471516
196 State Bank of India Lidhora Branch Tikamgarh Madhya Pradesh - 472246	209 State Bank of India Nowgong City Branch Chhatarpur Madhya Pradesh – 471201
197 State Bank of India Parasaniya Branch Chhatarpur Madhya Pradesh – 471009	210 State Bank of India Hatwara Road branch Chhatarpur Madhya Pradesh – 471001
198 State Bank of India Rangoli Branch Chhatarpur Madhya Pradesh – 471408	211 State Bank of India Pili Kothi Road Branch Tikamgarh Madhya Pradesh – 472001
199 State Bank of India Tila Niwari (Puchhikarguwan) Branch Tikamgarh Madhya Pradesh – 472442	212 State Bank of India Panna Road Branch Chhatarpur Madhya Pradesh – 471001
200 State Bank of India Jewar Branch Tikamgarh Madhya Pradesh – 472331	213 State Bank of India Guna Branch Guna Madhya Pradesh – 473001
201 State Bank of India Collectorate Branch Tikamgarh Madhya Pradesh – 472001	214 State Bank of India Agriculture Development Branch Sarangpur, Rajgarh Madhya Pradesh - 465697
202 State Bank of India Chowk Bazar Branch	215 State Bank of India Agriculture Development Branch Khilchipur, Rajgarh Madhya Pradesh – 465679

- | | |
|--|---|
| 216 State Bank of India
Gail Complex Vijaipur Branch
Guna
Madhya Pradesh - 473112 | 229 State Bank of India
Suthaliya Branch
Rajgarh
Madhya Pradesh – 465677 |
| 217 State Bank of India
Bavrikhara (N. F. L. Complex) Branch
Guna
Madhya Pradesh – 473111 | 230 State Bank of India
Barkheda Gird Branch
Guna
Madhya Pradesh – 473249 |
| 218 State Bank of India
Badot Branch
Guna
Madhya Pradesh - 473001 | 231 State Bank of India
Machalpur Branch
Rajgarh
Madhya Pradesh – 465693 |
| 219 State Bank of India
Barsat Branch
Guna
Madhya Pradesh – 473287 | 232 State Bank of India
Khujner Branch
Rajgarh
Madhya Pradesh – 465687 |
| 220 State Bank of India
Rajgarh Branch
Rajgarh
Madhya Pradesh - 473335 | 233 State Bank of India
Udawat Ganj Branch
Narsinghgarh
Rajgarh
Madhya Pradesh – 465669 |
| 221 State Bank of India
Jeerapur Branch
Rajgarh
Madhya Pradesh – 465691 | 234 State Bank of India
Sarangpur Branch
Rajgarh
Madhya Pradesh – 465697 |
| 222 State Bank of India
Biaora Branch
Rajgarh
Madhya Pradesh – 465674 | 235 State Bank of India
Khilchipur branch
Rajgarh
Madhya Pradesh – 465769 |
| 223 State Bank of India
Narsinghgarh Branch
Rajgarh
Madhya Pradesh – 465669 | 236 State Bank of India
Rajmahal Branch
Rajgarh (Biaora)
Madhya Pradesh – 465661 |
| 224 State Bank of India
Binaganj Branch
Guna
Madhya Pradesh – 473118 | 237 State Bank of India
Govt. Business Branch
Guna
Madhya Pradesh – 473001 |
| 225 State Bank of India
Aron Branch
Guna
Madhya Pradesh – 473101 | 238 State Bank of India
Chachoda Branch
Guna
Madhya Pradesh – 473118 |
| 226 State Bank of India
Pachore Branch
Rajgarh
Madhya Pradesh – 465683 | 239 State Bank of India
Raghogarh Branch
Guna
Madhya Pradesh – 473226 |
| 227 State Bank of India
Jamner Branch
Guna
Madhya Pradesh – 473287 | 240 State Bank of India
Kumbhraj Branch
Guna
Madhya Pradesh – 473222 |
| 228 State Bank of India
Talen Branch
Rajgarh
Madhya Pradesh - 465680 | 241 State Bank of India
Jawahar Marg Aron Branch
Guna
Madhya Pradesh – 473101 |

- | | |
|---|--|
| 242 State Bank of India
Maksudangarh Branch
Guna
Madhya Pradesh – 473287 | Guna
Madhya Pradesh – 473001 |
| 243 State Bank of India
Ruthiai Branch
Guna
Madhya Pradesh - 473110 | 256 State Bank of India
Sadiakuwa Branch
Rajgarh
Madhya Pradesh – 465679 |
| 244 State Bank of India
Bamori Branch
Guna
Madhya Pradesh – 473105 | 257 State Bank of India
Collectorate Campus Guna Branch
Guna
Madhya Pradesh – 473001 |
| 245 State Bank of India
Old A. B. Road Biaora Branch
Rajgarh
Madhya Pradesh – 465661 | 258 State Bank of India
Panchayat Bhawan Jirapur Branch
Rajgarh
Madhya Pradesh – 465691 |
| 246 State Bank of India
Mayana Branch
Guna
Madhya Pradesh – 473233 | 259 State Bank of India
Kurawar Branch
Rajgarh
Madhya Pradesh - 465674 |
| 247 State Bank of India
Padhana Branch
Rajgarh
Madhya Pradesh – 465684 | 260 State Bank of India
Subhash Chowk Pachore Branch
Rajgarh
Madhya Pradesh – 465683 |
| 248 State Bank of India
Udankhedi Branch
Rajgarh
Madhya Pradesh – 465683 | 261 State Bank of India
Hat Road Guna Branch
Guna
Madhya Pradesh – 473001 |
| 249 State Bank of India
Pagara Branch
Guna
Madhya Pradesh – 473303 | 262 State Bank of India
Mandi Area Guna Branch
Guna
Madhya Pradesh – 473001 |
| 250 State Bank of India
Barkheda Hat Branch
Guna
Madhya Pradesh - 473101 | 263 State Bank of India
Boda Branch
Rajgarh
Madhya Pradesh - 465685 |
| 251 State Bank of India
Icklera Branch
Rajgarh
Madhya Pradesh – 465418 | 264 State Bank of India
Shivpuri Branch
Shivpuri
Madhya Pradesh – 473551 |
| 252 State Bank of India
NFL Vijaypur Branch
Guna
Madhya Pradesh – 473111 | 265 State Bank of India
Kolaras Branch
Shivpuri
Madhya Pradesh – 473770 |
| 253 State Bank of India
Parwaha Branch
Guna
Madhya Pradesh – 473105 | 266 State Bank of India
Sheopurkalan Branch
Sheopurkalan
Madhya Pradesh - 476337 |
| 254 State Bank of India
Phulkhedi Branch
Rajgarh
Madhya Pradesh – 465769 | 267 State Bank of India
Ashoknagar Branch
Ashoknagar
Madhya Pradesh - 473338 |
| 255 State Bank of India
Laloni Branch | 268 State Bank of India
Deharwara Branch
Shivpuri
Madhya Pradesh - 473774 |

- | | |
|--|--|
| 269 State Bank of India
Karera Branch
Shivpuri
Madhya Pradesh – 473660 | 282 State Bank of India
Chanderi Road Pichore Branch
Shivpuri
Madhya Pradesh – 473995 |
| 270 State Bank of India
Mungawali Branch
Ashoknagar
Madhya Pradesh – 473443 | 283 State Bank of India
Station Road Sheopurkalan Branch
Sheopurkalan
Madhya Pradesh - 476337 |
| 271 State Bank of India
Chanderi Branch
Ashoknagar
Madhya Pradesh - 473446 | 284 State Bank of India
Mandi Bijeypur Branch
Sheopurkalan
Madhya Pradesh – 476332 |
| 272 State Bank of India
Pichor Branch
Shivpuri
Madhya Pradesh – 473995 | 285 State Bank of India
Essagarh Branch
Ashoknagar
Madhya Pradesh – 473535 |
| 273 State Bank of India
Narwar Branch
Shivpuri
Madhya Pradesh - 473880 | 286 State Bank of India
Pohari Branch
Shivpuri
Madhya Pradesh – 473775 |
| 274 State Bank of India
Vijaypur Branch
Sheopurkalan
Madhya Pradesh – 476332 | 287 State Bank of India
Badarwas Branch
Shivpuri
Madhya Pradesh – 473558 |
| 275 State Bank of India
Personal Banking Branch
Shivpuri
Madhya Pradesh – 473551 | 288 State Bank of India
Gandhi Road Karera Branch
Shivpuri
Madhya Pradesh - 473665 |
| 276 State Bank of India
Magroni Branch
Shivpuri
Madhya Pradesh - 473880 | 289 State Bank of India
Main Bazar Narwar Branch
Shivpuri
Madhya Pradesh – 473880 |
| 277 State Bank of India
Delhi Darwaja
Chanderi Branch
Ashoknagar
Madhya Pradesh – 473446 | 290 State Bank of India
Gandhi Chowk Khaniadhana Branch
Shivpuri
Madhya Pradesh – 473990 |
| 278 State Bank of India
Station Road Branch
Ashoknagar
Madhya Pradesh – 473331 | 291 State Bank of India
Karhal Branch
Sheopurkalan
Madhya Pradesh - 476335 |
| 279 State Bank of India
City Branch
Mungaoli, Ashoknagar
Madhya Pradesh - 473443 | 292 State Bank of India
Baroda (Morena) Branch
Sheopurkalan
Madhya Pradesh – 476339 |
| 280 State Bank of India
Gurudwara Chowk
Shivpuri Branch
Shivpuri
Madhya Pradesh – 473551 | 293 State Bank of India
Lukwasa Branch
Shivpuri
Madhya Pradesh – 473588 |
| 281 State Bank of India
A. B. Road Kolarus Branch
Shivpuri
Madhya Pradesh – 473770 | 294 State Bank of India
Dinara Branch
Shivpuri
Madhya Pradesh – 473665 |
| | 295 State Bank of India
Rannod Branch |

Shivpuri Madhya Pradesh – 473781	309 State Bank of India Abhana Branch Damoh Madhya Pradesh – 470662
296 State Bank of India Pandola Branch Sheopurkalan Madhya Pradesh – 476339	310 State Bank of India Ajaigarh Branch Panna Madhya Pradesh – 488220
297 State Bank of India Kadwaya Branch Ashoknagar Madhya Pradesh – 473335	311 State Bank of India Amanganj Branch Panna Madhya Pradesh – 488441
298 State Bank of India Gaswani Branch Sheopurkalan Madhya Pradesh – 476333	312 State Bank of India Devendra Nagar Branch Panna Madhya Pradesh – 488333
299 State Bank of India Saraskhedhi Branch Ashoknagar Madhya Pradesh - 473335	313 State Bank of India Hindoria Branch Damoh Madhya Pradesh – 470771
300 State Bank of India Rehatwas Branch Ashoknagar Madhya Pradesh – 473440	314 State Bank of India Jabera Branch Damoh Madhya Pradesh – 470881
301 State Bank of India Onder Branch Ashoknagar Madhya Pradesh – 473443	315 State Bank of India Patera Branch Damoh Madhya Pradesh – 470772
302 State Bank of India Malhawani Branch Shivpuri Madhya Pradesh – 472995	316 State Bank of India Patharia (Damoh) Branch Damoh Madhya Pradesh – 470666
303 State Bank of India Shivpuri Newblock Branch Shivpuri Madhya Pradesh - 473551	317 State Bank of India Pawai Branch Panna Madhya Pradesh - 488446
304 State Bank of India Bairad Branch Shivpuri Madhya Pradesh – 473793	318 State Bank of India Tendukhera Damoh Madhya Pradesh – 470880
305 State Bank of India Damoh Branch Damoh Madhya Pradesh – 470661	319 State Bank of India Kakrahti Branch Panna Madhya Pradesh – 488059
306 State Bank of India Panna Branch Panna Madhya Pradesh – 488001	320 State Bank of India Saleha Branch Panna Madhya Pradesh – 488333
307 State Bank of India Hatta Branch Damoh Madhya Pradesh – 470775	321 State Bank of India Shahnagar Branch Panna Madhya Pradesh – 488448
308 State Bank of India Agriculture Development Branch Damoh Madhya Pradesh - 470661	

- | | |
|--|---|
| 322 State Bank of India
Damoh City Branch
Damoh
Madhya Pradesh – 470661 | 334 State Bank of India
Kindraho Branch
Damoh
Madhya Pradesh – 470666 |
| 323 State Bank of India
Batiagarh Branch
Damoh
Madhya Pradesh – 470673 | 335 State Bank of India
Deodongra Branch
Damoh
Madhya Pradesh - 470772 |
| 324 State Bank of India
Majhgawan Branch
Panna
Madhya Pradesh - 488220 | 336 State Bank of India
Sanga Branch
Damoh
Madhya Pradesh – 470880 |
| 325 State Bank of India
Semaria Branch
Panna
Madhya Pradesh – 488001 | 337 State Bank of India
Harduwahi Branch
Panna
Madhya Pradesh – 488050 |
| 326 State Bank of India
Hinotakalan Branch
Damoh
Madhya Pradesh – 470775 | 338 State Bank of India
Purena Branch
Panna
Madhya Pradesh – 488441 |
| 327 State Bank of India
Narsinghgarh (Damoh) Branch
Damoh
Madhya Pradesh – 470675 | 339 State Bank of India
Panna City Branch
Panna
Madhya Pradesh - 488001 |
| 328 State Bank of India
Raipura Panna Branch
Panna
Madhya Pradesh – 488442 | 340 State Bank of India
Muhandra Branch
Panna
Madhya Pradesh – 488442 |
| 329 State Bank of India
Futera Kalan Branch
Damoh
Madhya Pradesh – 470673 | 341 State Bank of India
Retail Asset Centralized Processing Centre
Gwalior
Madhya Pradesh - 474009 |
| 330 State Bank of India
Gunnaur Branch
Panna
Madhya Pradesh – 488442 | 342 State Bank of India
Centralised Clearing Processing Centre
Gwalior
Madhya Pradesh - 474001 |
| 331 State Bank of India
Patna Raja Branch
Damoh
Madhya Pradesh - 470901 | 343 State Bank of India
Small and Medium Enterprises Centre
Gwalior
Madhya Pradesh - 474011 |
| 332 State Bank of India
Khanderi Branch
Damoh
Madhya Pradesh – 470673 | 344 State Bank of India
Document Archival Centre
Gwalior
Madhya Pradesh – 474006 |
| 333 State Bank of India
Beera Branch
Panna
Madhya Pradesh – 488220 | 345 State Bank of India
Regional Business Office - 1
Gwalior
Madhya Pradesh – 474011 |
| | 346 State Bank of India
Regional Business Office - 2
Gwalior
Madhya Pradesh – 474011 |

347 State Bank of India
Regional Business Office
Shivpuri
Madhya Pradesh – 473551

348 State Bank of India
Regional Business Office
Damoh
Madhya Pradesh – 470661

349 State Bank of India
Regional Business Office

Guna
Madhya Pradesh – 473001

350 State Bank of India
Regional Business Office
Chhatarpur
Madhya Pradesh – 471001

351 State Bank of India
Administrative Office
Gwalior
Madhya Pradesh - 474009

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2019

का.आ. 528.—केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (1987 में यथा संशोधित) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में भारतीय स्टेट बैंक के सूचीबद्ध कार्यालयों/शाखाओं को अधिसूचित करती है, जिनके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है : -

क्र.सं.	बैंक का नाम	शाखाओं/कार्यालयों की संख्या
1.	भारतीय स्टेट बैंक	862
	कुल	862

[फा. सं. 11016/2/2017-हिं.(अधि.)]

शैलेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने वाले कार्यालयों की सूची

- | | |
|--|---|
| <p>1 भारतीय स्टेट बैंक,
प्रशासनिक कार्यालय,
सैक्टर-5, पंचकुला,
जिला पंचकुला
हरियाणा पिन 134109</p> | <p>5 भारतीय स्टेट बैंक,
नजदीक वाटर टैंक,
सकेतड़ी, पंचकुला, जिला पंचकुला
हरियाणा पिन 134109</p> |
| <p>2 भारतीय स्टेट बैंक,
चंडीगढ़ नारायण गढ़
बाईपास रोड़बरवाला
जिला पंचकुला
हरियाणा पिन 134118</p> | <p>6 भारतीय स्टेट बैंक,
सैक्टर 4, पंचकुला,
जिला पंचकुला
हरियाणा पिन 134109</p> |
| <p>3 भारतीय स्टेट बैंक,
सैक्टर-6, पंचकुला
जिला पंचकुला
हरियाणा पिन 134109</p> | <p>7 भारतीय स्टेट बैंक,
बरवाला रोड़, रामगढ़, पंचकुला
जिला पंचकुला
हरियाणा पिन 134118</p> |
| <p>4 भारतीय स्टेट बैंक,
एन आर डबल्यू कालका,
जिला पंचकुला
हरियाणा पिन 133302</p> | <p>8 भारतीय स्टेट बैंक,
नजदीक पुलिस स्टेशन,
मेन बाज़ार, रायपुर रानी
जिला पंचकुला
हरियाणा पिन 134204</p> |

- | | |
|--|---|
| 9 भारतीय स्टेट बैंक,
वेस्टर्न कमांड मुख्यालय,
नजदीक मेन कैटीन
चंडीमंदिर छावनी
जिला पंचकुला
हरियाणा पिन 134109 | जिला पंचकुला
हरियाणा पिन 134204 |
| 10 भारतीय स्टेट बैंक,
रामगढ़ रोड, कालका
जिला पंचकुला
हरियाणा पिन 133302 | 17 भारतीय स्टेट बैंक
एससीओ 11,
सैक्टर-15, पंचकुला
जिला पंचकुला
हरियाणा पिन 134109 |
| 11 भारतीय स्टेट बैंक,
सैक्टर-21, पंचकुला
जिला पंचकुला
हरियाणा पिन 134109 | 18 भारतीय स्टेट बैंक,
एससीओ 87-88,
एमडीसी स्वस्तिक विहार,
सैक्टर-5, पंचकुला,
जिला पंचकुला
हरियाणा पिन 134109 |
| 12 भारतीय स्टेट बैंक,
एससीओ 47
नजदीक खुशी ट्रेड्स,
सैक्टर-11, पंचकुला
जिला पंचकुला
हरियाणा पिन 134109 | 19 भारतीय स्टेट बैंक
पपलोहा तहसील कालका
जिला पंचकुला
हरियाणा पिन 134109 |
| 13 भारतीय स्टेट बैंक,
भा.स्टे.बैंक इनटच,
सैक्टर 20 पंचकुला
जिला पंचकुला
हरियाणा पिन 134109 | 20 भारतीय स्टेट बैंक,
एचवीपीएनएल बिल्डिंग,
शक्ति भवन, पंचकुला
जिला पंचकुला
हरियाणा पिन 134109 |
| 14 भारतीय स्टेट बैंक,
कोट मट्टावाला
जिला पंचकुला
हरियाणा पिन 134204 | 21 भारतीय स्टेट बैंक
हुडा, सैक्टर-9 अम्बाला
जिला अम्बाला,
हरियाणा पिन – 132118 |
| 15 भारतीय स्टेट बैंक
लघु सचिवालय सैक्टर-1, पंचकुला
जिला पंचकुला
हरियाणा पिन 134109 | 22 भारतीय स्टेट बैंक
धूलकोट, अम्बाला शहर
जिला अम्बाला,
हरियाणा पिन – 134002 |
| 16 भारतीय स्टेट बैंक
नजदीक बस स्टैंड,
बरोटीवाला रोड, मारांवाला | 23 भारतीय स्टेट बैंक, 724,
एस ए जैन कॉलेज,
अम्बाला शहर
जिला अम्बाला,
हरियाणा पिन – 134002 |

- | | |
|--|---|
| <p>24 भारतीय स्टेट बैंक,
सढौरारोड,नारायण गढ
जिला पंचकूला,
हरियाणा पिन – 134203</p> <p>25 भारतीय स्टेट बैंक
मकान नंबर 2128-29, ब्लॉक-2,
स्पार्टू रोड, अम्बाला शहर
जिला अम्बाला,
हरियाणा पिन – 132118</p> <p>26 भारतीय स्टेट बैंक,
155, रेलवेरोड,
क्लोथ मार्केट अम्बाला शहर
जिला अम्बाला,
हरियाणा पिन – 134002</p> <p>27 भारतीय स्टेट बैंक
भा.स्टे.बैंक इन्टच,
डीएसएस 108/109,
सैक्टर -7 अम्बाला शहर
जिला अम्बाला,
हरियाणा पिन – 134003</p> <p>28 भारतीय स्टेट बैंक,
एससीओ 80,
सैक्टर-12, पंचकुला
जिला अम्बाला,
हरियाणा पिन – 134109</p> <p>29 भारतीय स्टेट बैंक
कांसापुर, नजदीक बिजली बोर्ड,
गाँव कांसापुर तहसील जगाधरी,
जिला यमुनानगर
हरियाणा पिन 135001</p> <p>30 भारतीय स्टेट बैंक,
नजदीक रॉयल फिल्लिंग स्टेशन,
गाँव रसूलपुर,
जिला यमुनानगर
हरियाणा पिन – 133204</p> | <p>31 भारतीय स्टेट बैंक,
नजदीक रिलायंस टावर,खरवां
जिला यमुनानगर
हरियाणा पिन – 135003</p> <p>32 भारतीय स्टेट बैंक
लघु सचिवालय कॉम्प्लेक्स,जगाधरी
जिला यमुनानगर
हरियाणा पिन – 135003</p> <p>33 भारतीय स्टेट बैंक
मुसिंबले(मुसलमानन)
नजदीक हरियाणा ग्रामीण बैंक,
जिला यमुनानगर
हरियाणा पिन – 135003</p> <p>34 भारतीय स्टेट बैंक
बबूका रोड,बबूका चौक, रादौर
जिला यमुनानगर
हरियाणा पिन – 135133</p> <p>35 भारतीय स्टेट बैंक
नजदीकबस स्टैंड, सढौरा
जिला यमुनानगर
हरियाणा पिन – 133204</p> <p>36 भारतीय स्टेट बैंक,
संत पूरा, यमुनानगर,
जिला यमुनानगर
हरियाणा पिन – 135001</p> <p>37 भारतीय स्टेट बैंक
नजदीक टेलीफोन एक्स्चेंज,यमुना नगर
जिला यमुनानगर
हरियाणा पिन– 135001</p> <p>38 भारतीय स्टेट बैंक
एसजीएनके हाई स्कूल
जगाधरी
जिला यमुनानगर
हरियाणा पिन – 135003</p> <p>39 भारतीय स्टेट बैंक
एन.आर.डबल्यू.जगाधरी
जिला यमुनानगर
हरियाणा पिन – 135003</p> |
|--|---|

- | | | |
|----|---|--|
| 40 | भारतीय स्टेट बैंक
गाँव एवं डाक खाना हरनोल
तहसील जगाधरी,
जिला यमुनानगर
हरियाणा पिन – 135002 | जिला यमुनानगर
हरियाणा पिन – 135001 |
| 41 | भारतीय स्टेट बैंक
तेजलीगाँव एवं डाक खानातेजली,
तहसील जगाधरी,
जिला यमुनानगर
हरियाणा पिन – 135001 | 49 भारतीय स्टेट बैंक
औद्योगिक क्षेत्र,
नजदीकबस स्टैंड,
यमुनानगर
जिला यमुनानगर
हरियाणा पिन – 135001 |
| 42 | भारतीय स्टेट बैंक
यमुनानगर रोड, छछरौली जिला यमुनानगर
हरियाणा पिन – 135021 | 50 भारतीय स्टेट बैंक
आर्य गर्ल्स कॉलेज
अम्बाला छावनी जिला अंबाला
हरियाणा पिन 134001 |
| 43 | भारतीय स्टेट बैंक
खिजराबाद
जिला यमुनानगर
हरियाणा पिन – 135003 | 51 भारतीय स्टेट बैंक,
अंदरवाले गुरद्वारे के सामने, शाहपुर
जिला – अम्बाला
हरियाणा पिन 133004 |
| 44 | भारतीय स्टेट बैंक
कृषि विकास शाखा
जगाधरी
जिला यमुनानगर
हरियाणा पिन – 135003 | 52 भारतीय स्टेट बैंक,
प्लॉट नंबर 1234 एबी,
रेडिश रैस्टोरेंट के सामने,
नारायण गढ़ रोड,
शहजादपुर
जिला – अम्बाला
हरियाणा पिन 134002 |
| 45 | भारतीय स्टेट बैंक
मुस्तफाबाद
जिला यमुनानगर
हरियाणा पिन – 133102 | 53 भारतीय स्टेट बैंक
फूटबाल चौक सदर बाज़ार, अम्बाला
जिला – अम्बाला
हरियाणा पिन 133001 |
| 46 | भारतीय स्टेट बैंक
औद्योगिक क्षेत्र शाखा, यमुनानगर
जिला यमुनानगर
हरियाणा पिन – 135001 | 54 भारतीय स्टेट बैंक
नजदीकजैन मंदिर,
रेलवेरोड, बराड़ा
जिला – अम्बाला
हरियाणा पिन 133201 |
| 47 | भारतीय स्टेट बैंक
रेलवेरोड, यमुनानगर
जिला यमुनानगर
हरियाणा पिन – 135001 | 55 भारतीय स्टेट बैंक
मेनचौक शहजादपुर रोड, साहा
जिला – अम्बाला
हरियाणा पिन 133104 |
| 48 | भारतीय स्टेट बैंक
डी-40, एस एम एरिया,
यमुनानगर | |

- | | |
|--|---|
| <p>56 भारतीय स्टेट बैंक
सदर बाज़ार, निकोलसनरोड,
अम्बाला छावनी
जिला – अम्बाला
हरियाणापिन 133001</p> | <p>सैक्टर-13 मार्केट,
जिला कुरुक्षेत्र
हरियाणा पिन 132118</p> |
| <p>57 भारतीय स्टेट बैंक
हाउसिंग बोर्डकालोनी,
अम्बाला छावनी
जिला – अम्बाला
हरियाणा पिन 133001</p> | <p>64 भारतीय स्टेट बैंक
पावर हाउस, निसंग
जिला करनाल,
हरियाणा पिन-132001</p> |
| <p>58 भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय, क्षेत्र-2,
नजदीक होटल पल्लवी
पंचकुला हरियाणा पिन 134109</p> | <p>65 भारतीय स्टेट बैंक,
46, न्यूग्रेन मार्केट, तरावड़ी
जिला करनाल,
हरियाणा पिन – 132116</p> |
| <p>59 भारतीय स्टेट बैंक
अधोयागाँव एवं डाक खाना अधोया
जिला कुरुक्षेत्र
हरियाणा पिन 132118</p> | <p>66 भारतीय स्टेट बैंक,
एनजीएम, कुरुक्षेत्र
जिला कुरुक्षेत्र
हरियाणा पिन 136119</p> |
| <p>60 भारतीय स्टेट बैंक,
एससीओ 68, हुडा शहरीइस्टेट,
सैक्टर-17, कुरुक्षेत्र,
जिला कुरुक्षेत्र
हरियाणा पिन 132118</p> | <p>67 भारतीय स्टेट बैंक,
गाँव एवं डाक खाना भोर सैदां,
तहसील पीहेवा
जिला कुरुक्षेत्र,
हरियाणा पिन – 136119</p> |
| <p>61 भारतीय स्टेट बैंक
भा.स्टे.बैंकइन्टच कुरुक्षेत्र,
एससीएफ़ 41, सैक्टर-13 मार्केट,
जिला कुरुक्षेत्र
हरियाणा पिन 132118</p> | <p>68 भारतीय स्टेट बैंक
यमुना नगररोड,
पिपलीजिला कुरुक्षेत्र
हरियाणापिन 131189</p> |
| <p>62 भारतीय स्टेट बैंक,
एनएच -1,
आदेश अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज, मोहरी
तहसील शाहबाद मारकंडा,
जिला कुरुक्षेत्र
हरियाणा पिन – 136135</p> | <p>69 भारतीय स्टेट बैंक
दाऊमाजरा,
तहसील शाहबाद मारकंडा
जिला कुरुक्षेत्र
हरियाणा पिन – 136135</p> |
| <p>63 भारतीय स्टेट बैंक,
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-3,</p> | <p>70 भारतीय स्टेट बैंक,
नजदीक रोटरी चौक,
झांसारोड़, थानेसर
जिला कुरुक्षेत्र
हरियाणापिन 136118</p> |

- 71 भारतीय स्टेट बैंक,
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-4,
नजदीक पायल नर्सिंग होम,
पिपली रोड, कुरुक्षेत्र,
जिला कुरुक्षेत्र
हरियाणा पिन – 136118
- 72 भारतीय स्टेट बैंक,
शॉप नंबर 54, एन.जी.एम,
रोहतक रोड, जींद
जिला जींद,
हरियाणा पिन- 125102
- 73 भारतीय स्टेट बैंक,
कामच खेड़ा,
डाक खाना मालवी,
तहसील जुलाना
जिला जींद,
हरियाणा पिन – 126101
- 74 भारतीय स्टेट बैंक,
मेन रोड,
खेड़ी शेर खान मोड़, लोधर,
जिला जींद,
हरियाणा – पिन 126115
- 75 भारतीय स्टेट बैंक,
जामनी रोड, पिलूखेड़ा,
तहसील सफीदों,
जिला जींद,
हरियाणा पिन – 126113
- 76 भारतीय स्टेट बैंक,
कृषि विकास शाखा,
पटियाला रोड, नरवाना
जिला जींद
हरियाणा पिन – 126116
- 77 भारतीय स्टेट बैंक,
गाँव एवं डाक खाना,
बोहटवाला, जिला जींद,
हरियाणा पिन – 126102
- 78 भारतीय स्टेट बैंक,
एससीएफ़ 32, सैक्टर “ए”
नजदीक जाट धर्मशाला, जींद,
जिला जींद
हरियाणा पिन – 126102
- 79 भारतीय स्टेट बैंक,
लक्ष्मी जिंदल कॉम्प्लेक्स,
अनाज मंडीरोड़,
गोयल नर्सिंग होम के सामने,
चीका, जिला कैथल
हरियाणा पिन – 136034
- 80 भारतीय स्टेट बैंक,
खरकान, ग्राम पंचायत भवन के सामने,
बस स्टैंड कैथल, चीका रोड,
जिला कैथल
हरियाणा पिन – 136035
- 81 भारतीय स्टेट बैंक
जियोंग,
तहसील एवं जिला कैथल,
हरियाणा पिन – 136027
- 82 भारतीय स्टेट बैंक, खरकरा
तहसील गुहला चीका,
जिला कैथल
हरियाणा पिन – 136034
- 83 भारतीय स्टेट बैंक,
कृषि विकास शाखाकैथल,
जिला कैथल
हरियाणा पिन – 136034
- 84 भारतीय स्टेट बैंक,
1057/11, मरवाह कॉम्प्लेक्स,
कुरुक्षेत्ररोड़, कैथल जिला कैथल
हरियाणा पिन – 136034

- 85 भारतीय स्टेट बैंक,
एससीओ 11, सैक्टर-3,
एचएसआईडीसी, करनाल
जिला करनाल,
हरियाणा पिन 132001
- 86 भारतीय स्टेट बैंक,
छोटी मार्केट, मॉडलटाउन, करनाल,
जिला करनाल,
हरियाणा पिन 132001
- 87 भारतीय स्टेट बैंक
रेलवेरोड, करनाल,
जिला करनाल,
हरियाणा पिन 132001
- 88 भारतीय स्टेट बैंक
शॉपिंगकॉम्प्लेक्स,
सैक्टर-12, करनाल,
जिला करनाल,
हरियाणा पिन 132001
- 89 भारतीय स्टेट बैंक
भा.स्टे.बैंकइन्टच शाखा, एससीओ 95,
सैक्टर 7, हुडा मार्केट, करनाल,
जिला करनाल,
हरियाणा पिन 132001
- 90 भारतीय स्टेट बैंक
लघु सचिवालय,
बहोली रोड,
समालखा,
जिला पानीपत
हरियाणा पिन – 132101
- 91 भारतीय स्टेट बैंक
वैयक्तिक बैंकिंगशाखा,
पानीपत,
जिला पानीपत
हरियाणा पिन – 132101
- 92 भारतीय स्टेट बैंक गोहानारोड,
इसराना, पोलिस स्टेशन के सामने,
इसराना जिला पानीपत
हरियाणा पिन - 132107
- 93 भारतीय स्टेट बैंक
सनौलीरोड,
हैदराबादी अस्पताल के सामने,
पानीपत, जिला पानीपत
हरियाणा पिन – 132103
- 94 भारतीय स्टेट बैंक,
प्रथम तल, माया प्रेम टावर,
नजदीक जगदंबा अस्पताल,
कलंधरी गेट, करनाल
जिला करनाल
हरियाणा पिन – 132101
- 95 भारतीय स्टेट बैंक,
एसएमई तरावड़ीमेन रोड,
तरावड़ी, तहसील नीलोखेड़ी
जिला करनाल
हरियाणा पिन – 132116
- 96 भारतीय स्टेट बैंक
रेसमेकयमुनानगर,
औद्योगिक क्षेत्र, यमुना नगर
हरियाणा पिन – 144001
- 97 भारतीय स्टेट बैंक
रेसमेकपंचकुला
ब्लॉक-1, सैक्टर 5, पंचकुला
जिला पंचकुला
हरियाणा पिन – 134109
- 98 भारतीय स्टेट बैंक
सीपीपीसी चडीगढ़
ब्लॉक-1, सैक्टर 5, पंचकुला
जिला पंचकुला
हरियाणा पिन – 134109
- 99 भारतीय स्टेट बैंक
रेसमेक करनालरेलवे रोड,

	करनाल, जिला करनाल हरियाणा पिन 132101	110	भारतीय स्टेट बैंक सैक्टर- 30 सी चंडीगढ़-160030
100	भारतीय स्टेट बैंक अटावा चंडीगढ़-160036	111	भारतीय स्टेट बैंक सैक्टर-31सी चंडीगढ़-160030
101	भारतीय स्टेट बैंक एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़-160003	112	भारतीय स्टेट बैंक सैक्टर-34 ए चंडीगढ़-160022
102	भारतीय स्टेट बैंक हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़-160001	113	भारतीय स्टेट बैंक सैक्टर-41 चंडीगढ़-160055
103	भारतीय स्टेट बैंक हाई ग्राउंड, एअर फोर्स स्टेशन चंडीगढ़-160003	114	भारतीय स्टेट बैंक विशेषीकृत व्यक्ति बैंकिंग शाखा चंडीगढ़-160017
104	भारतीय स्टेट बैंक इंडस्ट्रीयल एरिया- II (रामदरबार) चंडीगढ़-160002	115	भारतीय स्टेट बैंक ट्रेजरी शाखा, सैक्टर-17बी चंडीगढ़-160017
105	भारतीय स्टेट बैंक इंडस्ट्रीयल एस्टेट चंडीगढ़-160002	116	भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा, होशियारपुर पंजाब-146001
106	भारतीय स्टेट बैंक अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.), शाखा सैक्टर-17, चंडीगढ़-160017	117	भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा, मोरिंडा जिला: रोपड़, पंजाब-140101
107	भारतीय स्टेट बैंक पंजाब इंजीनियरिंग कालेज चंडीगढ़-160012	118	भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा, समुंदरा जिला- होशियारपुर, पंजाब-144532
108	भारतीय स्टेट बैंक सैक्टर-22 सी चंडीगढ़-160022	119	भारतीय स्टेट बैंक एयरफोर्स स्टेशन, पठानकोट पंजाब-145001
109	भारतीय स्टेट बैंक सैक्टर-23 सी चंडीगढ़-160023	120	भारतीय स्टेट बैंक बटाला जिला- गुरदासपुर पंजाब-143505

- | | |
|---|---|
| <p>121 भारतीय स्टेट बैंक
भट्टियाँ
जिला- गुरदासपुर
पंजाब-143517</p> | <p>130 भारतीय स्टेट बैंक
दुनेरा
जिला-गुरदासपुर
पंजाब-145022</p> |
| <p>122 भारतीय स्टेट बैंक
बुंगल
जिला- पठानकोट
पंजाब-145001</p> | <p>131 भारतीय स्टेट बैंक
घरोटा
जिला- गुरदासपुर
पंजाब-143533</p> |
| <p>123 भारतीय स्टेट बैंक
चब्बेवाल
जिला- होशियारपुर
पंजाब-146102</p> | <p>132 भारतीय स्टेट बैंक
टिबरी रोड, गुरदासपुर,
पंजाब-143521</p> |
| <p>124 भारतीय स्टेट बैंक
डलहौजी रोड, पठानकोट
पंजाब-145001</p> | <p>133 भारतीय स्टेट बैंक
झरौली
जिला- गुरदासपुर
पंजाब-143533</p> |
| <p>125 भारतीय स्टेट बैंक
दसूहा
जिला- होशियारपुर
पंजाब-144205</p> | <p>134 भारतीय स्टेट बैंक
जोगियाल
जिला- गुरदासपुर
पंजाब-143029</p> |
| <p>126 भारतीय स्टेट बैंक
धामियां
जिला- होशियारपुर
पंजाब-144221</p> | <p>135 भारतीय स्टेट बैंक
माधोपुर
जिला- गुरदासपुर
पंजाब-145024</p> |
| <p>127 भारतीय स्टेट बैंक
धार कलां
जिला-गुरदासपुर
पंजाब-145021</p> | <p>136 भारतीय स्टेट बैंक
मंडी एरिया,
होशियारपुर
पंजाब-146001</p> |
| <p>128 भारतीय स्टेट बैंक
धारीवाल
जिला-गुरदासपुर
पंजाब-143519</p> | <p>137 भारतीय स्टेट बैंक
मनसूरपुर
जिला- होशियारपुर
पंजाब-144211</p> |
| <p>129 भारतीय स्टेट बैंक
दीना नगर
जिला-गुरदासपुर
पंजाब-143531</p> | <p>138 भारतीय स्टेट बैंक
मटौर
जिला- मोहाली
पंजाब-160071</p> |

- | | |
|--|--|
| 139 भारतीय स्टेट बैंक
एस.ए.एस.नगर, मोहाली
पंजाब -160055 | 149 भारतीय स्टेट बैंक
एस.एस.आई.शाखा, मोहाली
पंजाब -160051 |
| 140 भारतीय स्टेट बैंक
मुकेरियां
जिला- होशियारपुर
पंजाब-144211 | 150 भारतीय स्टेट बैंक
सुजानपुर
जिला गुरदासपुर
पंजाब-145023 |
| 141 भारतीय स्टेट बैंक
नलवा ब्रिज पठानकोट
पंजाब-145025 | 151 भारतीय स्टेट बैंक
टांडा उड़मुड़
जिला- होशियारपुर
पंजाब-144204 |
| 142 भारतीय स्टेट बैंक
नंगल भूर
जिला- गुरदासपुर
पंजाब-145101 | 152 भारतीय स्टेट बैंक
टिबड़ी जिला- गुरदासपुर
पंजाब-143530 |
| 143 भारतीय स्टेट बैंक
पंडोरी महंता
जिला- गुरदासपुर
पंजाब-143531 | 153 भारतीय स्टेट बैंक
जीरकपुर जिला- मोहाली
पंजाब-140603 |
| 144 भारतीय स्टेट बैंक
पठानकोट
पंजाब -145001 | 154 भारतीय स्टेट बैंक
तलवाड़ा टाउनशिप
जिला- होशियारपुर
पंजाब-144216 |
| 145 भारतीय स्टेट बैंक
कादियां
जिला- गुरदासपुर
पंजाब-143516 | 155 भारतीय स्टेट बैंक
आंचलिक कार्यालय
एस सी ओ 101-107
सेक्टर -17 बी
चंडीगढ़-160017 |
| 146 भारतीय स्टेट बैंक
रोपड़
पंजाब-140001 | 156 भारतीय स्टेट बैंक
कॉलेज रोड , गुरदासपुर
पंजाब-143521 |
| 147 भारतीय स्टेट बैंक
शिकार जिला- गुरदासपुर
पंजाब-143505 | 157 भारतीय स्टेट बैंक
मसुन, पठानकोट
पंजाब-145001 |
| 148 भारतीय स्टेट बैंक
विशेषीकृत आवासीय ऋण शाखा,
मोहाली
पंजाब-160062 | 158 भारतीय स्टेट बैंक
गुरदासपुर रोड, पठानकोट
पंजाब-145001 |

- | | |
|--|---|
| <p>159 भारतीय स्टेट बैंक
सी.ए.सी, मुख्य शाखा बिल्डिंग
ढांगु रोड, पठानकोट
पंजाब - 145001</p> <p>160 भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय
ढांगु रोड, पठानकोट
पंजाब- 145001</p> <p>161 भारतीय स्टेट बैंक
सैक्टर -40 सी,
चंडीगढ़- 160036</p> <p>162 भारतीय स्टेट बैंक
सैक्टर - 68, मोहाली
जिला : मोहाली
पंजाब-160071</p> <p>163 भारतीय स्टेट बैंक
रेलवे रोड, बलटाना
जिला : मोहाली
पंजाब-140604</p> <p>164 भारतीय स्टेट बैंक
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैम्पस, खरड
जिला : मोहाली
पंजाब-140413</p> <p>165 भारतीय स्टेट बैंक
सी.ए.सी, सैक्टर – 7 सी
चंडीगढ़-160007</p> <p>166 भारतीय स्टेट बैंक
यू.आई.ई.टी
सैक्टर-25, चंडीगढ़
पिन-160014</p> <p>167 भारतीय स्टेट बैंक
मेन रोड, टांडा
पंजाब-144204</p> | <p>168 भारतीय स्टेट बैंक
बेला चौक, रोपड़
पंजाब-140001</p> <p>169 भारतीय स्टेट बैंक
झंझरी
एस.ए.एस.नगर, मोहाली
पंजाब-140307</p> <p>170 भारतीय स्टेट बैंक
बी.आई.पी.रोड,
जीरकपुर
पंजाब-140603</p> <p>171 भारतीय स्टेट बैंक
फेज़-VI
एस.ए.एस.नगर, मोहाली
पंजाब-160055</p> <p>172 भारतीय स्टेट बैंक
सैक्टर- 38
चंडीगढ़-160036</p> <p>173 भारतीय स्टेट बैंक
फेज़-XI
एस.ए.एस.नगर, मोहाली
पंजाब-160065</p> <p>174 भारतीय स्टेट बैंक
नूरपुरबेदी, जिला रोपड़
पंजाब-140117</p> <p>175 भारतीय स्टेट बैंक
भंगाला, जिला- होशियारपुर
पंजाब-144306</p> <p>176 भारतीय स्टेट बैंक
हाजीपुर, जिला- होशियारपुर
पंजाब-144221</p> <p>177 भारतीय स्टेट बैंक
तारागढ़, जिला- गुरदासपुर
पंजाब-143534</p> |
|--|---|

- | | | |
|-----|---|--|
| 178 | भारतीय स्टेट बैंक
सैली रोड, पठानकोट
पंजाब-145001 | सैक्टर- 7 सी
चंडीगढ़-160030 |
| 179 | भारतीय स्टेट बैंक
एस.सी.ओ 69, सैक्टर-32 सी
चंडीगढ़-160031 | 189 भारतीय स्टेट बैंक
एससीओ 206-207,
सैक्टर-34 ए
चंडीगढ़-160030 |
| 180 | भारतीय स्टेट बैंक
इंटच ब्रांच, इलान्ते मॉल
चंडीगढ़-160002 | 190 भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय,
चंडीगढ़-2
सैक्टर-8 सी
चंडीगढ़-160017 |
| 181 | भारतीय स्टेट बैंक
एस.सी.ओ 47, सैक्टर-47 डी
चंडीगढ़-160047 | 191 भारतीय स्टेट बैंक
इंटच ब्रांच, सेक्टर-22 सी
चंडीगढ़-160022 |
| 182 | भारतीय स्टेट बैंक
सैक्टर- 33 डी
चंडीगढ़-160002 | 192 भारतीय स्टेट बैंक
चंडीगढ़ पुराना कोर्ट
सैक्टर- 17चंडीगढ़-160017 |
| 183 | भारतीय स्टेट बैंक
सैक्टर-29
चंडीगढ़-160002 | 193 भारतीय स्टेट बैंक
मलोया
चंडीगढ़-160017 |
| 184 | भारतीय स्टेट बैंक
सैक्टर- 20 डी
चंडीगढ़-160020 | 194 भारतीय स्टेट बैंक
शैला खुर्द
जिला- होशियारपुर
पंजाब- 144529 |
| 185 | भारतीय स्टेट बैंक
सैक्टर-44 सी
चंडीगढ़-160012 | 195 भारतीय स्टेट बैंक
भुंगा
जिला- होशियारपुर
पंजाब- 144529 |
| 186 | भारतीय स्टेट बैंक
रायपुर कलां
चंडीगढ़-160022 | 196 भारतीय स्टेट बैंक
खुड्डा
जिला- होशियारपुर
पंजाब- 144305 |
| 187 | भारतीय स्टेट बैंक
ट्रिब्यून कॉम्प्लेक्स,
सैक्टर- 29
चंडीगढ़-160023 | 197 भारतीय स्टेट बैंक
हरसे मानसर |
| 188 | भारतीय स्टेट बैंक
बूथ नंबर 117-118, | |

	जिला- होशियारपुर पंजाब- 144306	206	भारतीय स्टेट बैंक शेख नेशनल कॉलेज, बंगा जिला- नवांशहर पंजाब- 144505
198	भारतीय स्टेट बैंक नेहरू गेट, नवांशहर दोईबा जिला- नवांशहर पंजाब- 144514	207	भारतीय स्टेट बैंक बजरूर जिला- रोपड़ पंजाब- 140119
199	भारतीय स्टेट बैंक बंगा जिला- नवांशहर पंजाब- 144505	208	भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय रोपड़, क्षेत्र -4, सेक्टर-8 चंडीगढ़- 160017
200	भारतीय स्टेट बैंक काहमा जिला- गुरदासपुर पंजाब- 144512	209	भारतीय स्टेट बैंक फेज- VIII, मोहाली पंजाब- 160062
201	भारतीय स्टेट बैंक नौरा जिला- नवांशहर पंजाब- 144508	210	भारतीय स्टेट बैंक फेज-IX, मोहाली पंजाब- 160062
202	भारतीय स्टेट बैंक औड़ जिला- नवांशहर पंजाब- 144416	211	भारतीय स्टेट बैंक फेज- 3 बी 2, मोहाली पंजाब- 160059
203	भारतीय स्टेट बैंक बेहराम जिला- नवांशहर पंजाब- 144505	212	भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई इंटच शाखा, जीरकपुर पंजाब- 160059
204	भारतीय स्टेट बैंक एनआरआई शाखा, नवांशहर जिला- नवांशहर पंजाब- 144505	213	भारतीय स्टेट बैंक पीटीएल चौक, सैक्टर-59, मोहाली पंजाब- 160059
205	भारतीय स्टेट बैंक एनआरआई शाखा, बंगा जिला- नवांशहर पंजाब- 144505	214	भारतीय स्टेट बैंक एससीओ 4-5 फेज-II, मोहाली पंजाब- 160068

- | | |
|---|---|
| <p>215 भारतीय स्टेट बैंक
चंडीगढ़ रोड, खरड
जिला-मोहाली
पंजाब- 140301</p> | <p>224 भारतीय स्टेट बैंक
बीसीइटी बरयार
जिला- गुरदासपुर
पंजाब- 143521</p> |
| <p>216 भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय, क्षेत्र- 5
सेक्टर-68, मोहाली
पंजाब- 160062</p> | <p>225 भारतीय स्टेट बैंक
खोजकी चक
जिला- पठानकोट
पंजाब- 145027</p> |
| <p>217 भारतीय स्टेट बैंक
फेज- V, मोहाली
पंजाब- 160062</p> | <p>226 भारतीय स्टेट बैंक
डेरा बाबा नानक
जिला- गुरदासपुर
पंजाब- 143604</p> |
| <p>218 भारतीय स्टेट बैंक
पटियाला रोड, जीरकपुर
पंजाब- 140603</p> | <p>227 भारतीय स्टेट बैंक
जुडीशियल कॉम्प्लेक्स,
गुरदासपुर
पंजाब- 143521</p> |
| <p>219 भारतीय स्टेट बैंक
मुंडी खरड
जिला-मोहाली
पंजाब- 140301</p> | <p>228 भारतीय स्टेट बैंक
मिरथल
जिला- पठानकोट
पंजाब- 145101</p> |
| <p>220 भारतीय स्टेट बैंक
पीर मुछल्ला, जीरकपुर
जिला-मोहाली
पंजाब- 140603</p> | <p>229 भारतीय स्टेट बैंक
एससीओ 78, सैक्टर-38 सी
चंडीगढ़-160036</p> |
| <p>221 भारतीय स्टेट बैंक
करोली कैट
जिला- पठानकोट
पंजाब- 145001</p> | <p>230 भारतीय स्टेट बैंक
गुरद्वारा रोड, बनूड
जिला- मोहाली
पंजाब- 140601</p> |
| <p>222 भारतीय स्टेट बैंक
सुजानपुर कैट
जिला- पठानकोट
पंजाब- 145001</p> | <p>231 भारतीय स्टेट बैंक
पनियार, जिला गुरदासपुर
पंजाब- 143531</p> |
| <p>223 भारतीय स्टेट बैंक
सरना
जिला- पठानकोट
पंजाब- 145001</p> | <p>232 भारतीय स्टेट बैंक
मेन पटियाला
छोटी बारादरी, पटियाला
जिला: पटियाला पंजाब
पिन:147001</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>233 भारतीय स्टेट बैंक
मॉडल टाऊन, पटियाला
जिला:पटियाला
पंजाब
पिन: 147001</p> | <p>जिला:पटियाला
पंजाब
पिन:147002</p> |
| <p>234 भारतीय स्टेट बैंक
न्यू ऑफिसर कॉलोनी
पटियाला
जिला:-पटियाला
पंजाब
पिन:- 147001</p> | <p>240 भारतीय स्टेट बैंक
एन जी एम, नाभा
सिंगला हॉस्पिटल के सामने
सर्कुलर रोड, नाभा
जिला:पटियाला
पंजाब
पिन:147201</p> |
| <p>235 भारतीय स्टेट बैंक
एचएनआई लीला भवन
आयकर विभाग के सामने, पटियाला
जिला:- पटियाला
पंजाब
पिन:- 147001</p> | <p>241 भारतीय स्टेट बैंक
इन टच, अर्बन एस्टेट फेज - 2
एससीएफ – 7, पटियाला
जिला:पटियाला
पंजाब
पिन:147002</p> |
| <p>236 भारतीय स्टेट बैंक
ऐरावत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
पटियाला कैंट, पुराना कैंट
जिला:- पटियाला
पंजाब, पिन:- 147001</p> | <p>242 भारतीय स्टेट बैंक
इन टच न्यू ऑफिसर कॉलोनी
भुपिन्द्रा रोड, पटियाला
जिला: पटियाला
पंजाब, पिन:147001</p> |
| <p>237 भारतीय स्टेट बैंक
सरहिंद रोड पटियाला
एलजी शो रूम के समीप
हेमकुंड पैट्रोल पंप के समीप, पटियाला
जिला:पटियाला,
पंजाब, पिन:147004</p> | <p>243 भारतीय स्टेट बैंक
अक्कर
गुरुद्वारा नीम साहिब
ग्राम:- अक्कर, डाकघर:- सेहरा
तहसील:-राजपुरा
जिला: पटियाला
पंजाब
पिन:140701</p> |
| <p>238 भारतीय स्टेट बैंक
गुरबक्स कॉलोनी
इकबाल कॉम्प्लेक्स
गुरु नानक नगर, गली नं. 12,
पटियाला, जिला:पटियाला
पंजाब
पिन:147003</p> | <p>244 भारतीय स्टेट बैंक
जलालपुर
डाकघर बहादुरगढ़, जलालपुर
जिला: पटियाला
पंजाब
पिन:147021</p> |
| <p>239 भारतीय स्टेट बैंक
अर्बन एस्टेट फेज - 1
एससीओ – 238, पटियाला</p> | <p>245 भारतीय स्टेट बैंक
राजपुरा (तहसील कॉम्प्लेक्स)
राजपुरा</p> |

	जिला: पटियाला पंजाब, पिन:140401	251	भारतीय स्टेट बैंक राजपुरा (पंजाब) आल्पस सिनेमा के नजदीक, राजपुरा जिला: पटियाला पंजाब पिन:140401
246	भारतीय स्टेट बैंक मल्लेवाल गुरुद्वारा साहिब, मल्लेवाल तहसील:- नाभा जिला: पटियाला पंजाब पिन:147202	252	भारतीय स्टेट बैंक कुलारां, तहसील:-समाना जिला: पटियाला पंजाब, पिन:147101
247	भारतीय स्टेट बैंक भप्पल ग्राम एवं डाकघर:-भप्पल तहसील:- राजपुरा जिला:- पटियाला पंजाब पिन:-140401	253	भारतीय स्टेट बैंक धकनसु तहसील: राजपुरा जिला: पटियाला पंजाब पिन:140401
248	भारतीय स्टेट बैंक लगरोई ग्राम एवं पोस्ट ऑफिस: लगरोई बस स्टैंड लगरोई जिला: पटियाला पंजाब पिन:147001	254	भारतीय स्टेट बैंक गज्जू माजरा तहसील:-पटियाला जिला: पटियाला पंजाब पिन:147001
249	भारतीय स्टेट बैंक टुआ ग्राम : टुआ तहसील: राजपुरा जिला: पटियाला पंजाब पिन:140417	255	भारतीय स्टेट बैंक घराम जिला: पटियाला पंजाब पिन:147111
250	भारतीय स्टेट बैंक एच एन आई, प्रगति भवन, पटियाला अर्बन एस्टेट, फेज-III, पटियाला जिला: पटियाला पंजाब पिन:147001	256	भारतीय स्टेट बैंक आर.जी.नेशनल यूनिवर्सिटी भादसो रोड, सिंधूवाल ग्राम एवं डाकघर:- सिंधूवाल (पटियाला) जिला: पटियाला पंजाब पिन:147001
		257	भारतीय स्टेट बैंक बहादुरगढ़ घनौर रोड, बहादुरगढ़ जिला: पटियाला पंजाब पिन:147002

- | | |
|---|---|
| <p>258 भारतीय स्टेट बैंक
सनौर
सिंधु कॉम्प्लेक्स
मेन रोड, सनौर
जिला: पटियाला
पंजाब
पिन:147103</p> | <p>264 भारतीय स्टेट बैंक
एस एम ई, पटियाला
दूसरा तल, प्रशासनिक कार्यालय बिल्डिंग
दि मॉल, पटियाला
जिला: पटियाला
पंजाब, पिन:147002</p> |
| <p>259 भारतीय स्टेट बैंक
पटियाला रोड, नाभा
एलआईसी ऑफिस के सामने
पटियाला रोड, नाभा
जिला: पटियाला
पंजाब, पिन:147201</p> | <p>265 भारतीय स्टेट बैंक
मानवी
तहसील: मलेरकोटला,
जिला: संगरूर
पंजाब
पिन : 148023</p> |
| <p>260 भारतीय स्टेट बैंक
नौरा
तहसील : नाभा
जिला: पटियाला
पंजाब
पिन:147201</p> | <p>266 भारतीय स्टेट बैंक
फतेहगढ़ पी जी
तहसील: धूरी
जिला : संगरूर
पंजाब, पिन : 148020</p> |
| <p>261 भारतीय स्टेट बैंक
मिनी सचिवालय, पटियाला
जिला: पटियाला
पंजाब
पिन:147001</p> | <p>267 भारतीय स्टेट बैंक
जी. टी. रोड
मंडी गोबिंदगढ़
जिला : फतेहगढ़ साहिब
पंजाब, पिन : 147301</p> |
| <p>262 भारतीय स्टेट बैंक
राजगढ़
तहसील एवं जिला:- पटियाला
पंजाब, पिन:147001</p> | <p>268 भारतीय स्टेट बैंक
बडाली
पुलिस स्टेशन के समीप
चुनी सरहिंद रोड, बडाली आला सिंह
जिला : फतेहगढ़ साहिब
पंजाब
पिन : 140406</p> |
| <p>263 भारतीय स्टेट बैंक
24 नं. फाटक, पटियाला
दुकान नं. 11002/5 III
मेन रोड, प्रताप नगर,
पटियाला कैट
रेलवे स्टेशन के सामने,
पटियाला (पंजाब)
जिला: पटियाला
पंजाब, पिन:147001</p> | <p>269 भारतीय स्टेट बैंक
खमानो ग्रेन मार्केट
अनाज मंडी, खमानो
तहसील: खमानो
जिला : फतेहगढ़ साहिब
पंजाब, पिन : 141801</p> |
| | <p>270 भारतीय स्टेट बैंक
खनियान
ग्राम: खनियान
अमलोह के नजदीक</p> |

	जिला : फतेहगढ़ साहिब पंजाब, पिन : 147203		जिला : फतेहगढ़ साहिब पंजाब, पिन : 141411
271	भारतीय स्टेट बैंक संघोल ग्राम एवं पोस्ट ऑफिस: संघोल तहसील: खमानो जिला : फतेहगढ़ साहिब पंजाब, पिन : 141128	277	भारतीय स्टेट बैंक सौंढा ग्राम सौंढा डाकघर:- मुल्लापुर कलां तहसील: फतेहगढ़ साहिब जिला : फतेहगढ़ साहिब पंजाब, पिन : 140406
272	भारतीय स्टेट बैंक रुड़की ग्राम एवं डाकघर: रुड़की तहसील: फतेहगढ़ साहिब जिला : फतेहगढ़ साहिब पंजाब पिन : 147104	278	भारतीय स्टेट बैंक मानसा वाटर वर्क्स रोड सिविल हॉस्पिटल के निकट, मानसा जिला: मानसा पंजाब पिन: 151505
273	भारतीय स्टेट बैंक फतेहगढ़ साहिब एसजीजीएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जिला : फतेहगढ़ साहिब पंजाब, पिन : 140406	279	भारतीय स्टेट बैंक भैनी बाघा ग्राम एवं डाकघर: भैनी बाघा जिला : मानसा पंजाब पिन : 151508
274	भारतीय स्टेट बैंक रेओना निवान ग्राम: रेओना निवान डाकघर:- रेओना ऊँचा तहसील: फतेहगढ़ साहिब जिला : फतेहगढ़ साहिब पंजाब, पिन : 140406	280	भारतीय स्टेट बैंक धनौला तहसील:-बरनाला जिला : बरनाला पंजाब, पिन : 148105
275	भारतीय स्टेट बैंक देश भगत यूनीवर्सिटी, सौन्टी अमलोह जिला : फतेहगढ़ साहिब पंजाब पिन : 147301	281	भारतीय स्टेट बैंक जोगा जिला : मानसा पंजाब पिन : 148109
276	भारतीय स्टेट बैंक बड़वाली खुर्द ग्राम एवं पोस्ट ऑफिस: बड़वाली खुर्द तहसील: खमानो	282	भारतीय स्टेट बैंक बरनाला कॉलेज रोड , बरनाला जिला: बरनाला पंजाब पिन : 148101

- | | |
|--|--|
| <p>283 भारतीय स्टेट बैंक
रायपुर(पंजाब)
ग्राम एवं डाकघर:- रायपुर
तहसील: सरदूलगढ़
जिला : मानसा
पंजाब
पिन: 151505</p> | <p>289 भारतीय स्टेट बैंक
एस एम ई, इंडस्ट्रियल एरिया, मानसा
जिला: मानसा
पंजाब
पिन : 151505</p> |
| <p>284 भारतीय स्टेट बैंक
चीमा जोधपुर
तहसील: बरनाला
जिला: बरनाला
पंजाब
पिन : 148103</p> | <p>290 भारतीय स्टेट बैंक
बोहा
जिला : मानसा
पंजाब
पिन : 151505</p> |
| <p>285 भारतीय स्टेट बैंक
जौरकियां
ग्राम एवं डाकघर: जौरकियां
तहसील: मानसा
जिला : मानसा
पंजाब
पिन: 151505</p> | <p>291 भारतीय स्टेट बैंक
बरेटा
अनाज मंडी: बरेटा
बरेटा
जिला : मानसा
पंजाब, पिन : 151501</p> |
| <p>286 भारतीय स्टेट बैंक
अकालिया
ग्राम एवं पोस्ट ऑफिस: अकालिया
जिला : मानसा
पंजाब
पिन : 151505</p> | <p>292 भारतीय स्टेट बैंक
रेलवे रोड़, बुडलाडा
जिला : मानसा
पंजाब, पिन: 151502</p> |
| <p>287 भारतीय स्टेट बैंक
तपा मंडी
स्कूल की गली
पुराने बस स्टैंड के नजदीक
जिला : संगरूर
पंजाब
पिन : 148108</p> | <p>293 भारतीय स्टेट बैंक
झुनीर
जिला : मानसा
पंजाब, पिन : 151506</p> |
| <p>288 भारतीय स्टेट बैंक
मानसा
हॉस्पिटल रोड,
मानसा
जिला : मानसा
पंजाब
पिन : 151505</p> | <p>294 भारतीय स्टेट बैंक
ए डी बी, मानसा
जिला : मानसा
पंजाब, पिन: 151505</p> |
| | <p>295 भारतीय स्टेट बैंक
फट्टा मलूका
ग्राम एवं डाकघर: फट्टा मलूका
तहसील: सरदूलगढ़
जिला : मानसा
पंजाब, पिन : 151302</p> |
| | <p>296 भारतीय स्टेट बैंक
बेहनीवाल
ग्राम एवं डाकघर: बेहनीवाल
बेहनीवाल</p> |

	जिला : मानसा पंजाब पिन : 151302	303	भारतीय स्टेट बैंक न्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स, मानसा जिला : मानसा पंजाब पिन : 151505
297	भारतीय स्टेट बैंक सिरसा रोड, सरदूलगढ़ सरदूलगढ़ जिला : मानसा पंजाब पिन : 151507	304	भारतीय स्टेट बैंक हमीदी बरनाला ग्राम एवं पोस्ट ऑफिस: हमीदी गुरुद्वारा साहिब के नजदीक जिला : बरनाला पंजाब, पिन : 148025
298	भारतीय स्टेट बैंक खियाला कलां ग्राम:- खियाला कलां जिला : मानसा पंजाब पिन: 151508	305	भारतीय स्टेट बैंक डी.ए. कॉम्प्लेक्स, बरनाला बरनाला (डीएसी) डाकघर: बरनाला जिला : बरनाला पंजाब पिन : 148101
299	भारतीय स्टेट बैंक भीखी ग्राम एवं डाकघर: भीखी जिला : मानसा पंजाब पिन: 151504	306	भारतीय स्टेट बैंक मोफ्फर ग्राम एवं डाकघर: मोफ्फर तहसील : सरदूलगढ़ जिला : मानसा पंजाब पिन : 151506
300	भारतीय स्टेट बैंक बारेह ग्राम एवं डाकघर: बारेह जिला: मानसा पंजाब पिन : 151502	307	भारतीय स्टेट बैंक झंडुके ग्राम एवं डाकघर: झंडुके तहसील: सरदूलगढ़ जिला: मानसा पंजाब पिन: 151506
301	भारतीय स्टेट बैंक रल्ला बरनाला मानसा रोड, रल्ला डाकघर: रल्ला तहसील: मानसा जिला: मानसा पंजाब पिन: 151510	308	भारतीय स्टेट बैंक कोट धरमू ग्राम एवं डाकघर: कोट धरमू जिला: मानसा पंजाब पिन: 151302
302	भारतीय स्टेट बैंक एन.एम कॉलेज, मानसा नेहरू मेमोरियल कॉलेज मानसा जिला: मानसा पंजाब, पिन: 151505		

- | | |
|---|---|
| <p>309 भारतीय स्टेट बैंक
रायसर
सीनीयर सैंकडरी स्कूल के सामने
तहसील : रायसर
जिला: बरनाला
पंजाब
पिन : 148101</p> | <p>पंजाब
पिन : 148105</p> |
| <p>310 भारतीय स्टेट बैंक
मानसा रोड, धौला
मानसा रोड,
कॉर्पोरेट सोसाइटी के नजदीक डाकघर: धौला
जिला : बरनाला
पंजाब
पिन : 148107</p> | <p>315 भारतीय स्टेट बैंक
ए डी बी संधौर
डाकघर: संधौर
तहसील: मलेरकोटला
जिला : संगरूर
पंजाब
पिन : 148020</p> |
| <p>311 भारतीय स्टेट बैंक
अकनवाली
ग्राम एवं डाकघर : अकनवाली
जिला : मानसा
पंजाब
पिन : 151505</p> | <p>316 भारतीय स्टेट बैंक
संगरूर
पटियाला गेट
जिला : संगरूर
पंजाब
पिन : 148001</p> |
| <p>312 भारतीय स्टेट बैंक
कर्मगढ़
ग्राम : कर्मगढ़, डाकघर: बरनाला
तहसील: बरनाला
जिला:बरनाला
पंजाब
पिन : 148101</p> | <p>317 भारतीय स्टेट बैंक
मलेरकोटला
कॉलेज रोड, मलेरकोटला
जिला : संगरूर
पंजाब
पिन : 148023</p> |
| <p>313 भारतीय स्टेट बैंक
कोट दूना
ग्राम एवं पोस्ट ऑफिस: कोट दूना
तहसील: तपा
जिला : बरनाला
पंजाब
पिन : 148705</p> | <p>318 भारतीय स्टेट बैंक
शेरो
तहसील: सुनाम
जिला : संगरूर
पंजाब, पिन : 148106</p> |
| <p>314 भारतीय स्टेट बैंक
हरिगढ़
ग्राम: हरिगढ़
तहसील: धनौला
जिला : संगरूर</p> | <p>319 भारतीय स्टेट बैंक
धुरी
आर्य समाज ब्लॉक
धुरी
जिला : संगरूर
पंजाब, पिन : 148024</p> |
| | <p>320 भारतीय स्टेट बैंक
लड्डा कोठी
ग्राम एवं डाकघर : लड्डा कोठी
तहसील धुरी
जिला : संगरूर
पंजाब, पिन : 148034</p> |

- | | |
|---|---|
| <p>321 भारतीय स्टेट बैंक
इंडस्ट्रियल एरिया, संगरूर
जींद रोड
जिला : संगरूर
पंजाब
पिन : 148001</p> | <p>तहसील : फरीदकोट
जिला : संगरूर
पंजाब
पिन : 148028</p> |
| <p>322 भारतीय स्टेट बैंक
भवानीगढ़
नए बस स्टैंड के सामने, भवानीगढ़
जिला : संगरूर
पंजाब
पिन : 148026</p> | <p>327 भारतीय स्टेट बैंक
नाभा रोड, अमरगढ़
ग्राम एवं डाकघर: अमरगढ़
तहसील: मलेरकोटला
जिला : संगरूर
पंजाब
पिन : 148022</p> |
| <p>323 भारतीय स्टेट बैंक
अमरगढ़
पुनीत कॉम्पलेक्स,
चौड़ा रोड के सामने
पटियाला मलेरकोटला रोड,
अमरगढ़
जिला : संगरूर
पंजाब
पिन : 148022</p> | <p>328 भारतीय स्टेट बैंक
धरमगढ़
तहसील: सुनाम
जिला : संगरूर
पंजाब
पिन: 148028</p> |
| <p>324 भारतीय स्टेट बैंक
बलियान
गुरुद्वारा संत बाबा गुलाब सिंह जी की गुरुद्वारा
प्रबंधक कमिटी
ग्राम:- बलियान
तहसील: धुरी, संगरूर
जिला : संगरूर
पंजाब
पिन : 148106</p> | <p>329 भारतीय स्टेट बैंक
लॉगोवाल
नवोदय विद्यालय
लॉगोवाल, संगरूर
जिला : संगरूर
पंजाब
पिन : 148106</p> |
| <p>325 भारतीय स्टेट बैंक
नरीके
ग्राम: नरीके
तहसील: मलेरकोटला
जिला : संगरूर
पंजाब
पिन : 148023</p> | <p>330 भारतीय स्टेट बैंक
चहर
ग्राम एवं पोस्ट ऑफिस: चहर
तहसील: सुनाम
जिला : संगरूर पंजाब
पिन: 148028</p> |
| <p>326 भारतीय स्टेट बैंक
जखेपाल
सरदूलगढ़</p> | <p>331 भारतीय स्टेट बैंक
गवर्नमेंट रनवीर कॉलेज, संगरूर
जिला : संगरूर पंजाब
पिन : 148001</p> |
| | <p>332 भारतीय स्टेट बैंक
भुरथला मंढेर
डाकघर: भुरथला मंढेर
तहसील : मलेरकोटला</p> |

	जिला : संगरूर पंजाब पिन : 148023	प्रशासनिक कार्यालय बिल्डिंग, चौथी मंजिल शेरांवाला गेट, दि मॉल, पटियाला
333	भारतीय स्टेट बैंक प्रशासनिक कार्यालय शेरांवाला गेट, दि मॉल पटियाला जिला: पटियाला पंजाब पिन : 147001	जिला: पटियाला पंजाब पिन : 147001
334	भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-1 प्रशासनिक कार्यालय बिल्डिंग, पांचवी मंजिल शेरांवाला गेट, दि मॉल पटियाला जिला: पटियाला पंजाब पिन : 147001	338 भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-5 प्रशासनिक कार्यालय बिल्डिंग, तीसरी मंजिल शेरांवाला गेट, दि मॉल, पटियाला जिला: पटियाला पंजाब पिन : 147001
335	भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-2 प्रशासनिक कार्यालय बिल्डिंग, पांचवी मंजिल शेरांवाला गेट, दि मॉल, पटियाला जिला: पटियाला पंजाब पिन : 147001	339 भारतीय स्टेट बैंक एस एम ई सी सी प्रशासनिक कार्यालय बिल्डिंग, तीसरी मंजिल शेरांवाला गेट, दि मॉल, पटियाला जिला: पटियाला पंजाब पिन : 147001
336	भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-3 प्रशासनिक कार्यालय बिल्डिंग, चौथी मंजिल शेरांवाला गेट, दि मॉल, पटियाला जिला: पटियाला पंजाब पिन : 147001	340 भारतीय स्टेट बैंक आर ए सी पी सी प्रशासनिक कार्यालय बिल्डिंग, भूतल शेरांवाला गेट, दि मॉल, पटियाला जिला: पटियाला पंजाब पिन : 147001
337	भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-4	341 भारतीय स्टेट बैंक प्रशासनिक कार्यालय रोहतक दिल्ली बाइपास रोड़ जिला रोहतक हरियाणा-124001

- | | |
|--|---|
| <p>342 भारतीय स्टेट बैंक
सेक्टर 1 शाखा
एससीओ सं 9 सेक्टर 1 रोहतक
जिला रोहतक
हरियाणा-124001</p> | <p>349 भारतीय स्टेट बैंक
सिसर खास शाखा
तहसील महम जिला रोहतक
हरियाणा-124121</p> |
| <p>343 भारतीय स्टेट बैंक
हुड्डा कॉम्प्लेक्स शाखा
एससीएफ़ सं 42 डी
हुड्डा कॉम्प्लेक्स रोहतक
जिला रोहतक
हरियाणा-124001</p> | <p>350 भारतीय स्टेट बैंक
निनदाना शाखा
ग्राम पोस्ट ऑफिस निनदाना
जिला रोहतक
हरियाणा-124513</p> |
| <p>344 भारतीय स्टेट बैंक
इंटच एमटी रोहतक शाखा
बालमेव प्लाज़ा एफ़ 236
मॉडल टाउन
दिल्ली रोड रोहतक
हरियाणा-124001</p> | <p>351 भारतीय स्टेट बैंक
लखन माजरा शाखा
लखन माजरा गाँव जिला रोहतक
हरियाणा-124514</p> |
| <p>345 भारतीय स्टेट बैंक
झज्जर रोड शाखा
बी 3 472 झज्जर रोड
जिला रोहतक
हरियाणा-124001</p> | <p>352 भारतीय स्टेट बैंक
रोहतक गेट शाखा
248 ए वार्ड सं 6
मेन रोड नजदीक
रोहतक गेट भिवानी
जिला भिवानी
हरियाणा-127021</p> |
| <p>346 भारतीय स्टेट बैंक
कलानौर शाखा
बाबा मेहर शाह परिसर
नजदीक बस स्टैंड कलानौर
जिला रोहतक
हरियाणा-124113</p> | <p>353 भारतीय स्टेट बैंक
हलु बाज़ार शाखा
नजदीक बिजलीघर
बिचला बाज़ार भिवानी
जिला भिवानी
हरियाणा-127021</p> |
| <p>347 भारतीय स्टेट बैंक
सांपला शाखा
पुलिस स्टेशन के पास
खरखौदा रोड सांपला
जिला रोहतक
हरियाणा-124501</p> | <p>354 भारतीय स्टेट बैंक
चौ. बंसीलाल विश्वविद्यालय शाखा
चौ. बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर के अंदर
स्कूल शिक्षा बोर्ड के सामने
हांसी रोड भिवानी
जिला भिवानी
हरियाणा-127021</p> |
| <p>348 भारतीय स्टेट बैंक
महम शाखा
प्लॉट सं 1775
पालिका कॉलोनी वार्ड सं 6
महम जिला रोहतक
हरियाणा-124112</p> | <p>355 भारतीय स्टेट बैंक
झोझु कलां शाखा
नजदीक ध्रुव धर्मकांटा सतनाली रोड
झोझु कलां
जिला भिवानी
हरियाणा-127310</p> |

- | | |
|---|--|
| <p>356 भारतीय स्टेट बैंक
बाधरा शाखा
नजदीक बर्फ फेक्ट्री
दादरी रोड बाधरा
जिला भिवानी
हरियाणा-127308</p> | <p>363 भारतीय स्टेट बैंक
रासमेक- सार्क शाखा
C/O एसबीआई रोहतक
जिला रोहतक
हरियाणा-124001</p> |
| <p>357 भारतीय स्टेट बैंक
बहल शाखा
झुंपा रोड
नई अनाज मंडी के सामने बहल
जिला भिवानी,
हरियाणा-127308</p> | <p>364 भारतीय स्टेट बैंक
आज़ाद नगर शाखा
खलेरी पेलेस राजगढ़ रोड हिसार
जिला हिसार
हरियाणा-125001</p> |
| <p>358 भारतीय स्टेट बैंक
तोशाम शाखा
नजदीक टेलीफोन एक्सचेंज
सिवानी मेन रोड
तोशाम जिला भिवानी
हरियाणा-127040</p> | <p>365 भारतीय स्टेट बैंक
अर्बन एस्टेट शाखा
एससीएफ़ सं 41
अर्बन एस्टेट हिसार
जिला हिसार
हरियाणा-125001</p> |
| <p>359 भारतीय स्टेट बैंक
रोहतक रोड चरखी दादरी शाखा
दादरी शाखा जिला भिवानी
हरियाणा-127306</p> | <p>366 भारतीय स्टेट बैंक
इंटच पीएलए कॉम्प्लेक्स शाखा
बस स्टैंड रोड
एससीओ 7 व 8
ग्रोवर मार्केट
नजदीक हॉटेल निमंत्रण हिसार
जिला हिसार
हरियाणा-125001</p> |
| <p>360 भारतीय स्टेट बैंक
बवानी खेड़ा शाखा
ग्राम पोस्ट बवानी खेड़ा
जिला भिवानी
हरियाणा-127032</p> | <p>367 भारतीय स्टेट बैंक
नई सब्जी मंडी शाखा
मिल गेट रोड हिसार
जिला हिसार
हरियाणा-125002</p> |
| <p>361 भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय रोहतक
354/29 होटल स्काई हॉक बिल्डिंग
प्रथम तल
दिल्ली बाईपास रोड रोहतक
जिला रोहतक
हरियाणा-124001</p> | <p>368 भारतीय स्टेट बैंक
चंडीगढ़ रोड टोहाना शाखा
सत्यम हॉटेल कॉम्प्लेक्स
चंडीगढ़ रोड टोहाना
जिला फतेहाबाद
हरियाणा-125120</p> |
| <p>362 भारतीय स्टेट बैंक
मुद्रा प्रबंधन कक्ष शाखा
रोहतक शाखा परिसर
नजदीक कोर्ट रोहतक
जिला रोहतक
हरियाणा-124001</p> | <p>369 भारतीय स्टेट बैंक
सिरसा रोड अग्रोहा शाखा
ग्राम पोस्ट अग्रोहा
जिला हिसार
हरियाणा-125047</p> |

- | | |
|--|---|
| <p>370 भारतीय स्टेट बैंक
उमरा शाखा
ग्राम पोस्ट उमरा तहसील हांसी
जिला हिसार
हरियाणा-125033</p> | <p>377 भारतीय स्टेट बैंक
सांचला शाखा
नजदीक बस स्टैंड
ग्राम पोस्ट सांचला
जिला फतेहाबाद
हरियाणा-125120</p> |
| <p>371 भारतीय स्टेट बैंक
एडीबी बरवाला शाखा
बरवाला
जिला हिसार
हरियाणा-125121</p> | <p>378 भारतीय स्टेट बैंक
मोहब्बतपुर शाखा
ग्राम पोस्ट मोहब्बतपुर
तहसील आदमपुर
जिला हिसार
हरियाणा-125052</p> |
| <p>372 भारतीय स्टेट बैंक
डाबड़ा शाखा
बस स्टैंड के सामने डाबड़ा
जिला हिसार
हरियाणा-125001</p> | <p>379 भारतीय स्टेट बैंक
थर्मल प्लांट खेदड़ शाखा
आरजीटीपीपी कॉलोनी
ग्राम पोस्ट खेदड़
तहसील बरवाला जिला हिसार
हरियाणा-125121</p> |
| <p>373 भारतीय स्टेट बैंक
कुलाना शाखा
पोस्ट कुलाना तहसील टोहाना
जिला फतेहाबाद
हरियाणा-125106</p> | <p>380 भारतीय स्टेट बैंक
मुद्रा तिजोरी प्रबंधन शाखा
लघु सचिवालय हिसार
जिला हिसार
हरियाणा-125001</p> |
| <p>374 भारतीय स्टेट बैंक
बरवाला-जींद रोड
खड़क पूनीया शाखा
ग्राम पोस्ट खड़क
पूनीया तहसील बरवाला
जिला हिसार
हरियाणा-125121</p> | <p>381 भारतीय स्टेट बैंक
रासमेक व सीसीसी शाखा
c/o एसबीआई मुख्य शाखा
प्रथम तल हिसार
जिला हिसार
हरियाणा-125121</p> |
| <p>375 भारतीय स्टेट बैंक
राजली शाखा
ग्राम पोस्ट राजली तहसील बरवाला
जिला हिसार
हरियाणा-125121</p> | <p>382 भारतीय स्टेट बैंक
लघु एवं मध्यम उद्यम शाखा
जेएसएल कॉम्प्लेक्स
दिल्ली रोड हिसार
जिला हिसार
हरियाणा-125005</p> |
| <p>376 भारतीय स्टेट बैंक
जमालपुरा सिखान शाखा
ग्राम पोस्ट
जमालपुरा सिखान
तहसील टोहाना
जिला फतेहाबाद
हरियाणा-125120</p> | <p>383 भारतीय स्टेट बैंक
सदर बाज़ार शाखा
एलआईसी बिल्डिंग के सामने सिरसा
जिला सिरसा
हरियाणा-125055</p> |
| | <p>384 भारतीय स्टेट बैंक
हिसार रोड शाखा</p> |

	वाहेगुरु कॉम्प्लेक्स हनुमान मंदिर के सामने हिसार रोड सिरसा जिला सिरसा हरियाणा-125055	392	भारतीय स्टेट बैंक दरियापुर शाखा जिला फतेहाबाद हरियाणा-125050
385	भारतीय स्टेट बैंक रानिया बाज़ार शाखा सूरतगढ़िया चौक विजय बुक डिपो जिला सिरसा हरियाणा-125055	393	भारतीय स्टेट बैंक जंडली खुर्द शाखा फतेहाबाद रोड जंडली खुर्द जिला फतेहाबाद हरियाणा-125111
386	भारतीय स्टेट बैंक नई सब्जी मंडी शाखा मंडी डबवाली जिला सिरसा हरियाणा-125104	394	भारतीय स्टेट बैंक जालुपुरा शाखा जिला फतेहाबाद हरियाणा-125051
387	भारतीय स्टेट बैंक रतिया रोड फतेहाबाद शाखा नजदीक रतिया चुंगी रतिया रोड जिला फतेहाबाद हरियाणा-125121	395	भारतीय स्टेट बैंक नाधौरी शाखा तहसील भुना जिला फतेहाबाद हरियाणा-125111
388	भारतीय स्टेट बैंक रतिया शाखा जिला फतेहाबाद हरियाणा-125050	396	भारतीय स्टेट बैंक डींग मोड़ शाखा मेन रोड गुरुद्वारा साहिब के सामने डींग मोड़ (पतली डाबर) जिला सिरसा हरियाणा-125051
389	भारतीय स्टेट बैंक पीली मंदोरी शाखा जिला फतेहाबाद हरियाणा-125053	397	भारतीय स्टेट बैंक फागु शाखा नजदीक पशु चिकित्सालय जिला सिरसा हरियाणा-125201
390	भारतीय स्टेट बैंक धांगड़ शाखा एमपी रोही रोड ग्राम पोस्ट धांगड़ जिला फतेहाबाद हरियाणा-125048	398	भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय सिरसा श्री हॉस्पिटल के सामने डबवाली रोड सिरसा जिला सिरसा हरियाणा-125055
391	भारतीय स्टेट बैंक गोरीवाला शाखा गोरीवाला जिला फतेहाबाद हरियाणा-125053	399	भारतीय स्टेट बैंक मुद्रा तिजोरी प्रबंधन शाखा मुख्य शाखा बिल्डिंग सिरसा जिला सिरसा हरियाणा-125055

400	भारतीय स्टेट बैंक बेगुं रोड शाखा मलागढ़ पेट्रोल पंप के सामने बेगुं रोड सिरसा जिला सिरसा हरियाणा-125055	407	भारतीय स्टेट बैंक सतनाली शाखा सतनाली जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा-123024
401	भारतीय स्टेट बैंक राजेश पायलट चौक शाखा वीर आवास गद्दी-बोलनी रोड नजदीक राजेश पायलट चौक रेवाड़ी जिला रेवाड़ी हरियाणा-123401	408	भारतीय स्टेट बैंक पाली शाखा संत जयराम दास कॉलेज ऑफ एजुकेशन पाली जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा-123029
402	भारतीय स्टेट बैंक विकास नगर रेवाड़ी शाखा नजदीक शिव मंदिर मेन बुधपुर रोड विकास नगर जिला रेवाड़ी हरियाणा-123401	409	भारतीय स्टेट बैंक कनीना शाखा महेन्द्रगढ़ रोड कनीना जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा-123027
403	भारतीय स्टेट बैंक सिंघाना रोड नारनौल शाखा # 499 सिंघाना रोड हुडा सैक्टर-1 बस स्टॉप नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा-123001	410	भारतीय स्टेट बैंक झारली शाखा नजदीक एनटीपीसी मेट्रो मार्केट भाऊ झारली रोड झारली जिला झज्जर हरियाणा-123125
404	भारतीय स्टेट बैंक नांगल चौधरी शाखा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा-123023	411	भारतीय स्टेट बैंक बेरी शाखा मेन बाज़ार बेरी जिला झज्जर हरियाणा-124201
405	भारतीय स्टेट बैंक बस स्टैंड रोड महेन्द्रगढ़ शाखा एमएम प्लाज़ा नजदीक राव तुलाराम चौक जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा-123029	412	भारतीय स्टेट बैंक सिलानी गेट झज्जर शाखा डीएसएस सं. 1 व 2 मंडी टाउनशिप पॉकेट सं. 1 नजदीक लघु सचिवालय झज्जर जिला झज्जर हरियाणा-124103
406	भारतीय स्टेट बैंक मालरा शाखा ग्राम पोस्ट बवाना जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा-123029	413	भारतीय स्टेट बैंक मेन रोड झज्जर शाखा जिला झज्जर हरियाणा-124103
		414	भारतीय स्टेट बैंक लघु सचिवालय झज्जर शाखा जिला झज्जर हरियाणा-124103

- | | |
|---|--|
| <p>415 भारतीय स्टेट बैंक
मानेठी शाखा
नजदीक कुंड बैरियर
नारनौल-रेवाड़ी रोड
मानेठी जिला रेवाड़ी
हरियाणा-123102</p> <p>416 भारतीय स्टेट बैंक
सेक्टर 6 बहादुरगढ़ शाखा
एससीएफ़ 24 व 25
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सेक्टर 6
बहादुरगढ़ जिला झज्जर
हरियाणा-124507</p> <p>417 भारतीय स्टेट बैंक
संखोल शाखा
संखोल तहसील बहादुरगढ़
जिला झज्जर
हरियाणा-124507</p> <p>418 भारतीय स्टेट बैंक
बरही शाखा
ग्राम पोस्ट बरही (रजनीश का घर)
तहसील बहादुरगढ़
जिला झज्जर
हरियाणा-124525</p> <p>419 भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय रेवाड़ी
C/O स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
प्रथम तल मुख्य शाखा
रेवाड़ी जिला रेवाड़ी
हरियाणा-123401</p> <p>420 भारतीय स्टेट बैंक
काठमंडी शाखा
काठमंडी रेवाड़ी
जिला रेवाड़ी
हरियाणा-123401</p> <p>421 भारतीय स्टेट बैंक
दिल्ली रोहतक रोड शाखा
बहादुरगढ़
जिला झज्जर
हरियाणा-124507</p> | <p>422 भारतीय स्टेट बैंक
पुरानी मंडी शाखा
जम्मू - 180001
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> <p>423 भारतीय स्टेट बैंक
कैंट शाखा
जम्मू - 180003
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> <p>424 भारतीय स्टेट बैंक
कच्ची छावनी शाखा
जम्मू - 180001
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> <p>425 भारतीय स्टेट बैंक
तालाब तिल्लो शाखा
जम्मू - 180002
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> <p>426 भारतीय स्टेट बैंक
गांधी नगर शाखा
जम्मू - 180004
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> <p>427 भारतीय स्टेट बैंक
ज्योड़ियां शाखा
जिला जम्मू - 181202
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> <p>428 भारतीय स्टेट बैंक
मढ शाखा
जम्मू - 181208
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> <p>429 भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय - 5
रेल हेड कॉम्पलैक्स
जम्मू - 180012
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> <p>430 भारतीय स्टेट बैंक
सैनिक कालोनी शाखा
जम्मू - 180011
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> |
|---|--|

431	भारतीय स्टेट बैंक आर एस पुरा शाखा जिला जम्मू - 181102 (जम्मू एवं कश्मीर)	जम्मू 180001 (जम्मू एवं कश्मीर)
432	भारतीय स्टेट बैंक छन्नी हिम्मत शाखा जम्मू - 180015 (जम्मू एवं कश्मीर)	441 भारतीय स्टेट बैंक बोहडी शाखा जम्मू - 180002 (जम्मू एवं कश्मीर)
433	भारतीय स्टेट बैंक न्यू प्लॉट शाखा जम्मू - 180005 (जम्मू एवं कश्मीर)	442 भारतीय स्टेट बैंक नरवाल शाखा जम्मू - 180006 (जम्मू एवं कश्मीर)
434	भारतीय स्टेट बैंक रेलवे स्टेशन शाखा जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)	443 भारतीय स्टेट बैंक सिधड़ा शाखा जम्मू - 180006 (जम्मू एवं कश्मीर)
435	भारतीय स्टेट बैंक कर्ण नगर शाखा जम्मू - 180001 (जम्मू एवं कश्मीर)	444 भारतीय स्टेट बैंक पुरखू शाखा जम्मू - 181206 (जम्मू एवं कश्मीर)
436	भारतीय स्टेट बैंक मोहल्ला जानीपुर शाखा जम्मू - 180001 (जम्मू एवं कश्मीर)	445 भारतीय स्टेट बैंक शक्ति नगर शाखा जम्मू - 180001 (जम्मू एवं कश्मीर)
437	भारतीय स्टेट बैंक अखनूर शाखा - 181201 जिला जम्मू - 181201 (जम्मू एवं कश्मीर)	446 भारतीय स्टेट बैंक शास्त्री नगर शाखा जम्मू - 180002 (जम्मू एवं कश्मीर)
438	भारतीय स्टेट बैंक रेहाडी कालोनी शाखा जम्मू - 180005 (जम्मू एवं कश्मीर)	447 भारतीय स्टेट बैंक अरनिया शाखा जिला जम्मू - 181131 (जम्मू एवं कश्मीर)
439	भारतीय स्टेट बैंक बिशनाह शाखा जिला जम्मू - 181132 (जम्मू एवं कश्मीर)	448 भारतीय स्टेट बैंक मीरा साहिब शाखा जम्मू - 181101 (जम्मू एवं कश्मीर)
440	भारतीय स्टेट बैंक सीआरपीएफ, बन तालाब शाखा	449 भारतीय स्टेट बैंक त्रिकुटा नगर शाखा जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)

450	भारतीय स्टेट बैंक गंगयाल शाखा जम्मू - 180005 (जम्मू एवं कश्मीर)	जिला कठुआ - 184204 (जम्मू एवं कश्मीर)
451	भारतीय स्टेट बैंक नानक नगर शाखा जम्मू - 180004 (जम्मू एवं कश्मीर)	460 भारतीय स्टेट बैंक दयाला चक्क शाखा जिला कठुआ - 184144 (जम्मू एवं कश्मीर)
452	भारतीय स्टेट बैंक खौर शाखा जम्मू - 181203 (जम्मू एवं कश्मीर)	461 भारतीय स्टेट बैंक कठुआ शाखा जिला कठुआ - 184102 (जम्मू एवं कश्मीर)
453	भारतीय स्टेट बैंक जैन बाजार शाखा जम्मू - 180001 (जम्मू एवं कश्मीर)	462 भारतीय स्टेट बैंक ग्रेटर कैलाश शाखा जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
454	भारतीय स्टेट बैंक रेशम गढ़ कालोनी शाखा जम्मू - 180002 (जम्मू एवं कश्मीर)	463 भारतीय स्टेट बैंक एचएनआई शाखा रेल हैड कॉम्प्लैक्स जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
455	भारतीय स्टेट बैंक कोट शाखा जम्मू - 181122 (जम्मू एवं कश्मीर)	464 भारतीय स्टेट बैंक इन-टच शाखा हुडको भवन जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
456	भारतीय स्टेट बैंक सुंगल शाखा जम्मू - 181201 (जम्मू एवं कश्मीर)	465 भारतीय स्टेट बैंक एडीबी कठुआ शाखा जिला कठुआ - 184101 (जम्मू एवं कश्मीर)
457	भारतीय स्टेट बैंक पुरानी सतवारी शाखा जम्मू - 180003 (जम्मू एवं कश्मीर)	466 भारतीय स्टेट बैंक केंद्रीय यूनिवर्सिटी बागला शाखा जिला जम्मू - 184121 (जम्मू एवं कश्मीर)
458	भारतीय स्टेट बैंक गोल मार्केट गांधीनगर शाखा जम्मू - 180004 (जम्मू एवं कश्मीर)	467 भारतीय स्टेट बैंक कटरा शाखा जिला रियासी - 182301 (जम्मू एवं कश्मीर)
459	भारतीय स्टेट बैंक बिलावर शाखा	

- | | |
|---|--|
| <p>468 भारतीय स्टेट बैंक
राजपुरा शाखा
जिला कठुआ - 184145
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> | <p>477 भारतीय स्टेट बैंक
कॉलेज रोड कठुआ शाखा
जिला कठुआ - 184101
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> |
| <p>469 भारतीय स्टेट बैंक
बसौली शाखा
जिला कठुआ - 184201
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> | <p>478 भारतीय स्टेट बैंक
बनी शाखा
जिला कठुआ - 184206
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> |
| <p>470 भारतीय स्टेट बैंक
विजयपुर शाखा
जिला जम्मू - 184120
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> | <p>479 भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय - 3
रेल हेड कॉम्पलैक्स
जम्मू - 180012
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> |
| <p>471 भारतीय स्टेट बैंक
सुपवाल शाखा
जिला जम्मू - 184120
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> | <p>480 भारतीय स्टेट बैंक
हीरा नगर शाखा
जिला कठुआ - 184142
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> |
| <p>472 भारतीय स्टेट बैंक
बुद्धी शाखा
जिला कठुआ - 184143
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> | <p>481 भारतीय स्टेट बैंक
काली बाड़ी शाखा
जिला कठुआ - 184104
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> |
| <p>473 भारतीय स्टेट बैंक
रामकोट शाखा
जिला कठुआ - 184205
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> | <p>482 भारतीय स्टेट बैंक
रामगढ़ शाखा
जिला सांबा - 181141
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> |
| <p>474 भारतीय स्टेट बैंक
बड़ी ब्राह्मणा शाखा
जिला जम्मू - 181133
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> | <p>483 भारतीय स्टेट बैंक
स्वांखा शाखा
जिला कठुआ - 184120
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> |
| <p>475 भारतीय स्टेट बैंक
मानसर शाखा
जिला सांबा - 184121
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> | <p>484 भारतीय स्टेट बैंक
एसएमई शाखा रेल हैड कॉम्पलैक्स
जम्मू - 180012
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> |
| <p>476 भारतीय स्टेट बैंक
कहली मंडी शाखा
जिला सांबा - 184121
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> | <p>485 भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय - 2
रेल हेड कॉम्पलैक्स
जम्मू - 180012
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> |

- | | |
|---|---|
| <p>486 भारतीय स्टेट बैंक
एडीबी तालाब तिल्लो शाखा
जिला जम्मू - 180016
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> | <p>495 भारतीय स्टेट बैंक,
धर्मपुर, तहसील सरकाघाट,
जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश-175003</p> |
| <p>487 भारतीय स्टेट बैंक
प्रशासनिक कार्यालय
रेल हेड कॉम्प्लैक्स
जम्मू - 180012
(जम्मू एवं कश्मीर)</p> | <p>496 भारतीय स्टेट बैंक,
कोटली, जिला मंडी,
हिमाचल प्रदेश-175003</p> |
| <p>488 भारतीय स्टेट बैंक,
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-1,
40, एसडीए परिसर, कसूमपटी,
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171009</p> | <p>497 भारतीय स्टेट बैंक,
आईआईटी मंडी, जिला मंडी,
हिमाचल प्रदेश-175003</p> |
| <p>489 भारतीय स्टेट बैंक,
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-3,
राजगढ़ रोड,
सोलन, हिमाचल प्रदेश-173212</p> | <p>498 भारतीय स्टेट बैंक,
बलद्वाड़ा, जिला मंडी,
हिमाचल प्रदेश-175033</p> |
| <p>490 भारतीय स्टेट बैंक,
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-5,
गांधी चौक,
हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश-177001</p> | <p>499 भारतीय स्टेट बैंक,
थुरल, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश-176107</p> |
| <p>491 भारतीय स्टेट बैंक,
कसूमपटी,
40, एसडीए परिसर, कसूमपटी,
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171009</p> | <p>500 भारतीय स्टेट बैंक,
रेहन, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश-176022</p> |
| <p>492 भारतीय स्टेट बैंक,
शोघी, जिला शिमला
हिमाचल प्रदेश-171219</p> | <p>501 भारतीय स्टेट बैंक,
भरमौर, जिला चंबा,
हिमाचल प्रदेश-176316</p> |
| <p>493 भारतीय स्टेट बैंक,
टूट, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश-171001</p> | <p>502 भारतीय स्टेट बैंक,
कसाबटी भंजराडू, जिला चंबा,
हिमाचल प्रदेश-176316</p> |
| <p>494 भारतीय स्टेट बैंक,
घणाहट्टी, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश-171001</p> | <p>503 भारतीय स्टेट बैंक,
रेसमेक, द माल, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश-171001</p> |
| <p>495 भारतीय स्टेट बैंक,
धर्मपुर, तहसील सरकाघाट,
जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश-175003</p> | <p>504 भारतीय स्टेट बैंक,
भरवाना, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश-176209</p> |
| <p>496 भारतीय स्टेट बैंक,
कोटली, जिला मंडी,
हिमाचल प्रदेश-175003</p> | <p>505 भारतीय स्टेट बैंक,
हरचक्कियाँ, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश-176201</p> |

- | | |
|--|--|
| 506 भारतीय स्टेट बैंक,
मझीं, जिला कांगड़ा
हिमाचल प्रदेश-176032 | 517 भारतीय स्टेट बैंक,
मोहल, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू,
हिमाचल प्रदेश-175126 |
| 507 भारतीय स्टेट बैंक,
सुन्नी, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश-171301 | 518 भारतीय स्टेट बैंक,
हि.प्र. विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र मोहली,
जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश-176218 |
| 508 भारतीय स्टेट बैंक,
नेरवा, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश-171210 | 519 भारतीय स्टेट बैंक,
भोरंज, जिला हमीरपुर,
हिमाचल प्रदेश-176045 |
| 509 भारतीय स्टेट बैंक,
कुमारहट्टी, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश-173229 | 520 भारतीय स्टेट बैंक,
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-2,
40, एसडीए परिसर,
कसूमपटी, शिमला,
हिमाचल प्रदेश-171009 |
| 510 भारतीय स्टेट बैंक,
मुख्य बाज़ार बिलासपुर,
जिला बिलासपुर,
हिमाचल प्रदेश-174001 | 521 भारतीय स्टेट बैंक,
फागु, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश-171209 |
| 511 भारतीय स्टेट बैंक,
पंडोह, जिला मंडी,
हिमाचल प्रदेश-175121 | 522 भारतीय स्टेट बैंक,
शिंगला, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश-172001 |
| 512 भारतीय स्टेट बैंक,
चैल चौक, जिला मंडी
हिमाचल प्रदेश-175045 | 523 भारतीय स्टेट बैंक,
हाटकोटी रोड रोहड़ू, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश-171207 |
| 513 भारतीय स्टेट बैंक,
टकोली, जिला मंडी,
हिमाचल प्रदेश-175121 | 524 भारतीय स्टेट बैंक,
नारकंडा, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश-171213 |
| 514 भारतीय स्टेट बैंक,
आणी, जिला कुल्लू,
हिमाचल प्रदेश-172026 | 525 भारतीय स्टेट बैंक,
पंथाघाटी,
जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश-171009 |
| 515 भारतीय स्टेट बैंक,
लौट, जिला लाहौल स्पीति,
हिमाचल प्रदेश-175132 | 526 भारतीय स्टेट बैंक,
बलद्यां, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश-171007 |
| 516 भारतीय स्टेट बैंक,
टिक्कर, जिला हमीरपुर,
हिमाचल प्रदेश-177401 | |

- | | |
|--|---|
| 527 भारतीय स्टेट बैंक,
घेंच (कोबहाग), जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश-171103 | 538 भारतीय स्टेट बैंक,
सायरी, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश-173207 |
| 528 भारतीय स्टेट बैंक,
चमयाणा, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश-171006 | 539 भारतीय स्टेट बैंक,
पट्टा ब्रावड़ी, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश-173207 |
| 529 भारतीय स्टेट बैंक,
जयनगर, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश-173221 | 540 भारतीय स्टेट बैंक,
धरोट, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश-173213 |
| 530 भारतीय स्टेट बैंक,
भूमती, तहसील अरकी, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश-173221 | 541 भारतीय स्टेट बैंक,
डमरोग, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश-173212 |
| 531 भारतीय स्टेट बैंक,
घनागुघाट, तहसील अरकी,
जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश-173102 | 542 भारतीय स्टेट बैंक,
संग्राह, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश-173023 |
| 532 भारतीय स्टेट बैंक,
झाड़माजरी, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश-174103 | 543 भारतीय स्टेट बैंक,
भंगाणी, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश-173025 |
| 533 भारतीय स्टेट बैंक,
टिपरा, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश-173225 | 544 भारतीय स्टेट बैंक,
एसबीआई इनटच पावंटा साहिब,
जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश-173025 |
| 534 भारतीय स्टेट बैंक,
देउंघाट, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश-173211 | 545 भारतीय स्टेट बैंक,
भंगरोटू, जिला मंडी,
हिमाचल प्रदेश-175021 |
| 535 भारतीय स्टेट बैंक,
डिग्री कॉलेज सोलन, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश-173212 | 546 भारतीय स्टेट बैंक,
लचौड़ी, जिला मंडी,
हिमाचल प्रदेश-176308 |
| 536 भारतीय स्टेट बैंक,
बद्दी, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश-173205 | 547 भारतीय स्टेट बैंक,
सरकारी पोलिटेकनिक
कॉलेज सुंदरनगर, |
| 537 भारतीय स्टेट बैंक,
सलोगड़ा, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश-173214 | |

जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश-175018	कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-176001
548 भारतीय स्टेट बैंक, नगगर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश-175130	558 भारतीय स्टेट बैंक, जोड़बड़ (उन्ने), जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-177112
549 भारतीय स्टेट बैंक, शमशी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश-175126	559 भारतीय स्टेट बैंक, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-176206
550 भारतीय स्टेट बैंक, निरमंड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश-172023	560 भारतीय स्टेट बैंक, सुनहेट, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-177104
551 भारतीय स्टेट बैंक, बजौड़ा, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश-175125	561 भारतीय स्टेट बैंक, ऊना मिनी सचिवालय, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश-174303
552 भारतीय स्टेट बैंक, बनोगी बाशिंग, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश-175138	562 भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई इन्टच, द माल शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001
553 भारतीय स्टेट बैंक, तरकुआड़ी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश-176045	563 भारतीय स्टेट बैंक अबोहर मुख्य शाखा मंडी नं. 4, अबोहर, जिला फाज़िलका पंजाब – 152116
554 भारतीय स्टेट बैंक, छतरेल टोनी देवी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश-177023	564 भारतीय स्टेट बैंक फाजिलका शाखा बठिंडा रोड फाजिलका, जिला फाजिलका पंजाब -151123
555 भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई इन्टच, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश-174001	565 भारतीय स्टेट बैंक फ़िरोजपुर कैंट शाखा 120, चर्च रोड, फ़िरोजपुर कैंट, जिला फ़िरोजपुर पंजाब – 152002
556 भारतीय स्टेट बैंक, ग्वालथार्ड, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश-174201	
557 भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-7,	

- | | |
|--|--|
| <p>566 भारतीय स्टेट बैंक
मोगा शाखा
मैजस्टिक रोड,
मोगा, जिला मोगा
पंजाब – 142001</p> | <p>574 भारतीय स्टेट बैंक
गुरुहरसहाय शाखा
सड़क नं 12, गुरुहरसहाय ,
जिला – फिरोजपुर
पंजाब – 152022</p> |
| <p>567 भारतीय स्टेट बैंक
मुक्तसर शाखा
मलोट रोड, मुक्तसर,
जिला मुक्तसर
पंजाब – 152026</p> | <p>575 भारतीय स्टेट बैंक
तल्वंडी भाई शाखा
अनाज मंडी, तल्वंडी भाई,
जिला फिरोजपुर
पंजाब – 142050</p> |
| <p>568 भारतीय स्टेट बैंक
तरनतारन शाखा
रेलवे रोड, तरनतारन ,
जिला तरनतारन
पंजाब – 143401</p> | <p>576 भारतीय स्टेट बैंक
बाघापुराना शाखा
कोटकपुरा रोड,
बाघापुराना, जिला मोगा
पंजाब – 142038</p> |
| <p>569 भारतीय स्टेट बैंक
फिरोज़पुर शहर शाखा
मोची बाज़ार, फिरोजपुर शहर,
जिला फिरोज़पुर
पंजाब – 152001</p> | <p>577 भारतीय स्टेट बैंक
मोड मंडी शाखा जिला बठिंडा
पंजाब -151509</p> |
| <p>570 भारतीय स्टेट बैंक
मलोट शाखा
कैरों रोड, जिला मुक्तसर
पंजाब – 152107</p> | <p>578 भारतीय स्टेट बैंक
फरीदकोट शाखा
सर्कुलर रोड,
फरीदकोट जिला फरीदकोट
पंजाब – 151203</p> |
| <p>571 भारतीय स्टेट बैंक
गिद्दरबाहा शाखा
सर्कुलर रोड, गिद्दरबाहा,
जिला मुक्तसर
पंजाब – 152101</p> | <p>579 भारतीय स्टेट बैंक
कोटकपुरा शाखा
सट्टा बाज़ार ,
कोटकपुरा, जिला फरीदकोट
पंजाब – 151204</p> |
| <p>572 भारतीय स्टेट बैंक
किक्कर बाजार शाखा
जिला बठिंडा
पंजाब- 151001</p> | <p>580 भारतीय स्टेट बैंक
जलालाबाद (पश्चिम) शाखा
जिला फिरोज़पुर
पंजाब – 152024</p> |
| <p>573 भारतीय स्टेट बैंक
रामपुरा शाखा
बैंक बाज़ार,
रामपुरा फूल, जिला बठिंडा
पंजाब - 151104</p> | <p>581 भारतीय स्टेट बैंक
एडीबी. कोटकपुरा शाखा
फरीदकोट रोड,
कोटकपुरा, जिला फरीदकोट
पंजाब – 151204</p> |

582	भारतीय स्टेट बैंक जीटी रोड मोगा शाखा मोगा, जिला मोगा पंजाब – 142001	खुब्बन जिला फ़िरोज़पुर पंजाब -152116
583	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य बाजार मोगा शाखा ओपीपी. शिवाला सूधम, मुख्य बाजार मोगा, जिला फरीदकोट पंजाब – 142001	590 भारतीय स्टेट बैंक खुई खेड़ा शाखा वीपीओ. खुई खेड़ा, राष्ट्र हाईवे नं 10, जिला फ़िरोज़पुर पंजाब – 152121
584	भारतीय स्टेट बैंक बहिमन दुआना शाखा वीपीओ. बहिमन दुआना, जिला बठिंडा पंजाब – 151001	591 भारतीय स्टेट बैंक कोटशमीर शाखा वीपीओ. जिला बठिंडा पंजाब – 151001
585	भारतीय स्टेट बैंक बठिंडा कैंट शाखा बठिंडा कैंट, जिला बठिंडा पंजाब – 151004	592 भारतीय स्टेट बैंक ममदोट शाखा वीपीओ. ममदोट, जिला फ़िरोज़पुर पंजाब – 152023
586	भारतीय स्टेट बैंक ढोतियान शाखा वीपीओ. धोतियान, जिला तरनतारन पंजाब – 143411	593 भारतीय स्टेट बैंक नाहीयांवाला शाखा दुर्गा मन्दिर के पास, तहसील और जिला बठिंडा पंजाब -151201
587	भारतीय स्टेट बैंक डोडा शाखा वीपीओ. डोडा, तहसील गिदड़बाहा, जिला मुक्तसर पंजाब – 152031	594 भारतीय स्टेट बैंक रूपाना शाखा वीपीओ. रूपाना जिला मुक्तसर पंजाब – 152032
588	भारतीय स्टेट बैंक मक्खू शाखा रेलवे रोड, मक्खू, तहसील जीरा, जिला फ़िरोज़पुर पंजाब – 142044	595 भारतीय स्टेट बैंक समाध भाई शाखा वीपीओ. समाध भाई, तहसील:बागापुराना, जिला मोगा पंजाब – 142057
589	भारतीय स्टेट बैंक खुब्बन शाखा	596 भारतीय स्टेट बैंक तल्वंडी मल्लियाँ शाखा जिला मोगा पंजाब – 142041
		597 भारतीय स्टेट बैंक मुदकी शाखा

	वीपीओ. मुदकी, जिला फिरोज़पुर पंजाब – 142060		
598	भारतीय स्टेट बैंक अरनीवाला शेख सूबन शाखा डबवालों कलाँ रोड, तहसील फाजिलका, जिला फिरोज़पुर पंजाब – 152124	605	भारतीय स्टेट बैंक एडीबी. फिरोज़पुर शाखा बगदादी गेट, फिरोज़पुर शहर पंजाब – 152001
		606	भारतीय स्टेट बैंक एडीबी. मोगा शाखा जिला मोगा पंजाब – 142001
599	भारतीय स्टेट बैंक अबुल खुराना शाखा वीपीओ. अबुल खुराना, तहसील : मलोद, जिला मुक्तसर पंजाब – 152114	607	भारतीय स्टेट बैंक बस्ती मच्छियाँ जीरा शाखा रेलवे रोड, जिला फिरोज़पुर पंजाब – 142047
600	भारतीय स्टेट बैंक चन्नो शाखा तहसील: गिदड़वाहा, जिला मुक्तसर पंजाब – 152101	608	भारतीय स्टेट बैंक भीखीविंड शाखा जिला तरनतारन पंजाब – 143303
		609	भारतीय स्टेट बैंक एडीबी. मुक्तसर शाखा बठिंडा रोड, मुक्तसर पंजाब – 152026
601	भारतीय स्टेट बैंक केके. रोड मुक्तसर शाखा कोटकपुरा रोड, मुक्तसर पंजाब – 152026	610	भारतीय स्टेट बैंक लेहरा मोहब्बत शाखा रेलवे स्टेशन के निकट, तहसील नथाना, जिला बठिंडा पंजाब – 151111
602	भारतीय स्टेट बैंक एडीबी. बठिंडा शाखा पीबी. क्रमांक 77, बठिंडा, गुरु काशी मार्ग, जिला बठिंडा पंजाब – 151001	611	भारतीय स्टेट बैंक चूहर चक्क शाखा वीपीओ. चूहर चक्क, जिला मोगा पंजाब – 142053
603	भारतीय स्टेट बैंक सिब्रियाँ शाखा एनएफएल. कॉम्प्लेक्स, जिला बठिंडा पंजाब -151002	612	भारतीय स्टेट बैंक जोखे मोरे शाखा गाँव जोखे मोरे, डाकखाना जोखे टहल सिंह, जिला फिरोज़पुर पंजाब – 152002
604	भारतीय स्टेट बैंक अमरकोट शाखा तहसील पट्टी, जिला तरनतारन पंजाब – 143419		

- | | |
|---|---|
| <p>613 भारतीय स्टेट बैंक
फरीदकोट कैंट शाखा
जिला फरीदकोट
पंजाब – 151004</p> <p>614 भारतीय स्टेट बैंक
अस्सा बूट्टर शाखा
डाकखाना बरीवाला,
जिला मुक्तसर
पंजाब – 152025</p> <p>615 भारतीय स्टेट बैंक
चवाल कलौ शाखा
जिला तरनतारन
पंजाब – 143301</p> <p>616 भारतीय स्टेट बैंक
अबोहर कैंट शाखा
गोबिंदगढ़, में कैंट ,
अबोहर, जिला फाजिलका
पंजाब – 152116</p> <p>617 भारतीय स्टेट बैंक
खुस्सा पाण्डो शाखा
गाँव : खुस्सा पाण्डो ,
तहसील मोगा, जिला मोगा
पंजाब – 142048</p> <p>618 भारतीय स्टेट बैंक
थट्टा शाखा
वीपीओ. थट्टा, तहसील जीरा,
जिला फिरोज़पुर
पंजाब – 142047</p> <p>619 भारतीय स्टेट बैंक
कसेल शाखा
वीपीओ. कसेल, जिला तरनतारन
पंजाब – 143105</p> <p>620 भारतीय स्टेट बैंक
सुखानंद शाखा
वीपीओ. सुखानंद,
तहसील: बाघापुराना, जिला मोगा
पंजाब – 142049</p> | <p>621 भारतीय स्टेट बैंक
ढिपाली शाखा
वीपीओ. ढिपाली,
तहसील :रामपुरा फूल,
जिला बठिंडा
पंजाब – 151104</p> <p>622 भारतीय स्टेट बैंक
सुबरा शाखा
वीपीओ. सुबरा, जिला- तरनतारन
पंजाब – 143417</p> <p>623 भारतीय स्टेट बैंक
सरहाली खुर्द शाखा
गाँव सरहाली खुर्द,
डाकखाना :शखीरा,
जिला तरनतारन
पंजाब – 143415</p> <p>624 भारतीय स्टेट बैंक
पट्टी शाखा
पोस्ट ऑफिस एवं ब्लॉक-पट्टी,
जिला तरनतारन
पंजाब – 143416</p> <p>625 भारतीय स्टेट बैंक
अबहुन शाखा
गाँव : अबहुन, जिला फिरोज़पुर
पंजाब – 152123</p> <p>626 भारतीय स्टेट बैंक
घुभाया शाखा
डाकखाना : घुभाया ,
तहसील : जलालाबाद,
जिला फिरोज़पुर
पंजाब – 152024</p> <p>627 भारतीय स्टेट बैंक
जैतों शाखा
तहसील एवं डाकखाना : जैतों,
जिला फरीदकोट
पंजाब – 151202</p> <p>628 भारतीय स्टेट बैंक
भागू रोड़ बठिंडा शाखा</p> |
|---|---|

- संत नगर, जिला बठिंडा
पंजाब -151001
- 629 भारतीय स्टेट बैंक
खियो वाली ढाब शाखा
तहसील एवं जिला फाजिलका
पंजाब - 152121
- 630 भारतीय स्टेट बैंक
बाम शाखा
तहसील: मलोटा, जिला मुक्तसर
पंजाब - 152032
- 631 भारतीय स्टेट बैंक
मिनी सेक्ट्रेट डीसी कॉम्प्लेक्स मुक्तसर शाखा
डीसी कार्यालय, मुक्तसर
पंजाब - 152026
- 632 भारतीय स्टेट बैंक
गुरुद्वारा रोड गोइन्दवाल शाखा ,
जल टैंक गोइन्दवाल के सामने ,
जिला तरनतारन
पंजाब - 143422
- 633 भारतीय स्टेट बैंक
चोलह साहिब शाखा
गुरुद्वारा दुख निवारण बाजार,
गोइन्दवाल रोड, चोला साहिब, तरनतारन
पंजाब - 143408
- 634 भारतीय स्टेट बैंक
अमृतसर रोड तरनतारन शाखा
अमृतसर रोड, जिला तरनतारन
पंजाब - 143401
- 635 भारतीय स्टेट बैंक
मुद्रा प्रशासन सेल बठिंडा,
मुख्य शाखा बठिंडा,
जिला - बठिंडा
पंजाब - 151001
- 636 भारतीय स्टेट बैंक
सदीक शाखा ,
- मुक्तसर रोड,
गुरुद्वारा सिंह सभा के सामने ,
बीपीओ. सदीक ,
जिला फरीदकोट
पंजाब - 151212
- 637 भारतीय स्टेट बैंक
सदीक चौक फरीदकोट शाखा
दुकान नं. 4,
न्यू ग्रेन मार्केट सदीक चौक,
फरीदकोट, फरीदकोट
पंजाब - 151203
- 638 भारतीय स्टेट बैंक
एनजीएम मुक्तसर शाखा
दुकान नं. 59 और 60,
न्यू ग्रेन मार्केट,
डाकखाना एवं जिला मुक्तसर
पंजाब - 152026
- 639 भारतीय स्टेट बैंक
बरनाला रोड बठिंडा शाखा
बठिंडा
पंजाब -151001
- 640 भारतीय स्टेट बैंक
बारा दराका शाखा
डाकखाना बारा दराका,
तहसील कोटकपुरा,
जिला फरीदकोट
पंजाब - 151209
- 641 भारतीय स्टेट बैंक
भुञ्जों खुर्द शाखा
बरनाला रोड, बठिंडा
पंजाब - 151101
- 642 भारतीय स्टेट बैंक
देव समाज कालेज़ (महिला) शाखा
निकट बंसी गेट, फिरोजपुर शहर
पंजाब -152001
- 643 भारतीय स्टेट बैंक
समालसर शाखा

डाकखाना : समालसर ,जिला मोगा पंजाब – 142049	651 भारतीय स्टेट बैंक बठिंडा शाखा बैंक स्ट्रीट, पुराना सट्टा बाज़ार, जिला बठिंडा पंजाब -151001
644 भारतीय स्टेट बैंक डीसी कॉम्प्लेक्स, फाजिलका शाखा बॉर्डर रोड, हनुमान मन्दिर और गुरुवार साहिब के नज़दीक, फाजिलका पंजाब – 152123	652 भारतीय स्टेट बैंक मोगा सिविल लाइन्स शाखा जीटी. रोड, तहसील और जिला मोगा पंजाब – 142001
645 भारतीय स्टेट बैंक जीटी रोड, मलोटा शाखा मक्कर पैलेस के सामने, मलोटा, जिला मुक्तसर पंजाब – 152107	653 भारतीय स्टेट बैंक अलामवाला शाखा तहसील – फरीदकोट, जिला - फरीदकोट पंजाब - 152210
646 भारतीय स्टेट बैंक परताप नगर बठिंडा शाखा , सचदेवा चक्की के पास, दशहरा मैदान के सामने , बठिंडा पंजाब – 151001	654 भारतीय स्टेट बैंक ऑचलिक कार्यालय : बठिंडा लक्ष्य भवन, अमरीक सिंह रोड, प्रथम मंजिल, बठिंडा पंजाब – 151001
647 भारतीय स्टेट बैंक फाजिलका रोड अबोहर शाखा कुमार पेट्रोल पंप और एमएलटी. स्टेशन के बीच में , गेट नं. 1, अबोहर, जिला - फाजिलका पंजाब - 152116	655 भारतीय स्टेट बैंक आरबीओ - 2, बठिंडा लक्ष्य भवन, अमरीक सिंह रोड, बठिंडा पंजाब – 151001
648 भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई. इन टच बठिंडा शाखा 100 फीट रोड, सगू कॉम्प्लेक्स, बठिंडा पंजाब – 151001	656 भारतीय स्टेट बैंक आरबीओ - 3, बठिंडा लक्ष्य भवन , अमरीक सिंह रोड, बठिंडा पंजाब – 151001
649 भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई. इन टच मुक्तसर शाखा कुंदन कॉम्प्लेक्स, बठिंडा रोड मुक्तसर पंजाब -152026	657 भारतीय स्टेट बैंक आरबीओ - 4, बठिंडा लक्ष्य भवन, अमरीक सिंह रोड, बठिंडा पंजाब – 151001
650 भारतीय स्टेट बैंक अबोहर शाखा भगत सिंह चौक, अबोहर, जिला फाजिलका पंजाब -152116	658 भारतीय स्टेट बैंक सीटो गुप्तों शाखा

- निकट उदय पेट्रोल पंप,
सिट्रो गुन्नो, जिला फाजिलका
पंजाब – 152116
- 659 भारतीय स्टेट बैंक
शाखा लालावाली
गाँव : लालावाली,
तहसील और जिला फाजिलका
पंजाब – 152123
- 660 भारतीय स्टेट बैंक
बलोह शाखा
गाँव एवं डाकखाना - बलोह
तहसील : रामपुरा फूल,
जिला-बठिंडा
पंजाब – 151510
- 661 भारतीय स्टेट बैंक
सारावान शाखा
गाँव एवं डाकखाना : सारावान,
तहसील मलोट, जिला-मुक्तसर
पंजाब – 151204
- 662 भारतीय स्टेट बैंक
पेयोरी शाखा
गाँव एवं डाकखाना : पेयोरी,
तहसील-गिदड़बाहा, जिला-मुक्तसर
पंजाब – 151001
- 663 भारतीय स्टेट बैंक
वारींग खेड़ा शाखा
तहसील - मलोट, जिला-मुक्तसर,
पंजाब – 151211
- 664 भारतीय स्टेट बैंक
अब्लू शाखा
डाकखाना : अब्लू (कोट चेत सिंह)
तहसील और जिला बठिंडा
पंजाब – 151201
- 665 भारतीय स्टेट बैंक
जय सिंह वाला शाखा
डाकखाना : जय सिंह वाला,
तहसील और जिला बठिंडा
पंजाब - 151001
- 666 भारतीय स्टेट बैंक
कुलधरी शाखा
गाँव : कुलगडी,
डाकखाना : शीरेखावाला फ़िरोज़पुर,
जिला- फ़िरोज़पुर
पंजाब – 152005
- 667 भारतीय स्टेट बैंक
गोलेवाला शाखा
गाँव : गोलेवाला,
तहसील एवं, जिला फरीदकोट
पंजाब – 151203
- 668 भारतीय स्टेट बैंक
कलालवाली शाखा
गाँव एवं डाकखाना : कलालवाला ,
तहसील-तलवंडी साबो, जिला-बठिंडा
पंजाब - 151302
- 669 भारतीय स्टेट बैंक
झंडुके शाखा
गाँव एवं डाकखाना : झंडुके,
तहसील-मौड़, जिला-बठिंडा
पंजाब – 151506
- 670 भारतीय स्टेट बैंक
जोधपुर पक्खर शाखा
गाँव एवं डाकखाना : जोधपुर पक्खर,
तहसील-मौड़, जिला-बठिंडा
पंजाब – 151509
- 671 भारतीय स्टेट बैंक
शाखा – भोखड़ा
गाँव एवं डाकखाना - भोखड़ा,
गोनियाना रोड बठिंडा,
जिला-बठिंडा
पंजाब – 151201
- 672 भारतीय स्टेट बैंक
भट्टी रोड बठिंडा शाखा,
भट्टी रोड, केयर अस्पताल के सामने, बठिंडा
पंजाब -151001

- | | |
|--|--|
| <p>673 भारतीय स्टेट बैंक
कोट बक्तु शाखा
गाँव एवं डाकखाना : कोट बक्तु,
जिले-बठिंडा
पंजाब – 151301</p> | <p>680 भारतीय स्टेट बैंक
कुस्सा शाखा
गाँव : कुस्सा,
तहसील – निहाल सिंह वाला,
जिला-मोगा
पंजाब – 142039</p> |
| <p>674 भारतीय स्टेट बैंक
भाई रुपा शाखा
गुमती रोड, तहसील : रामपुरा फूल,
जिला, बठिंडा
पंजाब – 151106</p> | <p>681 भारतीय स्टेट बैंक
खिप्पनवाली शाखा
मुख्य बाज़ार, गांव : खिप्पनवाली,
तहसील एवं जिला फाजिल्का
पंजाब – 152121</p> |
| <p>675 भारतीय स्टेट बैंक
जोक हरीहर शाखा
गाँव : जोक हरीहर,
मुक्तसर फ़िरोज़पुर रोड ,
तहसील एवं जिला - फ़िरोजपुर
पंजाब – 152003</p> | <p>682 भारतीय स्टेट बैंक
अजीत रोड बठिंडा शाखा
अजित रोड,
गली क्रमांक. 30 के सामने ,
गुरुद्वारे के पास , बठिंडा
पंजाब – 151001</p> |
| <p>676 भारतीय स्टेट बैंक
पुंजावा शाखा
गाँव : पुंजावा ,
तहसील-मलौट,
जिला-मुक्तसर
पंजाब – 152113</p> | <p>683 भारतीय स्टेट बैंक
मुख्य शाखा
फाउंटेन चौक, सिविल लाइंस
लुधियाना(पंजाब)– 141001</p> |
| <p>677 भारतीय स्टेट बैंक
लाल सिंह बस्ती बठिंडा शाखा
लाल सिंह बस्ती , बठिंडा
पंजाब -151001</p> | <p>684 भारतीय स्टेट बैंक
गिल रोड
लुधियाना (पंजाब) – 141003</p> |
| <p>678 भारतीय स्टेट बैंक
पथराला शाखा
गाँव एवं डाकखाना : पथराला ,
ब्लॉक: संगत मंडी, जिला बठिंडा
पंजाब -151401</p> | <p>685 भारतीय स्टेट बैंक
लिक रोड
277 इंडस्ट्रियल एस्टेट एरिया ए
लुधियाना (पंजाब) – 141003</p> |
| <p>679 भारतीय स्टेट बैंक
तख्तपुरा शाखा
गाँव : तख्तपुरा,
तहसील - निहाल सिंह वाला,
जिला- मोगा,
पंजाब – 142039</p> | <p>686 भारतीय स्टेट बैंक
गुरदेव नगर
लुधियाना (पंजाब) – 141001</p> |
| | <p>687 भारतीय स्टेट बैंक
हीरो नगर
जी टी रोड
लुधियाना
(पंजाब) – 141001</p> |

- | | |
|---|--|
| <p>688 भारतीय स्टेट बैंक
न्यू कोर्ट्स
मिनी सचिवालय
लुधियाना (पंजाब) – 141001</p> <p>689 भारतीय स्टेट बैंक
लाढोवाल
लुधियाना (पंजाब) – 141008</p> <p>690 भारतीय स्टेट बैंक
एसएमई सुंदर नगर
लुधियाना (पंजाब) – 141008</p> <p>691 भारतीय स्टेट बैंक
फुलांवाला
पखोवाल रोड
लुधियाना(पंजाब)– 141013</p> <p>692 भारतीय स्टेट बैंक
ट्रेजरी शाखा
रानी झौंसी रोड
खालसा कॉलेज फॉर वुमेन के सामने
लुधियाना (पंजाब) – 141001</p> <p>693 भारतीय स्टेट बैंक
डुगरी अरबन एस्टेट – II
लुधियाना (पंजाब) – 141013</p> <p>694 भारतीय स्टेट बैंक
टैगोर नगर
नज़दीक डी एम सी
लुधियाना (पंजाब) – 141001</p> <p>695 भारतीय स्टेट बैंक
एसएसआई शिमलापुरी
लुधियाना (पंजाब) – 141003</p> <p>696 भारतीय स्टेट बैंक
मॉडल टाउन एक्सटेंशन
वृद्ध आश्रम के सामने
नज़दीक गुरुद्वारा सिंह सभा
लुधियाना (पंजाब) – 141002</p> <p>697 भारतीय स्टेट बैंक
डुगरी रोड
लुधियाना (पंजाब) – 141001</p> | <p>698 भारतीय स्टेट बैंक
स्टॉक एक्सचेंज
लुधियाना (पंजाब) – 141001</p> <p>699 भारतीय स्टेट बैंक
राहों रोड
लुधियाना (पंजाब) – 141007</p> <p>700 भारतीय स्टेट बैंक
दोराहा शाखा
ज़िला लुधियाना (पंजाब) – 141421</p> <p>701 भारतीय स्टेट बैंक
जोध्दा
पखोवाल रोड
लुधियाना(पंजाब)– 141001</p> <p>702 भारतीय स्टेट बैंक
जालंधर बाइ पास
एससीएफ़ 183, दाना मंडी
लुधियाना (पंजाब) – 141002</p> <p>703 भारतीय स्टेट बैंक
जनकपुरी
बी- 23/729/298/2
लुधियाना (पंजाब) – 141001</p> <p>704 भारतीय स्टेट बैंक
विशेषीकृत मुद्रा प्रशासन शाखा
मिलरगंज
लुधियाना (पंजाब) – 141002</p> <p>705 भारतीय स्टेट बैंक
कटानी कलां
लुधियाना – चंडीगढ़ रोड
लुधियाना(पंजाब)– 141113</p> <p>706 भारतीय स्टेट बैंक
हंबड़ा
मेन रोड, गाँव हंबड़ा
लुधियाना
(पंजाब)– 141110</p> <p>707 भारतीय स्टेट बैंक
इनटच शाखा</p> |
|---|--|

	एससीओ – 36-37, बीआरएस नगर लुधियाना (पंजाब)– 141001	716	भारतीय स्टेट बैंक भुट्टा तहसील लुधियाना लुधियाना(पंजाब) – 141206
708	भारतीय स्टेट बैंक फ़िरोज़पुर रोड बीएक्सएक्स – 2607 होटल पार्क प्लाज़ा के सामने , नज़दीक नागपाल रेजेंसी लुधियाना (पंजाब) – 141001	717	भारतीय स्टेट बैंक हैबोवाल कलां तूर अस्पताल के साथ, नज़दीक रिलायंस फ़्रेश मेन रोड लुधियाना (पंजाब) – 141001
709	भारतीय स्टेट बैंक माधोपुरी चौक लुधियाना (पंजाब)– 141008	718	भारतीय स्टेट बैंक पखोवाल रोड 1339/7, पस्सी चौक, हाउसफीड फ्लैट के सामने लुधियाना (पंजाब) – 141013
710	भारतीय स्टेट बैंक दंडी स्वामी चौक 801/7, लूमबा स्ट्रीट लुधियाना (पंजाब) – 141001	719	भारतीय स्टेट बैंक जगराओं लाजपत राय रोड ज़िला लुधियाना (पंजाब) – 142026
711	भारतीय स्टेट बैंक सराभा नगर 233-ए, अपर ग्राउंड फ्लोर, पखोवाल रोड लुधियाना (पंजाब)– 141001	720	भारतीय स्टेट बैंक केसरगंज लुधियाना (पंजाब) – 141008
712	भारतीय स्टेट बैंक भारत नगर चौक लुधियाना (पंजाब) – 141001	721	भारतीय स्टेट बैंक चौड़ा बाज़ार लुधियाना (पंजाब) – 141008
713	भारतीय स्टेट बैंक वाणिज्यिक शाखा जी टी रोड, मिलरगंज आरती कॉम्प्लेक्स,विश्वकर्मा चौक लुधियाना(पंजाब) – 141003	722	भारतीय स्टेट बैंक जी टी रोड खन्ना(पंजाब) – 141101
714	भारतीय स्टेट बैंक देवकी देवी जैन कॉलेज फॉर वुमेन किदवरी नगर लुधियाना (पंजाब)– 141008	723	भारतीय स्टेट बैंक पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना(पंजाब) – 141004
715	भारतीय स्टेट बैंक आयकर भवन ऋषि नगर लुधियाना (पंजाब) – 141001	724	भारतीय स्टेट बैंक ढान्ढरी कलां सी – 39, फोकल पॉइंट लुधियाना(पंजाब)– 141011
		725	भारतीय स्टेट बैंक एसएमई फोकल पॉइंट नज़दीक ढान्ढरी कलां

- पोस्ट ऑफिस, जी टी रोड
लुधियाना(पंजाब)– 141014
- 726 भारतीय स्टेट बैंक
ई – 68, वैयक्तिक बैंकिंग शाखा
सराभा नगर
लुधियाना (पंजाब) -141001
- 727 भारतीय स्टेट बैंक
मुंडियाँ कलां
चंडीगढ़ रोड
लुधियाना (पंजाब)– 141015
- 728 भारतीय स्टेट बैंक
अगर नगर
बी-ब्लॉक
लुधियाना (पंजाब)- 141012
- 729 भारतीय स्टेट बैंक
रेलवे स्टेशन शाखा
नज़दीक लक्ष्मी सिनेमा, लक्कड़ बाज़ार
लुधियाना (पंजाब)- 141001
- 730 भारतीय स्टेट बैंक
एडीबी माछीवाड़ा
समराला रोड
माछीवाड़ा (पंजाब)- 141115
- 731 भारतीय स्टेट बैंक
कोहाड़ा
माछीवाड़ा रोड
लुधियाना (पंजाब)- 141001
- 732 भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय – 2
फव्वारा चौक,
सिविल लाइंस
लुधियाना(पंजाब) – 141001
- 733 भारतीय स्टेट बैंक
शिंगार सिनेमा रोड
4471 - शिवाजी नगर
लुधियाना (पंजाब)– 141008
- 734 भारतीय स्टेट बैंक
फील्ड गंज
एससीओ - 23-24, मेन मार्केट
सिविल हॉस्पिटल के सामने
लुधियाना (पंजाब) – 141008
- 735 भारतीय स्टेट बैंक
राजगुरु नगर
एससीओ - 25-26, मेन मार्केट
लुधियाना (पंजाब) – 141012
- 736 भारतीय स्टेट बैंक
इन्टच शाखा
फ़िरोज़पुर रोड,
एमबीडी मॉल के सामने
लुधियाना (पंजाब) – 141012
- 737 भारतीय स्टेट बैंक
साहनेवाल
वार्ड नंबर 11, डेहलों रोड
नज़दीक गुरु गोबिंद सिंह गेट
साहनेवाल चौक
लुधियाना (पंजाब) -141120
- 738 भारतीय स्टेट बैंक
लुधियाना हाइ-टेक
शहीद जसदेव सिंह नगर
वैल्कम पेट्रोल पम्प के सामने
लुधियाना (पंजाब) – 141116
- 739 भारतीय स्टेट बैंक
हंस
तहसील - जगराओं
लुधियाना (पंजाब) – 142026
- 740 भारतीय स्टेट बैंक
ओल्डग्रेन मार्केट
दुकान नंबर – 85-86
जगराओं (पंजाब) – 142026
- 741 भारतीय स्टेट बैंक
राड़ा साहिब
कैनाल के सामने
तहसील - पायल
ज़िला लुधियाना (पंजाब) – 141001

- | | |
|--|--|
| <p>742 भारतीय स्टेट बैंक
इकोलाहा
मलेरकोटला रोड
बस स्टैंड के नज़दीक
लुधियाना (पंजाब) – 141414</p> | <p>750 भारतीय स्टेट बैंक
जंडियाला
तहसील फिलौर
ज़िला जालंधर
(पंजाब) – 144033</p> |
| <p>743 भारतीय स्टेट बैंक
खेड़ी
तहसील - लालटन कलां
ठक्करवाल रोड
ज़िला लुधियाना (पंजाब) - 142022</p> | <p>751 भारतीय स्टेट बैंक
व्यास पिंड
पठानकोट रोड
ज़िला जालंधर
(पंजाब) – 144302</p> |
| <p>744 भारतीय स्टेट बैंक
बरधला
तहसील - समराला
लुधियाना (पंजाब) – 141114</p> | <p>752 भारतीय स्टेट बैंक
जंडुसिंघा
होशियारपुर रोड
ज़िला जालंधर
(पंजाब) – 144025</p> |
| <p>745 भारतीय स्टेट बैंक
डुगरी बसंत एवेन्यू
बी- 37/84, डुगरी रोड
जगदीश नगर,
कैनाल ब्रिज के नज़दीक
लुधियाना (पंजाब)- 141002</p> | <p>753 भारतीय स्टेट बैंक
एडीबी कल्याणपुर
ज़िला जालंधर
(पंजाब) – 144026</p> |
| <p>746 भारतीय स्टेट बैंक
फिलौर
एससीएस नंबर – 9-10
पुडा कॉम्प्लेक्स
ज़िला जालंधर
(पंजाब)– 144410</p> | <p>754 भारतीय स्टेट बैंक
किशनगढ़
तहसील करतारपुर
ज़िला जालंधर
(पंजाब) – 144301</p> |
| <p>747 भारतीय स्टेट बैंक
चीट्टी
ज़िला जालंधर
(पंजाब)– 144028</p> | <p>755 भारतीय स्टेट बैंक
नूरमहल
बस स्टैंड के सामने
ज़िला जालंधर
(पंजाब) – 144039</p> |
| <p>748 भारतीय स्टेट बैंक
खुरदपुर
तहसील आदमपुर
ज़िला जालंधर
(पंजाब)– 144102</p> | <p>756 भारतीय स्टेट बैंक
रुड्का कलां
तहसील फिलौर
ज़िला जालंधर
(पंजाब)- 144031</p> |
| <p>749 भारतीय स्टेट बैंक
शाहकोट
ज़िला जालंधर
(पंजाब) – 144702</p> | <p>757 भारतीय स्टेट बैंक
सराय खास
तहसील करतारपुर
ज़िला जालंधर
(पंजाब)- 144801</p> |

- | | | |
|-----|--|--|
| 758 | भारतीय स्टेट बैंक
डरोली कलां
ज़िला जालंधर
(पंजाब) – 144104 | नज़दीक ग्रेन मार्केट
ज़िला जालंधर
(पंजाब) – 144629 |
| 759 | भारतीय स्टेट बैंक
नकोदर
टर्मिनल – 81, जालंधर रोड
ज़िला जालंधर
(पंजाब) – 144040 | 767 भारतीय स्टेट बैंक
डीएवी यूनिवर्सिटी सरमस्तपुर
ज़िला जालंधर
(पंजाब) – 144301 |
| 760 | भारतीय स्टेट बैंक
एडीबी फिलौर
ज़िला जालंधर
(पंजाब) – 144410 | 768 भारतीय स्टेट बैंक
सुन्नेर कलां
ज़िला कपूरथला
(पंजाब) – 144020 |
| 761 | भारतीय स्टेट बैंक
एएफ़एस आदमपुर दोआबा
आदमपुर
ज़िला जालंधर – 144103 | 769 भारतीय स्टेट बैंक
जालंधर केण्टोमेंट
51- चर्च रोड
जालंधर
(पंजाब) – 144005 |
| 762 | भारतीय स्टेट बैंक
गोराया
जी टी रोड
ज़िला जालंधर
(पंजाब)– 144409 | 770 भारतीय स्टेट बैंक
इंडस्ट्रियल एरिया
जालंधर (पंजाब) – 144008 |
| 763 | भारतीय स्टेट बैंक
बिलगा – (13683)
ज़िला जालंधर
(पंजाब) – 144036 | 771 भारतीय स्टेट बैंक
नियर रेल्वे रोड
जालंधर (पंजाब) 144001 |
| 764 | भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय नॉन बीपीआर-2
सिविल लाइंस
जालंधर (पंजाब) – 144001 | 772 भारतीय स्टेट बैंक
न्यू ग्रेन मार्केट
जालंधर (पंजाब) -144004 |
| 765 | भारतीय स्टेट बैंक
एनआरआई नकोदर शाखा
शंकर रोड, नकोदर
ज़िला जालंधर
(पंजाब) – 144040 | 773 भारतीय स्टेट बैंक
ओल्ड रेल्वे रोड
जालंधर(पंजाब)– 144001 |
| 766 | भारतीय स्टेट बैंक
लोहियाँ खास
मेन रोड | 774 भारतीय स्टेट बैंक
फेंटनगंज
जालंधर(पंजाब) – 144001 |
| | | 775 भारतीय स्टेट बैंक
बस्ती शेख
जालंधर – 144002 |
| | | 776 भारतीय स्टेट बैंक
इमाम नासिर |

	एनके- 185, दीदार पैलेस, चरणजीतपुरा जालंधर (पंजाब) – 144002	जीटी रोड, बाइ-पास जालंधर (पंजाब) – 144004
777	भारतीय स्टेट बैंक खुरला किंगरा नकोदर रोड जालंधर(पंजाब) – 144003	786 भारतीय स्टेट बैंक स्पोर्ट्स एंड सर्जिकल कॉम्प्लेक्स कपूरथला रोड जालंधर(पंजाब) – 144001
778	भारतीय स्टेट बैंक एसएमई टांडा रोड के एम वी कॉलेज के सामने जालंधर (पंजाब) – 144004	787 भारतीय स्टेट बैंक छोटी बारादरी जालंधर(पंजाब) – 144022
779	भारतीय स्टेट बैंक विशेष वैयक्तिक बैंकिंग शाखा मॉडल टाउन 14 लिंक रोड जालंधर (पंजाब) – 144003	788 भारतीय स्टेट बैंक गुरु गोबिंद सिंह एवेन्यू जालंधर-अमृतसर बाइ-पास जालंधर(पंजाब) – 144009
780	भारतीय स्टेट बैंक मिनी सचिवालयमास्टर तारा सिंह नगर जालंधर(पंजाब) – 144001	789 भारतीय स्टेट बैंक जीटीबी नगर जालंधर(पंजाब) – 144001
781	भारतीय स्टेट बैंक इण्ड देव कॉलोनी जीटी रोड बाइ-पास जालंधर (पंजाब) – 144004	790 भारतीय स्टेट बैंक इन्टच शाखा लाजपत नगर 261, एमिनेंट मॉललाजपत नगर जालंधर(पंजाब) – 144001
782	भारतीय स्टेट बैंक एनआरआई शाखा 917-18 जीटी रोड बस स्टैंड के नज़दीक जालंधर (पंजाब) – 144001	791 भारतीय स्टेट बैंक जालंधर ईएस – 15, मालही कॉम्प्लेक्स सिविल लाइंस मॉडल टाउन रोड जालंधर(पंजाब)– 144001
783	भारतीय स्टेट बैंक रेल्वे स्टेशन जालंधर जालंधर (पंजाब) – 144001	792 भारतीय स्टेट बैंक जालंधर सिटी 238/5 अड्डा बस्ती रोड जालंधर(पंजाब)– 144001
784	भारतीय स्टेट बैंक बीएसएफ़ कैम्पस जालंधर (पंजाब) – 144006	793 भारतीय स्टेट बैंक अम्बेडकर चौक जालंधर(पंजाब)– 144001
785	भारतीय स्टेट बैंक आईएनडी फोकल पॉइंट	794 भारतीय स्टेट बैंक जालंधर कैंट जालंधर(पंजाब) – 144001

- | | |
|---|---|
| <p>795 भारतीय स्टेट बैंक
बस्ती नौ
प्लॉट नंबर 5, पीएनबी के सामने
जालंधर (पंजाब) - 144005</p> <p>796 भारतीय स्टेट बैंक
मक्सुदां
विजय रिज़ॉर्ट के सामने ,
मक्सुदां चौक
जालंधर (पंजाब) - 144008</p> <p>797 भारतीय स्टेट बैंक
मनी शॉप
5-सी ज्ञान नगर,
नज़दीक लिबर्टी चौक
जालंधर(पंजाब)- 144001</p> <p>798 भारतीय स्टेट बैंक
मुख्य शाखा
टाउन हाल
अमृतसर (पंजाब) - 143001</p> <p>799 भारतीय स्टेट बैंक
अमृतसर केण्टोमेंट रानी का बाग
अमृतसर (पंजाब)- 143001</p> <p>800 भारतीय स्टेट बैंक
एसएमई गोपाल नगर
10, मजीठा रोड
अमृतसर (पंजाब)- 143001</p> <p>801 भारतीय स्टेट बैंक
करमों देओडी
अमृतसर (पंजाब)- 143001</p> <p>802 भारतीय स्टेट बैंक
इंडस्ट्रियल एरिया मोहन नगर
अमृतसर (पंजाब)- 143001</p> <p>803 भारतीय स्टेट बैंक
ढाब बस्ती राम
अमृतसर (पंजाब)- 143001</p> <p>804 भारतीय स्टेट बैंक
कटड़ा खज़ाना खजाना गेट
अमृतसर (पंजाब) - 143001</p> | <p>805 भारतीय स्टेट बैंक
लोहगढ़ गेट
अमृतसर (पंजाब)- 143001</p> <p>806 भारतीय स्टेट बैंक
पुतलीघर
अमृतसर (पंजाब)- 143001</p> <p>807 भारतीय स्टेट बैंक
एसएमई रणजीत एवेन्यू
गोल्डन टेम्पल सिटी,
एससीओ नंबर - 05
डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर
अमृतसर (पंजाब)- 143001</p> <p>808 भारतीय स्टेट बैंक
लॉरेन्स रोड
अमृतसर (पंजाब)- 143001</p> <p>809 भारतीय स्टेट बैंक
आटा मंडी
अमृतसर (पंजाब)- 143001</p> <p>810 भारतीय स्टेट बैंक
रेल्वे स्टेशन
अमृतसर (पंजाब)- 143001</p> <p>811 भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय
रानी का बाग
अमृतसर (पंजाब)- 143001</p> <p>812 भारतीय स्टेट बैंक
मुद्रा प्रशासन सेल
खज़ाना गेट
अमृतसर (पंजाब) -143001</p> <p>813 भारतीय स्टेट बैंक
डिव. हेड क्वार्टर केंद्र
राम तीर्थ रोड
अमृतसर (पंजाब)- 143001</p> <p>814 भारतीय स्टेट बैंक
बटाला रोड-8016
अमृतसर (पंजाब)- 143001</p> |
|---|---|

- | | |
|--|---|
| <p>815 भारतीय स्टेट बैंक
हरिपुरा
मेन रोड हरिपुरा,
पी ओ ज्वाला फ्लोर मिल्स
अमृतसर (पंजाब) – 143001</p> | <p>824 भारतीय स्टेट बैंक
बस स्टैंड के सामने
2320/14, मेन बाज़ार
शरीफपुरा
अमृतसर (पंजाब)– 143001</p> |
| <p>816 भारतीय स्टेट बैंक
न्यू ग्रेन मार्केट
भगतांवाला
अमृतसर (पंजाब)– 143001</p> | <p>825 भारतीय स्टेट बैंक
सुलतानविंड
मेन बाज़ार, केनाल के नज़दीक
अमृतसर (पंजाब)– 143001</p> |
| <p>817 भारतीय स्टेट बैंक
मजीठा रोड
12-ए ग्रीन फील्ड एवेन्यू,
मजीठा रोड
अमृतसर (पंजाब)– 143004</p> | <p>826 भारतीय स्टेट बैंक
लोहारका रोड
बाइ- पास के नज़दीक
अमृतसर (पंजाब)– 143001</p> |
| <p>818 भारतीय स्टेट बैंक
फतेहगढ़ चूड़ियाँ रोड
16-17 भूल्लर एवेन्यू
अमृतसर (पंजाब)– 143006</p> | <p>827 भारतीय स्टेट बैंक
बसंत एवेन्यू
अमृतसर (पंजाब)– 143001</p> |
| <p>819 भारतीय स्टेट बैंक
जालंधर रोड
सी/ओ ऑटो ग्लोबल
अमृतसर (पंजाब)– 143006</p> | <p>828 भारतीय स्टेट बैंक
शिवाला भाइयाँ रोड
अमृतसर – 143001</p> |
| <p>820 भारतीय स्टेट बैंक
अजनाला रोड
अमृतसर (पंजाब) – 143006</p> | <p>829 भारतीय स्टेट बैंक
पेंथर कॉम्प्लेक्स
अमृतसर कैंट
अमृतसर (पंजाब)– 143001</p> |
| <p>821 भारतीय स्टेट बैंक
न्यू अमृतसर
अशोक वाटिका पब्लिक स्कूल
अमृतसर (पंजाब)– 143006</p> | <p>830 भारतीय स्टेट बैंक
इन्टच शाखा पुतलीघर
3616- XIV/22,
बेरी हॉस्पिटल के नज़दीक
जीटी रोड, पुतलीघर
अमृतसर (पंजाब) – 143001</p> |
| <p>822 भारतीय स्टेट बैंक
छहरटा
452 जी टी रोड
अमृतसर (पंजाब) – 143105</p> | <p>831 भारतीय स्टेट बैंक
इन्टच शाखा रणजीत एवेन्यू
एससीओ-96,
बी- ब्लॉक ,
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
होटल पी आर रेसीडेंसी के नज़दीक,
रणजीत एवेन्यू
अमृतसर (पंजाब)- 143001</p> |
| <p>823 भारतीय स्टेट बैंक
वेरका –(11960)
दशमेश एवेन्यू,
ठाकुर पैलेस के सामने
अमृतसर (पंजाब)– 143501</p> | |

- | | |
|--|---|
| <p>832 भारतीय स्टेट बैंक
अमृतसर
93, पोस्ट ऑफिस के नज़दीक
डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ,
रणजीत एवेन्यू
अमृतसर (पंजाब)– 143001</p> | <p>जी टी रोड,
तहसील बाबा बकाला
अमृतसर (पंजाब)– 143119</p> |
| <p>833 भारतीय स्टेट बैंक
पुतलीघर
ओम इंटरनेशनल के नज़दीक
6, जीटी रोड , पुतलीघर
अमृतसर (पंजाब)– 143001</p> | <p>842 भारतीय स्टेट बैंक
पीबीबी कपूरथला
अमन नगर
ज़िला कपूरथला
(पंजाब) – 144601</p> |
| <p>834 भारतीय स्टेट बैंक
अजनाला
ओल्ड पोस्ट ऑफिस रोड
ज़िला अमृतसर (पंजाब)– 143102</p> | <p>843 भारतीय स्टेट बैंक
एनआरआई ब्रांच फगवाड़ा
डोल कॉम्प्लेक्स, कोर्ट रोड
ज़िला कपूरथला
(पंजाब)– 144401</p> |
| <p>835 भारतीय स्टेट बैंक
मजीठा
अमृतसर (पंजाब)– 143601</p> | <p>844 भारतीय स्टेट बैंक
जेठवाल
अमृतसर (पंजाब)– 143502</p> |
| <p>836 भारतीय स्टेट बैंक
फगवाड़ा
ज़िला कपूरथला (पंजाब)- 144401</p> | <p>845 भारतीय स्टेट बैंक
चोगावां
अमृतसर (पंजाब)- 143109</p> |
| <p>837 भारतीय स्टेट बैंक
अटारी
ज़िला अमृतसर (पंजाब) – 143108</p> | <p>846 भारतीय स्टेट बैंक
जंडियाला गुरु
खडूर साहिब रोड
अमृतसर (पंजाब)– 143115</p> |
| <p>838 भारतीय स्टेट बैंक
रेलवे रोड कपूरथला
ज़िला कपूरथला (पंजाब)– 144601</p> | <p>847 भारतीय स्टेट बैंक
रामदास
अमृतसर (पंजाब)– 143401</p> |
| <p>839 भारतीय स्टेट बैंक
खजूरला
तहसील – फगवाड़ा
ज़िला कपूरथला
(पंजाब) – 144024</p> | <p>848 भारतीय स्टेट बैंक
बेगोवाल
सी/ओ संत मोटर्स कॉलेज रोड
ज़िला कपूरथला
(पंजाब)– 144621</p> |
| <p>840 भारतीय स्टेट बैंक
एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स राजा सांसी
अमृतसर (पंजाब)– 143001</p> | <p>849 भारतीय स्टेट बैंक
खासा, डोगरी कॉम्प्लेक्स ,
गेट नंबर सीपी- 6
डियरलैंड पैलेस के सामने ,
खासा कैंट
अमृतसर (पंजाब) – 143001</p> |
| <p>841 भारतीय स्टेट बैंक
एडीबी टांगड़ा</p> | |

850	भारतीय स्टेट बैंक एसजीआरसी हॉस्पिटल छापा राम सिंह , मेहता रोड अमृतसर (पंजाब)– 143501	कपूरथला (पंजाब) – 144601
851	भारतीय स्टेट बैंक मट्टेवाल गुरुद्वारा गुरु की बेर के नज़दीक अमृतसर (पंजाब)– 143116	858 भारतीय स्टेट बैंक व्यास पिंड जीटी रोड नज़दीक आर्मी ब्रिगेड अमृतसर (पंजाब) – 143201
852	भारतीय स्टेट बैंक दबूरजी जीटी रोड अमृतसर (पंजाब)– 143414	859 भारतीय स्टेट बैंक प्रशासनिक कार्यालय सिविल लाइंस फव्वारा चौक लुधियाना – 141001
853	भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय– II 4 th फ्लोर, जे.के टावर,माल रोड अमृतसर (पंजाब)– 143001	860 स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केन्द्र पंचकूला सैक्टर-14, पंचकूला (हरियाणा) – 134109
854	भारतीय स्टेट बैंक तलवंडी चौधरियाँ बस स्टैंड के नज़दीक ज़िला कपूरथला (पंजाब)– 144606	861 स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केन्द्र जम्मू, राजेन्द्र नगर, बनतालाब जम्मू-181123
855	भारतीय स्टेट बैंक मियानी भागोपुरियाँ तहसील भोलाथ ज़िला कपूरथला (पंजाब) – 144631	862 स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केन्द्र पटियाला अर्बन इस्टेट, फेज 2, पटियाला (पंजाब) – 147002
856	भारतीय स्टेट बैंक मेहता तहसील बाबा बकाला अमृतसर (पंजाब) – 143114	
857	भारतीय स्टेट बैंक सुल्तानपुर रोड कपूरथला बॉम्बे मोटर्स के सामने ईएसआई अस्पताल के नज़दीक	

New Delhi, the 8th April, 2019

S.O. 528.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended in 1987), the Central Government, hereby notifies the listed Offices/ Branches of State Bank of India, more than 80% of the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi:-

Serial No.	Name of the Bank	Number of Branches/Offices
1.	State Bank of India	862
	Total	862

[F. No. 11016/2/2017-OL(Noti.)]

SHAILESH KUMAR SINGH, Jt. Director (OL)

List of Offices to be notified under Rule 10 (4) of Official Language Rules 1976

1	State Bank of India Admin Office, Sector-5, Panchkula, Distt. Panchkula Haryana Pin 134109	Kalka Distt. Panchkula Haryana Pin 133302
2	State Bank of India Chandigarh Naraingarh by pass road, Barbala Distt. Panchkula Haryana Pin 134118	11 State Bank of India Sector-21, Panchkula Distt. Panchkula Haryana Pin 134109
3	State Bank of India Sector-6, Panchkula Distt. Panchkula Haryana Pin 134109	12 State Bank of India, SCO 47, Near Khushi Traders, Sector-11, Panchkula Distt. Panchkula Haryana Pin 134109
4	State Bank of India NRW Kalka, Distt. Panchkula Haryana Pin 133302	13 State Bank of India SBI Intouch Br., Sector 20 Panchkula Distt. Panchkula Haryana Pin 134109
5	State Bank of India Near Water Tank, Sketadi Panchkula Distt. Panchkula Haryana Pin 134109	14 State Bank of India Kot Mattanwala Distt. Panchkula Haryana Pin 134204
6	State Bank of India, Sector 4, Panchkula, Distt. Panchkula Haryana Pin 134109	15 State Bank of India Mini Secrett Sector-1, Panchkula Distt. Panchkula Haryana Pin 134109
7	State Bank of India Barbala Road, Ramgarh, Panchkula Distt. Panchkula Haryana Pin 134118	16 State Bank of India Marranwala Near Bus Stand, Baroti wala Road, Distt. Panchkula Haryana Pin 134204
8	State Bank of India Near Police Station, Main Bazar, Raipur Rani Distt. Panchkula Haryana Pin 134204	17 State Bank of India SCO 11, Sector-15, Panchkula Distt. Panchkula Haryana Pin 134109
9	State Bank of India Western Command Hdqrs, Near Main Canteen, Chandimandir Cantt. Distt. Panchkula Haryana Pin 134109	18 State Bank of India SCO 87-88, MDC Swastik Vihar, Sector-5, Panchkula Distt. Panchkula Haryana Pin 134109
10	State Bank of India Ramgarh Road,	19 State Bank of India Paploha Tehsil Kalka Distt. Panchkula Haryana Pin 134109

20	State Bank of India HVPNL Bldg., Shakti Bhavan, Panchkula Distt. Panchkula Haryana Pin-134109	32	State Bank of India Mini Secrtt. Complex, Jagadhri Distt. Yamuna Nagar Haryana Pin- 135003
21	State Bank of India Huda, Sector-9 Ambala Distt. Ambala, Haryana Pin- 132118	33	State Bank of India Musimble (Muslamanan) Near Haryana Grameen Bank, Distt. Yamuna Nagar Haryana Pin- 135003
22	State Bank of India Dhoolkot, Ambala City, Distt. Ambala , Haryana Pin- 134002	34	State Bank of India Babuka Road, Babuka Chowk, Radaur Distt. Yamuna Nagar Haryana Pin - 135133
23	State Bank of India 724, S.A Jain College, Ambala City, Distt. Ambala , Haryana Pin- 134002	35	State Bank of India, Near Bus Stand, Sadhoura Distt. Yamuna Nagar Haryana Pin- 133204
24	State Bank of India Sadaura Road, Naraingarh Distt. Panchkula, Haryana Pin- 134203	36	State Bank of India Santpura, Yamuna Nagar, Distt. Yamuna Nagar Haryana Pin- 135001
25	State Bank of India House No. 2128-29, Block-2, Spatoo Road, Ambala City, Distt. Ambala, Haryana Pin- 132118	37	State Bank of India Near Telephone Exchange, Yamuna Nagar Distt. Yamuna Nagar Haryana Pin- 135001
26	State Bank of India 155, Railway Road, Cloth Market, Ambala City, Distt. Ambala , Haryana Pin- 134002	38	State Bank of India SGNK High School, Jagadhri Distt. Yamuna Nagar Haryana Pin- 135003
27	State Bank of India SBI Intouch Branch, DSS 108/109, Sector -7 Ambala City, Distt. Ambala, Haryana Pin- 134003	39	State Bank of India NRW. Jagadhri Distt. Yamuna Nagar Haryana Pin - 135003
28	State Bank of India SCO 80, Sector-12, Panchkula, Distt. Ambala, Haryana Pin- 134109	40	State Bank of India, Vill. & PO Harnole Tehsil Jagadhri, Distt. Yamuna Nagar Haryana Pin- 135002
29	State Bank of India Kansapur, Near Bijli Board, Village & PO Kansapur, Tehsil Jagadhri, Distt. Yamuna Nagar, Haryana Pin-135001	41	State Bank of India Tejli Vill. & PO Tejli, Tehsil Jagadhri, Distt. Yamuna Nagar Haryana Pin- 135001
30	State Bank of India Near Royal Filling Station, Village Rasulpur, Distt. Yamuna Nagar Haryana Pin- 133204	42	State Bank of India Yamuna Nagar Road, Chhachhroli Distt. Yamuna Nagar Haryana Pin- 135021
31	State Bank of India Near Reliance Tower, Kharwan Distt. Yamuna Nagar Haryana Pin - 135003	43	State Bank of India Khijrabad, Distt. Yamuna Nagar Haryana Pin- 135003

44	State Bank of India ADBJagadhri Distt. Yamuna Nagar Haryana Pin– 135003	56	State Bank of India Sadar Bazar, Nikolsan Road, AmbalaCantt. Distt. – Ambala Haryana Pin 133001
45	State Bank of India Mustafabad, Distt. Yamuna Nagar Haryana Pin– 133102	57	State Bank of India Housing Board Colony, AmbalaCantt. Distt. – Ambala Haryana Pin133001
46	State Bank of India Industrial Area Branch, Yamuna Nagar Distt. Yamuna Nagar Haryana Pin– 135001	58	State Bank of India Regional Business Office, Region-2, Near Hotel Pallavi, Panchkula Haryana Pin134109
47	State Bank of India Railway Road, Yamuna Nagar Distt. Yamuna Nagar Haryana Pin– 135001	59	State Bank of India Adhoya, Vill. & PO Adhoya, Distt. Kurukshetra Haryana Pin132118
48	State Bank of India D-40,SM Area,Yamuna Nagar Distt. Yamuna Nagar Haryana Pin– 135001	60	State Bank of India SCO 68,Huda Urban Estate, Sector-17,Kurukshetra, Distt. Kurukshetra Haryana Pin132118
49	State Bank of India, Industrial Area, Near Bus Stand, Yamuna Nagar Distt. Yamuna Nagar Haryana Pin– 135001	61	State Bank of India SBIIntouch Br. Kurukshetra, SCF 41,Sector-13 Market, Distt. Kurukshetra Haryana Pin132118
50	State Bank of India Arya Girls College, Ambala Cantt., Distt. Ambala Haryana Pin 134001	62	State Bank of India NH-1,Aadesh Hospital and Medical College, Mohri, TehsilShahbadMarkanda, Distt. Kurukshetra Haryana Pin– 136135
51	State Bank of India Opp. Anderwala Gurudwara Shahpur Distt. Ambala Haryana Pin 133004	63	State Bank of India Regional Business Office -3, Sector-13 Market, Distt. Kurukshetra Haryana Pin132118
52	State Bank of India Plot No. 1234 AB, Opp. Redish Restaurant, Naraingarh Road,Shahzadpur Distt.– Ambala Haryana Pin134002	64	State Bank of India Power House,Nisang, Distt. Karnal, Haryana Pin-132001
53	State Bank of India Football Chowk, Sadar Bazar, Ambala, Distt. – Ambala Haryana Pin133001	65	State Bank of India 46,New Grain Market, Taraori Distt. Karnal, Haryana Pin– 132116
54	State Bank of India Near Jain Mandir, Railway Road, Barara Distt. – Ambala Haryana Pin133201	66	State Bank of India NGM,Kurukshetra Distt. Kurukshetra Haryana Pin136119
55	State Bank of India Main Chowk, Shahzadpur Road, Saha, Distt. – Ambala Haryana Pin 133104	67	State Bank of India, Vill. & PO Bhor Saidan Tehsil Pehowa Distt. Kurukshetra, Haryana Pin– 136119

68	State Bank of India Yamuna Nagar Road, Pipli Distt. Kurukshetra Haryana Pin131189				Opp. Goyal Nursing Home, Cheeka, Distt. Kaithal Haryana Pin- 136034
69	State Bank of India Dau Majra, Tehsil Shahbad Markanda, Distt. Kurukshetra Haryana Pin- 136135	80			State Bank of India Kharkan, Opp. Gram Panchayat Bhawan, Bus Stand Kaithal, Cheeka, Distt. Kaithal Haryana Pin- 136035
70	State Bank of India Near Rotary Chowk , Jhansa Road, Thanesar Distt. Kurukshetra Haryana Pin 136118	81			State Bank of India Geong, Tehsil Kaithal, Distt. Kaithal, Haryana Pin- 136027
71	State Bank of India Regional Business Office-4, Near Payal Nursing Home, Pipli Road, Kurukshetra Distt. Kurukshetra Haryana Pin- 136118	82			State Bank of India, Kharkara Tehsil Guhla Cheeka, Distt. Kaithal Haryana Pin- 136034
72	State Bank of India Shop No. 54, NGM Rohtak Road, Jind, Distt. Jind, Haryana Pin- 125102	83			State Bank of India, ADB Kaithal, Distt. Kaithal Haryana Pin- 136034
73	State Bank of India Kamach Kheda, PO Malavi, Tehsil Julana Distt. Jind, Haryana Pin- 126101	84			State Bank of India 1057/11, Marwah complex, Kurukshetra Road, Kaithal Distt. Kaithal Haryana Pin- 136034
74	State Bank of India Main Road, Khedisher Khan Mod, Lodhar, Distt. Jind, Haryana – Pin 126115	85			State Bank of India SCO 11, Sector-3, HSIDC, Karnal Distt. Karnal, Haryana Pin 132001
75	State Bank of India Jamani Road, Pillu Kheda, Tehsil Safidon, Distt. Jind, Haryana Pin- 126113	86			State Bank of India, Chhoti market, Model Town, Karnal, Distt. Karnal, Haryana Pin 132001
76	State Bank of India ADB, Patiala Road, Narwana Distt. Jind, Haryana Pin- 126116	87			State Bank of India, Railway Road, Karnal, Distt. Karnal, Haryana Pin 132001
77	State Bank of India Vill. & PO Bohatwala, Distt. Jind, Haryana Pin- 126102	88			State Bank of India, Shopping complex, Sector-12, Karnal, Distt. Karnal, Haryana Pin 132001
78	State Bank of India SCF32, Sector "A" Near Jat Dharamshala, Jind, Distt. Jind, Haryana Pin- 126102	89			State Bank of India, SBI Intouch Branch, SCO 95, Sector 7, HUDA Market, Karnal, Distt. Karnal, Haryana Pin 132001
79	State Bank of India Lakshmi Jindal Complex, Anaj Mandi Road,	90			State Bank of India Mini Sectt. Baholi Road, Smalkha, Distt. Panipat Haryana Pin- 132101

91	State Bank of India, Personal Banking Branch, Panipat, Distt. Panipat Haryana Pin- 132101	AIR FORCE STATION CHANDIGARH-160003
92	State Bank of India, Gohana Road, Israna, Opp Police Station, Israna Distt. Panipat Haryana Pin- 132107	104 STATE BANK OF INDIA INDUSTRIAL AREA-II, (RAM DARBAR) CHANDIGARH-160002
93	State Bank of India, Sanauli Road, Opp. Hyderabad Hospital, Panipat, Distt. Panipat Haryana Pin- 132103	105 STATE BANK OF INDIA INDUSTRIAL ESTATE CHANDIGARH-160002
94	State Bank of India Ist Floor, Maya Prem Tower, Near Jagdamba Hospital, Kalandhri Gate, Karnal Distt. Karnal Haryana Pin- 132101	106 STATE BANK OF INDIA NON RESIDENT INDIAN (N.R.I) BRANCH SECTOR 17, CHANDIGARH 160017
95	State Bank of India, SME Taraori, main Road, Taraori, Tehsil Neelokhedi, Distt. Karnal Haryana Pin- 132116	107 STATE BANK OF INDIA PUNJAB ENGG. COLLEGE CHANDIGARH-160012
96	State Bank of India Resmeccc, Yamuna Nagar, Industrial Area, Yamuna Nagar Haryana Pin- 144001	108 STATE BANK OF INDIA SECTOR 22 C CHANDIGARH-160022
97	State Bank of India RASMECCC Panchkula Block-1, Sector 5, Panchkula Distt. Panchkula Haryana Pin- 134109	109 STATE BANK OF INDIA SECTOR 23 C CHANDIGARH-160023
98	State Bank of India CPPC Chandigarh Block-1, Sector 5, Panchkula Distt. Panchkula Haryana Pin- 134109	110 STATE BANK OF INDIA SECTOR 30 C CHANDIGARH-160030
99	State Bank of India RASMECCC Karnal, Railway Road, Karnal Distt. Karnal Haryana Pin 132101	111 STATE BANK OF INDIA SECTOR 31C CHANDIGARH-160030
100	STATE BANK OF INDIA ATTAWA CHANDIGARH-160036	112 STATE BANK OF INDIA SECTOR 34A CHANDIGARH-160022
101	STATE BANK OF INDIA A.F. STATION CHANDIGARH-160003	113 STATE BANK OF INDIA SECTOR 41 CHANDIGARH-160055
102	STATE BANK OF INDIA HARYANA CIVIL SECRETARIAT CHANDIGARH-160001	114 STATE BANK OF INDIA SPECIAL PERSONAL BANKING BRANCH CHANDIGARH-160017
103	STATE BANK OF INDIA HIGH GROUND,	115 STATE BANK OF INDIA TREASURY BRANCH SECTOR 17B CHANDIGARH-160017
		116 STATE BANK OF INDIA A.D.B. HOSHIARPUR PUNJAB-146001
		117 STATE BANK OF INDIA A.D.B. MORINDA DISTT. ROPAR PUNJAB-140101
		118 STATE BANK OF INDIA A.D.B. SAMUNDRA DISTT. HOSHIARPUR PUNJAB-144532

119	STATE BANK OF INDIA AIR FORCE STATION PATHANKOT PUNJAB-145001	133	STATE BANK OF INDIA JHAROLI DISTT. GURDASPUR PUNJAB-143533
120	STATE BANK OF INDIA BATALA DISTT. GURDASPUR PUNJAB-143505	134	STATE BANK OF INDIA JOGIAL DISTT. GURDASPUR PUNJAB-145029
121	STATE BANK OF INDIA BHATTIAN DISTT. GURDASPUR PUNJAB-143517	135	STATE BANK OF INDIA MADHOPUR DISTT. GURDASPUR PUNJAB-145024
122	STATE BANK OF INDIA BUNGAL DISTT. PATHANKOT PUNJAB-145001	136	STATE BANK OF INDIA MANDI AREA, HOSHIARPUR PUNJAB-146001
123	STATE BANK OF INDIA CHHABEWAL DISTT. HOSHIARPUR PUNJAB-146102	137	STATE BANK OF INDIA MANSOORPUR DISTT. HOSHIARPUR PUNJAB-144211
124	STATE BANK OF INDIA DALHOUSIE ROAD, PATHANKOT PUNJAB-145001	138	STATE BANK OF INDIA MATTAUR DISTT. MOHALI PUNJAB-160071
125	STATE BANK OF INDIA DASUYA DISTT. HOSHIARPUR PUNJAB-144205	139	STATE BANK OF INDIA MOHALI (S.A.S. NAGAR) PUNJAB-160055
126	STATE BANK OF INDIA DHAMIAN DISTT. HOSHIARPUR PUNJAB-144221	140	STATE BANK OF INDIA MUKERIAN DISTT. HOSHIARPUR PUNJAB-144211
127	STATE BANK OF INDIA DHAR KALAN DISTT. GURDASPUR PUNJAB-145021	141	STATE BANK OF INDIA NALWA BRIDGE, PATHANKOT PUNJAB-145025
128	STATE BANK OF INDIA DHARIWAL DISTT. GURDASPUR PUNJAB-143519	142	STATE BANK OF INDIA NANGAL BHUR DISTT. GURDASPUR PUNJAB-145101
129	STATE BANK OF INDIA DINA NAGAR DISTT. GURDASPUR PUNJAB-143531	143	STATE BANK OF INDIA PANDORI MAHANTAN DISTT. GURDASPUR PUNJAB-143531
130	STATE BANK OF INDIA DUNERA DISTT. GURDASPUR PUNJAB-145022	144	STATE BANK OF INDIA PATHANKOT PUNJAB-145001
131	STATE BANK OF INDIA GHAROTA DISTT. GURDASPUR PUNJAB-143533	145	STATE BANK OF INDIA QADIAN DISTT. GURDASPUR PUNJAB-143516
132	STATE BANK OF INDIA TIBRI ROAD, GURDASPUR PUNJAB-143521	146	STATE BANK OF INDIA ROPAR PUNJAB-140001
		147	STATE BANK OF INDIA SHIKAR

	DISTT. GURDASPUR PUNJAB-143505	162	STATE BANK OF INDIA SECTOR - 68, MOHALI DISTT. : MOHALI PUNJAB : 160071
148	STATE BANK OF INDIA SPECIAL HOUSING FINANCE BRANCH MOHALI PUNJAB-160062	163	STATE BANK OF INDIA RAILWAY ROAD, BALTANA DISTT. : MOHALI PUNJAB : 140604
149	STATE BANK OF INDIA S.S.I. BRANCH, MOHALI PUNJAB -160051	164	STATE BANK OF INDIA CHANDIGARH UNIVERSITY CAMPUS, KHARAR DISTT. : MOHALI PUNJAB : 140413
150	STATE BANK OF INDIA SUJANPUR DISTT. GURDASPUR PUNJAB-145023	165	STATE BANK OF INDIA ZIRAKPUR DISTT- MOHALI PUNJAB-140603
151	STATE BANK OF INDIA TANDA URMAR DISTT. HOSHIARPUR PUNJAB-144204	166	STATE BANK OF INDIA UIET SECTOR 25, CHANDIGARH Pin : 160014
152	STATE BANK OF INDIA TIBRI, DISTT. GURDASPUR PUNJAB-143530	167	STATE BANK OF INDIA MAIN ROAD, TANDA PUNJAB : 144204
153	STATE BANK OF INDIA ZIRAKPUR DISTT. MOHALI PUNJAB-140603	168	STATE BANK OF INDIA BELA CHOWK, ROPAR PUNJAB : 140001
154	STATE BANK OF INDIA TALWARA TOWNSHIP DISTT. HOSHIARPUR PUNJAB-144216	169	STATE BANK OF INDIA JHANJERI S.A.S NAGAR, MOHALI PUNJAB: 140307
155	STATE BANK OF INDIA ADMINISTRATIVE OFFICE(PUNJAB) SCO 101-107, SECTOR 17 B CHANDIGARH-160017	170	STATE BANK OF INDIA V.I.P ROAD, ZIRAKPUR PUNJAB: 140603
156	STATE BANK OF INDIA COLLEGE ROAD, GURDASPUR PUNJAB : 143521	171	STATE BANK OF INDIA PHASE -VI S.A.S NAGAR, MOHALI PUNJAB:160055
157	STATE BANK OF INDIA MAMUN, PATHANKOT PUNJAB : 145001	172	STATE BANK OF INDIA SECTOR- 38 CHANDIGARH-160036
158	STATE BANK OF INDIA GURDASPUR ROAD, PATHANKOT PUNJAB : 145001	173	STATE BANK OF INDIA PHASE -XI S.A.S NAGAR, MOHALI PUNJAB: 160065
159	STATE BANK OF INDIA CURRENCY ADMINISTRATION CELL, MAIN BRANCH BUILDING DHANGU ROAD, PATHANKOT PUNJAB :145001	174	STATE BANK OF INDIA NURPURBEDI DISST. ROPAR, PUNJAB-140117
160	STATE BANK OF INDIA REGIONAL BUSINESS OFFICE, DHANGU ROAD, PATHANKOT PUNJAB : 145001	175	STATE BANK OF INDIA BHANGALA DISTT: HOSHIRPUR PUNJAB: 144306
161	STATE BANK OF INDIA SECTOT-40 C, CHANDIGARH : 160036		

176	STATE BANK OF INDIA HAJIPUR, DISTT: HOSHIRPUR PUNJAB: 144221	191	STATE BANK OF INDIA SBI INTOUCH BRANCH SCO- 2463, SECTOR- 22 C CHANDIGARH-160022
177	STATE BANK OF INDIA TARAGARGH DISTT. : GURDASPUR PUNJAB: 143534	192	STATE BANK OF INDIA CHANDIGARH OLD COURT SECTOR-17 CHANDIGARH-160017
178	STATE BANK OF INDIA SAILI ROAD, PATHANKOT PUNJAB -145001	193	STATE BANK OF INDIA MALOYA CHANDIGARH-160017
179	STATE BANK OF INDIA SCO 69, SECTOR 32 C CHANDIGARH-160031	194	STATE BANK OF INDIA SAILA KHURD DISTT- HOSHIARPUR PUNJAB -144529
180	STATE BANK OF INDIA SBI INTOUCH BRANCH ELANTE MALL CHANDIGARH-160002	195	STATE BANK OF INDIA BHUNGA DISTT- HOSHIARPUR PUNJAB -144529
181	STATE BANK OF INDIA SCO 47, SECTOR-47 D CHANDIGARH-160047	196	STATE BANK OF INDIA KHUDDA DISTT HOSHIARPUR PUNJAB -144305
182	STATE BANK OF INDIA SECTOR-33 D CHANDIGARH-160002	197	STATE BANK OF INDIA HARSE MANSAR DISTT- HOSHIARPUR PUNJAB -144306
183	STATE BANK OF INDIA SECTOR-29 CHANDIGARH-160002	198	STATE BANK OF INDIA NAWANSHAHAH DOABA NEHRU GATE, NAWANSHAHAH PUNJAB -144514
184	STATE BANK OF INDIA SECTOR 20 D CHANDIGARH 160020	199	STATE BANK OF INDIA BANGA DISTT-NAWANSHAHAH PUNJAB -144505
185	STATE BANK OF INDIA SECTOR 44 C CHANDIGARH-160012	200	STATE BANK OF INDIA KAHMA DISTT- NAWANSHAHAH PUNJAB -144512
186	STATE BANK OF INDIA RAIPUR KALAN CHANDIGARH-160022	201	STATE BANK OF INDIA NAURA DISTT- NAWANSHAHAH PUNJAB -144508
187	STATE BANK OF INDIA TRIBUNE COMPLEX, SECTOR 29 CHANDIGARH-160023	202	STATE BANK OF INDIA AUR DISTT- NAWANSHAHAH PUNJAB -144416
188	STATE BANK OF INDIA BOOTH 117-118, SECTOR 7 C CHANDIGARH-160030	203	STATE BANK OF INDIA BEHRAM DISTT- NAWANSHAHAH PUNJAB -144505
189	STATE BANK OF INDIA SCO-206-207, SECTOR 34A CHANDIGARH-160030	204	STATE BANK OF INDIA NRI BRANCH, NAWANSHAHAH PUNJAB -144505
190	STATE BANK OF INDIA REGIONAL BUSSINESS OFFICE-2 SECTOR-8 C CHANDIGARH-160017		

205	STATE BANK OF INDIA NRI BRANCH, BANGA DISTT- NAWANSHAHAR PUNJAB -144505	220	STATE BANK OF INDIA PEER MUCHALLA, ZIRAKPUR DISTT-MOHALI PUNJAB -140603
206	STATE BANK OF INDIA SIKH NATIONAL COLLEGE, BANGA DISTT- NAWANSHAHAR PUNJAB -144505	221	STATE BANK OF INDIA KAROLI CANTT DISTT-PATHANKOT PUNJAB-145001
207	STATE BANK OF INDIA BAJRUR DISTT-ROPAR PUNJAB -140119	222	STATE BANK OF INDIA SUJANPUR CANTT DISTT-PATHANKOT PUNJAB-145001
208	STATE BANK OF INDIA RBO-4 (ROPAR) SECTOR-8, CHANDIGARH-160017	223	STATE BANK OF INDIA SARNA DISTT- PATHANKOT PUNJAB -145001
209	STATE BANK OF INDIA PHASE VII, MOHALI PUNJAB -160062	224	STATE BANK OF INDIA BCET BARYAR DISTT-GURDASPUR PUNJAB -143521
210	STATE BANK OF INDIA PHASE-IX, MOHALI PUNJAB -160062	225	STATE BANK OF INDIA KHOJKI CHAK DISTT- PATHANKOT PUNJAB -145027
211	STATE BANK OF INDIA PHASE- 3 B-2, MOHALI PUNJAB -160059	226	STATE BANK OF INDIA DERA BABA NANAK DISTT-GURDASPUR PUNJAB -143604.
212	STATE BANK OF INDIA Sbi.INTOUCH, ZIRZKPUR DISTT-ROPAR PUNJAB-140603	227	STATE BANK OF INDIA JUDICIAL COMPLEX, GURDASPUR PUNJAB -143521
213	STATE BANK OF INDIA PTL CHOWK, SECTOR-59 MOHALI PUNJAB-160059	228	STATE BANK OF INDIA MIRTHAL DISTT-PATHANKOT PUNJAB -145101
214	STATE BANK OF INDIA SCO 4-5 PHASE-11, MOHALI PUNJAB-160068	229	STATE BANK OF INDIA SCO 78, SEC-38 C, CHANDIGARH-160036
215	STATE BANK OF INDIA CHANDIGARH ROAD, KHARAR DISTT- MOHALI PUNJAB -140301	230	STATE BANK OF INDIA GURUDWARA ROAD, BANUR DISTT-MOHALI PUNJAB -140601
216	STATE BANK OF INDIA RBO,SECTOR-68 MOHALI PUNJAB –	231	STATE BANK OF INDIA PANIAR DISTT- GURDASPUR PUNJAB 143531
217	STATE BANK OF INDIA PHASE-V, MOHALI PUNJAB -160062	232	STATE BANK OF INDIA MAIN PATIALA CHHOTI BARADARI DIST:PATIALA PUNJAB PIN:147001
218	STATE BANK OF INDIA PATIALA ROAD,ZIRAKPUR DISTT-MOHALI PUNJAB -140603	233	STATE BANK OF INDIA MODEL TOWN (PATIALA)
219	STATE BANK OF INDIA MUNDI KHARAR DISTT-MOHALI PUNJAB -140301		

	DIST:PATIALA PUNJAB PIN: 147001	242	STATE BANK OF INDIA IN TOUCH, NEW OFFICER COLONY, PATIALA BHUPINDRA ROAD NEW OFFICERS COLONY DIST: PATIALA PUNJAB PIN:147001
234	STATE BANK OF INDIA NEW OFFICERS COLONY PATIALA DIST:PATIALA PUNJAB PIN:147001	243	STATE BANK OF INDIA AKKAR GURUDWARA NEEM SAHIB VILL: AKKAR, P.O : SEHRA, TEHSIL: RAJPURA DIST: PATIALA PUNJAB PIN:140701
235	STATE BANK OF INDIA HNI LEELA BHAWAN OPP. INCOME TAX OFFICE, PATIALA DIST: PATIALA PUNJAB PIN:147001	244	STATE BANK OF INDIA JALALPUR VILL: JALALPUR P.O: BAHADURGARH DIST: PATIALA PUNJAB PIN:147021
236	STATE BANK OF INDIA AIRAWAT SHOPPING COMPLEX PATIALA CANTT, OLD CANTT PATIALA DIST: PATIALA PUNJAB PIN:147001	245	STATE BANK OF INDIA RAJPURA(TEHSIL COMPLEX) RAJPURA DIST: PATIALA PUNJAB PIN: 140401
237	STATE BANK OF INDIA SIRHIND ROAD, PATIALA ADJCENT LG SHOWROOM NEAR HEMKUND PETROL PUMP SIRHIND ROAD, PATIALA DIST: PATIALA PUNJAB PIN:147004	246	STATE BANK OF INDIA MALLEWAL GURUDWARA SAHIB, MALLEWAL TEHSIL: NABHA DIST: PATIALA PUNJAB PIN: 147202
238	STATE BANK OF INDIA GURBAX COLONY, PATIALA IQBAL COMPLEX, GURBAX COLONY GURU NANAK NAGAR, STREET NO. 12 PATIALA DIST: PATIALA PUNJAB PIN:147003	247	STATE BANK OF INDIA BHAPPAL VILL & PO : BHAPPAL TEHSIL: RAJPURA DIST: PATIALA PUNJAB PIN:140401
239	STATE BANK OF INDIA URBAN ESTATE, PH-I, PATIALA SCO – 238, PHASE - 1, PATIALA DIST: PATIALA PUNJAB PIN:147002	248	STATE BANK OF INDIA LAGROI VILL & P.O : LAGROI, BUS STAND LAGROI DIST: PATIALA PUNJAB PIN:147001
240	STATE BANK OF INDIA NGM, NABHA OPPOSITE SINGLA HOSPITAL CIRCULAR ROAD, NABHA DIST: PATIALA PUNJAB PIN:147201	249	STATE BANK OF INDIA THUHA VILL : THUHA TEHSIL: RAJPURA DIST: PATIALA PUNJAB PIN:140417
241	STATE BANK OF INDIA IN TOUCH, URBAN ESTATE, PH-2, PATIALA SCF – 7, PHASE - 2, PATIALA PATIALA DIST: PATIALA PUNJAB PIN:147002		

- | | |
|--|---|
| <p>250 STATE BANK OF INDIA
HNI PRAGATI BHAWAN,
PATIALA
URBAN ESTATE,
PHASE-III, PATIALA
DIST: PATIALA
PUNJAB
PIN:147001</p> <p>251 STATE BANK OF INDIA
RAJPURA(PUNJAB)
NEAR ALPUS THEATRE
RAJPURA
DIST: PATIALA
PUNJAB
PIN:140401</p> <p>252 STATE BANK OF INDIA
KULARAN
TEHSIL:SAMANA
DIST:PATIALA
PUNJAB
PIN:147101</p> <p>253 STATE BANK OF INDIA
DHAKANSU-RAJPURA
RAJAPURA
DIST:PATIALA
PUNJAB
PIN:140401</p> <p>254 STATE BANK OF INDIA
GAJJU MAJRA
TEH: PATIALA
DIST: PATIALA
PUNJAB
PIN:147001</p> <p>255 STATE BANK OF INDIA
GHARAM
DIST:PATIALA
PUNJAB
PIN:147111</p> <p>256 STATE BANK OF INDIA
RG NATIONAL UNIVERSITY
BHADSON ROAD, SIDHUWAL
VPO: SIDHUWAL (PATIALA)
DIST: PATIALA
PUNJAB
PIN:147001</p> <p>257 STATE BANK OF INDIA
BAHADURGARH(PATIALA)
GHANOUR ROAD
BAHADURGARH
DIST: PATIALA
PUNJAB
PIN:147002</p> <p>258 STATE BANK OF INDIA
SANAUR
SIDHU COMPLEX
MAIN ROAD, SANAUR
DIST: PATIALA
PUNJAB
PIN:147103</p> | <p>259 STATE BANK OF INDIA
PATIALA ROAD, NABHA
OPP. LIC OFFICE
PATIALA ROAD, NABHA
DIST: PATIALA
PUNJAB
PIN:147201</p> <p>260 STATE BANK OF INDIA
NAURA
TEH : NABHA
DIST: PATIALA
PUNJAB
PIN:147201</p> <p>261 STATE BANK OF INDIA
MINI SECRETRIAT, PATIALA
DIST: PATIALA
PUNJAB
PIN:147001</p> <p>262 STATE BANK OF INDIA
RAJGARH
TEH & DIST: PATIALA
PUNJAB
PIN:147001</p> <p>263 STATE BANK OF INDIA
24 NO. PHATAK, PATIALA
SHOP NO. 11002/5 III
MAIN ROAD, PARTAP NAGAR,
OPP. PATIALA CANT RAILWAY
STATION, P
ATIALA (PUNJAB)
DIST: PATIALA
PUNJAB
PIN:147001</p> <p>264 STATE BANK OF INDIA
SME PATIALA
SECOND FLOOR,
ADMINISTRATIVE OFFICE BUILDING
SHERAN WALA GATE,
THE MALL,PATIALA
DIST: PATIALA
PUNJAB, PIN:147002</p> <p>265 STATE BANK OF INDIA
MANVI
TEHSIL: MALERKOTLA
DIST:SANGRUR,
PUNJAB, PIN : 148023</p> <p>266 STATE BANK OF INDIA
FATEHGARH P.G.
TEHSIL:DHURI
DIST:SANGRUR,
PUNJAB
PIN: 148020</p> <p>267 STATE BANK OF INDIA
G. T. ROAD
MANDI GOBINDGARH
DIST: FATEHGARH SAHIB
PUNJAB
PIN : 147301</p> |
|--|---|

268	STATE BANK OF INDIA BADALI NEAR POLICE STATION CHUNI SIRHIND ROAD, BADALI ALA SINGH DIST: FATEHGARH SAHIB PUNJAB PIN : 140406	DIST: FATEHGARH SAHIB; PUNJAB PIN : 141411
269	STATE BANK OF INDIA KHAMANO GRAIN MARKET ANAJ MANDI- KHAMANO TEHSIL: KHAMANO DIST: FATEHGARH SAHIB PUNJAB PIN : 141801	277 STATE BANK OF INDIA SOUNDHA VILL: SOUNDHA PO : MULLANPUR KALAN TEHSIL : FATEHGARH SAHIB DIST : FATEHGARH SAHIB PUNJAB PIN : 140406
270	STATE BANK OF INDIA KHANIAN VILL: KHANIAN NEAR AMLOH DIST: FATEHGARH SAHIB PUNJAB PIN : 147203	278 STATE BANK OF INDIA MANSA WATER WORKS ROAD NEAR CIVIL HOSPITAL MANSA (PUNJAB) DIST: MANSA PUNJAB PIN : 151505
271	STATE BANK OF INDIA SANGHOL V& P.O : SANGHOL TEHSIL: KHAMANO DIST: FATEHGARH SAHIB PUNJAB PIN : 141128	279 STATE BANK OF INDIA BHAINI BAGHA VPO : BHAINI BAGHA DIST:MANSA PUNJAB PIN : 151508
272	STATE BANK OF INDIA ROORKEE VPO: ROORKEE TEHSIL: FATEHGARH SAHIB DIST: FATEHGARHSAHIB PUNJAB PIN : 147104	280 STATE BANK OF INDIA DHANAULA TEH : BARNALA DIST : BARNALA PUNJAB PIN : 148105
273	STATE BANK OF INDIA FATEHGARH SAHIB SGGS WORLD UNIVERSITY TEH : FATEHGARH SAHIB DIST: FATEHGARH SAHIB PUNJAB, PIN : 140406	281 STATE BANK OF INDIA JOGA DIST:MANSA PUNJAB PIN : 148109
274	STATE BANK OF INDIA REONA NIWAN VPO: REONA NIWAN P.O: REONA UCHA TEHSIL: FATEHGARH SAHIB DIST: FATEHGARHSAHIB PUNJAB PIN : 140406	282 STATE BANK OF INDIA BARNALA COLLEGE ROAD DIST: BARNALA PUNJAB PIN : 148101
275	STATE BANK OF INDIA DESH BHAGAT UNIVERSITY, SAUNTI , AMLOH DIST: FATEHGARH SAHIB PUNJAB PIN : 147301	283 STATE BANK OF INDIA RAIPUR(PUNJAB) VPO: RAIPUR TEHSIL: SARDULGARH DIST:MANSA PUNJAB PIN : 151505
276	STATE BANK OF INDIA BHARWALI KHURD VILL & PO : BHARWALI KHURD TEHSIL: KHUMANO	284 STATE BANK OF INDIA CHEEMA JODHPUR TEH : BARNALA DIST: BARNALA PUNJAB PIN : 148103
		285 STATE BANK OF INDIA JAURKIAN VPO: JAURKIAN

	TEH :MANSA DIST: MANSA PUNJAB PIN : 151505	295	STATE BANK OF INDIA FATTA MALOKA VPO: FATTA MALOKA TEHSIL : SARDULGARH DIST: MANSA PUNJAB PIN : 151506
286	STATE BANK OF INDIA AKALIA V & PO: AKALIA DIST: MANSA PUNJAB PIN : 151505	296	STATE BANK OF INDIA BEHNIWAL VPO: BEHNIWAL BEHNIWAL DIST: MANSA PUNJAB PIN : 151302
287	STATE BANK OF INDIA TAPA MANDI SCHOOL STREET NEAR OLD BUS STAND DIST: BARNALA PUNJAB PIN : 148108	297	STATE BANK OF INDIA SIRSA ROAD, SARDULGARH MANSA ROAD, SARDULGARH DIST: MANSA PUNJAB PIN : 151507
288	STATE BANK OF INDIA MANSA HOSPITAL ROAD MANSA DIST: MANSA PUNJAB PIN : 151505	298	STATE BANK OF INDIA KHIALA KALAN VILL: KHIALA KALAN DIST: MANSA PUNJAB PIN : 151508
289	STATE BANK OF INDIA SME, INDUSTRIAL AREA, MANSA DIST: MANSA PUNJAB PIN : 151505	299	STATE BANK OF INDIA BHIKHI DIST: MANSA PUNJAB PIN : 151504
290	STATE BANK OF INDIA BOHA DIST: MANSA PUNJAB PIN : 151505	300	STATE BANK OF INDIA BAREH VPO:BAREH DIST: MANSA PUNJAB PIN : 151502
291	STATE BANK OF INDIA BARETTA GRAIN MARKET, BARETTA BARETTA MANSA DIST: MANSA PUNJAB PIN : 151501	301	STATE BANK OF INDIA RALLA BARNALA MANSA ROAD, RALLA P.O : RALLA TEH : MANSA DIST: MANSA PUNJAB PIN : 151510
292	STATE BANK OF INDIA RAILWAY ROAD, BUDLADA GRAIN MARKET DIST: MANSA PUNJAB PIN : 151502	302	STATE BANK OF INDIA N.M. COLLEGE, MANSA NEHRU MEMORIAL GOVT. COLLEGE MANSA DIST: MANSA PUNJAB PIN : 151505
293	STATE BANK OF INDIA JHUNIR DIST: MANSA PUNJAB PIN : 151506	303	STATE BANK OF INDIA NEW COURT COMPLEX MANSA DIST: MANSA PUNJAB PIN : 151505
294	STATE BANK OF INDIA ADB, MANSA DIST.MANSA PUNJAB PIN : 151505		

304	STATE BANK OF INDIA HAMIDI, BARNALA V & P.O: HAMIDI NEAR GURUDWARA SAHIB DIST: BARNALA PUNJAB PIN : 148025	TEH: BARNALA DISTRICT :BARNALA PUNJAB PIN : 148101
305	STATE BANK OF INDIA D.A.COMPLEX, BARNALA BARNALA (DAC) P.O: BARNALA DIST: BARNALA PUNJAB PIN : 148101	313 STATE BANK OF INDIA KOT DUNA VILL & P.O : KOT DUNA TEH: TAPA, DISTRICT :BARNALA PUNJAB PIN : 148705
306	STATE BANK OF INDIA MOFFAR VPO: MOFFAR, TEH : SARDULGARH DIST: MANSA PUNJAB PIN : 151506	314 STATE BANK OF INDIA HARIGARH VILL: HARIGARH TEHSIL: DHANAULA DIST: BARNALA PUNJAB PIN : 148105
307	STATE BANK OF INDIA JHANDUKE VPO: JHANDUKE TEH: SARDUL GARH DIST:MANSA PUNJAB PIN : 151506	315 STATE BANK OF INDIA ADB SANDHUR P.O: SANDHUR TEHSIL:MALERKOTLA DIST: SANGRUR PUNJAB PIN : 148020
308	STATE BANK OF INDIA KOT DHARMU VPO: KOT DHARMU DIST: MANSA PUNJAB PIN : 151302	316 STATE BANK OF INDIA SANGRUR PATIALA GATE DIST: SANGRUR PUNJAB, PIN : 148001
309	STATE BANK OF INDIA RAISAR OPP: SENIOR SECONDARY SCHOOL TEH: RAISAR DIST: BARNALA PUNJAB PIN : 148101	317 STATE BANK OF INDIA MALERKOTLA COLLEGE ROAD MALERKOTLA DIST: SANGRUR PUNJAB PIN : 148023
310	STATE BANK OF INDIA MANSA ROAD, DHAULA NEAR CO-OPERATIVE SOCIETY MANSA ROAD VILL: DHAULA, P.O: DHAULA DIST: BARNALA PUNJAB PIN : 148107	318 STATE BANK OF INDIA SHERON TEH SUNAM DIST: SANGRUR PUNJAB PIN : 148106
311	STATE BANK OF INDIA AKKANWALI VPO: AKKANWALI DIST: MANSA PUNJAB PIN : 151505	319 STATE BANK OF INDIA DHURI ARYA SAMAJ BLOCK DHURI, DIST: SANGRUR PUNJAB PIN : 148024
312	STATE BANK OF INDIA KARAMGARH VILL : KARAMGARH, P.O : BARNALA	320 STATE BANK OF INDIA LADDA KOTHI VPO: LADDA KOTHI TEH: DHURI DIST: SANGRUR PUNJAB PIN : 148034
		321 STATE BANK OF INDIA INDUSTRIAL AREA, SANGRUR JIND ROAD DIST: SANGRUR PUNJAB PIN : 148001

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 322 | STATE BANK OF INDIA
BHAWANIGARH
OPP NEW BUS STAND
BHAWANIGARH
DIST: SANGRUR
PUNJAB
PIN : 148026 | | CHAHAR
V & P.O: CHAHAR
TEH: SUNAM
DIST: SANGRUR
PUNJAB
PIN : 148028 |
| 323 | STATE BANK OF INDIA
AMARGARH
PUNEET COMPLEX,
OPPOSITE CHAUNDA ROAD
PATIALA MALERKOTLA ROAD,
AMARGARH
DIST: SANGRUR
PUNJAB
PIN : 148022 | 331 | STATE BANK OF INDIA
GOVT. RANBIR COLLEGE,
SANGRUR
DIST: SANGRUR
PUNJAB
PIN : 148001 |
| 324 | STATE BANK OF INDIA
BALIAN
GURUDWARA PRABANDHAK
COMMITTEE OF
GURUDWARA SAHIB SANT BABA GULAB
SINGH JI
VILL: BALIAN, TEH: DHURI, SANGRUR
DIST: SANGRUR
PUNJAB
PIN : 148106 | 332 | STATE BANK OF INDIA
BHURTHALA MANDHER
P.O: BHURTHALA MANDHER
TEH: MALERKOTLA
DIST: SANGRUR
PUNJAB
PIN : 148023 |
| 325 | STATE BANK OF INDIA
NARIKE
VILL: NARIKE
TEHSIL : MALERKOTLA
DIST: SANGRUR
PUNJAB
PIN : 148023 | 333 | STATE BANK OF INDIA
ADMINISTRATIVE OFFICE
SHERAN WALA GATE,
THE MALL, PATIALA
DIST: PATIALA
PUNJAB
PIN: 147001 |
| 326 | STATE BANK OF INDIA
JAKHEPAL
SARDULGARH
TEHSIL: FARIDKOT
DIST: SANGRUR
PUNJAB
PIN : 148028 | 334 | STATE BANK OF INDIA
REGIONAL BUSINESS OFFICE -1
ADMINISTRATIVE OFFICE BUILDING, 5 TH
FLOOR
SHERAN WALA GATE,
THE MALL, PATIALA
DIST: PATIALA
PUNJAB
PIN: 147001 |
| 327 | STATE BANK OF INDIA
NABHA ROAD, AMARGARH
VPO: AMARGARH
TEHSIL: MALERKOTLA
DIST: SANGRUR
PUNJAB
PIN : 148022 | 335 | STATE BANK OF INDIA
REGIONAL BUSINESS OFFICE -2
ADMINISTRATIVE OFFICE BUILDING,
5 TH FLOOR
SHERAN WALA GATE,
THE MALL, PATIALA
DIST: PATIALA
PUNJAB
PIN: 147001 |
| 328 | STATE BANK OF INDIA
DHARAMGARH
TEHSIL: SUNAM
DIST: SANGRUR
PUNJAB
PIN : 148028 | 336 | STATE BANK OF INDIA
REGIONAL BUSINESS OFFICE -3
ADMINISTRATIVE OFFICE BUILDING,
4 TH FLOOR
SHERAN WALA GATE,
THE MALL, PATIALA
DIST: PATIALA
PUNJAB
PIN: 147001 |
| 329 | STATE BANK OF INDIA
LONGOWAL
NAVODAYA VIDYALAYA
LONGOWAL SANGRUR
DIST: SANGRUR
PUNJAB PIN : 148106 | 337 | STATE BANK OF INDIA
REGIONAL BUSINESS OFFICE -4
ADMINISTRATIVE OFFICE BUILDING,
4 TH FLOOR
SHERAN WALA GATE,
THE MALL,
PATIALA |
| 330 | STATE BANK OF INDIA | | |

	DIST: PATIALA PUNJAB PIN: 147001		KALANAUR DISTT. ROHTAK HARYANA-124113
338	STATE BANK OF INDIA REGIONAL BUSINESS OFFICE -5 ADMINISTRATIVE OFFICE BUILDING, 3 RD FLOOR SHERAN WALA GATE, THE MALL, PATIALA DIST: PATIALA PUNJAB PIN: 147001	347	STATE BANK OF INDIA SAMPLA BRANCH NEAR POLICE STATION KHARKHODA ROAD, SAMPLA DISTT- ROHTAK, HARYANA-124501
339	STATE BANK OF INDIA SMECC ADMINISTRATIVE OFFICE BUILDING, 3 RD FLOOR SHERAN WALA GATE, THE MALL, PATIALA DIST: PATIALA PUNJAB PIN: 147001	348	STATE BANK OF INDIA MAHAM BRANCH PLOT NO.1775 PALIKA COLONY WARD NO.6 MEHAM DISTT: ROHTAK HARYANA-124112
340	STATE BANK OF INDIA RACPC ADMINISTRATIVE OFFICE BUILDING, GROUND FLOOR SHERAN WALA GATE, THE MALL, PATIALA DIST: PATIALA PUNJAB PIN: 147001	349	STATE BANK OF INDIA SISAR KHAS BRANCH TEHSIL MEHAM DISTT ROHTAK HARYANA-124121
341	STATE BANK OF INDIA ADMINISTRATIVE OFFICE DELHI BYPASS ROAD ROHTAK HARYANA-124001	350	STATE BANK OF INDIA NINDANA BRANCH V& P.O NINDANA DISTT. ROHTAK HARYANA-124513
342	STATE BANK OF INDIA SECTOR 1 BRANCH SCO NO 9 SECTOR-1 ROHTAK HARYANA-124001	351	STATE BANK OF INDIA LAKHAN MAJRA BRANCH VILL. LAKHAN MAJRA ROHTAK DISTT. ROHTAK HARYANA-124514
343	STATE BANK OF INDIA HUDA COMPLEX BRANCH S C F NO 42-D HUDA COMPLEX ROHTAK HARYANA-124001	352	STATE BANK OF INDIA ROHTAK GATE BRANCH 248 A WARD NO 6 MAIN ROAD NEAR ROHTAK GATE BHIWANI DISTT. BHIWANI HARYANA-127021
344	STATE BANK OF INDIA SBI INTOUCH MT ROHTAK BRANCH BALMEV PLAZA F - 236 OPP. POWER HOUSE MODEL TOWN DELHI ROAD ROHTAK HARYANA-124001	353	STATE BANK OF INDIA HALU BAZAR BRANCH NEAR BIJLI GHAR GADE BICHLA BAZAR BHIWANI DISTT. BHIWANI HARYANA-127021
345	STATE BANK OF INDIA JHAJHAR ROAD BRANCH B III 472 JHAJHAR ROAD DISTT. ROHTAK HARYANA-124001	354	STATE BANK OF INDIA CH BANSI LAL UNIVERSITY BRANCH HANSI ROAD IN THE CAMPUS OF CH BANSI LAL UNIVERSITY OPP BOARD OF SCHOOL EDUCATION BHIWANI DISTT. BHIWANI HARYANA-127021
346	STATE BANK OF INDIA KALANOUR BRANCH PREMISES OF BABA MEHAR SHAH NEAR BUS STAND	355	STATE BANK OF INDIA JHOJHU KALAN BRANCH NEAR DHRUV DHARAM KANTA SATNALI ROAD JHOJHU KALAN DISTT. BHIWANI HARYANA-127310
		356	STATE BANK OF INDIA BADHRA BRANCH NEAR ICE FACTORY DADRI ROAD , BADHRA, DISTT. BHIWANI HARYANA-127308

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| 357 | STATE BANK OF INDIA
BEHAL BRANCH
JHUPPA ROAD
OPP NEW ANAJ MANDI
BEHAL DISTT BHIWANI
HARYANA-127028 | | MILL GATE ROAD HISAR
HARYANA-125002 |
| 358 | STATE BANK OF INDIA
TOSHAM BRANCH
NEAR TELEPHONE EXCHANGE
SIWANI MAIN ROAD TOSHAM
DISTT BHIWANI
HARYANA-127040 | 368 | STATE BANK OF INDIA
CHANDIGARH ROAD TOHANA
BRANCH
SATYAM HOTEL COMPLEX,
CHANDGARH ROAD TOHANA
DISST. FATEHABAD
HARYANA-125120 |
| 359 | STATE BANK OF INDIA
ROHTAK ROAD
CHARKHI DADRI BRANCH
CHARKHI DADRI
DISTT. BHIWANI
HARYANA-127306 | 369 | STATE BANK OF INDIA
SIRSA ROAD AGROHA BRANCH
VPO-AGROHA
DISTT-HISSAR
HARYANA-125047 |
| 360 | STATE BANK OF INDIA
BAWANI KHERA BRANCH
V& P.O : BAWANI KHERA
DISTT. BHIWANI
HARYANA-127032 | 370 | STATE BANK OF INDIA
UMRA BRANCH
VPO UMRA TEHSIL HANSI
DIST: HISSAR
HARYANA-125033 |
| 361 | STATE BANK OF INDIA
REGIONAL BUSENESS OFFICE
354/29 HOTEL SKY HAWK BUILDING
FIRST FLOOR
DELHI BYEPASS ROAD
ROHTAK HARYANA-124001 | 371 | STATE BANK OF INDIA
A.D.B. BARWALA BRANCH
BARWALA
DIST: HISSAR
HARYANA-125121 |
| 362 | STATE BANK OF INDIA
CURRENCY ADMIN CELL BRANCH
ROHATAK BRANCH PREMISES
NEAR COURTS ROHTAK
HARYANA-124001 | 372 | STATE BANK OF INDIA
DABRA BRANCH
OPPOSITE BUS STAND DABRA
DISTRICT : HISSAR
HARYANA-125001 |
| 363 | STATE BANK OF INDIA
RASMECC-SARC BRANCH
C/O SBI ROHTAK
NEAR DISTRICT COURTS ROHTAK
HARYANA-124001 | 373 | STATE BANK OF INDIA
KULAN BRANCH
POST:KULAN TEHSIL: TOHANA
DISTT: FATEHABAD
HARYANA-125106 |
| 364 | STATE BANK OF INDIA
AZAD NAGAR BRANCH
KHALERI PALACE
RAJGARH ROAD
AZAD NAGAR HISAR
HARYANA-125007 | 374 | STATE BANK OF INDIA
BARWALA-JIND ROAD
KHARAK PUNIA BRANCH
VPO-KHARAKPUNIA
TEHSIL-BARWALA
DISTT-HISSAR
HARYANA-125121 |
| 365 | STATE BANK OF INDIA
URBAN ESTATE BRANCH
SCF NO. 41 URBAN ESTATE HISAR
HARYANA-125001 | 375 | STATE BANK OF INDIA
RAJLI BRANCH
V&PO RAJLI
TEH: BARWALA
DISTT. HISAR
HARYANA-125121 |
| 366 | STATE BANK OF INDIA
SBI INTOUCH PLA COMPLEX
BRANCH BUS STAND ROAD
SCO 7 & 8 GROVER MARKET
NEAR HOTEL NIMANTRAN HISAR
HARYANA-125001 | 376 | STATE BANK OF INDIA
JAMALPUR SEKHAN
V & P.O JAMALPUR SEKHAN
TEHSIL TOHANA
DISTT- FATEHABAD
HARYANA-125120 |
| 367 | STATE BANK OF INDIA
NEW SABJI MANDI BRANCH | 377 | STATE BANK OF INDIA
SANCHLA BRANCH
NEAR BUS STAND,
V& P.O : SANCHALA |

	DISTT. FATEHABAD HARYANA-125006	388	STATE BANK OF INDIA RATIA BRANCH FATEHBAD HARYANA-125050
378	STATE BANK OF INDIA MOHABATPUR BRANCH V&PO MOHBATPUR TEH: ADAMPUR DISTT. HISAR HARYANA-125052	389	STATE BANK OF INDIA PILI MANDORI BRANCH FATEHBAD HARYANA-125053
379	STATE BANK OF INDIA THERMAL PLANT KHEDAR BRANCH RGTPP COLONY VPO KHEDAR TEH : BA RWALA DISTT-HISSAR HARYANA-125121	390	STATE BANK OF INDIA DHANGAR BRANCH MP ROHI ROAD VPO DHANGAR DIST:FATEHBAD HARYANA-125048
380	STATE BANK OF INDIA CURRENCY ADMIN CELL BRANCH MINI SECTT. HISSAR HARYANA-125001	391	STATE BANK OF INDIA GORIWALA BRANCH TEHSIL- MANDI DABWALI DISTT- SIRSA HARYANA-125103
381	STATE BANK OF INDIA RA & SME CCC BRANCH C/O SBI MAIN BRANCH HISSAR FIRST FLOOR HISSAR HARYANA-125001	392	STATE BANK OF INDIA DARYAPUR BRANCH FATEHBAD HARYANA-125050
382	STATE BANK OF INDIA SME BRANCH JSL COMPLEX DELHI ROAD HISSAR HARYANA-125005	393	STATE BANK OF INDIA JANDLI KHURD BRANCH FATEHBAD ROAD JANDLI KHURD FATEHBAD HARYANA-125111
383	STATE BANK OF INDIA SADAR BAZAR BRANCH OPP LIC BUILDING SIRSA HARYANA-125055	394	STATE BANK OF INDIA JALLOPUR BRANCH FATEHBAD HARYANA-125051
384	STATE BANK OF INDIA HISSAR ROAD BRANCH WAHEGURU COMPLEX OPP. HANUMAN MANDIR HISSAR ROAD SIRSA HARYANA-125055	395	STATE BANK OF INDIA NADHAURI BRANCH TEH-BHUNA DISTT. FATEHBAD HARYANA-125111
385	STATE BANK OF INDIA RANIA BAZAR BRANCH. SURATGHADIA CHUAK VIJKAY BOOK DEEPO DISTT. SIRSA HARYANA-125055	396	STATE BANK OF INDIA DING MOR BRANCH MAIN ROAD OPPOSITE GURDWARA SAHIBDING MOR (PATLI DABAR) SIRSA HARYANA-125054
386	STATE BANK OF INDIA NEW SABZI MANDI BRANCH MANDI DABWALI DISTT. SIRSA HARYANA-125104	397	STATE BANK OF INDIA FAGU BRANCH NEAR VETERINARY HOSPITAL, DISST. SIRSA HARYANA-125201
387	STATE BANK OF INDIA RATIA ROAD FATEHBAD BRANCH NEAR RATIA CHUNGI RATIA ROAD FATEHBAD HARYANA-125050	398	STATE BANK OF INDIA REGIONAL BUSINESS OFFICE (RBO-3) OPPOSITE SRI HOSPITAL DABWALI ROAD SIRSA HARYANA-125055
		399	STATE BANK OF INDIA CURRENCY ADMIN CELL BRANCH MAIN BRANCH BUILDING SIRSA HARYANA-125055

- | | |
|---|--|
| <p>400 STATE BANK OF INDIA
BEGUN ROAD BRANCH
OPP. MALAGAR PETROL PUMP
BEGUN ROAD SIRSA
HARYANA-125055</p> <p>401 STATE BANK OF INDIA
RAJESH PILOT CHOWK BRANCH
VEER AWAS GARHI BOLNI ROAD
NEAR RAJESH PILOT CHOWK
REWARI HARYANA-123401</p> <p>402 STATE BANK OF INDIA
VIKAS NAGAR REWARI BRANCH
NEAR SHIV MANDIR
MAIN BUDHPUR ROAD
VIKAS NAGAR REWARI
HARYANA-123401</p> <p>403 STATE BANK OF INDIA
SINGHANA ROAD NARNAUL BRANCH
#499 SINGHANA ROAD
HUDA SECTOR 1 BUS STOP NARNAUL
DISTT : MAHENDRAGARH
HARYANA-123001</p> <p>404 STATE BANK OF INDIA
NAGAL CHOUDHARY BRANCH
NANGAL CHOWDHARY
TEHSIL - NARNAUL
DISTT: MOHINDERGARH
HARYANA-123023</p> <p>405 STATE BANK OF INDIA
BUS STAND ROAD
MOHINDERGARH BRANCH
M M PLAZA
NEAR RAO TULA RAM CHOWK
MOHINDERGARH
HARYANA-123029</p> <p>406 STATE BANK OF INDIA
MALRA BRANCH
VPO-BAWANA
DISTT-MAHENDRAGARH
HARYANA-123029</p> <p>407 STATE BANK OF INDIA
SATNALI BRANCH
SATNALI
DISTT-MOHINDERGARH
HARYANA-123024</p> <p>408 STATE BANK OF INDIA
PALI BRANCH
SANT JAI RAM DASS COLLEGE OF
EDUCATION
PALI MOHINDERGARH
HARYANA-123029</p> <p>409 STATE BANK OF INDIA
KANINA BRANCH
MAHENDERGARH ROAD KANINA
DISTT: MAHINDERGARH
HARYANA-123027</p> | <p>410 STATE BANK OF INDIA
JHARLI BRANCH
NEAR NTPC METRO
MARKET BHAU JHARLI ROAD
JHARLI DISTT-JHAJJAR
HARYANA-124125</p> <p>411 STATE BANK OF INDIA
BERI BRANCH
MAIN BAZAR BERI
DISTT. JHAJJAR
HARYANA-124201</p> <p>412 STATE BANK OF INDIA
SILANI GATE JHAJJAR BRANCH
DSS NO 1 & 2 MANDI TOWNSHIP
POCKET NO 1
NEAR MINI SECRETRIATE
JHAJJAR HARYANA-124103</p> <p>413 STATE BANK OF INDIA
MAIN ROAD JHAJJAR BRANCH
JHAJJAR HARYANA-124103</p> <p>414 STATE BANK OF INDIA
MINI SECRETARIAT J
HAJJAR BRANCH
DISTT. JHAJJAR
HARYANA-124103</p> <p>415 STATE BANK OF INDIA
MANETHI BRANCH
NEAR KUND BARRIER
NARNAUL-REWARI ROAD
MANETHI DISTT. REWARI
HARYANA-123102</p> <p>416 STATE BANK OF INDIA
SECTOR-6 BAHADURGARH BRANCH
SCF 24&25 SHOPPING COMPLEX
SECTOR-6
BAHADURGARH, DISTT. JHAJJAR
HARYANA-124507</p> <p>417 STATE BANK OF INDIA
SANKHOL BRANCH
SANKHOL TEHSIL-BAHADURGARH
DISTT. JHAJJAR
HARYANA-124507</p> <p>418 STATE BANK OF INDIA
BARAHI BRANCH
VPO BARAHI (HOUSE OF RAJNEESH)
TEH-BAHADUR GARH
DISTT. JHAJJAR
HARYANA-124525</p> <p>419 STATE BANK OF INDIA
REGIONAL BISSINESS OFFICE
REWARI
C/O STATE BANK OF INDIA
FIRST FLOOR REWARI
MAIN BRANCH
HARYANA-123401</p> <p>420 STATE BANK OF INDIA
KATH MANDI BRANCH</p> |
|---|--|

	KATH MANDI REWARI DISTT.REWARI HARYANA-123401	433	STATE BANK OF INDIA NEW PLOT BRANCH JAMMU - 180005 (JAMMU & KASHMIR)
421	STATE BANK OF INDIA DELHI ROHTAK ROAD BAHADURGARH DISTT. JHAJJAR HARYANA-124507	434	STATE BANK OF INDIA RAILWAY STATION BRANCH JAMMU - 180012 (JAMMU & KASHMIR)
422	STATE BANK OF INDIA PURANI MANDI BRANCH JAMMU - 180001 (JAMMU & KASHMIR)	435	STATE BANK OF INDIA KARAN NAGAR BRANCH JAMMU - 180001 (JAMMU & KASHMIR)
423	STATE BANK OF INDIA CANTT BRANCH JAMMU - 180003 (JAMMU & KASHMIR)	436	STATE BANK OF INDIA MOHALLA JANIPUR BRANCH JAMMU - 180001 (JAMMU & KASHMIR)
424	STATE BANK OF INDIA KACCHI CHAWANI BRANCH JAMMU - 180001 (JAMMU & KASHMIR)	437	STATE BANK OF INDIA AKHNOOR BRANCH - 181201 DISTT. JAMMU - 181201 (JAMMU & KASHMIR)
425	STATE BANK OF INDIA TALAB TILLO BRANCH JAMMU - 180002 (JAMMU & KASHMIR)	438	STATE BANK OF INDIA REHRI COLONY BRANCH JAMMU - 180005 (JAMMU & KASHMIR)
426	STATE BANK OF INDIA GANDHI NAGAR BRANCH JAMMU - 180004 (JAMMU & KASHMIR)	439	STATE BANK OF INDIA BISHNA BRANCH DISTT. JAMMU - 181132 (JAMMU & KASHMIR)
427	STATE BANK OF INDIA JAURIAN BRANCH DISTT. JAMMU - 181202 (JAMMU & KASHMIR)	440	STATE BANK OF INDIA CRPF BAN TALAB BRANCH JAMMU - 180001 (JAMMU & KASHMIR)
428	STATE BANK OF INDIA MARH BRANCH JAMMU - 181208 (JAMMU & KASHMIR)	441	STATE BANK OF INDIA BOHRI BRANCH JAMMU - 180002 (JAMMU & KASHMIR)
429	STATE BANK OF INDIA REGIONAL BUSINESS OFFICE - 5 RAIL HEAD COMPLEX JAMMU - 180012 (JAMMU & KASHMIR)	442	STATE BANK OF INDIA NARWAL BRANCH JAMMU - 180006 (JAMMU & KASHMIR)
430	STATE BANK OF INDIA SAINIK COLONY BRANCH JAMMU - 180011 (JAMMU & KASHMIR)	443	STATE BANK OF INDIA SIDHRA BRANCH JAMMU - 180006 (JAMMU & KASHMIR)
431	STATE BANK OF INDIA R S PURA BRANCH DISTT. JAMMU - 181102 (JAMMU & KASHMIR)	444	STATE BANK OF INDIA PURKHU BRANCH JAMMU - 181206 (JAMMU & KASHMIR)
432	STATE BANK OF INDIA CHANNI HIMMAT BRANCH JAMMU - 180015 (JAMMU & KASHMIR)	445	STATE BANK OF INDIA SHAKTI NAGAR BRANCH JAMMU - 180001 (JAMMU & KASHMIR)
		446	STATE BANK OF INDIA SHASTRI NAGAR BRANCH

	JAMMU - 180002 (JAMMU & KASHMIR)	460	STATE BANK OF INDIA DAYAL CHAK BRANCH DISTT. KATHUA - 184144 (JAMMU & KASHMIR)
447	STATE BANK OF INDIA ARNIA BRANCH DISTT. JAMMU - 181131 (JAMMU & KASHMIR)	461	STATE BANK OF INDIA KATHUA BRANCH DISTT. KATHUA - 184102 (JAMMU & KASHMIR)
448	STATE BANK OF INDIA MIRAN SAHIB BRANCH JAMMU - 181101 (JAMMU & KASHMIR)	462	STATE BANK OF INDIA GREATER KAILASH BRANCH JAMMU - 180012 (JAMMU & KASHMIR)
449	STATE BANK OF INDIA TRIKUTA NAGAR BRANCH JAMMU - 180012 (JAMMU & KASHMIR)	463	STATE BANK OF INDIA HNI BRANCH RAIL HEAD COMPLEX JAMMU - 180012 (JAMMU & KASHMIR)
450	STATE BANK OF INDIA GANGYAL BRANCH JAMMU - 180005 (JAMMU & KASHMIR)	464	STATE BANK OF INDIA IN-TOUCH BRANCH HUDCO BHAWAN JAMMU - 180012 (JAMMU & KASHMIR)
451	STATE BANK OF INDIA NANAK NAGAR BRANCH JAMMU - 180004 (JAMMU & KASHMIR)	465	STATE BANK OF INDIA ADB KATHUA BRANCH DISTT. KATHUA - 184101 (JAMMU & KASHMIR)
452	STATE BANK OF INDIA KHOUR BRANCH JAMMU - 181203 (JAMMU & KASHMIR)	466	STATE BANK OF INDIA CENTRAL UNIVERSITY BAGLA BRANCH DISTT. JAMMU- 184121 (JAMMU & KASHMIR)
453	STATE BANK OF INDIA JAIN BAZAR BRANCH JAMMU - 180001 (JAMMU & KASHMIR)	467	STATE BANK OF INDIA KATRA BRANCH DISTT. REASI - 182301 (JAMMU & KASHMIR)
454	STATE BANK OF INDIA RESHAM GARH COLONY BRANCH JAMMU - 180002 (JAMMU & KASHMIR)	468	STATE BANK OF INDIA RAJPURA BRANCH DISTT. KATHUA - 184145 (JAMMU & KASHMIR)
455	STATE BANK OF INDIA KOT BRANCH JAMMU - 181122 (JAMMU & KASHMIR)	469	STATE BANK OF INDIA BASHOLI BRANCH DISTT. KATHUA - 184201 (JAMMU & KASHMIR)
456	STATE BANK OF INDIA SUNGAL BRANCH JAMMU - 181201 (JAMMU & KASHMIR)	470	STATE BANK OF INDIA VIJAYPUR BRANCH DISTT. JAMMU - 184120 (JAMMU & KASHMIR)
457	STATE BANK OF INDIA OLD SATWARI BRANCH JAMMU - 180003 (JAMMU & KASHMIR)	471	STATE BANK OF INDIA SUPWAL BRANCH DISTT. JAMMU - 184120 (JAMMU & KASHMIR)
458	STATE BANK OF INDIA GOL MARKET, GANDHINAGAR JAMMU - 180004 (JAMMU & KASHMIR)	472	STATE BANK OF INDIA BUDHI BRANCH DISTT. KATHUA - 184143 (JAMMU & KASHMIR)
459	STATE BANK OF INDIA BILAWAR BRANCH DISTT. KATHUA - 184204 (JAMMU & KASHMIR)		

473	STATE BANK OF INDIA RAMKOT BRANCH DISTT. KATHUA - 184205 (JAMMU & KASHMIR)	486	STATE BANK OF INDIA ADB TALAB TILLO BRANCH DISTT. JAMMU - 180016 (JAMMU & KASHMIR)
474	STATE BANK OF INDIA BADI BRAHMNA BRANCH DISTT. JAMMU - 181133 (JAMMU & KASHMIR)	487	STATE BANK OF INDIA ADMINISTRATIVE OFFICE RAIL HEAD COMPLEX JAMMU - 180012 (JAMMU & KASHMIR)
475	STATE BANK OF INDIA MANSAR BRANCH DISTT. SAMBA - 184121 (JAMMU & KASHMIR)	488	State Bank of India, Regional Business Office-1, 40, SDA Complex, Kasumpti, Shimla, Himachal Pradesh-171009
476	STATE BANK OF INDIA KEHLI MANDI BRANCH DISTT. SAMBA - 184121 (JAMMU & KASHMIR)	489	State Bank of India, Regional Business Office-3, Rajgarh Road, Solan, Himachal Pradesh-173212
477	STATE BANK OF INDIA COLLEGE ROAD, KATHUA BRANCH DISTT. KATHUA - 184101 (JAMMU & KASHMIR)	490	State Bank of India, Regional Business Office-5, Gandhi Chowk, Hamirpur, Himachal Pradesh-177001
478	STATE BANK OF INDIA BANI BRANCH DISTT. KATHUA - 184206 (JAMMU & KASHMIR)	491	State Bank of India, Kasumpti, 40, SDA Complex, Shimla, Himachal Pradesh-171009
479	STATE BANK OF INDIA REGIONAL BUSINESS OFFICE - 3 RAIL HEAD COMPLEX JAMMU - 180012 (JAMMU & KASHMIR)	492	State Bank of India, Shoghi, Dist. Shimla Himachal Pradesh-171219
480	STATE BANK OF INDIA HIRA NAGAR BRANCH DISTT. KATHUA - 184142 (JAMMU & KASHMIR)	493	State Bank of India, Totu, Dist. Shimla, Himachal Pradesh-171001
481	STATE BANK OF INDIA KALI BADI BRANCH DISTT. KATHUA - 184104 (JAMMU & KASHMIR)	494	State Bank of India, Ghanahatti, Dist. Shimla, Himachal Pradesh-171001
482	STATE BANK OF INDIA RAMGARH BRANCH DISTT. SAMBA - 181141 (JAMMU & KASHMIR)	495	State Bank of India, Dharmpur, Tehsil Sarkaghat, Dist. Mandi, Himachal Pradesh-175003
483	STATE BANK OF INDIA SWANKHA BRANCH DISTT. KATHUA - 184120 (JAMMU & KASHMIR)	496	State Bank of India, Kotali, Dist. Mandi , Himachal Pradesh-175003
484	STATE BANK OF INDIA SME BRANCH RAIL HEAD COMPLEX JAMMU - 180012 (JAMMU & KASHMIR)	497	State Bank of India, IIT Mandi, Dist. Mandi, Himachal Pradesh-175003
485	STATE BANK OF INDIA REGIONAL BUSINESS OFFICE - 2 RAIL HEAD COMPLEX JAMMU - 180012 (JAMMU & KASHMIR)	498	State Bank of India, Baldwara, Dist. Mandi, Himachal Pradesh-175033
		499	State Bank of India, Thural, Dist. Kangra, Himachal Pradesh-176107

500	State Bank of India, Rehan, Dist. Kangra, Himachal Pradesh-176022	516	State Bank of India, Tikkar, Dist. Hamirpur, Himachal Pradesh-177401
501	State Bank of India, Bharmaur, Dist. Chamba, Himachal Pradesh-176316	517	State Bank of India, Mohal, Tahsil Bhuntar, Dist. Kullu, Himachal Pradesh-175126
502	State Bank of India, Kasabati Bhanjradu, Dist. Chamba, Himachal Pradesh-176316	518	State Bank of India, H.P. University Regional Centre Mohali, Dist. Kangra, Himachal Pradesh-176218
503	State Bank of India, RASMECCC, The Mall, Dist. Shimla, Himachal Pradesh-171001	519	State Bank of India, Bhoranj, Dist. Hamirpur, Himachal Pradesh-176045
504	State Bank of India, Bharwana, Dist. Kangra, Himachal Pradesh-176209	520	State Bank of India, Regional Business Office-2, 40, SDA Complex, Kasumpti, Shimla, Himachal Pradesh-171009
505	State Bank of India, Harchakkiyan, Dist. Kangra, Himachal Pradesh-176201	521	State Bank of India, Fagu, Dist. Shimla, Himachal Pradesh-171209
506	State Bank of India, Majhin, Dist. Kangra Himachal Pradesh-176032	522	State Bank of India, Shingla, Dist. Shimla, Himachal Pradesh-172001
507	State Bank of India, Sunni, Dist. Shimla, Himachal Pradesh-171301	523	State Bank of India, Hatkoti Road Rohru, Dist. Shimla, Himachal Pradesh-171207
508	State Bank of India, Nerva, Dist. Shimla, Himachal Pradesh-171210	524	State Bank of India, Narkanda, Dist. Shimla, Himachal Pradesh-171213
509	State Bank of India, Kumarhatti, Dist. Solan, Himachal Pradesh-173229	525	State Bank of India, Panthaghati, Dist. Shimla, Himachal Pradesh-171009
510	State Bank of India, Main Bazaar Bilaspur, Dist. Bilaspur, Himachal Pradesh-174001	526	State Bank of India, Baldyan, Dist. Shimla, Himachal Pradesh-171007
511	State Bank of India, Pandoh, Dist. Mandi, Himachal Pradesh-175121	527	State Bank of India, Ghench (Kobahag), Dist. Shimla, Himachal Pradesh-171103
512	State Bank of India, Chail Chowk, Dist. Mandi, Himachal Pradesh-175045	528	State Bank of India, Chamyana, Dist. Shimla, Himachal Pradesh-171006
513	State Bank of India, Takoli, Dist. Mandi, Himachal Pradesh-175121	529	State Bank of India, Jainagar, Dist. Solan, Himachal Pradesh-173221
514	State Bank of India, Ani, Dist. Kullu, Himachal Pradesh-172026	530	State Bank of India, Bhumati, Tehsil Arki, Dist. Solan, Himachal Pradesh-173221
515	State Bank of India, Laut, Dist. Lahol Spiti, Himachal Pradesh-175132		

531	State Bank of India, Ghanagughat, Tehsil Arki, Dist. Solan, Himachal Pradesh-173102	547	State Bank of India, Govt. Polytechnic Collage Sundar Nagar, Dist. Mandi, Himachal Pradesh-175018
532	State Bank of India, Jharmajari, Dist. Solan, Himachal Pradesh-174103	548	State Bank of India, Naggar, Dist. Kullu, Himachal Pradesh-175130
533	State Bank of India, Tipra, Dist. Solan, Himachal Pradesh-173225	549	State Bank of India, Shamshi, Dist. Kullu , Himachal Pradesh-175126
534	State Bank of India, Deonghat, Dist. Solan, Himachal Pradesh-173211	550	State Bank of India, Nirmand,Dist. Kullu , Himachal Pradesh-172023
535	State Bank of India, Degree Collage Solan, Dist. Solan, Himachal Pradesh-173212	551	State Bank of India, Bajaura,Dist. Kullu, Himachal Pradesh-175125
536	State Bank of India, Baddi, Dist. Solan, Himachal Pradesh-173205	552	State Bank of India, Banogi Bashing, Dist. Kullu , Himachal Pradesh-175138
537	State Bank of India, Salogra, Dist. Solan, Himachal Pradesh-173214	553	State Bank of India, Tarkuwadi,Dist. Hamirpur , Himachal Pradesh-176045
538	State Bank of India, Sairee, Dist. Solan, Himachal Pradesh-173207	554	State Bank of India, Chhatrail Toni Devi , Dist. Hmirpur , Himachal Pradesh-177023
539	State Bank of India, Patta Brawari, Dist. Solan, Himachal Pradesh-173207	555	State Bank of India, sbiINTOUCH, Dist. Hamirpur, Himachal Pradesh-174001
540	State Bank of India, Dharot, Dist. Solan, Himachal Pradesh-173213	556	State Bank of India, Gwalthai, Dist. Bilaspur, Himachal Pradesh-174201
541	State Bank of India, Damrog, Dist. Solan, Himachal Pradesh-173212	557	State Bank of India, Regional Business Office-7, Kangra, Dist. Kangra, Himachal Pradesh-176001
542	State Bank of India, Sangrah, Dist. Sirmour, Himachal Pradesh-173023	558	State Bank of India, Jorbar (Ujhe), Dist. Kangra, Himachal Pradesh-177112
543	State Bank of India, Bhangani, Dist. Sirmour, Himachal Pradesh-173025	559	State Bank of India, Shahpur, Dist. Kangra, Himachal Pradesh-176206
544	State Bank of India, sbiINTOUCH Paonta Sahib, Dist. Sirmour, Himachal Pradesh-173025	560	State Bank of India, Sunhet, Dist. Kangra, Himachal Pradesh-177104
545	State Bank of India, Bhagrotu, Dist. Mandi, Himachal Pradesh-175021	561	State Bank of India, Una Mini Sectt., Dist. Una, Himachal Pradesh-174303
546	State Bank of India, Lachori, Dist. Mandi, Himachal Pradesh-176308	562	State Bank of India, sbiINTOUCH, The Mall Shimla, Dist. Shimla, Himachal Pradesh-171001

- 563 State Bank Of India
Abohar Main Branch
Mandi No.4 , Abohar,
Distt. Fajilka
Punjab – 152116
- 564 State Bank Of India
Fazilika Branch
Bathinda Road Fajilka,
Distt. Fajilka
Punjab-151123
- 565 State Bank Of India
Firozpur Cant Branch
120, Church Road,
Firozpur Cantt,
Distt. Firozpur
Punjab – 152002
- 566 State Bank Of India
Moga Branch
,Majestic Road,
Moga Distt. Moga
Punjab – 142001
- 567 State Bank Of India
Mukatsar Branch
Malout Road Mukatsar
Distt. Mukatsar, Punjab - 152026
- 568 State Bank Of India
Tarantaran Branch
Railway Road Tarn Taran
Distt. Tarantaran
Punjab – 143401
- 569 State Bank Of India
Firozpur City Branch
Mochi Bazar,
Firozpur City ,
Distt. Firozpur
Punjab – 152001
- 570 State Bank Of India
Malout Branch
Kairon Road,
Distt. Mukatsar
Punjab – 152107
- 571 State Bank Of India
Gidderbaha Branch
Circular Road Gidderbaha,
Distt. Mukatsar
Punjab – 152101
- 572 State Bank Of India
Kikkar Bazar Branch
Distt.Bhatinda
Punjab- 151001
- 573 State Bank Of India
Rampura Branch
Bank Bazar Rampura Phul ,
Distt. Bhatinda
Punjab – 151104
- 574 State Bank Of India
Guruharsahai Branch
Street No 12, Guruharsahai
Distt. Firozpur
Punjab – 152022
- 575 State Bank Of India
Talwandi Bhai Branch
Grain Market Talwandi Bhai
Distt.Firozpur
Punjab – 142050
- 576 State Bank Of India
Baghapurana Branch
Kotkapura Road,
Baghapurana Distt. Moga
Punjab – 142038
- 577 State Bank Of India
Maur Mandi Branch
Distt. Bhatinda
Punjab -151509
- 578 State Bank Of India
Faridkot Branch
Circular Road,
Faridkot Distt. Faridkot
Punjab – 151203
- 579 State Bank Of India
Kotakpura Branch Satta Bazar Kotkapura,
Distt. Faridkot
Punjab – 151204
- 580 State Bank Of India
Jalalabad (West) Branch
Distt. Firozpur
Punjab - 152024
- 581 State Bank Of India
Adb. Kotakpura Branch
Faridkot Road,
Kotkapura, Distt. Faridkot,
Punjab – 151204
- 582 State Bank Of India
Gt. Road Moga Branch
Moga, Distt. Moga,
Punjab – 142001
- 583 State Bank Of India
Main Bazar Moga Branch
Opp.Shivala Soodam,
Main Bazar Moga,
Distt. Faridkot
Punjab – 142001
- 584 State Bank Of India
Behman Dewana Branch
Vpo. Behman Dewana, Distt.Bathinda
Punjab – 151001
- 585 State Bank Of India
Bathinda Cantonment Branch
Bathinda Cant, Distt.Bathinda
Punjab – 151004

586	State Bank Of India Dhotian Branch Vpo Dhotian Distt . Tarn Taran Punjab – 143411	598	State Bank Of India Arniwala Seikh Suban Branch Dabwala Kalan Road, Tehsil Fazilka, Distt. Firozpur Punjab – 152124
587	State Bank Of India Doda Branch Vpo Doda Tehsil Giddarbaha, Distt. Mukatsar Punjab – 152031	599	State Bank Of India Abul Khurana Branch Vpo. Abul Khurana, Tehsil. Malout, Distt. Mukatsar Punjab – 152114
588	State Bank Of India Makhu Branch Railway Road, Makhu, Tehsil: Zira, Distt. Firozpur Punjab – 142044	600	State Bank Of India Channu Branch Tehsil: Giderbaha , Distt. Mukatsar Punjab – 152101
589	State Bank Of India Khuban Branch Khuban Distt. Firozpur Punjab -152116	601	State Bank Of India KK. Road Mukatsar Branch Kotkapura Road, Mukatsar Punjab – 152026
590	State Bank Of India Khui Khera Branch Vpo. Khui Khera , Nation Highway No 10, Distt.Firozpur Punjab – 152121	602	State Bank Of India Adb. Bathinda Branch P B No.57, Bathinda, Guru Kashi Marg, Distt. Bathinda Punjab – 151001
591	State Bank Of India Kotshamir Branch Vpo. Kotshamir Distt. Bathinda Punjab – 151001	603	State Bank Of India Sibian Branch NFL Complex, Distt : Bathinda Punjab -151002
592	State Bank Of India Mamdot Branch Vpo. Mamdot Distt. Firozpur Punjab – 152023	604	State Bank Of India Amarkot Branch Tehsil Patti, Distt. : Tarntaran Punjab – 143419
593	State Bank Of India Nahianwala Branch Near Durga Mandir, Tehsil & Distt. Bathinda Punjab – 151201	605	State Bank Of India Adb. Firozpur Branch Baghdadi Gate, Firozpur City Punjab – 152001
594	State Bank Of India Rupana Branch Vpo. Rupana Distt. Mukatsar Punjab – 152032	606	State Bank Of India Adb. Moga Branch Distt. Moga Punjab – 142001
595	State Bank Of India Samadh Bhai Branch Vpo. Samadh Bhai, Tehsil. Baghapurana, Distt. Moga Punjab – 142057	607	State Bank Of India Basti Machhian Zira Branch Railway Road, Distt.Firozpur Punjab – 142047
596	State Bank Of India Talwandi Mallian Branch Disttt : Moga, Punjab – 142041	608	State Bank Of India Adb. Bhikhiwind Branch Distt. Tarn Taran Punjab – 143303
597	State Bank Of India Mudki Branch Vpo. Mudki Distt. Firozpur Punjab – 142060	609	State Bank Of India Adb. Mukatsar Branch Bathinda Road, Mukatsar Punjab – 152026

- | | |
|---|--|
| <p>610 State Bank Of India
Lehra Mohabbat Branch
Near Railway Station,
Tehsil. Nathana, Distt. Bathinda
Punjab – 151111</p> <p>611 State Bank Of India
Chuhar Chak Branch
Vpo. Chuhar Chak,
Distt. Moga
Punjab – 142053</p> <p>612 State Bank Of India
Jhokhe More Branch
Vill. Jhoke Morhe ,
Vpo. Jhokhe Tehal Singh,
Distt. Firozpur
Punjab – 152002</p> <p>613 State Bank Of India
Faridkot Cantt Branch
Distt. Faridkot
Punjab – 151004</p> <p>614 State Bank Of India
Assa Buttar Branch
Po. Bariwala, Distt. Mukatsar
Punjab – 152025</p> <p>615 State Bank Of India
Chabal Kalan Branch
Distt. Tarantaran
Punjab – 143301</p> <p>616 State Bank Of India
Abohar Cant. Branch
Camp At Gobindgarh,
Abohar Distt. Firozpur
Punjab – 152116</p> <p>617 State Bank Of India
Khosla Pando Branch
Vill. Khosla Pando,
Tehsil Moga , Distt. Moga
Punjab – 142048</p> <p>618 State Bank Of India
Thatha Branch
Vpo. Thatha, Tehsil Zira,
Distt. Firozpur
Punjab – 142047</p> <p>619 State Bank Of India
Kassel Branch, Vpo. Kassel,
Distt. Tarn Taran
Punjab – 143105</p> <p>620 State Bank Of India
Sukhanand Branch
Vpo. Sukhanand Tehsil.
Bagha Purana, Distt. Moga
Punjab – 142049</p> <p>621 State Bank Of India
Dhapali Branch
Vpo. Dhapali,
Tehsil Rampura Phul,</p> | <p>Distt. Bathinda
Punjab – 151104</p> <p>622 State Bank Of India
Subrah Branch
Vpo. Subrah Distt. Tarn Taran
Pincode – 143417</p> <p>623 State Bank Of India
Sarhali Khurad Branch
Vill. Sarhali Khurd ,
Po. Sakhira, Distt . Tarn Taran
Punjab – 143415</p> <p>624 State Bank Of India
Patti Branch
Near Post Office,
Block-Patti, Distt. Tarn Taran
Punjab – 143416</p> <p>625 State Bank Of India
Abhun Branch
Vill. Abhun,
Tehsil Fajilka,
Distt. Firozpur
Punjab – 152123</p> <p>626 State Bank Of India
Ghubaya Branch
Vpo. Gubaya,
Tehsil. Jalalabad,
Distt. Firozpur
Punjab – 152024</p> <p>627 State Bank Of India
Jaitu Branch
Teh & Po. Jaitu, Distt. Faridkot
Punjab – 151202</p> <p>628 State Bank Of India
Bhagu Road Bathinda Branch
Sant Nagar, Distt. Bathinda
Punjab -151001</p> <p>629 State Bank Of India
Kheo Wali Dhab Branch
Tehsil : Fazilka, Distt. Firozpur
Punjab – 152121</p> <p>630 State Bank Of India
Bam Branch
Tehsil. Malout , Distt. Mukatsar
Punjab – 152032</p> <p>631 State Bank Of India
Mini Sectt.Dc Complex Mukatsar Branch
Dc Office, Mukatsar
Punjab – 152026</p> <p>632 State Bank Of India
Gurudwara Road Goindwal Branch
Opposite Water Tank Goindwal,
Distt. Tarn Taran
Punjab – 143422</p> <p>633 State Bank Of India
Chola Sahib Branch</p> |
|---|--|

	Gurudwara Dukhi Niwaran Market, Goindwal Road, Chohla Sahib Tarantaran Punjab – 143408		Fajilka Punjab – 152123
634	State Bank Of India Amritsar Road Taran Tarn Branch Amritsar Road, Distt. Tarn Taran Punjab – 143401	645	State Bank Of India G T Road Malout Branch Opposite Makkar Palace, Malout, Distt. Mukatsar Punjab – 152107
635	State Bank Of India Currency Admin. Cell Bathinda, Main Branch Bathinda, Distt.- Bathinda Punjab – 151001	646	State Bank Of India Partap Nagar Bathinda Branch Near Sachdeva Chakki, Opp: Dushera Ground, Bathinda Punjab – 151001
636	State Bank Of India Sadiq Branch, Mukatsar Road, Opposite Gurudwara Singh Sabha, V.P.O - Sadiq, Distt. Faridkot Pincode – 151212	647	State Bank Of India Fajilka Road Abohar Branch Between Kumar Filling Station And MLT. Station, Gate No 1, Abohar , District – Fajilka Punjab – 152116
637	State Bank Of India Sadiq Chowk Faridkot Branch Shop No.44, New Grain Market , Sadiq Chowk Faridkot, Faridkot Punjab – 151203	648	State Bank Of India Sbi In Touch Bathinda Branch 100 Feet Road, Saggu Complex, Bathinda Punjab – 151001
638	State Bank Of India NGM Mukatsar Branch Shop No. 59 And 60, New Grain Market, Vpo. Mukatsar Punjab – 152026	649	State Bank Of India Sbiintouch Mukatsar Branch Kundan Complex, Bathinda Road Mukatsar Punjab -152026
639	State Bank Of India Barnala Road Bathinda Branch Bathinda Punjab -151001	650	State Bank Of India Abohar Branch Bhagat Singh Chowk, Abohar, Distt. Fajilka Punjab – 152116
640	State Bank Of India Wara Darakka Branch Vpo. Wara Darakka, Tehsil. Kotkapura, Distt. Faridkot Punjab – 151209	651	State Bank Of India Bathinda Branch Bank Street, Old Satta Bazar, Distt. Bathinda Punjab -151001
641	State Bank Of India Bhuchu Khurd Branch Barnala Road, Bathinda Punjab – 151101	652	State Bank Of India Moga Civil Lines Branch Gt Road Tehsil And Distt. Moga Punjab – 142001
642	State Bank Of India Dev Samaj College For Women Branch Near Bansi Gate, Firozpur City Punjab -152001	653	State Bank Of India Alamwala Branch Tehsil – Faridkot, Distt. Faridkot Punjab -152210
643	State Bank Of India Samalsar Branch Vpo. Samalsar, Distt. Moga Punjab – 142049	654	State Bank Of India Zonal Office - Bathinda, Lakshya Building , Amrik Singh Road , First Floor,Bathinda Punjab – 151001
644	State Bank Of India Dc Complex Fajilka Branch Border Road, Near Hanuman Mandir & Gurudwara Sahib,	655	State Bank Of India Rbo – 2, Bathinda

	Lakshya Building, Amrik Singh Road, Bathinda Punjab – 151001		
656	State Bank Of India Rbo – 3, Bathinda Lakshya Building, Amrik Singh Road, Bathinda Punjab – 151001	666	State Bank Of India Kulgarhi Branch Vill-Kulgarhi, P.O Sherkhanwala Firozpur, Distt. - Firozpur Punjab – 152005
657	State Bank Of India Rbo – 4, Bathinda Lakshya Building, Amrik Singh Road, Bathinda Punjab – 151001	667	State Bank Of India Golewala Branch Vill : Golewala, Tehsil & Distt. Faridkot Punjab – 151203
658	State Bank Of India Sitto Gunno Branch Near Uday Filling Station, Sitto Gunno, Distt. Fajilka Punjab – 152116	668	State Bank Of India Kalalwala Branch V& P.O Kalalwala, Tehsil-Talwandi Sabho, Distt. - Bathinda Punjab – 151302
659	State Bank Of India Branch Lalanwali Vill: Lalanwali, Tehsil & Distt. Fajilka Punjab – 152123	669	State Bank Of India Jhanduke Branch V& P.O Jhanduke, Tehsil-Maur, Distt. Bathinda Punjab – 151506
660	State Bank Of India Balloh Branch V& P.O - Balloh Tehsil : Rampura Phul, Distt.- Bathinda Punjab – 151510	670	State Bank Of India Jodhpur Pakhar Branch V& P.O Jodhpur Pakhar, Tehsil-Maur, Distt. - Bathinda Punjab – 151509
661	State Bank Of India Sarawan Branch V & P.O : Sarawan, Teh Malout , Distt. - Mukatsar Punjab – 151204	671	State Bank Of India Branch - Bhokhra Vpo-Bhokhra , Goniana Road Bathinda , Distt.- Bathinda Punjab – 151201
662	State Bank Of India Peori Branch V& P.O: Peori, Tehsil-Gidderbaha, Distt. - Mukatsar Punjab – 151001	672	State Bank Of India Bhatti Road Bathinda, Bhatti Road, Opp. Care Hospital, Bathinda Punjab -151001
663	State Bank Of India Waring Khera Branch Tehsil - Malout, Distt. - Mukatsar Punjab – 151211	673	State Bank Of India Kot Bhaktu Branch Vpo - Kot Bakhtu, Distt. Bathinda Punjab – 151301
664	State Bank Of India Ablu Branch Vpo: Ablu (Kot Chet Singh) Teh & Distt. Bathinda Punjab – 151201	674	State Bank Of India Bhai Rupa Branch Gumti Road, Tehsil : Rampura Phul, Bathinda, Distt.- Bathinda Punjab - 151106
665	State Bank Of India Jai Singh Wala Branch Vpo: Jai Singh Wala , Tehsil & Distt. Bathinda Punjab – 151001	675	State Bank Of India Jhok Harihar Branch Vpo :Jhok Harihar, Mukatsar Ferozpur Road, Distt. Ferozpur Punjab – 152003
		676	State Bank Of India Punjawa Branch

	Vill : Punjawa, Tehsil-Malout, Distt - Mukatsar Punjab – 152113	688	STATE BANK OF INDIA NEW COURTS MINI SECRETARIAT LUDHIANA (PUNJAB) - 141001
677	State Bank Of India Lal Singh Basti Bathinda Branch Lal Singh Basti , Bathinda Punjab -151001	689	STATE BANK OF INDIA LADHOWAL LUDHIANA (PUNJAB) – 141008
678	State Bank Of India Pathrala Branch Vpo: Pathrala , Block : Sangat Mandi, Distt. Bathinda Punjab -151401	690	STATE BANK OF INDIA SME SUNDER NAGAR LUDHIANA (PUNJAB) – 141008
679	State Bank Of India Takhatpura Branch Vill:Takhtupura, Tehsil-Nihal Singh Wala, Distt. - Moga Punjab – 142039	691	STATE BANK OF INDIA PHULANAWALA PAKHOWAL ROAD LUDHIANA (PUNJAB) – 141013
680	State Bank Of India Kussa Branch Vill:Kussa, Tehsil-Nihal singh wala, Distt. - Moga Punjab – 142039	692	STATE BANK OF INDIA TREASURY BRANCH RANI JHANSI ROAD OPPOSITE KHALSA COLLEGE FOR WOMEN LUDHIANA (PUNJAB) – 141001
681	State Bank Of India Khipanwali Branch Main Bazar, Village Khipanwali, Tehsil And Distt. Fajilka Punjab – 152121	693	STATE BANK OF INDIA DUGRI URBAN ESTATE – II LUDHIANA (PUNJAB) – 141013
682	State Bank Of India Ajit Road Bathinda Branch Ajit Road,Opposite Street No.30, Near Gurudwara, Bathinda Punjab – 151001	694	STATE BANK OF INDIA TAGORE NAGAR NEAR D M C LUDHIANA (PUNJAB) – 141001
683	STATE BANK OF INDIA MAIN BRANCH CIVIL LINES FOUNTAIN CHOWK LUDHIANA (PUNJAB) – 141001	695	STATE BANK OF INDIA SSI SHIMLAPURI LUDHIANA (PUNJAB) – 141003
684	STATE BANK OF INDIA GILL ROAD LUDHIANA (PUNJAB) – 141003	696	STATE BANK OF INDIA MODEL TOWN EXTENSION OPP. VRIDH AASHRAM NEAR GURUDWARA SINGH SABHA LUDHIANA (PUNJAB) – 141002
685	STATE BANK OF INDIA LINK ROAD 277 INDUSTRIAL ESTATE AREA - A LUDHIANA (PUNJAB) – 141003	697	STATE BANK OF INDIA DUGRI ROAD LUDHIANA (PUNJAB) – 141001
686	STATE BANK OF INDIA GURDEV NAGAR LUDHIANA (PUNJAB) – 141001	698	STATE BANK OF INDIA STOCK EXCHANGE LUDHIANA (PUNJAB) – 141001
687	STATE BANK OF INDIA HERO NAGAR G T ROAD LUDHIANA (PUNJAB) – 141001	699	STATE BANK OF NDIA RAHON ROAD LUDHIANA (PUNJAB) – 141007
		700	STATE BANK OF INDIA DORAHA BRANCH DIST. LUDHIANA (PUNJAB) – 141421
		701	STATE BANK OF INDIA JODHAN PAKHOWAL ROAD LUDHIANA (PUNJAB) – 141001

702	STATE BANK OF INDIA JALNDHAR BY-PASS SCF 183 DANA MANDI LUDHIANA (PUNJAB) – 141002	714	STATE BANK OF INDIA DEVKI DEVI JAIN COLLEGE FOR WOMEN KIDWARI NAGAR LUDHIANA (PUNJAB) – 141008
703	STATE BANK OF INDIA JANAKPURI B- 23 / 729 / 298 / 2 LUDHIANA (PUNJAB) – 141001	715	STATE BANK OF INDIA AAYAKAR BHAWAN RISHI NAGAR LUDHIANA (PUNJAB) – 141001
704	STATE BANK OF INDIA SPECIALISED CURRENCY ADMINISTRATION BRANCH MILLERGANJ MILLERGANJ LUDHIANA (PUNJAB) – 141002	716	STATE BANK OF INDIA BHUTA TEHSIL LUDHIANA LUDHIANA (PUNJAB) - 141206
705	STATE BANK OF INDIA KATANI KALAN LUDHIANA-CHANDIGARH ROAD LUDHIANA (PUNJAB) – 141113	717	STATE BANK OF INDIA HAIBOWAL KALAN ADJOINING TOOR HOSPITAL, NEAR RELIANCE FRESH MAIN ROAD LUDHIANA (PUNJAB) – 141001
706	STATE BANK OF INDIA HUMBRAN MAIN ROAD, VILLAGE HUMBRAN LUDHIANA (PUNJAB) – 141110	718	STATE BANK OF INDIA PAKHOWAL ROAD 1339/7 PASSI CHOWK, OPP. HOUSEFEED FLAT LUDHIANA (PUNJAB) – 141013
707	STATE BANK OF INDIA INTOUCH BRANCH SCO – 36-37, BRS NAGAR LUDHIANA (PUNJAB) – 141001	719	STATE BANK OF INDIA JAGRAON LAJPAT RAI ROAD DIST. LUDHIANA (PUNJAB) – 142026
708	STATE BANK OF INDIA FEROZEPUR ROAD BXX-2607, OPP. HOTEL PARK PLAZA NEAR NAGPAL REGENCY LUDHIANA (PUNJAB) – 141001	720	STATE BANK OF INDIA KESARGANJ LUDHIANA (PUNJAB) – 141008
709	STATE BANK OF INDIA MADHOPURI CHOWK LUDHIANA (PUNJAB) – 141008	721	STATE BANK OF INDIA CHAURA BAZAR LUDHIANA (PUNJAB) – 141008
710	STATE BANK OF INDIA DANDI SWAMI CHOWK 801/7 LOOMBA STREET LUDHIANA (PUNJAB) – 141001	722	STATE BANK OF INDIA G T RAOD KHANNA (PUNJAB) – 141101
711	STATE BANK OF INDIA SARABHA NAGAR 233-A, UPPER GROUND FLOOR, PAKHOWAL ROAD LUDHIANA (PUNJAB) – 141001	723	STATE BANK OF INDIA PUNJAB AGRICULTURE UNIVERSITY LUDHIANA (PUNJAB) – 141004
712	STATE BANK OF INDIA BHARAT NAGAR CHOWK LUDHIANA (PUNJAB) – 141001	724	STATE BANK OF INDIA DHANDRI KALAN C-39, FOCAL POINT LUDHIANA (PUNJAB) – 141011
713	STATE BANK OF INDIA COMMERCIAL BRANCH G T ROAD MILLERGANJ AARTI COMPLEX, VISHWAKARMA CHOWK LUDHIANA (PUNJAB) – 141003	725	STATE BANK OF INDIA SME FOCAL POINT NEAR DHANDHRI

	KALAN POST OFFICE G T ROAD LUDHIANA (PUNJAB) – 141014		SAHNEWAL CHOWK DIST. LUDHIANA (PUNJAB) – 141120
726	STATE BANK OF INDIA PBB SARABHA NAGAR E-68, SARABHA NAGAR LUDHIANA (PUNJAB) – 141001	738	STATE BANK OF INDIA LUDHIANA: HI TECH SH. JASDEV SINGH NAGAR OPP. WELCOME PETROL PUMP LUDHIANA (PUNJAB) – 141116
727	STATE BANK OF INDIA MUNDIAN KALAN CHANDIGARH ROAD LUDHIANA (PUNJAB) – 141015	739	STATE BANK OF INDIA HANS TEHSIL JAGRAON DIST. LUDHIANA (PUNJAB) – 142026
728	STATE BANK OF INDIA AGAR NAGAR BLOCK – B LUDHIANA (PUNJAB) – 141012	740	STATE BANK OF INDIA OLD GRAIN MARKET SHOP NO. 85-86 JAGRAON (PUNJAB) – 142026
729	STATE BANK OF INDIA RAILWAY STATION BRANCH NEAR LAXMI CINEMA LAKKAR BAZAR LUDHIANA (PUNJAB) – 141001	741	STATE BANK OF INDIA RARA SAHIB OPP. CANAL TEHSIL PAYAL DIST. LUDHIANA (PUNJAB) – 141001
730	STATE BANK OF INDIA ADB MACHHIWARA SAMRALA ROAD MACHHIWARA (PUNJAB) – 141115	742	STATE BANK OF INDIA IKOLAHA MALERKOTLA ROAD NEAR BUS STAND LUDHIANA (PUNJAB) – 141414
731	STATE BANK OF INDIA KOHARA MACHHIWARA ROAD DIST. LUDHIANA (PUNJAB) – 141001	743	STATE BANK OF INDIA KHERI TEHSIL – LALTON KALAN THAKARWAL ROAD DIST. LUDHIANA (PUNJAB) – 142022
732	STATE BANK OF INDIA REGIONAL BUSINESS OFFICE -2 FOUNTAIN CHOWK, CIVIL LINES LUDHIANA (PUNJAB) – 141001	744	STATE BANK OF INDIA BARDHALA TEHSIL – SAMRALA LUDHIANA (PUNJAB) – 141114
733	STATE BANK OF INDIA SHINGAR CINEMA ROAD 4471- SHIVAJI NAGAR LUDHIANA (PUNJAB) – 141008	745	STATE BANK OF INDIA DUGRI BASANT AVENUE B- 37/84, DUGRI ROAD JAGDISH NAGAR NEAR CANAL BRIDGE LUDHIANA (PUNJAB) – 141002
734	STATE BANK OF INDIA FIELD GANJ SCO – 23-24, MAIN MARKET OPP. CIVIL HOSPITAL LUDHIANA (PUNJAB) – 141008	746	STATE BANK OF INDIA PHILLAUER, SCS NO. 9-10, PUDA COMPLEX DIST. JALANDHAR (PUNJAB) – 144410
735	STATE BANK OF INDIA RAJGURU NAGAR SCO- 25-26, MAIN MARKET LUDHIANA (PUNJAB) – 141012	747	STATE BANK OF INDIA CHITTI DIST. JALANDHAR (PUNJAB) – 144028
736	STATE BANK OF INDIA INTOUCH BRANCH FEROZEPUR ROAD, OPP. MBD MALL LUDHIANA (PUNJAB) – 141012		
737	STATE BANK OF INDIA SAHNEWAL WARD NO. 11, DEHLON ROAD NEAR GURU GOVIND SINGH GATE		

748	STATE BANK OF INDIA KHURADPUR TEHSIL ADAMPUR DIST. JALANDHAR (PUNJAB) – 144102	760	STATE BANK OF INDIA ADB PHILLAU DIST. JALANDHAR (PUNJAB) – 144410
749	STATE BANK OF INDIA SHAHKOT DIST. JALANDHAR (PUNJAB) – 144702	761	STATE BANK OF INDIA A F S ADAMPUR DOABA DIST. JALANDHAR (PUNJAB) – 144103
750	STATE BANK OF INDIA JANDIALA TEHSIL – PHILLAU DIST. JALANDHAR (PUNJAB) – 144033	762	STATE BANK OF INDIA GORAYA G T ROAD DIST. JALANDHAR (PUNJAB) – 144409
751	STATE BANK OF INDIA BEAS PIND PATHANKOT ROAD DIST. JALANDHAR (PUNJAB) – 144302	763	STATE BANK OF INDIA BILGA, DIST. JALANDHAR (PUNJAB) – 144036
752	STATE BANK OF INDIA JANDUSINGHA HOSHIARPUR ROAD DIST. JALANDHAR (PUNJAB) -144025	764	STATE BANK OF INDIA REGIONAL BUSINESS OFFICE NON BPR - 2 CIVIL LINES JALANDHAR (PUNJAB) – 144001
753	STATE BANK OF INDIA ADB KALYANPUR DIST. JALANDHAR (PUNJAB) – 144026	765	STATE BANK OF INDIA NRI NAKODAR BRANCH SHANKAR ROAD, NAKODAR DIST. JALANDHAR (PUNJAB) – 144040
754	STATE BANK OF INDIA KISHANGARH TEHSIL KARTARPUR DIST. JALANDHAR (PUNJAB) – 144301	766	STATE BANK OF INDIA LOHIAN KHAS MAIN ROAD, NEAR GRAIN MARKET DIST. JALANDHAR (PUNJAB) – 144629
755	STATE BANK OF INDIA NURMAHAL OPP. BUS STAND DIST. JALANDHAR (PUNJAB) – 144039	767	STATE BANK OF INDIA DAV UNIVERSITY SARMASTPUR DIST. JALANDHAR (PUNJAB) – 144301
756	STATE BANK OF INDIA RURKA KALAN TEHSIL PHILLAU DIST. JALANDHAR (PUNJAB) – 144031	768	STATE BANK OF INDIA SUNNER KALAN DIST. KAPURTHALA (PUNJAB) – 144020
757	STATE BANK OF INDIA SARAI KHAS TEHSIL KARTARPUR DIST. JALANDHAR (PUNJAB) – 144801	769	STATE BANK OF INDIA JALANDHAR CANTONMENT 51- CHURCH ROAD JALANDHAR (PUNJAB) – 144005
758	STATE BANK OF INDIA DAROLI KALAN DIST. JALANDHAR (PUNJAB) – 144104	770	STATE BANK OF INDIA INDUSTRIAL AREA JALANDHAR JALANDHAR (PUNJAB) – 144008
759	STATE BANK OF INDIA NAKODAR TERMINAL 81, JALANDHAR ROAD DIST. JALANDHAR (PUNJAB) – 144040	771	STATE BANK OF INDIA NEAR RAILWAY ROAD JALANDHAR (PUNJAB) – 144001
		772	STATE BANK OF INDIA NEW GRAIN MARKET JALANDHAR (PUNJAB) – 144004

773	STATE BANK OF INDIA OLD RAILWAY ROAD JALANDHAR (PUNJAB) – 144001	784	STATE BANK OF INDIA B.S.F CAMPUS JALANDHAR (PUNJAB) – 144006
774	STATE BANK OF INDIA FENTONGANJ JALANDHAR (PUNJAB) – 144001	785	STATE BANK OF INDIA IND FOCAL POINT G T ROAD, BY-PASS JALANDHAR (PUNJAB) – 144004
775	STATE BANK OF INDIA BASTI SHEIKH JALANDHAR (PUNJAB) – 144002	786	STATE BANK OF INDIA SPORTS & SURGICAL COMPLEX KAPURTHALA ROAD JALANDHAR (PUNJAB) – 144001
776	STATE BANK OF INDIA IMAM NASIR NK – 185, DIDAR PALACE, CHARANJITPURA DIST. JALANDHAR (PUNJAB) – 144002	787	STATE BANK OF INDIA CHHOTI BARADARI JALANDHAR (PUNJAB) – 144022
777	STATE BANK OF INDIA KHURLA KINGRA NAKODAR ROAD JALANDHAR (PUNJAB) – 144003	788	STATE BANK OF INDIA GURU GOBIND SINGH AVENUE JALANDHAR-AMRITSAR BY-PASS JALANDHAR (PUNJAB) – 144009
778	STATE BANK OF INDIA SME TANDA ROAD OPP. K M V COLLEGE JALANDHAR (PUNJAB) – 144004	789	STATE BANK OF INDIA GTB NAGAR JALANDHAR (PUNJAB) – 144001
779	STATE BANK OF INDIA SPECIAL PERSONAL BANKING BRANCH MODEL TOWN , 14 LINK ROAD JALANDHAR (PUNJAB) – 144003	790	STATE BANK OF INDIA INTOUCH LAJPAT NAGAR 261 EMINENT MALL, LAJPAT NAGAR JALANDHAR (PUNJAB) – 144001
780	STATE BANK OF INDIA MINI SECRETARIAT MASTER TARA SINGH NAGAR JALANDHAR (PUNJAB) – 144001	791	STATE BANK OF INDIA JALANDHAR ES-15 MALLHI COMPLEX, CIVIL LINES MODEL TOWN ROAD JALANDHAR (PUNJAB) – 144001
781	STATE BANK OF INDIA IND DEV COLONY G T ROAD BY-PASS JALANDHAR (PUNJAB) – 144004	792	STATE BANK OF INDIA JULLUNDUR CITY 238/5 ADDA BASTI ROAD JALANDHAR (PUNJAB) – 144001
782	STATE BANK OF INDIA NRI BRANCH 917-18 G T ROAD, NEAR BUS STAND JALANDHAR (PUNJAB) – 144001	793	STATE BANK OF INDIA AMBEDKAR CHOWK JALANDHAR (PUNJAB) – 144001
783	STATE BANK OF INDIA RAILWAY STATION JALANDHAR (PUNJAB) – 144001	794	STATE BANK OF INDIA JALANDHAR CANTONMENT JALANDHAR (PUNJAB) – 144001
		795	STATE BANK OF INDIA BASTI NAU PLOT NO. 5, OPP PNB

	JALANDHAR (PUNJAB) – 144005	807	STATE BANK OF INDIA SME RANJIT AVENUE GOLDEN TEMPLE CITY, SCO NO. 5 DISTRICT SHOPPING CENTRE AMRITSAR (PUNJAB) – 143001
796	STATE BANK OF INDIA MAQSUDAN OPP. VIJAY RESORT, MAQSUDAN CHOWK JALANDHAR (PUNJAB) – 144008	808	STATE BANK OF INDIA LAWRANCE ROAD AMRITSAR (PUNJAB) – 143001
797	STATE BANK OF INDIA MONEY-SHOPEE 5 – C GIAN NAGAR, NEAR LIBERTY CHOWK JALANDHAR (PUNJAB) – 144001	809	STATE BANK OF INDIA ATTA MANDI AMRITSAR (PUNJAB) – 143001
798	STATE BANK OF INDIA MAIN BRANCH TOWN HALL AMRITSAR (PUNJAB) – 143001	810	STATE BANK OF INDIA RAILWAY STATION AMRITSAR (PUNJAB) – 143001
799	STATE BANK OF INDIA AMRITSAR CANTONMENT RANI KA BAGH AMRITSAR (PUNJAB) – 143001	811	STATE BANK OF INDIA REGIONAL BUSINESS OFFICE RANI KA BAGH AMRITSAR (PUNJAB) – 143001
800	STATE BANK OF INDIA SME GOPAL NAGAR 10, MAJITHA ROAD AMRITSAR (PUNJAB) – 143001	812	STATE BANK OF INDIA CURRENCY ADMINISTRATION CELL KHAZANA GATE AMRITSAR (PUNJAB) – 143001
801	STATE BANK OF INDIA KARMON DEORI AMRITSAR (PUNJAB) – 143001	813	STATE BANK OF INDIA DIV. HQ. ARMY CANT. RAM TIRATH ROAD AMRITSAR (PUNJAB) – 143001
802	STATE BANK OF INDIA INDUSTRIAL AREA MOHAN NAGAR AMRITSAR (PUNJAB) – 143001	814	STATE BANK OF INDIA BATALA ROAD AMRITSAR (PUNJAB) – 143001
803	STATE BANK OF INDIA DHAB WASTI RAM AMRITSAR (PUNJAB) – 143001	815	STATE BANK OF INDIA HARIPURA MAIN ROAD HARIPURA, P O JAWALA FLOUR MILLS AMRITSAR (PUNJAB) – 143001
804	STATE BANK OF INDIA KATRA KHAZANA KHAZANA GATE AMRITSAR (PUNJAB) – 143001	816	STATE BANK OF INDIA NEW GRAIN MKT BHAGTANWALA AMRITSAR (PUNJAB) – 143001
805	STATE BANK OF INDIA LOHGARH GATE AMRITSAR (PUNJAB) – 143001	817	STATE BANK OF INDIA MAJITHA ROAD 12-A GREEN FIELD AVENUE, MAJITHA ROAD AMRITSAR (PUNJAB) – 143004
806	STATE BANK OF INDIA PUTLIGHAR AMRITSAR (PUNJAB) – 143001		

- | | |
|--|---|
| <p>818 STATE BANK OF INDIA
FATEHGARH CHURIAN ROAD
16-17 BHULLAR AVENUE
AMRITSAR
(PUNJAB) – 143006</p> <p>819 STATE BANK OF INDIA
JALANDHAR ROAD C/O AUTO GLOBAL
AMRITSAR
(PUNJAB) – 143006</p> <p>820 STATE BANK OF INDIA
AJNALA ROAD
AMRITSAR
(PUNJAB) – 143006</p> <p>821 STATE BANK OF INDIA
NEW AMRITSAR
ASHOK VATIKA PUBLIC SCHOOL
AMRITSAR
(PUNJAB) – 143006</p> <p>822 STATE BANK OF INDIA
CHHEHRATTA
452 G T ROAD, AMRITSAR
(PUNJAB) – 143105</p> <p>823 STATE BANK OF INDIA
VERKA
DASHMESH AVENUE,
OPP THAKUR PALACE AMRITSAR
(PUNJAB) – 143501</p> <p>824 STATE BANK OF INDIA
OPPOSITE BUS STAND
2320/14, MAIN BAZAR,
SHAREIFURA
AMRITSAR (PUNJAB) – 143001</p> <p>825 STATE BANK OF INDIA
SULTANWIND
MAIN BAZAAR,
NEAR CANAL
AMRITSAR
(PUNJAB) – 143001</p> <p>826 STATE BANK OF INDIA
LOHARKA ROAD
NEAR BYE-PASS
AMRITSAR
(PUNJAB) – 143001</p> <p>827 STATE BANK OF INDIA
BASANT AVENUE
AMRITSAR
(PUNJAB) – 143001</p> <p>828 STATE BANK OF INDIA
SHIVALA BHAIAN ROAD
AMRITSAR
(PUNJAB) – 143001</p> <p>829 STATE BANK OF INDIA
PANTHER COMPLEX
AMRITSAR CANTT
AMRITSAR
(PUNJAB) – 143001</p> | <p>830 STATE BANK OF INDIA
INTOUCH PUTIGHAR
3616-XIV/22, NEAR BERI HOSPITAL
G T ROAD PUTLIGHAR
AMRITSAR
(PUNJAB) – 143001</p> <p>831 STATE BANK OF INDIA
INTOUCH RANJIT AVENUE
SCO – 96, B-BLOCK,
SHOPPING COMPLX
NEAR HOTEL P R RESIDENCY,
RANJIT AVENUE AMRITSAR
(PUNJAB) – 143001</p> <p>832 STATE BANK OF INDIA
AMRITSAR
93, NEAR POST OFFICE
DISTRICT SHOPPING COMPLEX,
RANJIT AVENUE AMRITSAR
(PUNJAB) – 143001</p> <p>833 STATE BANK OF INDIA
PUTIGHAR
NEAR OM INTERNATIONAL
6, G T ROAD, PUTLIGHAR
AMRITSAR
(PUNJAB) – 143001</p> <p>834 STATE BANK OF INDIA
AJNALA
OLD POST OFFICE ROAD
DIST. AMRITSAR
(PUNJAB) – 143102</p> <p>835 STATE BANK OF INDIA
MAJITHA AMRITSAR
(PUNJAB) – 143601</p> <p>836 STATE BANK OF INDIA
PHAGWARA KAPURTHALA
(PUNJAB) – 144401</p> <p>837 STATE BANK OF INDIA
ATTARI
DIST. AMRITSAR
(PUNJAB) – 143108</p> <p>838 STATE BANK OF INDIA
RAILWAY ROAD KAPURTHALA
DIST. KAPURTHALA
(PUNJAB) – 144601</p> <p>839 STATE BANK OF INDIA
KHAJURLA TEHSIL PHAGWARA
DIST. KAPURTHALA
(PUNJAB) – 144024</p> <p>840 STATE BANK OF INDIA
AIR CARGO COMPLEX RAJA SANSI
AMRITSAR
(PUNJAB) – 143001</p> <p>841 STATE BANK OF INDIA
ADB TANGRA
G T ROAD,</p> |
|--|---|

	TEHSIL BABA BAKALA AMRITSAR (PUNJAB) – 143119		G T ROAD AMRITSAR (PUNJAB) – 143414
842	STATE BANK OF INDIA P.B.B KAPURTHALA AMAN NAGAR DIST. KAPURTHALA (PUNJAB) – 144601	853	STATE BANK OF INDIA REGIONAL BUSINESS OFFICE – II TH 4 FLOOR, J.K TOWER, MALL ROAD AMRITSAR (PUNJAB) – 143001
843	STATE BANK OF INDIA NRI BRANCH PHAGWARA DOAL COMPLEX, COURT ROAD DIST. KAPURTHALA (PUNJAB) – 144401	854	STATE BANK OF INDIA TALWANDI CHOWDHARIAN NEAR BUS STAND DIST. KAURTHALA (PUNJAB) – 144606
844	STATE BANK OF INDIA JETHUWAL AMRITSAR (PUNJAB) – 143502	855	STATE BANK OF INDIA MIANI BHAGOPURIAN TEHSIL BHOLATH DIST. KAPURTHALA (PUNJAB) – 144631
845	STATE BANK OF INDIA CHOGAWAN AMRITSAR (PUNJAB) – 143109	856	STATE BANK OF INDIA MEHTA TEHSIL BABA BAKALA AMRITSAR (PUNJAB)- 143114
846	STATE BANK OF INDIA JANDIALA GURU KHADOOR SAHIB ROAD AMRITSAR (PUNJAB) – 143115	857	STATE BANK OF INDIA SULTANPUR ROAD KAPURTHALA OPP BOMBAY MOTOR, NEAR ESI HOSPITAL KAPURTHALA (PUNJAB)- 144601
847	STATE BANK OF INDIA RAMDAS AMRITSAR (PUNJAB) – 143401	858	STATE BANK OF INDIA BEAS PIND G.T ROAD, NEAR ARMY BRIGADE VILLAGE BEAS DIST. AMRITSAR (PUNJAB) – 143201
848	STATE BANK OF INDIA BEGOWAL C/O SANT MOTORS COLLEGE ROAD DIST. KAPURTHALA (PUNJAB) – 144621	859	STATE BANK OF INDIA ADMINISTRATIVE OFFICE CIVIL LINES FOUNTAIN CHOWK LUDHIANA (PUNJAB) – 141001
849	STATE BANK OF INDIA KHAHA DOGRI COMPLEX, GATE NO. CP – 6 OPP. DEARLAND PALACE, KAHSA CANTT AMRITSAR (PUNJAB) – 143001	860	State Bank Learning Centre Panchkula Sector 14, Panchkula (Haryana) – 134109
850	STATE BANK OF INDIA SGRC HOSPITAL BRANCH CHHAPA RAM SINGH MEHTA ROAD AMRITSAR (PUNJAB) – 143501	861	State Bank Learning Centre Jammu, Rajendra Nagar, Bantalab Jammu-181123
851	STATE BANK OF INDIA MATTEWAL NEAR GURUDWARA GURU KI BER AMRITSAR (PUNJAB) – 143116	862	State Bank Learning Centre Patiala Urban Estate, Phase 2, Patiala (Punjab)-147002
852	STATE BANK OF INDIA DABURJI		

रेल मंत्रालय**(द.पू.म. रेलवे, बिलासपुर)**

बिलासपुर, 28 मार्च, 2019

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20A के अंतर्गत सूचना

का. आ. 529.—केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) के धारा २०क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान होने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिये, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, द.पू.म. रेलवे के अंतर्गत बिलासपुर-उस्लापुर फ्लाईओवर परियोजना (10.4 कि.मी.), के निष्पादन के लिये अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो तो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, द.पू.म. रेलवे के अंतर्गत बिलासपुर-उस्लापुर फ्लाईओवर परियोजना (10.4 कि.मी.), के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण-

ग्राम- तिफरा तहसील - बिलासपुर जिला - बिलासपुर छ.ग., रेलवे फ्लाई ओवर

क्रमांक	जिले के नाम	तहसील का नाम	गाँव / निवास का नाम	प्रस्तावित खसरा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	जिस वास्ते जमीन ली जा रही है
1	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	742/4	0.020	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
2	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	742/3	0.010	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
3	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	742/2	0.065	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
4	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	742/1	0.040	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
5	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	737/1	0.036	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
6				737/2	0.101	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
7	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	741/2-3	0.030	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
8	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	736/17	0.012	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
9	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	740	0.048	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				945/3	0.885	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				945/7	0.412	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				944	0.175	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				918/2	0.245	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु

क्रमांक	जिले के नाम	तहसील का नाम	गाँव / निवास का नाम	प्रस्तावित खसरा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	जिस वास्ते जमीन ली जा रही है
				943	0.155	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				868/2	0.086	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				869	0.458	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				870	0.175	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				846	0.038	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				845/1	0.018	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				837	0.356	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				836	0.165	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				838	0.018	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				828	0.050	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				827/1-2	0.455	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				785	0.180	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				733	0.140	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				734	0.010	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				738/1-2-3	0.097	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				739/1-2	0.025	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				946/1-2	0.225	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				950/1	0.202	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				844/1	0.073	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				839	0.350	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				854/1-2	0.254	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
10	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	945/4	0.125	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
11	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	945/5	0.095	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
12	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	849/7	0.022	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
13	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	849/5-6	0.01	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
14	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	849/4	0.005	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
15	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	849/3	0.005	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
16	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	849/1	0.002	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
17	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	949	0.259	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
18	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	960/1-2-4	0.185	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				948	0.125	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				945/2	0.061	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				945/6	0.035	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				917	0.215	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				960/3	0.085	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				962	0.095	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु

क्रमांक	जिले के नाम	तहसील का नाम	गाँव / निवास का नाम	प्रस्तावित खसरा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	जिस वास्ते जमीन ली जा रही है
19	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	959	0.053	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				950/2	0.275	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				947	0.020	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
20	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	965	0.121	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				964	0.125	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
				961	0.125	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
21	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	968	0.220	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
22	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	849/8-850/2	0.012	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
23	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	849/9-850/3	0.024	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
24	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	847/2	0.004	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
25	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	844/2	0.024	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
26	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	840	0.174	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
27	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	826	0.077	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
28	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	816	0.006	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
29	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	786/1	0.002	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
30	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	786/2	0.008	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
31	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	786/3	0.008	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
32	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	786/4	0.004	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
33	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	786/6	0.020	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
34	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	786/5	0.018	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
35	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	786/7	0.004	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
36	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	786/8	0.004	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
37	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	844/5	0.020	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
38	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	786/9	0.004	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
39	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	786/10	0.004	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
40	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	786/11	0.004	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
41	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	786/12	0.010	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
42	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	786/13	0.008	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
43	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	735/1	0.214	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
44	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	735/2	0.006	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
45	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	736/1	0.014	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
46	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	844/6	0.020	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
47	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	736/2	0.017	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
48	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	736/3	0.024	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
49	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	736/4	0.020	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
50	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	736/5	0.006	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु

क्रमांक	जिले के नाम	तहसील का नाम	गाँव / निवास का नाम	प्रस्तावित खसरा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	जिस वास्ते जमीन ली जा रही है
51	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	736/6	0.015	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
52	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	736/7	0.014	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
53	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	736/9	0.012	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
54	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	736/8	0.006	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
55	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	736/10	0.007	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
56	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	736/11	0.008	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
57	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	736/12	0.006	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
58	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	736/13	0.008	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
59	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	741/1	0.024	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
60	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	736/14	0.006	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
61	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	736/15	0.008	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
62	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	736/16	0.020	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
63	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	736/18	0.014	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
64	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	736/19	0.008	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
65	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	824	0.022	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
66	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	844/7	0.040	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
67	बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा	844/8	0.020	फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
					8.870	

कुल जमीन:- **8.870** हेक्टर

[फा. सं. Dy.CE/Con/Sur/BSP/BSP-USL Flyover]

सोनवीर सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(S.E.C. RAILWAY, BILASPUR)

Bilaspur, the 28th March, 2019

Notice under Section 20A of the Railways Act, 1989

S.O. 529.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of Special of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any persons interested in the said land may Within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent Authority, namely Sub Divisional officer, Bilaspur, Chhattisgarh in writing and shall set out grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely Bilaspur – Uslapur Flyover (10.4 Km) of Bilaspur District in the State of Chhattisgarh.

Village – Tifra, Tahsil – Bilaspur, Distt – Bilaspur. C.G. , Railway Flyover

S. N.	Name of District	Name of Tahsil	Name of village	Khasra/Plot Number	Area to be acquired (in Hect.)	Reason for land acquisition
1	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	742/4	0.020	For construction of Flyover
2	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	742/3	0.010	For construction of Flyover
3	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	742/2	0.065	For construction of Flyover
4	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	742/1	0.040	For construction of Flyover
5	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	737/1	0.036	For construction of Flyover
6	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	737/2	0.101	For construction of Flyover
7	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	741/2-3	0.030	For construction of Flyover
8	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	736/17	0.012	For construction of Flyover
9	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	740	0.048	For construction of Flyover
				945/3	0.885	For construction of Flyover
				945/7	0.412	For construction of Flyover
				944	0.175	For construction of Flyover
				918/2	0.245	For construction of Flyover
				943	0.155	For construction of Flyover
				868/2	0.086	For construction of Flyover
				869	0.458	For construction of Flyover
				870	0.175	For construction of Flyover
				846	0.038	For construction of Flyover
				845/1	0.018	For construction of Flyover
				837	0.356	For construction of Flyover
				836	0.165	For construction of Flyover
				838	0.018	For construction of Flyover
				828	0.050	For construction of Flyover
				827/1-2	0.455	For construction of Flyover
				785	0.180	For construction of Flyover
				733	0.140	For construction of Flyover
				734	0.010	For construction of Flyover
				738/1-2-3	0.097	For construction of Flyover
				739/1-2	0.025	For construction of Flyover
				946/1-2	0.225	For construction of Flyover
				950/1	0.202	For construction of Flyover
				844/1	0.073	For construction of Flyover
				839	0.350	For construction of Flyover
				854/1-2	0.254	For construction of Flyover
10	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	945/4	0.125	For construction of Flyover
11	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	945/5	0.095	For construction of Flyover
12	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	849/7	0.022	For construction of Flyover
13	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	849/5-6	0.01	For construction of Flyover
14	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	849/4	0.005	For construction of Flyover
15	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	849/3	0.005	For construction of Flyover
16	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	849/1	0.002	For construction of Flyover
17	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	949	0.259	For construction of Flyover
18	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	960/1-2-4	0.185	For construction of Flyover
				948	0.125	For construction of Flyover
				945/2	0.061	For construction of Flyover
				945/6	0.035	For construction of Flyover
				917	0.215	For construction of Flyover

S. N.	Name of District	Name of Tahsil	Name of village	Khasra/Plot Number	Area to be acquired (in Hect.)	Reason for land acquisition
19	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	960/3	0.085	For construction of Flyover
				962	0.095	For construction of Flyover
				959	0.053	For construction of Flyover
				950/2	0.275	For construction of Flyover
				947	0.020	For construction of Flyover
20	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	965	0.121	For construction of Flyover
				964	0.125	For construction of Flyover
				961	0.125	For construction of Flyover
21	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	968	0.220	For construction of Flyover
22	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	849/8-850/2	0.012	For construction of Flyover
23	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	849/9-850/3	0.024	For construction of Flyover
24	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	847/2	0.004	For construction of Flyover
25	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	844/2	0.024	For construction of Flyover
26	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	840	0.174	For construction of Flyover
27	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	826	0.077	For construction of Flyover
28	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	816	0.006	For construction of Flyover
29	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	786/1	0.002	For construction of Flyover
30	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	786/2	0.008	For construction of Flyover
31	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	786/3	0.008	For construction of Flyover
32	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	786/4	0.004	For construction of Flyover
33	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	786/6	0.020	For construction of Flyover
34	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	786/5	0.018	For construction of Flyover
35	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	786/7	0.004	For construction of Flyover
36	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	786/8	0.004	For construction of Flyover
37	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	844/5	0.020	For construction of Flyover
38	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	786/9	0.004	For construction of Flyover
39	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	786/10	0.004	For construction of Flyover
40	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	786/11	0.004	For construction of Flyover
41	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	786/12	0.010	For construction of Flyover
42	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	786/13	0.008	For construction of Flyover
43	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	735/1	0.214	For construction of Flyover
44	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	735/2	0.006	For construction of Flyover
45	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	736/1	0.014	For construction of Flyover
46	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	844/6	0.020	For construction of Flyover
47	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	736/2	0.017	For construction of Flyover
48	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	736/3	0.024	For construction of Flyover
49	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	736/4	0.020	For construction of Flyover
50	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	736/5	0.006	For construction of Flyover
51	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	736/6	0.015	For construction of Flyover
52	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	736/7	0.014	For construction of Flyover
53	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	736/9	0.012	For construction of Flyover
54	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	736/8	0.006	For construction of Flyover
55	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	736/10	0.007	For construction of Flyover

S. N.	Name of District	Name of Tahsil	Name of village	Khasra/Plot Number	Area to be acquired (in Hect.)	Reason for land acquisition
56	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	736/11	0.008	For construction of Flyover
57	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	736/12	0.006	For construction of Flyover
58	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	736/13	0.008	For construction of Flyover
59	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	741/1	0.024	For construction of Flyover
60	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	736/14	0.006	For construction of Flyover
61	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	736/15	0.008	For construction of Flyover
62	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	736/16	0.020	For construction of Flyover
63	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	736/18	0.014	For construction of Flyover
64	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	736/19	0.008	For construction of Flyover
65	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	824	0.022	For construction of Flyover
66	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	844/7	0.040	For construction of Flyover
67	Bilaspur	Bilaspur	Tifra	844/8	0.020	For construction of Flyover
					8.870	

Total land: - 8.870 Hectare

[F. No. Dy.CE/Con/Sur/BSP/BSP-USL Flyover]

SONVIR SINGH, Chief Administrative Officer/(Construction)

बिलासपुर, 28 मार्च, 2019

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20A के अंतर्गत सूचना

का.आ. 530.—केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) के धारा २०क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान होने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, द.पू.म. रेलवे के अंतर्गत बिलासपुर-उस्लापुर फ्लाईओवर परियोजना (10.4 कि.मी.), के निष्पादन के लिये अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो तो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, द.पू.म. रेलवे के अंतर्गत बिलासपुर-उस्लापुर फ्लाईओवर परियोजना (10.4 कि.मी.), के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण-

ग्राम- सिरगिट्टी तहसील - बिलासपुर जिला - बिलासपुर छ.ग., रेलवे फ्लाई ओवर

क्रमांक	जिले के नाम	तहसील का नाम	गाँव / निवास का नाम	प्रस्तावित खसरा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	जिस बास्ते जमीन ली जा रही है।
1	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	609	0.016	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
2	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	610/1	0.020	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
3	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	602/29	0.003	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
4	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	602/19	0.016	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
5	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	602/20	0.008	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
6	बिलासपुर बिलासपुर	बिलासपुर बिलासपुर	सिरगिट्टी	602/17	0.016	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
				602/21	0.006	
7	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	602/18	0.014	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
8	बिलासपुर बिलासपुर बिलासपुर	बिलासपुर बिलासपुर बिलासपुर	सिरगिट्टी	606/5	0.009	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
				607/3		
				606/8	0.008	
				602/26	0.040	
9	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	606/7 607/5	0.009	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
10	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	602/22	0.012	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
11	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	602/12	0.012	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
12	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	602/13	0.012	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
13	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	602/9	0.010	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
14	बिलासपुर बिलासपुर बिलासपुर	बिलासपुर बिलासपुर बिलासपुर	सिरगिट्टी	602/1	0.040	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
				606/1	0.008	
				607/1	0.001	
15	बिलासपुर बिलासपुर	बिलासपुर बिलासपुर	सिरगिट्टी	602/27	0.260	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
				606/9	0.008	
16	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	602/31	0.028	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
17	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	602/28	0.049	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
18	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	600/1	0.097	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
	बिलासपुर	बिलासपुर		598/14	0.202	
19	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	192/1	0.008	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
20	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	193/3	0.008	फ्लाईओवर निर्माण हेतु

क्रमांक	जिले के नाम	तहसील का नाम	गाँव / निवास का नाम	प्रस्तावित खसरा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	जिस वास्ते जमीन ली जा रही है।
21	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	193/1	0.020	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
22	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	186/1	0.057	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
	बिलासपुर	बिलासपुर		186/2	0.040	
23	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	172/1	0.255	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
24	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	154/28	0.041	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
25	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	154/29	0.046	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
26	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	154/30	0.044	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
27	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	154/31	0.044	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
28	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	154/32	0.046	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
29	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	173/1	0.024	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
30	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	174/2	0.032	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
31	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	154/1	0.010	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
32	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	153/1	0.097	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
33	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	109	0.450	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
34	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	114/1	0.020	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
35	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	114/2	0.364	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
36	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	113	0.300	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	173/2	0.121	
	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	172/2	0.101	
37	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	112/1	0.048	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
38	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	112/3	0.061	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
39	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	112/4	0.032	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
40	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	112/5	0.032	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
41	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	112/6	0.048	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
42	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	112/7	0.048	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
43	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	117/4 117/5	0.004	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
44	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	117/3	0.054	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
45	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	117/1	0.067	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
46	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	118/1	0.332	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	118/6	0.283	

क्रमांक	जिले के नाम	तहसील का नाम	गाँव / निवास का नाम	प्रस्तावित खसरा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	जिस वास्ते जमीन ली जा रही है।
47	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	83/1	0.121	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
48	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	82/1	0.097	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
49	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	82/2		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
50	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/1	1.336	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
51	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/2		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
52	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/3		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
53	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/4		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
54	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/5		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
55	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/6		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
56	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/7		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
57	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/8		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
58	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/9		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
59	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/10		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
60	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/11		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
61	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/12		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
62	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/13		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
63	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/14		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
64	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/15		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
65	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/16		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
66	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/17		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
67	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/18		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
68	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/19		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
69	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/20		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
70	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/21		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
71	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/22		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
72	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/23		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
73	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/24		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
74	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/25		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
75	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/26		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
76	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/27		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
77	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/28		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
78	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	110/29		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
79	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	185/1		फ्लाईओवर निर्माण हेतु

क्रमांक	जिले के नाम	तहसील का नाम	गाँव / निवास का नाम	प्रस्तावित खसरा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	जिस वास्ते जमीन ली जा रही है।
	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	186/3		
80	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	185/2		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
81	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	185/3		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
82	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	185/4		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
83	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	185/5		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
84	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	185/6		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
85	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	185/7		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
86	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	185/8		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
87	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	185/9		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
88	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	185/10	0.310	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
89	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	185/11		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
90	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	185/12		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
91	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	185/13		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
92	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	186/3		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
93	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	186/4		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
94	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	186/5		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
95	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	186/6		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
96	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	186/7		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
97	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	186/8	0.393	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
98	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	189/1		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
99	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	189/2		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
100	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	189/3		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
101	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	189/4		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
102	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	189/5		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
103	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	189/6		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
104	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	189/7		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
105	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	189/8		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
106	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	189/9		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
107	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	189/10		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
108	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	189/11		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
109	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	189/12		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
110	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	189/13		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
111	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	189/14		फ्लाईओवर निर्माण हेतु

[illegible]

[illegible]

क्रमांक	जिले के नाम	तहसील का नाम	गाँव / निवास का नाम	प्रस्तावित खसरा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	जिस वास्ते जमीन ली जा रही है।
178	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	189/81		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
179	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	189/82		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
180	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	188/1		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
181	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	188/2		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
182	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	188/3		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
183	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	188/4		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
184	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	188/5		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
185	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	188/6		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
186	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	188/7		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
187	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	188/8	0.170	फ्लाईओवर निर्माण हेतु
188	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	188/9		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
189	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	188/10		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
190	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	188/11		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
191	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	188/12		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
192	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	188/13		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
193	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	188/14		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
194	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	188/15		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
195	बिलासपुर	बिलासपुर	सिरगिट्टी	188/17		फ्लाईओवर निर्माण हेतु
					6.234	

कुल जमीन:- 6.234 हेक्टेयर

[फा. सं. Dy.CE/Con/Sur/BSP/BSP-USL Flyover]

सोनवीर सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

Bilaspur, the 28th March, 2019

Notice under Section 20A of the Railways Act, 1989

S.O. 530.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 89) (herein after referred as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of Special of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any persons interested in the said land may within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent Authority, namely Sub Divisional Magistrate (Revenue), Bilaspur, Chhattisgarh in writing and shall set out grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely Bilaspur – Uslapur Flyover (10.4 Km) of Bilaspur District in the State of Chhattisgarh.

Village – Sirgitti, Tehsil – Bilaspur, Distt – Bilaspur. C.G., Railway Flyover

S. N.	Name of District	Name of Tahsil	Name of village	Khasra/Plot Number	Area to be acquired (in Hect.)	Reason for land acquisition
1	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	609	0.016	For construction of Flyover
2	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	610/1	0.020	For construction of Flyover
3	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	602/29	0.003	For construction of Flyover
4	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	602/19	0.016	For construction of Flyover
5	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	602/20	0.008	For construction of Flyover
6	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	602/17	0.016	For construction of Flyover
				602/21	0.006	
7	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	602/18	0.014	For construction of Flyover
8	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	606/5	0.009	For construction of Flyover
				607/3		
				606/8	0.008	
				602/26	0.040	
9	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	606/7 607/5	0.009	For construction of Flyover
10	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	602/22	0.012	For construction of Flyover
11	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	602/12	0.012	For construction of Flyover
12	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	602/13	0.012	For construction of Flyover
13	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	602/9	0.010	For construction of Flyover
14	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	602/1	0.040	For construction of Flyover
				606/1	0.008	
				607/1	0.001	
15	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	602/27	0.026	For construction of Flyover
				606/9	0.008	
16	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	602/31	0.028	For construction of Flyover
17	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	602/28	0.049	For construction of Flyover
18	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	600/1	0.097	For construction of Flyover
				598/14	0.202	
19	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	192/1	0.008	For construction of Flyover
20	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	193/3	0.008	For construction of Flyover
21	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	193/1	0.020	For construction of Flyover
22	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	186/1	0.057	For construction of Flyover
				186/2	0.040	
23	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	172/1	0.255	For construction of Flyover
24	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	154/28	0.041	For construction of Flyover
25	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	154/29	0.046	For construction of Flyover
26	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	154/30	0.044	For construction of Flyover
27	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	154/31	0.044	For construction of Flyover
28	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	154/32	0.460	For construction of Flyover
29	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	173/1	0.024	For construction of Flyover
30	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	174/2	0.032	For construction of Flyover
31	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	154/1	0.010	For construction of Flyover
32	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	153/1	0.097	For construction of Flyover
33	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	109	0.450	For construction of Flyover
34	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	114/1	0.020	For construction of Flyover
35	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	114/2	0.364	For construction of Flyover

S. N.	Name of District	Name of Tahsil	Name of village	Khasra/Plot Number	Area to be acquired (in Hect.)	Reason for land acquisition
36	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	113	0.300	For construction of Flyover
				173/2	0.121	
				172/2	0.101	
37	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	112/1	0.048	For construction of Flyover
38	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	112/3	0.061	For construction of Flyover
39	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	112/4	0.032	For construction of Flyover
40	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	112/5	0.032	For construction of Flyover
41	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	112/6	0.048	For construction of Flyover
42	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	112/7	0.048	For construction of Flyover
43	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	117/4 117/5	0.004	For construction of Flyover
44	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	117/3	0.054	For construction of Flyover
45	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	117/1	0.067	For construction of Flyover
46	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	118/1	0.332	For construction of Flyover
				118/6	0.283	
47	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	83/1	0.121	For construction of Flyover
48	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	82/1	0.097	For construction of Flyover
49	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	82/2		For construction of Flyover
50	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/1		For construction of Flyover
51	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/2	1.336	For construction of Flyover
52	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/3		For construction of Flyover
53	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/4		For construction of Flyover
54	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/5		For construction of Flyover
55	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/6		For construction of Flyover
56	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/7		For construction of Flyover
57	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/8		For construction of Flyover
58	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/9		For construction of Flyover
59	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/10		For construction of Flyover
60	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/11		For construction of Flyover
61	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/12		For construction of Flyover
62	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/13		For construction of Flyover
63	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/14		For construction of Flyover
64	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/15		For construction of Flyover
65	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/16		For construction of Flyover
66	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/17		For construction of Flyover
67	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/18		For construction of Flyover
68	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/19		For construction of Flyover
69	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/20		For construction of Flyover
70	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/21		For construction of Flyover
71	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/22		For construction of Flyover
72	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/23		For construction of Flyover
73	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/24		For construction of Flyover
74	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/25		For construction of Flyover
75	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/26		For construction of Flyover
76	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/27		For construction of Flyover
77	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/28		For construction of Flyover
78	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	110/29		For construction of Flyover
79	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	185/1	0.310	For construction of Flyover
				186/3		
80	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	185/2		For construction of Flyover
81	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	185/3		For construction of Flyover
82	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	185/4		For construction of Flyover
83	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	185/5		For construction of Flyover
84	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	185/6		For construction of Flyover
85	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	185/7		For construction of Flyover
86	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	185/8		For construction of Flyover
87	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	185/9		For construction of Flyover
88	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	185/10		For construction of Flyover

S. N.	Name of District	Name of Tahsil	Name of village	Khasra/Plot Number	Area to be acquired (in Hect.)	Reason for land acquisition
89	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	185/11		For construction of Flyover
90	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	185/12		For construction of Flyover
91	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	185/13		For construction of Flyover
92	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	186/3		For construction of Flyover
93	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	186/4		For construction of Flyover
94	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	186/5		For construction of Flyover
95	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	186/6		For construction of Flyover
96	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	186/7		For construction of Flyover
97	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	186/8		For construction of Flyover
98	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/1	0.393	For construction of Flyover
99	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/2		For construction of Flyover
100	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/3		For construction of Flyover
101	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/4		For construction of Flyover
102	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/5		For construction of Flyover
103	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/6		For construction of Flyover
104	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/7		For construction of Flyover
105	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/8		For construction of Flyover
106	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/9		For construction of Flyover
107	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/10		For construction of Flyover
108	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/11		For construction of Flyover
109	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/12		For construction of Flyover
110	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/13		For construction of Flyover
111	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/14		For construction of Flyover
112	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/15		For construction of Flyover
113	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/16		For construction of Flyover
114	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/17		For construction of Flyover
115	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/18		For construction of Flyover
116	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/19		For construction of Flyover
117	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/20		For construction of Flyover
118	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/21		For construction of Flyover
119	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/22		For construction of Flyover
120	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/23		For construction of Flyover
121	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/24		For construction of Flyover
122	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/25		For construction of Flyover
123	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/26		For construction of Flyover
124	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/27		For construction of Flyover
125	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/28		For construction of Flyover
126	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/29		For construction of Flyover
127	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/30		For construction of Flyover
128	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/31		For construction of Flyover
129	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/32		For construction of Flyover
130	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/33		For construction of Flyover
131	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/34		For construction of Flyover
132	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/35		For construction of Flyover
133	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/36		For construction of Flyover
134	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/37		For construction of Flyover
135	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/38		For construction of Flyover
136	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/39		For construction of Flyover
137	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/40		For construction of Flyover
138	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/41		For construction of Flyover
139	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/42		For construction of Flyover
140	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/43		For construction of Flyover
141	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/44		For construction of Flyover
142	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/45		For construction of Flyover
143	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/46		For construction of Flyover
144	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/47		For construction of Flyover
145	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/48		For construction of Flyover
146	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/49		For construction of Flyover

S. N.	Name of District	Name of Tahsil	Name of village	Khasra/Plot Number	Area to be acquired (in Hect.)	Reason for land acquisition
147	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/50		For construction of Flyover
148	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/51		For construction of Flyover
149	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/52		For construction of Flyover
150	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/53		For construction of Flyover
151	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/54		For construction of Flyover
152	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/55		For construction of Flyover
153	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/56		For construction of Flyover
154	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/57		For construction of Flyover
155	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/58		For construction of Flyover
156	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/59		For construction of Flyover
157	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/60		For construction of Flyover
158	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/61		For construction of Flyover
159	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/62		For construction of Flyover
160	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/63		For construction of Flyover
161	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/64		For construction of Flyover
162	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/65		For construction of Flyover
163	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/66		For construction of Flyover
164	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/67		For construction of Flyover
165	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/68		For construction of Flyover
166	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/69		For construction of Flyover
167	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/70		For construction of Flyover
168	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/71		For construction of Flyover
169	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/72		For construction of Flyover
170	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/73		For construction of Flyover
171	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/74		For construction of Flyover
172	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/75		For construction of Flyover
173	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/76		For construction of Flyover
174	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/77		For construction of Flyover
175	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/78		For construction of Flyover
176	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/79		For construction of Flyover
177	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/80		For construction of Flyover
178	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/81		For construction of Flyover
179	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	189/82	0.170	For construction of Flyover
180	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	188/1		For construction of Flyover
181	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	188/2		For construction of Flyover
182	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	188/3		For construction of Flyover
183	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	188/4		For construction of Flyover
184	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	188/5		For construction of Flyover
185	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	188/6		For construction of Flyover
186	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	188/7		For construction of Flyover
187	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	188/8		For construction of Flyover
188	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	188/9		For construction of Flyover
189	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	188/10		For construction of Flyover
190	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	188/11		For construction of Flyover
191	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	188/12		For construction of Flyover
192	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	188/13		For construction of Flyover
193	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	188/14		For construction of Flyover
194	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	188/15		For construction of Flyover
195	Bilaspur	Bilaspur	Sirgitti	188/17		For construction of Flyover
					6.234	

Total land: - 6.234 Hectare

[F. No. Dy.CE/Con/Sur/BSP/BSP-USL Flyover]

SONVIR SINGH, Chief Administrative Officer/(Construction)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2019

का.आ. 531.—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962, (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में उल्लेखित व्यक्ति को, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में, उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती है:

अधिसूचना

	सक्षम प्राधिकारी का नाम व पता	अधिकारिता का क्षेत्र
	(1)	(2)
1	श्री अनिल चौहान प्रचालन प्रबंधक सक्षम प्राधिकारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पश्चिमी क्षेत्र पाइपलाइन रतलाम	मध्य प्रदेश राज्य

[सं. आर-11025(11)/19/2018-ओआर-आई-27024]

शान्तनु धर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GASNew Delhi, the 28th March, 2019

S. O. 531.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorizes the person mentioned in column (1) of the schedule given below to perform the functions of the Competent Authority under the said Act, in respect of the area mentioned in column (2) of the said schedule:

	Name and Address of the Authority	Areas of Jurisdiction
	(1)	(2)
1	Shri Anil Chauhan Operations Manager Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Western Region Pipelines Ratlam	Madhya Pradesh State

[No. R-11025(11)/19/2018-OR-I/E-27024]

SANTANU DHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2019

का. आ. 532.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना, जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 3, दिनांक 19.01.2019 क्रमांक संख्या 109 दिनांक 10.01.2019 भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में किया गया है। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट हिमाचल राज्य की तहसील हरोली, जिला उना की भूमि में, पंजाब राज्य में गाँव : झुगियां, जिला शहीद भगत सिंह नगर से हिमाचल प्रदेश के गाँव : पेखुबेला, जिला उना तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पीएजेपीएल – उना ब्रांच पाइपलाइन परियोजना के सम्बंध में पाइपलाइन विद्यमान के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियाँ जनता को तारीख 09.02.2019 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामलों पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद - दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला: उना					राज्य :हिमाचल प्रदेश		
क्र. सं.	तहसील का नाम	गाँव का नाम	हदबस्त नं	खसरा सं.	हेक्टेयर	क्षेत्रफल एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हरोली	बाथड़ी	476	1300	00	10	88
				998	00	24	18
				1279	00	00	60
				1001	00	00	67
				1002	00	02	29
				1037	00	03	82
				1031	00	01	50
				1032	00	07	11
				1034	00	00	83
				1035	00	05	20
				1036	00	06	66
				1038	00	05	74
				1039	00	02	27
				1040	00	00	57
				1044	00	00	52

[फा. सं. आर-11025(11)/248/2017-ओआर-I/ई-18228]

शान्तनु धर, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 2019

S. O. 532.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette No. 3, dated 19.01.2019, S.O. No. 109, dated 10.01.2019 Part-II, section 3, sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil Haroli of District Una in Himachal Pradesh State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum product from village Jhungian, District Shahid Bhagat Singh Nagar in the State of Punjab to village Pekhubela, District Una in the State of Himachal Pradesh by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the "PAJPL - Una Branch Pipeline project".

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 09.02.2019.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report of Central Government.

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in India Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

India Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE

District : Una

State : Himachal Pradesh

Sr. No.	Name of Tehsil	Name of Village	Hadbast No.	Khasara No.	Area		
					Hectare	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Haroli	Bathadi	476	1300	00	10	88
				998	00	24	18
				1279	00	00	60
				1001	00	00	67
				1002	00	02	29
				1037	00	03	82
				1031	00	01	50
				1032	00	07	11
				1034	00	00	83
				1035	00	05	20
				1036	00	06	66
				1038	00	05	74
				1039	00	02	27
				1040	00	00	57
				1044	00	00	52

[F. No. R-11025(11)/248/2017-OR-I/E-18228]

SANTANU DHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2019

का.आ. 533.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1693, तारीख 27 नवम्बर 2018, जो भारत के राजपत्र संख्या 47 भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) तारीख 01 दिसम्बर 2018, में प्रकाशित की गयी थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में टूण्डला टर्मिनल से कानपुर टर्मिनल तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रायोजन के लिये उपयोग के अधिकार के अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन विद्युत के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन विद्युत के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये;

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाय, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील: फिरोजाबाद

जिला: फिरोजाबाद

राज्य: उत्तर प्रदेश

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	जाखई	591	00	00	80
		593	00	06	39
		594	00	12	10
		595	00	12	02
		596	00	06	89
		597	00	06	16
		599	00	08	90
		602	00	04	13
		603	00	03	47
		605	00	12	13
		611	00	15	64
		617	00	07	56
		618	00	01	90
		652	00	16	45
		651	00	10	66
		646	00	00	54
		641	00	18	01
		642	00	23	26
		738	00	33	35
		734	00	25	89
		736	00	00	35
		733	00	18	31
		732	00	03	55

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	जाखई	724	00	14	78
		725	00	05	55
		728	00	20	12
		730	00	09	19
		876	00	08	82
		950	00	00	36
		951	00	04	66
		952	00	11	33
		953	00	06	82
		958	00	00	80
		964	00	01	32
		965	00	10	61
		974	00	10	98
		982	00	00	39
		980	00	02	76
		979	00	04	44
		996	00	31	38
		1031	00	10	18
		1030	00	16	73
		1029	00	00	60
		1023	00	06	65
		1028	00	01	41
		1097	00	35	35
		1096	00	00	10
		1112	00	07	83
		1111	00	01	54
		1095	00	09	92
		1078	00	00	98
		1108	00	00	68
		1107	00	02	54
		1106	00	02	12
		1105	00	01	52
		1104	00	04	31
		1103	00	02	78
		1101	00	00	28
2	जसरथपुर	62	00	14	44
		53	00	00	70

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	जसरथपुर	60	00	00	45
		51	00	09	75
		50	00	12	54
		49	00	11	95
		47	00	10	75
		44	00	33	47
		43	00	33	71
		293	00	25	38
		294	00	01	19
		300	00	13	81
		304	00	00	42
		305	00	04	74
		306	00	08	79
		315	00	13	14
		326	00	06	15
		327	00	09	52
		504	00	25	82
		503	00	08	51
		502	00	16	23
		520	00	15	20
		519	00	17	43
		517	00	04	33
		515	00	02	40
		527	00	15	64
		529	00	17	68
		531	00	00	44
		546	00	44	07
		550	00	00	38
		548	00	01	88
		551	00	18	56
		478	00	06	07
3	गोंछ	600	00	31	86
		603	00	44	21
		604	00	02	66
		595	00	03	01
		593	00	12	93
		594	00	05	61

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	गोंछ	589	00	34	44
		588	00	08	73
		586	00	00	13
		590	00	04	88
		671	00	09	54
		668	00	14	53
		674	00	06	28
		675	00	00	40
		681	00	11	88
		680	00	36	38
		677	00	01	23
		679	00	00	44
		692	00	26	45
		708	00	16	71
		707	00	22	23
		711	00	00	37
		763	00	17	20
		770	00	06	75
		767	00	00	10
		764	00	11	52
		768	00	00	15
		766	00	00	39
		765	00	01	02
		1254	00	11	02
		1253	00	14	66
		1252	00	00	89
		1251	00	01	45
		1249	00	00	37
		1248	00	05	35
		1259	00	00	15
		1260	00	15	44
		1187	00	01	94
		1180	00	03	23
		1184	00	20	11
		1186	00	22	46
		1194	00	02	06
		1111	00	14	69

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
4	गोंछ	1110	00	18	50
		1108	00	06	29
		1098	00	04	81
		1094	00	32	72
		1093	00	00	57
		1092	00	00	14
		1091	00	09	31
		1076	00	00	41
		1067	00	24	43
	नैपई	1623	00	28	92
		2027	00	01	28
		2028	00	22	95
		2088	00	05	07
		2031	00	04	07
		2035	00	02	73
		2036	00	00	10
		2037	00	05	52
		2083	00	08	35
		2081	00	02	59
		2039	00	13	22
		2071	00	04	06
		2070	00	00	10
		2069	00	02	13
		2072	00	05	42
		2068	00	10	85
		2063	00	00	65
		2044	00	03	18
		2045	00	00	66
		2059	00	16	44
		2047	00	02	01
		2057	00	00	86
		2058	00	00	35
		2055	00	03	05
		2056	00	00	48
		1977	00	05	62
		1992	00	20	90
		1980	00	00	08

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	नैपई	1991	00	18	12
		1981	00	07	42
		1979	00	09	80
		1982	00	00	10
		1978	00	16	19

[फा. सं. 11025(11)/20/2018-ओआर-1/ई-27595]

शान्तनु धर, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 2019

S.O. 533.—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 47 part II, Section 3, Sub-section(ii) dated the 1st December, 2018, vide S.O No. 1693, dated the 27th November, 2018, issued under sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline from Tundla Terminal to Kanpur Terminal in the state of Uttar Pradesh by Indian Oil Corporation Limited for the transportation of petroleum products ;

And whereas copies of said Gazette notification were made available to the public; and whereas the competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said act, has submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceedings would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE**Tehsil:- Firozabad****District:- Firozabad****State :- Uttar Pradesh**

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Jakhai	591	00	00	80
		593	00	06	39
		594	00	12	10
		595	00	12	02
		596	00	06	89
		597	00	06	16
		599	00	08	90
		602	00	04	13
		603	00	03	47

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Jakhai (Contd..)	605	00	12	13
		611	00	15	64
		617	00	07	56
		618	00	01	90
		652	00	16	45
		651	00	10	66
		646	00	00	54
		641	00	18	01
		642	00	23	26
		738	00	33	35
		734	00	25	89
		736	00	00	35
		733	00	18	31
		732	00	03	55
		724	00	14	78
		725	00	05	55
		728	00	20	12
		730	00	09	19
		876	00	08	82
		950	00	00	36
		951	00	04	66
		952	00	11	33
		953	00	06	82
		958	00	00	80
		964	00	01	32
		965	00	10	61
		974	00	10	98
		982	00	00	39
		980	00	02	76
		979	00	04	44
		996	00	31	38
		1031	00	10	18
		1030	00	16	73
		1029	00	00	60
		1023	00	06	65
		1028	00	01	41
		1097	00	35	35
		1096	00	00	10
		1112	00	07	83
		1111	00	01	54

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
2	Jakhai (Contd.)	1095	00	09	92
		1078	00	00	98
		1108	00	00	68
		1107	00	02	54
		1106	00	02	12
		1105	00	01	52
		1104	00	04	31
		1103	00	02	78
		1101	00	00	28
		62	00	14	44
	Jasrathpur	53	00	00	70
		60	00	00	45
		51	00	09	75
		50	00	12	54
		49	00	11	95
		47	00	10	75
		44	00	33	47
		43	00	33	71
		293	00	25	38
		294	00	01	19
		300	00	13	81
		(304)	00	00	42
		305	00	04	74
		306	00	08	79
		315	00	13	14
		326	00	06	15
		327	00	09	52
		504	00	25	82
		503	00	08	51
		502	00	16	23
		520	00	15	20
		519	00	17	43
		517	00	04	33
		515	00	02	40
		527	00	15	64
		529	00	17	68
		531	00	00	44
		546	00	44	07
		550	00	00	38
		548	00	01	88
		551	00	18	56
3	Gonchh	478	00	06	07
		600	00	31	86
		603	00	44	21
		604	00	02	66
		595	00	03	01
		593	00	12	93
		594	00	05	61
		589	00	34	44
		588	00	08	73
		586	00	00	13
		590	00	04	88
		671	00	09	54
		668	00	14	53
		674	00	06	28
		675	00	00	40
		681	00	11	88
		680	00	36	38

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Gonchh (Contd.)	677	00	01	23
		679	00	00	44
		692	00	26	45
		708	00	16	71
		707	00	22	23
		711	00	00	37
		763	00	17	20
		770	00	06	75
		767	00	00	10
		764	00	11	52
		768	00	00	15
		766	00	00	39
		765	00	01	02
		1254	00	11	02
		1253	00	14	66
		1252	00	00	89
		1251	00	01	45
		1249	00	00	37
		1248	00	05	35
		1259	00	00	15
		1260	00	15	44
		1187	00	01	94
		1180	00	03	23
		1184	00	20	11
		1186	00	22	46
		1194	00	02	06
		1111	00	14	69
		1110	00	18	50
		1108	00	06	29
		1098	00	04	81
		1094	00	32	72
		1093	00	00	57
		1092	00	00	14
		1091	00	09	31
		1076	00	00	41
		1067	00	24	43
4	Nepai	1623	00	28	92
		2027	00	01	28
		2028	00	22	95
		2088	00	05	07
		2031	00	04	07
		2035	00	02	73
		2036	00	00	10
		2037	00	05	52
		2083	00	08	35
		2081	00	02	59
		2039	00	13	22
		2071	00	04	06
		2070	00	00	10
		2069	00	02	13
		2072	00	05	42
		2068	00	10	85
		2063	00	00	65
		2044	00	03	18
		2045	00	00	66
		2059	00	16	44
		2047	00	02	01
		2057	00	00	86
		2058	00	00	35
		2055	00	03	05
		2056	00	00	48

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Nepai (Contd.)	1977	00	05	62
		1992	00	20	90
		1980	00	00	08
		1991	00	18	12
		1981	00	07	42
		1979	00	09	80
		1982	00	00	10
		1978	00	16	19

[F. No. 11025(11)/20/2018-OR-I/E-27595]

SANTANU DHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2019

का.आ. 534.—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1690, तारीख 27 नवम्बर 2018, जो भारत के राजपत्र संख्या 47 भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) तारीख 01 दिसम्बर, 2018, में प्रकाशित की गयी थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में टूण्डला टर्मिनल से कानपुर टर्मिनल तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार के अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये;

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाय, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिये इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची**तहसील: शिकोहाबाद****जिला: फिरोजाबाद****राज्य: उत्तर प्रदेश**

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	सरमई (जारी)	232	00	01	76
		210	00	01	51

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	सरमई	211	00	00	17
		228	00	11	40
		233	00	18	99
		235	00	12	64
		372	00	13	18
		377	00	06	43
		376	00	01	10
		378	00	08	40
		381	00	00	54
		379	00	05	81
		380	00	11	38
		352	00	00	45
		395	00	07	22
		396	00	27	69
		397	00	02	21
		402	00	04	94
		398	00	04	14
		399	00	33	01
2	रैपुरा	83	00	00	62
		80	00	00	12
		81	00	03	97
		85	00	17	76
		76	00	25	02
		77	00	01	74
		78	00	22	45
3	नगला हिम्मत	29	00	32	60
		28	00	00	96
		30 मि.	00	02	49
		34	00	15	38
		31	00	25	03
		32	00	08	53
		47	00	21	76
		266	00	15	29
		268	00	03	88
		267	00	24	79
		265	00	13	13
		274	00	05	87

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	नगला हिम्मत (जारी)	276	00	11	70
		277	00	05	93
4	खैरगढ़	162	00	11	43
		45	00	02	24
		43	00	01	88
		42	00	21	89
		48	00	23	93
		52	00	00	72
		58	00	39	52
		75	00	13	98
		79	00	27	59
		78	00	00	47
		80	00	14	76
		81ब	00	09	20
		102	00	12	05
		81अ	00	01	28
		83/509	00	04	78
		83	00	00	38
		85	00	18	77
		84	00	03	66
		87	00	00	10
5	शेखपुरा	113	00	01	18
		130	00	13	82
6	नया बांस	2	00	09	22
		3	00	09	47
		4	00	31	98
		5	00	02	56
		7	00	03	88
		12	00	14	00
		9	00	03	88
		11	00	19	36
		15	00	00	36
		16	00	03	29
		19	00	22	10
		20	00	01	61
		21	00	01	87
		25	00	02	34

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	नया बांस (जारी)	26	00	20	35
		31	0	2	24
7	विजौली	177	00	07	27
		178	00	01	82
		225	00	22	48
		226	00	00	51
		258	00	30	21
		259	00	10	17
		255	00	00	57
		249	00	01	06
		248	00	14	35
		247	00	12	21
		242	00	01	49
		401	00	12	43
		402	00	28	76
		405	00	00	39
		406	00	67	83
8	बरीली	17	00	24	54
9	बनवीरपुर कुढी	8	00	16	42
		73	00	22	86
		70	00	00	96
		69	00	10	20
		68	00	00	32
		76	00	18	14
		75	00	02	58
		77	00	15	48
		59	00	02	11
		58	00	01	41
		57	00	00	37
		56	00	10	80
		55	00	00	17
		103	00	49	88
		115	00	18	33
		114	00	00	87
		122	00	27	36
		131	00	01	94
		399	00	14	12

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	बनवीरपुर कुढी (जारी)	398	00	00	10
		387	00	12	84
		388	00	00	10
		389	00	01	18
		390	00	06	71
		382	00	12	54
		372	00	00	29
		373	00	00	82
		374	00	04	80
		371	00	16	62
		368	00	02	82
		369	00	07	30
		367	00	04	48
		365	00	00	55
		424	00	00	81
		366	00	00	76
		425	00	07	99
		427	00	11	48
		428	00	05	50
		476	00	00	38
		472	00	04	04
		468	00	40	76
		512	00	11	70
		517	00	13	67
		520	00	02	21
		521	00	06	28
		504	00	30	43
10	बछलई	242	00	01	08
		246	00	03	89
		247/1	00	23	92
		253	00	01	90
		252	00	12	30
		251	00	00	47
		262	00	33	93
		269	00	12	32
		271	00	03	45
		07	00	17	12
11	मुहम्मदपुर लभौआ	07	00	17	12

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
12	हुसैनपुर गढिया	17	00	12	59
		18	00	07	80
		26	00	11	84
		27	00	15	29
		29	00	09	80
		28	00	04	40
		31	00	12	54
		60	00	00	10
		59	00	03	60
		58	00	02	71
		32	00	00	10
		63	00	06	43
		55	00	00	10
		64	00	07	56
		66	00	00	62
		67	00	02	24
		69	00	15	39
		78	00	00	10
		76	00	00	28
		79	00	00	97
		80	00	06	45
		81	00	00	46
		83	00	00	10
		74	00	28	06
		86	00	03	42
		115	00	10	05
		114	00	19	65
		116	00	00	51
		193	00	07	38
		192	00	04	13
		191	00	08	87
		190	00	01	25
		188	00	03	97
		189	00	00	55
		183	00	10	38
		180	00	07	10
		184	00	00	78

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	हुसैनपुर गढिया (जारी)	178	00	00	17
		179	00	18	02
		176	00	19	02
		254	00	00	97
		255	00	06	05
		253	00	20	12
		260	00	15	08
		268	00	15	75
		270	00	24	01
		272	00	03	77
		274	00	04	04
		282	00	00	29
		297	00	05	79
		296	00	10	32
		285	00	04	00
		295	00	12	74
		294	00	14	61
		293	00	16	61
		311	00	42	30
13	दिवाइची	136	00	17	23
		143	00	25	97
		135	00	00	10
		127	00	23	31
		126	00	11	97
		125	00	18	32
		123	00	20	11
		124	00	01	09
		122	00	01	46
		119	00	16	38
		121	00	00	46
		120	00	00	38
		115	00	16	77
		114	00	22	70
		113	00	04	39
		112	00	17	44
		83	00	01	43
		84	00	08	11

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
14	दिवाइची (जारी)	85	00	07	21
		87	00	02	51
		88	00	08	28
		89	00	12	47
		109	00	02	24
		90	00	00	99
		95	00	09	42
		96	00	22	28
		98	00	00	68
		97	00	02	13
		100	00	06	51
		99	00	08	01
	माडई	240	00	04	51
		239	00	06	16
		238	00	01	70
		237	00	16	72
		269	00	02	75
		270	00	02	46
		271	00	07	31
		268	00	15	22
		272	00	11	18
		277	00	09	30
		284	00	06	62
		285	00	01	81
		287	00	18	26
		288	00	09	31
		216	00	12	64
		310	00	15	27
		312	00	03	08
		311	00	04	29
		317	00	01	61
		318	00	07	94
		319	00	03	70
		320	00	03	83
		322	00	02	42
		440ब	00	18	02
		439	00	05	33

शान्तनु धर, अवर सचिव

S.O. 534.—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 47 part II, Section 3, Sub-section(ii) dated the 1st December, 2018, vide S.O. No. 1690, dated the 27th November, 2018 ,issued under sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act) , the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to

that notification for the purpose of laying pipeline from Tundla Terminal to Kanpur Terminal in the state of Uttar Pradesh by Indian Oil Corporation Limited for the transportation of petroleum products ;

And whereas copies of said Gazette notification were made available to the public; and whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said act, has submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline ,has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceedings would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Tehsil:- Shikohabad

District:- Firozabad

State :- Uttar Pradesh

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Sarmai	232	00	01	76
		210	00	01	51
		211	00	00	17
		228	00	11	40
		233	00	18	99
		235	00	12	64
		372	00	13	18
		377	00	06	43
		376	00	01	10
		378	00	08	40
		381	00	00	54
		379	00	05	81
		380	00	11	38
		352	00	00	45
		395	00	07	22
		396	00	27	69
		397	00	02	21
		402	00	04	94
		398	00	04	14
		399	00	33	01
2	Raipura	83	00	00	62
		80	00	00	12
		81	00	03	97
		85	00	17	76
		76	00	25	02
		77	00	01	74
		78	00	22	45
		29	00	32	60
3	Nagla Himmat	28	00	00	96
		30 mi.	00	02	49
		34	00	15	38

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
4	Nagla Himmat	31	00	25	03
		32	00	08	53
		47	00	21	76
		266	00	15	29
		268	00	03	88
		267	00	24	79
		265	00	13	13
		274	00	05	87
		276	00	11	70
		277	00	05	93
	Khergarh	162	00	11	43
		45	00	02	24
		43	00	01	88
		42	00	21	89
		48	00	23	93
		52	00	00	72
		58	00	39	52
		75	00	13	98
		79	00	27	59
		78	00	00	47
		80	00	14	76
		81B	00	09	20
		102	00	12	05
		81A	00	01	28
		83/509	00	04	78
		83	00	00	38
		85	00	18	77
		84	00	03	66
		87	00	00	10
5	Shekhpura	113	00	01	18
6	Naya Bans	130	00	13	82
		2	00	09	22
7	Vijauli	3	00	09	47
		4	00	31	98
		5	00	02	56
		7	00	03	88
		12	00	14	00
		9	00	03	88
		11	00	19	36
		15	00	00	36
		16	00	03	29
		19	00	22	10
		20	00	01	61
		21	00	01	87
		25	00	02	34
		26	00	20	35
		31	00	02	24
		177	00	07	27
		178	00	01	82
		225	00	22	48
		226	00	00	51
		258	00	30	21
		259	00	10	17
		255	00	00	57
		249	00	01	06
		248	00	14	35
		247	00	12	21
		242	00	01	49
		401	00	12	43
		402	00	28	76
		405	00	00	39
		406	00	67	83

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
8	Varauli	17	00	24	54
9	Banvirpur Kundhi	8	00	16	42
		73	00	22	86
		70	00	00	96
		69	00	10	20
		68	00	00	32
		76	00	18	14
		75	00	02	58
		77	00	15	48
		59	00	02	11
		58	00	01	41
		57	00	00	37
		56	00	10	80
		55	00	00	17
		103	00	49	88
		115	00	18	33
		114	00	00	87
		122	00	27	36
		131	00	01	94
		399	00	14	12
		398	00	00	10
		387	00	12	84
		388	00	00	10
		389	00	01	18
		390	00	06	71
		382	00	12	54
		372	00	00	29
		373	00	00	82
		374	00	04	80
		371	00	16	62
		368	00	02	82
		369	00	07	30
		367	00	04	48
		365	00	00	55
		424	00	00	81
		366	00	00	76
		425	00	07	99
		427	00	11	48
		428	00	05	50
		476	00	00	38
		472	00	04	04
		468	00	40	76
		512	00	11	70
		517	00	13	67
		520	00	02	21
		521	00	06	28
		504	00	30	43
10	Bachhlai	242	00	01	08
		246	00	03	89
		247/1	00	23	92
		253	00	01	90
		252	00	12	30
		251	00	00	47
		262	00	33	93
		269	00	12	32
		271	00	03	45
11	Muhmmadpur Labhaua	7	00	17	12
12	Husainpur Gadhia	17	00	12	59
		18	00	07	80
		26	00	11	84
		27	00	15	29
		29	00	09	80
		28	00	04	40

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
13	Husainpur Gadhia	31	00	12	54
		60	00	00	10
		59	00	03	60
		58	00	02	71
		32	00	00	10
		63	00	06	43
		55	00	00	10
		64	00	07	56
		66	00	00	62
		67	00	02	24
		69	00	15	39
		78	00	00	10
		76	00	00	28
		79	00	00	97
		80	00	06	45
		81	00	00	46
		83	00	00	10
		74	00	28	06
		86	00	03	42
		115	00	10	05
		114	00	19	65
		116	00	00	51
		193	00	07	38
		192	00	04	13
		191	00	08	87
		190	00	01	25
		188	00	03	97
		189	00	00	55
		183	00	10	38
		180	00	07	10
		184	00	00	78
		178	00	00	17
		179	00	18	02
		176	00	19	02
		254	00	00	97
		255	00	06	05
		253	00	20	12
		260	00	15	08
		268	00	15	75
		270	00	24	01
		272	00	03	77
		274	00	04	04
		282	00	00	29
		297	00	05	79
		296	00	10	32
		285	00	04	00
		295	00	12	74
		294	00	14	61
		293	00	16	61
		311	00	42	30
	Diwaichi	136	00	17	23
		143	00	25	97
		135	00	00	10
		127	00	23	31
		126	00	11	97
		125	00	18	32
		1234	00	20	11
		124	00	01	09
		122	00	01	46
		119	00	16	38
		121	00	00	46
		120	00	00	38
		115	00	16	77

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
14	Diwaichi	114	00	22	70
		113	00	04	39
		112	00	17	44
		83	00	01	43
		84	00	08	11
		85	00	07	21
		87	00	02	51
		88	00	08	28
		89	00	12	47
		109	00	02	24
		90	00	00	99
		95	00	09	42
		96	00	22	28
		98	00	00	68
		97	00	02	13
		100	00	06	51
		99	00	08	01
	Mandai	240	00	04	51
		239	00	06	16
		238	00	01	70
		237	00	16	72
		269	00	02	75
		270	00	02	46
		271	00	07	31
		268	00	15	22
		272	00	11	18
		277	00	09	30
		284	00	06	62
		285	00	01	81
		287	00	18	26
		288	00	09	31
		216	00	12	64
		310	00	15	27
		312	00	03	08
		311	00	04	29
		317	00	01	61
		318	00	07	94
		319	00	03	70
		320	00	03	83
		322	00	02	42
15	Banipur	440/B	00	18	02
		439	00	05	33
		438	00	21	42
		430	00	00	62
		409	00	55	51
		362	00	00	10
		401	00	23	34
		402	00	01	06
		397	00	33	44
		633	00	00	75
		635	00	03	00
		634	00	02	18
		207/B	00	08	79
		207/A	00	00	84
		208	00	04	95
		199	00	06	22
		211	00	13	50
		210	00	00	62
		242	00	30	31
		240	00	06	32
		238	00	21	32
		233	00	10	83
		234	00	01	14

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Banipur	232	00	03	18
16	Surajpur Radhauni	141	00	08	27
		142	00	15	45
		144	00	10	55
		145	00	07	25
		146	00	05	66
		148	00	08	07

[F. No. 11025(11)20/2018-OR-I/E-27595]

SANTANU DHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2019

का.आ. 535.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1691, तारीख 27 नवम्बर 2018, जो भारत के राजपत्र संख्या 47 भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) तारीख 01 दिसम्बर 2018, में प्रकाशित की गयी थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में टूण्डला टर्मिनल से कानपुर टर्मिनल तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रायोजन के लिये उपयोग के अधिकार के अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिये इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील: टूण्डला

जिला: फिरोजाबाद

राज्य: उत्तर प्रदेश

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	छितरई	262	00	00	68
		263	00	26	39
		264	00	00	10
		265	00	14	33

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	छितरई	259	00	00	46
		257	00	15	34
		256	00	15	34
		255	00	07	99
		254	00	02	09
		268	00	15	96
		253	00	00	60
		270/अ	00	00	35
		271/अ	00	14	68
		241	00	05	66
		240	00	15	74
		245	00	01	15
		238	00	13	26
		236	00	15	60
		235	00	12	71
		234	00	00	56
		229	00	25	40
		227	00	26	64
		225	00	00	77
		224	00	00	63
		221	00	14	32
		217	00	02	62
		219	00	19	71
		214	00	00	10
2	मोहम्मदाबाद	23	00	20	93
		24	00	36	65
		34	00	14	93
		27	00	13	57
		29	00	04	87
		28	00	16	14
3	प्रतापपुर	279	00	00	34
		280	00	00	54
		289	00	10	66
		290	00	22	13
		293	00	00	57
		292	00	00	43
		291	00	34	37

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	प्रतापपुर	286	00	18	51
		285	00	02	55
		167	00	12	64
		166	00	13	49
		89	00	09	19
		90	00	00	80
		91	00	00	80
		94	00	39	71
		95	00	17	43
		102	00	01	78
		100	00	05	14
		101	00	08	79
		135	00	02	75
		134	00	20	35
		133	00	11	34
		126	00	01	22
		121	00	00	10
		125	00	09	76
		123	00	00	36
4	धरमपुर	96	00	24	21
		94	00	02	20
		22	00	00	10
		23	00	19	90
		32	00	36	93
		30	00	21	67
		31	00	00	37
		28	00	12	09
		27	00	03	23
		34	00	00	76
		35	00	26	14
		1	00	01	06
		2	00	13	28
5	आनन्दपुर	96	00	27	45
		95	00	20	58
		94	00	05	36
		89	00	12	41
		84	00	37	76

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	आनन्दपुर	83	00	00	24
		35	00	07	41
		38	00	15	76
		36	00	00	35
		45	00	08	67
		34	00	01	00
		11	00	01	25
		7	00	26	64
6	गढी भोपाल	87	00	16	43
7	छिकाऊ	226	00	28	20
		222	00	27	58
		221	00	08	56
		234	00	06	71
		235	00	17	25
		236	00	20	34
		237	00	13	12
		238	00	01	04
		247	00	40	33
		246	00	19	43
		132	00	01	00
		131	00	04	84
		130	00	26	29
		129	00	11	25
		128	00	07	69
8	गढी उम्मेद	42	00	19	80
		33	00	03	65
		32	00	17	84
		31	00	10	66
		30	00	07	47
		29	00	18	58
		28	00	05	51
		11	00	00	90
		5	00	02	33
		6	00	10	97
		7 मि.	00	32	22
		8	00	14	43

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
9	नगला रैया	2	00	11	63
		6	00	00	36
		7	00	17	30
		8	00	00	16
		10	00	00	64
		13	00	07	71
		15	00	17	93
		17	00	23	33
		19	00	02	14
		40	00	15	98
		39	00	14	84
		37	00	00	84
		38	00	08	94
		32	00	00	55
		31	00	00	29
		28	00	02	27
		27	00	02	76
		29	00	11	14
		26	00	00	39
		30	00	01	19
10	हिम्मतपुर	820	00	05	90
		804	00	01	48
		803	00	09	79
		821	00	03	28
		823	00	04	52
		824	00	07	73
		825	00	04	96
		826	00	08	00
11	सखावतपुर	827	00	01	15
		221	00	16	69
		222	00	00	94
		225	00	11	89
		232	00	00	69
		226	00	04	14
		227	00	05	54
12	गढी रन्सोर	341	00	00	25
		337	00	03	76

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	गढी रन्झोर	336	00	08	71
		332	00	01	90
		333	00	10	73
		313	00	27	23
		314	00	03	47
		329	00	04	81
		316	00	06	28
		325	00	21	33
		317	00	00	62
		321	00	23	66
		320	00	00	96
		275	00	14	28
		280	00	09	10
		283	00	07	26
		284	00	06	82
		286	00	14	28
		178	00	08	51
		180	00	09	36
		183	00	13	87
		182	00	03	85
		122	00	00	10
		123	00	17	41
		125	00	11	86
		126	00	04	26
		127	00	15	13
		128	00	11	78
13	जौधरी	166	00	09	91
		165	00	06	62
		170	00	06	68
		175	00	08	79
		184	00	46	92
		404	00	02	30
		402/अ	00	12	97
		398	00	12	11
		399	00	00	25
		397	00	19	66
		217	00	01	32

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	जौधरी	396	00	17	75
		395	00	01	79
		394	00	01	94
		266	00	04	30
		392	00	01	35
		388	00	05	63
		387	00	06	92
		386	00	06	79
		385	00	05	48
		384	00	00	30
		380	00	18	08
		378	00	00	18
		377	00	01	21
		376	00	24	26
		376 / 497	00	00	77
		375	00	04	97
		374	00	00	10
		292	00	09	86
		293	00	02	08
		291	00	05	09
		294	00	01	44
		288	00	23	38
		290	00	00	10
		285	00	16	08
		283	00	07	42
		284	00	00	12
		280	00	20	44
		277	00	07	46
		278	00	07	09

[फा. सं. 11025(11)/20/2018-ओआर-I/ई-27595]

शान्तनु धर, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 2019

S.O. 535.—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 47 part II, Section 3, Sub-section(ii) dated the 1st December, 2018, vide S.O. No. 1691, dated the 27th November, 2018, issued under sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act) , the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline from Tundla Terminal to Kanpur Terminal in the state of Uttar Pradesh by Indian Oil Corporation Limited for the transportation of petroleum products ;

And whereas copies of said Gazette notification were made available to the public; and whereas the competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said act, has submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government ,after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline ,has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceedings would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Tehsil:- Tundla

District:- Firozabad

State :- Uttar Pradesh

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Chhitrai	262	00	00	68
		263	00	26	39
		264	00	00	10
		265	00	14	33
		259	00	00	46
		257	00	15	34
		256	00	15	34
		255	00	07	99
		254	00	02	09
		268	00	15	96
		253	00	00	60
		270/A	00	00	35
		271/A	00	14	68
		241	00	05	66
		240	00	15	74
		245	00	01	15
		238	00	13	26
		236	00	15	60
		235	00	12	71
		234	00	00	56
		229	00	25	40
		227	00	26	64
		225	00	00	77
		224	00	00	63
		221	00	14	32
		217	00	02	62
		219	00	19	71
		214	00	00	10
2	Mohammadabad	23	00	20	93
		24	00	36	65
		34	00	14	93
		27	00	13	57
		29	00	04	87
		28	00	16	14
3	Pratappur	279	00	00	34
		280	00	00	54
		289	00	10	66
		290	00	22	13
		293	00	00	57
		292	00	00	43
		291	00	34	37
		286	00	18	51

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
4	Pratappur	285	00	02	55
		167	00	12	64
		166	00	13	49
		89	00	09	19
		90	00	00	80
		91	00	00	80
		94	00	39	71
		95	00	17	43
		102	00	01	78
		100	00	05	14
		101	00	08	79
		135	00	02	75
		134	00	20	35
		133	00	11	34
		126	00	01	22
		121	00	00	10
		125	00	09	76
		123	00	00	36
		96	00	24	21
		94	00	02	20
		22	00	00	10
		23	00	19	90
		32	00	36	93
		30	00	21	67
		31	00	00	37
		28	00	12	09
		27	00	03	23
		34	00	00	76
		35	00	26	14
5	Anandpur	1	00	01	06
		2	00	13	28
		96	00	27	45
		95	00	20	58
		94	00	05	36
		89	00	12	41
		84	00	37	76
		83	00	00	24
		35	00	07	41
		38	00	15	76
		36	00	00	35
		45	00	08	67
		34	00	01	00
		11	00	01	25
		7	00	26	64
6	Gahri Bhopal	87	00	16	43
7	Chhikau	226	00	28	20
		222	00	27	58
		221	00	08	56
		234	00	06	71
		235	00	17	25
		236	00	20	34
		237	00	13	12
		238	00	01	04
		247	00	40	33
		246	00	19	43
		132	00	01	00
		131	00	04	84
		130	00	26	29
		129	00	11	25
		128	00	07	69
8	Garhi Ummed	42	00	19	80
		33	00	03	65

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
9	Garhi Ummed	32	00	17	84
		31	00	10	66
		30	00	07	47
		29	00	18	58
		28	00	05	51
		11	00	00	90
		5	00	02	33
		6	00	10	97
		7 Mi.	00	32	22
		8	00	14	43
	Nagla Raiya	2	00	11	63
		6	00	00	36
		7	00	17	30
		8	00	00	16
		10	00	00	64
		13	00	07	71
		15	00	17	93
		17	00	23	33
		19	00	02	14
		40	00	15	98
		39	00	14	84
		37	00	00	84
		38	00	08	94
		32	00	00	55
		31	00	00	29
		28	00	02	27
		27	00	02	76
		29	00	11	14
		26	00	00	39
		30	00	01	19
10	Himmatpur	820	00	05	90
		804	00	01	48
		803	00	09	79
		821	00	03	28
		823	00	04	52
		824	00	07	73
		825	00	04	96
		826	00	08	00
		827	00	01	15
11	Sakhawatpur	221	00	16	69
		222	00	00	94
		225	00	11	89
		232	00	00	69
		226	00	04	14
		227	00	05	54
12	Garhi Rankshor	341	00	00	25
		337	00	03	76
		336	00	08	71
		332	00	01	90
		333	00	10	73
		313	00	27	23
		314	00	03	47
		329	00	04	81
		316	00	06	28
		325	00	21	33
		317	00	00	62
		321	00	23	66
		320	00	00	96
		275	00	14	28
		280	00	09	10
		283	00	07	26
		284	00	06	82
		286	00	14	28

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
13	Garhi Rankshor	178	00	08	51
		180	00	09	36
		183	00	13	87
		182	00	03	85
		122	00	00	10
		123	00	17	41
		125	00	11	86
		126	00	04	26
		127	00	15	13
		128	00	11	78
	Jondhri	166	00	09	91
		165	00	06	62
		170	00	06	68
		175	00	08	79
		184	00	46	92
		404	00	02	30
		402/A	00	12	97
		398	00	12	11
		399	00	00	25
		397	00	19	66
		217	00	01	32
		396	00	17	75
		395	00	01	79
		394	00	01	94
		266	00	04	30
		392	00	01	35
		388	00	05	63
		387	00	06	92
		386	00	06	79
		385	00	05	48
		384	00	00	30
		380	00	18	08
		378	00	00	18
		377	00	01	21
		376	00	24	26
		376/497	00	00	77
		375	00	04	97
		374	00	00	10
		292	00	09	86
		293	00	02	08
		291	00	05	09
		294	00	01	44
		288	00	23	38
		290	00	00	10
		285	00	16	08
		283	00	07	42
		284	00	00	12
		280	00	20	44
		277	00	07	46
		278	00	07	09

[F. No. 11025(11)/20/2018-OR-I/ई-27595]

SANTANU DHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2019

का. आ. 536.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना जिसका प्रकाशन भारत के

राजपत्र संख्या 3, दिनांक 19.01.2019 का. आ संख्या 110, दिनांक 10.01.2019, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (II) में किया गया है। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पंजाब राज्य की तहसील नवांशहर, बालाचौर, जिला शहीद भगत सिंह नगर और तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर की भूमि में, पंजाब राज्य के गाँव : झुगियां, जिला शहीद भगत सिंह नगर से हिमाचल प्रदेश के गाँव : पेखुबेला, जिला उना तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पीएजेपीएल- उना ब्रांच पाइपलाइन परियोजना के सम्बंध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियाँ जनता को तारीख 29/01/2019 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद - दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

राज्य : पंजाब

क्र. सं.	जिला	तहसील	गाँव का नाम	हदबस्त नं	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
						हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	एस. बी. एस. नगर	नवांशहर	राहों	223	274 // 16	00	02	79
					273 // 19	00	00	20
					273 // 20/1	00	01	26
					273 // 21	00	00	20
					273 // 11/2	00	02	98
2	एस. बी. एस. नगर	नवांशहर	सजावलपुर	154	578	00	00	27
					579	00	03	05
					591	00	06	16
					575	00	07	07
3	एस. बी. एस. नगर	नवांशहर	लंगरोआ	137	34 // 17/1	00	01	05
4	एस. बी. एस. नगर	नवांशहर	सहबाजपुर	227	2486	00	04	80
					2482	00	01	66

क्रं. सं.	जिला	तहसील	गाँव का नाम	हदबस्त नं	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
						हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2292/553/1	00	05	23
					2291/552/3	00	03	65
5	एस. बी. एस. नगर	बालाचौर	चांदपुर रुड़की	366	73 // 16/2	00	09	84
6	एस. बी. एस. नगर	बालाचौर	सरोया	243	34 // 26	00	01	34
7	होशियारपुर	गढ़शंकर	सिम्बली	159	26 // 19/3/1	00	00	50
					26 // 19/3/2	00	01	74
8	होशियारपुर	गढ़शंकर	मैरा	481	30 // 23	00	10	28
					30 // 18/2	00	09	26
					30 // 18/3	00	01	48
					11 // 16	00	03	64
					11 // 17	00	03	96
					12 // 11	00	11	95
9	होशियारपुर	गढ़शंकर	डल्लेवाल	482	39 // 23/2	00	01	12
					48 // 9	00	07	71
					48 // 3	00	04	16
10	होशियारपुर	गढ़शंकर	कोकोवाल	476	460	00	01	32
					463-464	00	00	18
					462	00	05	58
11	होशियारपुर	गढ़शंकर	समुन्द्रा	160	949	00	00	66
					1888/952	00	00	14
					1807/951	00	00	76
					1886/950	00	00	84

[फा. सं. आर-11025(11)/1/2018-ओआर-I/ई-21789]

शान्तनु धर, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 2019

S. O. 536.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette No. 3, dated 19.01.2019, S.O. No. 110, dated 10.01.2019, Part-II section 3, sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (here in after referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil – Nawanshahr, Balachour of District Shahid Bhagat Singh Nagar and Tehsil – Garhshankar of District Hoshiarpur in Punjab State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum product from village Jhungian in the State of Punjab, District Shahid Bhagat Singh Nagar to village Pekhubela in the State of Himachal Pradesh, District Una by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the "PAJPL - Una Branch pipeline project".

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 29.01.2019.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report of Central Government.

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in India Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

India Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE

State : Punjab

Sr. No.	Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Hadbast No.	Khasara No.	Area		
						Hectare	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	S.B.S. Nagar	Nawanshahr	Rahon	223	274 // 16	00	02	79
					273 // 19	00	00	20
					273 // 20/1	00	01	26
					273 // 21	00	00	20
					273 // 11/2	00	02	98
2	S.B.S. Nagar	Nawanshahr	Sajawalpur	154	578	00	00	27
					579	00	03	05
					591	00	06	16
					575	00	07	07
3	S.B.S. Nagar	Nawanshahr	Langroya	137	34 // 17/1	00	01	05
4	S.B.S. Nagar	Nawanshahr	Sahbazpur	227	2486	00	04	80
					2482	00	01	66
					2292/553/1	00	05	23
					2291/552/3	00	03	65
5	S.B.S. Nagar	Balachour	Chandpur Rurki	366	73 // 16/2	00	09	84
6	S.B.S. Nagar	Balachour	Saroya	243	34 // 26	00	01	34
7	Hoshiarpur	Garhshankar	Simbli	159	26 // 19/3/1	00	00	50
					26 // 19/3/2	00	01	74
8	Hoshiarpur	Garhshankar	Maira	481	30 // 23	00	10	28
					30 // 18/2	00	09	26
					30 // 18/3	00	01	48
					11 // 16	00	03	64
					11 // 17	00	03	96
					12 // 11	00	11	95
9	Hoshiarpur	Garhshankar	Dallewal	482	39 // 23/2	00	01	12
					48 // 9	00	07	71
					48 // 3	00	04	16

10	Hoshiarpur	Garhshankar	Kokowal	476	460	00	01	32
					463-464	00	00	18
					462	00	05	58
11	Hoshiarpur	Garhshankar	Samundra	160	949	00	00	66
					1888/952	00	00	14
					1807/951	00	00	76
					1886/950	00	00	84

[F. No. R-11025(11)/1/2018-OR-I/E-21789]

SANTANU DHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2019

का. आ. 537.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में टूण्डला टर्मिनल से कानपुर टर्मिनल तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन्स प्रभाग, निर्माण कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन्स, टूण्डला - गौरिया पाइपलाइन परियोजना, ई-160, प्रथम व द्वितीय तल, कमला नगर, आगरा (यू.पी.) - 282004 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील – मैथा

जिला – कानपुर देहात

राज्य – उत्तर प्रदेश

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	लमहरा	491	00	21	29
		487	00	07	81
		492	00	00	21
		486	00	12	31
		485	00	01	50
		499	00	00	57
		495	00	04	43
		497	00	03	46

	लमहरा (जारी...)	498	00	00	99
		507	00	06	89
		508	00	03	45
		504	00	14	21
		434	00	04	49
		435	00	03	34
		436	00	00	10
		438	00	03	51
		442	00	00	10
		439	00	00	96
		441	00	02	79
		440	00	02	37
		429	00	07	79
		430	00	00	10
		428	00	03	14
		554	00	24	10
		555	00	13	28
		563	00	00	20
		551	00	12	98
		550	00	10	09
		549	00	00	52
		583	00	24	46
		740	00	17	61
		741	00	09	32
		752	00	05	69
		753	00	01	95
		750	00	00	27
		754	00	06	96
		755	00	00	10
		756	00	00	10
		747	00	23	74
		821	00	12	97
		822	00	06	37
		809	00	00	10
2	बीरपुर नकसिया	556	00	10	24
		557	00	34	30
		541	00	00	47
		546	00	04	63
		547	00	00	10
		548	00	01	20

	वीरपुर नकसिया (जारी.)	555	00	20	59
		554	00	00	92
		559	00	08	91
3	भीला हिन्दूपुर	337	00	04	06
		250	00	06	71
		238	00	02	72
		239	00	12	59
		246	00	08	12
		245	00	03	41
		243	00	03	36
		244	00	11	67
		294	00	09	90
		296	00	09	63
		295	00	06	60
		314	00	00	40
		313	00	18	37
		309	00	06	28
		308	00	05	64
4	गम्भीरपुर	232	00	07	64
		230	00	17	44
		227	00	16	15
		228	00	01	20
		217	00	01	42
		136	00	06	84
		137	00	00	13
		139	00	08	34
		135	00	01	43
		134	00	11	42
		140	00	06	18
		141	00	00	36
		206	00	02	11
		204	00	01	13
		149	00	03	16
		150	00	25	62
		151	00	07	86
		175	00	17	00
		174	00	11	09
		172	00	00	10
		173	00	03	34
5	फतेहपुर	395	00	00	67

फतेहपुर (जारी...)	393	00	10	19
	394	00	00	89
	371	00	02	49
	372	00	00	10
	370	00	13	31
	361	00	00	28
	355	00	17	75
	354	00	14	22
	353	00	03	49
	323	00	04	57
	322	00	24	74
	320	00	00	40
	289	00	20	73
	53	00	09	21
	54	00	08	63
	55	00	01	43
	275	00	00	17
	274	00	13	26
	273	00	07	74
	272	00	06	62
	271	00	00	41
	267	00	10	38
	174	00	05	75
	205	00	05	77
	204	00	18	30
	203	00	03	49
	206	00	00	73
	227	00	00	53
	209	00	03	75
	210	00	03	56
	211	00	01	97
	212	00	01	61
	213	00	00	10
	208	00	06	78
	219	00	00	10
	218	00	01	50
	217	00	01	77
	189	00	06	40
6 निजामतपुर	416	00	38	86
	401	00	04	58

	निजामतपुर (जारी...)	415	00	13	94
		410	00	01	49
		413	00	15	89
		405	01	23	53
		406	00	02	47
7	मडौली	77	00	00	26
		76	00	11	45
		13	00	47	88
		28	00	23	29
		26	00	04	34
		29	00	12	02
		23	00	05	72
		102	00	01	86
		121	00	57	69
		142	00	51	39
		172	00	22	81
		141	00	01	52
		174	00	03	17
		177	00	28	19
		363	00	15	18
		364	00	16	38
		403	00	69	72
		404	00	03	67
		1139	00	27	21
8	मदारपुर गाजीउद्दीन	55	00	14	31
		64	00	03	68
		66	00	00	45
		92	00	15	36
		94	00	08	49
		97	00	46	08
		164	00	21	02
		165	00	04	43
		168	00	34	49
		170	00	00	36
		171	00	06	82
		172	00	09	28
		250	00	02	84
		251	00	04	69
		248	00	05	08
		247	00	23	31

मदारपुर गाजीउद्दीन
(जारी...)

246	00	00	56
263	00	13	09
267	00	18	57
272	00	10	85
280	00	00	49
279	00	02	16
281	00	06	28
411	00	24	90
416	00	11	37
420	00	13	62
433	00	00	60
445	00	11	03
446	00	00	51
447	00	05	24
449	00	10	07
450	00	03	10
454	00	01	35
452	00	10	82
502	00	01	32
649	00	16	99
644	00	00	87
645	00	13	99
654	00	00	37
657	00	08	77
656	00	03	46
658	00	04	05
659	00	05	30
660	00	07	52
661	00	14	79
663	00	00	10
662	00	07	49
662	00	00	10
675	00	14	63
690	00	01	69
682	00	13	90
681	00	15	24
679	00	04	01
680	00	02	94
721	00	11	14

	मदारपुर गाजीउद्दीन	720	00	00	64
		722	00	14	79
		717	00	10	02
		716	00	04	98
		713	00	00	22
		714	00	15	33
		715	00	03	83
		730	00	03	90
9	सुनवरसा	70	00	07	38
		66	00	22	60
		69	00	01	04
		67	00	01	73
		147	00	23	58
		151	00	05	72
		162	00	06	29
		163	00	05	82
		164	00	10	47
		166	00	15	33
10	छतेनी	1136	00	29	76
		1148	00	06	78
		1166	00	04	26
		1165	00	26	14
		1169	00	00	45
		1163	00	12	86
		1149	00	00	21
		1191	00	32	60
		1192	00	23	06
		1189	00	00	36
11	अलियापुर	76	00	06	64
		95	00	00	20
		60	00	00	66
		59	00	27	71
		84	00	09	35
		61	00	02	99
		75	00	01	35
		73	00	19	42
		72	00	26	94
		70	00	02	63
		69	00	13	02
		99	00	00	37

	अलियापुर	100	00	08	35
		96	00	08	48
		113	00	03	69
		112	00	00	60
		111	00	07	50
		110	00	10	30
		115	00	02	11
		128	00	12	17
		127	00	04	02
		126	00	00	10
		161	00	50	82
		160	00	00	71
		159	00	04	29
		158	00	08	70
		149	00	03	39
		157	00	14	57
		156	00	00	10
		152	00	07	75
		153	00	00	57
		141	00	08	82
		189	00	03	08
		208	00	05	80
		207	00	01	44
		198	00	08	64
		203	00	09	67
		199	00	25	61
		194	00	00	61
		195	00	04	14
		196	00	00	89
11अ	भटुवामऊ	49	00	03	12
		55	00	00	10
		50	00	20	53
		53	00	14	50
		69	00	22	39
		70	00	07	35
		81	00	00	60
		82	00	00	37
		83	00	10	23
		84	00	24	22
		107	00	19	59

	भदुवामऊ (जारी)	109	00	00	15
		108	00	02	07
		114	00	00	39
		116ब	00	42	06
		118	00	00	38
		119	00	16	16
		122	00	00	82
		120	00	12	39
		121	00	00	10
		126	00	00	19
		127	00	00	19
		272	00	20	72
		272/338	00	00	30
		268/337	00	00	10
		268	00	03	66
		269ब	00	12	44
		265	00	23	18
11ब	विक्रमपुर	201	00	00	84
		202	00	04	41
		216	00	11	49
		217	00	02	41
		218	00	12	73
		219	00	02	45
		220	00	03	83
		221	00	12	65
12	रैपालपुर	226	00	01	40
		202	00	04	59
		203	00	10	00
		205	00	00	25
		206	00	01	07
		207	00	07	83
		208	00	07	65
		209	00	00	89
		210	00	02	10
		395	00	02	44
		396	00	04	07
		397	00	09	27
		400	00	01	50
		393	00	10	92
		401	00	00	49

रैपालपुर (जारी)	411	0	26	95
	410	00	00	54
	454	00	08	85
	453	00	00	20
	455	00	05	24
	456	00	03	97
	458	00	00	51
	459	00	11	16
	459	00	00	63
	464	00	12	87
	464	00	05	60
	348	0	8	29
	465	0	0	54
	473	0	0	10
	467	0	2	25
	466	0	8	50
	468	0	11	43
	690	0	0	57
	695	0	0	28
	691	0	6	35
	346	0	0	13
	345	0	2	66
	344	0	5	1
	343	0	3	6
	342	0	0	62
	338	0	0	65
	334	0	1	26
	335	0	15	35
	336	0	14	95
	337	0	1	36
	332	0	13	16
	331	0	12	57
	330	0	12	3
	329	0	0	31
	761	0	2	52
	327	0	1	1
	763	0	1	85
	762	0	0	32
	764	0	0	97
	1022	0	42	53

	रैपालपुर (जारी)	766	0	7	7
		1021	0	6	52
		1032	0	17	64
		1034	0	0	99
		1035	0	5	0
		1036	0	24	4
		1037	0	0	37
		1044	0	8	91
		1048	0	4	82
		1053	0	0	36
		1000	0	19	76
13	गुरुगवाँ	49	00	07	82
		50	00	32	16
		54	00	00	66
		98	00	07	86
		99	00	03	77
		97	00	00	38
		100	00	05	80
		102	00	05	71
		101	00	05	88
		111	00	33	00
		112	00	10	35
		116	00	01	06
		117	00	05	48
		118	00	06	81
		129	00	20	81
		127	00	02	39
		134	00	00	36
		152	00	00	93
		153	00	13	39
		159	00	22	73
14	रामपुर गजरा	9	00	22	17
		11	00	06	94
		15	00	14	40
		14	00	04	03
		23	00	00	20
		17	00	00	10
		68	00	04	84
		71	00	09	71
		70	00	00	10

रामपुर गजरा (जारी)	73	00	04	51
	74	00	00	20
	72	00	24	52
	97	00	00	40
	103	00	11	10
	105	00	22	04
	107	00	06	27
	108	00	04	98
	109	00	00	10
	152ब	00	11	39
	153	00	00	20
	154	00	13	09
	155	00	00	46
	160	00	08	01
	159	00	01	59
	161	00	01	94
	169	00	10	16
	173	00	07	52
	172	00	12	16
	187	00	09	95

[फा. सं. 11025(11)/20/2018-ओआर-1/ई-27595]

शान्तनु धर, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 2019

S.O. 537.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Tundla Terminal to Kanpur Terminal should be laid by Indian Oil Corporation Limited. And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division), Construction Office, Northern Region Pipelines, Tundla-Gawria Pipeline Project, E-160,1st & 2nd floor, Kamlanagar, Agra(U.P.) – 282 004.

SCHEDULE**Tehsil:- Maitha****District:- Kanpur Dehat****State :- Uttar Pradesh**

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Lamahara	491	00	21	29
		487	00	07	81
		492	00	00	21
		486	00	12	31
		485	00	01	50

Lamahara (Contd.)	499	00	00	57
	495	00	04	43
	497	00	03	46
	498	00	00	99
	507	00	06	89
	508	00	03	45
	504	00	14	21
	434	00	04	49
	435	00	03	34
	436	00	00	10
	438	00	03	51
	442	00	00	10
	439	00	00	96
	441	00	02	79
	440	00	02	37
	429	00	07	79
	430	00	00	10
	428	00	03	14
	554	00	24	10
	555	00	13	28
	563	00	00	20
	551	00	12	98
	550	00	10	09
	549	00	00	52
	583	00	24	46
	740	00	17	61
	741	00	09	32
	752	00	05	69
	753	00	01	95
	750	00	00	27
	754	00	06	96
	755	00	00	10
	756	00	00	10
	747	00	23	74
	821	00	12	97
	822	00	06	37
	809	00	00	10
2 Virpur Naksiya	556	00	10	24
	557	00	34	30
	541	00	00	47
	546	00	04	63
	547	00	00	10
	548	00	01	20
	555	00	20	59

	Virpur Naksiya (Contd.)	554	00	00	92
		559	00	08	91
3	Bhila Hindupur	337	00	04	06
		250	00	06	71
		238	00	02	72
		239	00	12	59
		246	00	08	12
		245	00	03	41
		243	00	03	36
		244	00	11	67
		294	00	09	90
		296	00	09	63
		295	00	06	60
		314	00	00	40
		313	00	18	37
		309	00	06	28
		308	00	05	64
4	Gambhirpur	232	00	07	64
		230	00	17	44
		227	00	16	15
		228	00	01	20
		217	00	01	42
		136	00	06	84
		137	00	00	13
		139	00	08	34
		135	00	01	43
		134	00	11	42
		140	00	06	18
		141	00	00	36
		206	00	02	11
		204	00	01	13
		149	00	03	16
		150	00	25	62
		151	00	07	86
		175	00	17	00
		174	00	11	09
		172	00	00	10
		173	00	03	34
5	Fatehpur	395	00	00	67
		393	00	10	19
		394	00	00	89
		371	00	02	49
		372	00	00	10
		370	00	13	31

	Fatehpur (Contd.)	361	00	00	28
		355	00	17	75
		354	00	14	22
		353	00	03	49
		323	00	04	57
		322	00	24	74
		320	00	00	40
		289	00	20	73
		53	00	09	21
		54	00	08	63
		55	00	01	43
		275	00	00	17
		274	00	13	26
		273	00	07	74
		272	00	06	62
		271	00	00	41
		267	00	10	38
		174	00	05	75
		205	00	05	77
		204	00	18	30
		203	00	03	49
		206	00	00	73
		227	00	00	53
		209	00	03	75
		210	00	03	56
		211	00	01	97
		212	00	01	61
		213	00	00	10
		208	00	06	78
		219	00	00	10
		218	00	01	50
		217	00	01	77
		189	00	06	40
6	Nijamatpur	416	00	38	86
		401	00	04	58
		415	00	13	94
		410	00	01	49
		413	00	15	89
		405	01	23	53
		406	00	02	47
7	Madauli	77	00	00	26
		76	00	11	45
		13	00	47	88
		28	00	23	29

8	Madauli (Contd.)	26	00	04	34
		29	00	12	02
		23	00	05	72
		102	00	01	86
		121	00	57	69
		142	00	51	39
		172	00	22	81
		141	00	01	52
		174	00	03	17
		177	00	28	19
		363	00	15	18
		364	00	16	38
		403	00	69	72
		404	00	03	67
		1139	00	27	21
	Madarpur Gajiuddin	55	00	14	31
		64	00	03	68
		66	00	00	45
		92	00	15	36
		94	00	08	49
		97	00	46	08
		164	00	21	02
		165	00	04	43
		168	00	34	49
		170	00	00	36
		171	00	06	82
		172	00	09	28
		250	00	02	84
		251	00	04	69
		248	00	05	08
		247	00	23	31
		246	00	00	56
		263	00	13	09
		267	00	18	57
		272	00	10	85
		280	00	00	49
		279	00	02	16
		281	00	06	28
		411	00	24	90
		416	00	11	37
		420	00	13	62
		433	00	00	60
		445	00	11	03
		446	00	00	51

Madarpur Gajiuddin	447	00	05	24
	449	00	10	07
	450	00	03	10
	454	00	01	35
	452	00	10	82
	502	00	01	32
	649	00	16	99
	644	00	00	87
	645	00	13	99
	654	00	00	37
	657	00	08	77
	656	00	03	46
	658	00	04	05
	659	00	05	30
	660	00	07	52
	661	00	14	79
	663	00	00	10
	662	00	07	49
	662	00	00	10
	675	00	14	63
	690	00	01	69
	682	00	13	90
	681	00	15	24
	679	00	04	01
	680	00	02	94
	721	00	11	14
	720	00	00	64
	722	00	14	79
	717	00	10	02
	716	00	04	98
	713	00	00	22
	714	00	15	33
	715	00	03	83
	730	00	03	90
9 Sunvarsa	70	00	07	38
	66	00	22	60
	69	00	01	04
	67	00	01	73
	147	00	23	58
	151	00	05	72
	162	00	06	29
	163	00	05	82
	164	00	10	47
	166	00	15	33

10	Chhateni	1136	00	29	76
		1148	00	06	78
		1166	00	04	26
		1165	00	26	14
		1169	00	00	45
		1163	00	12	86
		1149	00	00	21
		1191	00	32	60
		1192	00	23	06
		1189	00	00	36
11	Aliyapur	76	00	06	64
		95	00	00	20
		60	00	00	66
		59	00	27	71
		84	00	09	35
		61	00	02	99
		75	00	01	35
		73	00	19	42
		72	00	26	94
		70	00	02	63
		69	00	13	02
		99	00	00	37
		100	00	08	35
		96	00	08	48
		113	00	03	69
		112	00	00	60
		111	00	07	50
		110	00	10	30
		115	00	02	11
		128	00	12	17
		127	00	04	02
		126	00	00	10
		161	00	50	82
		160	00	00	71
		159	00	04	29
		158	00	08	70
		149	00	03	39
		157	00	14	57
		156	00	00	10
		152	00	07	75
		153	00	00	57
		141	00	08	82
		189	00	03	8
		208	00	05	80

	Aliyapur (Contd.)	207	00	01	44
		198	00	08	64
		203	00	09	67
		199	00	25	61
		194	00	00	61
		195	00	04	14
		196	00	00	89
11A	Bhatuamau	49	00	03	12
		55	00	00	10
		50	00	20	53
		53	00	14	50
		69	00	22	39
		70	00	07	35
		81	00	00	60
		82	00	00	37
		83	00	10	23
		84	00	24	22
		107	00	19	59
		109	00	00	15
		108	00	02	07
		114	00	00	39
		116/B	00	42	06
		118	00	00	38
		119	00	16	16
		122	00	00	82
		120	00	12	39
		121	00	00	10
		126	00	00	19
		127	00	00	19
		272	00	20	72
		272/338	00	00	30
		268/337	00	00	10
		268	00	03	66
		269/B	00	12	44
		265	00	23	18
11B	Vikrampur	201	00	00	84
		202	00	04	41
		216	00	11	49
		217	00	02	41
		218	00	12	73
		219	00	02	45
		220	00	03	83
		221	00	12	65
		226	00	01	40

12	Raipalpur	202	00	04	59
		203	00	10	00
		205	00	00	25
		206	00	01	07
		207	00	07	83
		208	00	07	65
		209	00	00	89
		210	00	02	10
		395	00	02	44
		396	00	04	07
		397	00	09	27
		400	00	01	50
		393	00	10	92
		401	0	0	49
		411	0	26	95
		410	00	00	54
		454	00	08	85
		453	00	00	20
		455	00	05	24
		456	00	03	97
		458	00	00	51
		459	00	11	16
		459	00	00	63
		464	00	12	87
		464	00	05	60
		348	0	8	29
		465	0	0	54
		473	0	0	10
		467	0	2	25
		466	0	8	50
		468	0	11	43
		690	0	0	57
		695	0	0	28
		691	0	6	35
		346	0	0	13
		345	0	2	66
		344	0	5	1
		343	0	3	6
		342	0	0	62
		338	0	0	65
		334	0	1	26
		335	0	15	35
		336	0	14	95
		337	0	1	36

13	Raipalpur (Contd.)	332	0	13	16
		331	0	12	57
		330	0	12	3
		329	0	0	31
		761	0	2	52
		327	0	1	1
		763	0	1	85
		762	0	0	32
		764	0	0	97
		1022	0	42	53
		766	0	7	7
		1021	0	6	52
		1032	0	17	64
		1034	0	0	99
		1035	0	5	0
		1036	0	24	4
		1037	0	0	37
		1044	0	8	91
		1048	0	4	82
		1053	0	0	36
		1000	0	19	76
	Gurgawan	49	0	7	82
		50	0	32	16
		54	0	0	66
		98	0	7	86
		99	0	3	77
		97	0	0	38
		100	0	5	80
		102	0	5	71
		101	0	5	88
		111	0	33	0
		112	0	10	35
		116	0	1	6
		117	0	5	48
		118	0	6	81
		129	0	20	81
		127	0	2	39
		134	0	0	36
		152	0	0	93
		153	0	13	39
		159	0	22	73
14	Rampur Gajara	9	0	22	17
		11	0	6	94
		15	0	14	40

Rampur Gajara (Contd.)	14	0	4	3
	23	0	0	20
	17	0	0	10
	68	0	4	84
	71	0	9	71
	70	0	0	10
	73	0	4	51
	74	0	0	20
	72	0	24	52
	97	0	0	40
	103	0	11	10
	105	0	22	4
	107	0	6	27
	108	0	4	98
	109	0	0	10
	152B	0	11	39
	153	0	0	20
	154	0	13	9
	155	0	0	46
	160	0	8	1
	159	0	1	59
	161	0	1	94
	169	0	10	16
	173	0	7	52
	172	0	12	16
	187	0	9	95

[F. No. 11025(11)/20/2018-OR-I/E-27595]

SANTANU DHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2019

का. आ. 538.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में टूण्डला टर्मिनल से कानपुर टर्मिनल तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन्स

प्रभाग, निर्माण कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन्स, टूण्डला - गौरिया पाइपलाइन परियोजना, ई-160, प्रथम व द्वितीय तल, कमला नगर, आगरा (यू.पी.) – 282004 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील – अकबरपुर

जिला – कानपुर देहात

राज्य – उत्तर प्रदेश

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	कारी कलवारी	232	00	00	29
		281	00	09	67
		280	00	00	57
		279	00	02	94
		244	00	17	99
		270	00	13	17
		269	00	00	12
		267	00	28	54
		266	00	00	31
		263	00	09	89
		262	00	01	84
		260	00	06	12
		261	00	00	15
		255	00	00	10
		258	00	06	84
		256	00	05	17
		257ख	00	01	63
		160	00	26	78
		413	00	00	18
		181	00	00	22
		164	00	00	35
		165	00	00	35
		161	00	24	24

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	कारी कलवारी (जारी)	162	00	01	31
		158	00	00	26
		157	00	10	23
		151	00	15	45
		141क	00	02	77
		141 ख	00	00	25
		539	00	10	43
		540	00	09	97
		541	00	01	62
		551	00	39	89
		601	00	00	49
		647	00	11	38
		639	00	09	15
		637	00	02	86
		638	00	05	60
		636	00	06	80
		634	00	06	37
		633	00	00	57
		617	00	00	73
		618	00	08	87
		619	00	04	33
		620	00	07	97
		613	00	03	69
		630	00	07	97
		629	00	03	31
		628	00	15	15
		656	00	14	72

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	कारी कलवारी (जारी)	658	00	00	27
2	भँवरपुर	16	00	12	48
		15	00	00	21
		14	00	10	37
		21	00	00	50
		20	00	09	54
		22	00	11	05
		28	00	03	91
		5	00	09	94
		29	00	27	28
		30	00	05	59
3	मुबारकपुरलाटा	457	00	09	54
		208	00	07	22
		456	00	24	36
		209	00	03	37
		454	00	00	27
		453	00	12	79
		483	00	07	08
		446	00	30	08
		443	00	00	70
		411	00	14	59
		410	00	23	46
		401	00	00	36
		399	00	11	06
		396	00	00	36
		397	00	00	36
		395	00	06	83

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
4	मुबारकपुरलाटा (जारी)	381	00	09	57
		380	00	13	68
		379	00	07	20
		378	00	08	79
		377	00	00	45
		582	00	00	36
		575	00	16	66
		574	00	09	35
		593	00	18	41
		598	00	16	89
		613	00	09	04
		615	00	13	02
		616	00	12	89
		617	00	00	54
		623	00	12	39
		632	00	00	71
		622	00	20	89
	चिरौरा	175	00	02	66
		174	00	01	77
		179	00	00	34
		180	00	20	61
		183	00	00	44
		168	00	00	90
		82	00	05	68
		81	00	00	20
		83	00	00	27
		86	00	22	76

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	चिरौरा (जारी)	91	00	08	44
		93	00	00	37
		97	00	08	76
		98	00	00	18
		100	00	00	31
		96	00	11	91
		94	00	22	25
		313	00	09	96
		314	00	00	10
		316	00	21	74
		338	00	17	20
		339	00	07	27
		371	00	14	66
		372	00	22	20
		373	00	04	96
		370	00	00	14
		368	00	07	39
		367	00	07	37
		366	00	01	17
		471	00	00	60
		475	00	00	10
		476	00	00	10
		478	00	05	58
		479	00	10	68
		480	00	00	15
		482	00	17	57
		533	00	00	54

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	चिरौरा (जारी)	583	00	02	50
		619	00	19	65
		625	00	09	56
		624	00	00	40
		622	00	07	74
		623	00	01	21
		620	00	00	10
		653	00	00	17
		681	00	07	40
		679	00	00	10
		680	00	10	15
		683	00	01	50
		675	00	11	88
		674	00	08	44
		685	00	00	41
		692	00	03	19
		693	00	06	81
		694	00	08	67
		696	00	06	78
		727	00	12	40
		730	00	08	28
		726	00	00	83
		731	00	12	57
		725	00	00	37
		733	00	01	46

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
5	रायपुर कुकहट	127	00	00	41
		265	00	01	39
		270	00	00	10
		268	00	21	74
		272	00	00	37
		275	00	11	80
		274	00	00	10
		280	00	13	23
		282	00	09	94
		283	00	12	55
		285	00	00	27
		289	00	08	35
		291	00	11	08
		292	00	00	64
		290	00	02	80
		294	00	21	60
		295	00	27	89
		325	00	07	84
		323	00	29	60
		321	00	12	20
		335	00	00	39
		346	00	21	67
		344	00	31	48
		450	00	11	87
		449	00	08	58
		452	00	13	96
		455	00	10	37

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	रायपुर कुकहट	457	00	04	62
		458	00	21	06
		467	00	03	60
		465	00	08	92
		464	00	11	90
		469	00	05	01
		463	00	02	35

[फा. सं. 11025(11)/20/2018-ओआर-I/ई-27595]

शान्तनु धर, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 2019

S.O. 538.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Tundla Terminal to Kanpur Terminal should be laid by Indian Oil Corporation Limited. and whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division), Construction Office, Northern Region Pipelines, Tundla-Gawria Pipeline Project, E-160, 1st & 2nd floor, Kamlanagar, Agra(U.P.) – 282 004.

SCHEDULE**Tehsil: Akbarpur****District: Kanpur Dehat****State : Uttar Pradesh**

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Kari Kalwari	232	00	00	29
		281	00	09	67
		280	00	00	57
		279	00	02	94
		244	00	17	99
		270	00	13	17
		269	00	00	12
		267	00	28	54
		266	00	00	31

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Kari Kalwari (Contd.)	267	00	10	59
		263	00	09	89
		262	00	01	84
		260	00	06	12
		261	00	00	15
		255	00	00	10
		258	00	06	84
		256	00	05	17
		257	00	01	63
		160	00	26	78
		413	00	00	18
		181	00	00	22
		164	00	00	35
		165	00	00	35
		161	00	24	24
		162	00	01	31
		158	00	00	26
		157	00	10	23
		151	00	15	45
		141A	00	02	77
		141 B	00	00	25
		539	00	10	43
		540	00	09	97
		541	00	01	62
		551	00	39	89
		601	00	00	49
		647	00	11	38
		639	00	09	15
		637	00	02	86
		638	00	05	60
		636	00	06	80
		634	00	06	37
		633	00	00	57
		617	00	00	73
		618	00	08	87
		619	00	04	33
		620	00	07	97
		613	00	03	69
		630	00	07	97
		629	00	03	31

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
2	Kari Kalwari (Contd.)	628	00	15	15
		656	00	14	72
		658	00	00	27
		16	00	12	48
		15	00	00	21
		14	00	10	37
		21	00	00	50
		20	00	09	54
		22	00	11	05
		28	00	03	91
		5	00	09	94
		29	00	27	28
		30	00	05	59
		457	00	09	54
3	Bhanwarpur	208	00	07	22
		456	00	24	36
		209	00	03	37
		454	00	00	27
		453	00	12	79
		483	00	07	08
		446	00	30	08
		443	00	00	70
		411	00	14	59
		410	00	23	46
		401	00	00	36
		399	00	11	06
		396	00	00	36
		397	00	00	36
		395	00	06	83
		381	00	09	57
		380	00	13	68
		379	00	07	20
		378	00	08	79
		377	00	00	45
	Mubarakpurlata	582	00	00	36
		575	00	16	66
		574	00	09	35
		593	00	18	41
		598	00	16	89
		613	00	09	04

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
4	Mubarakpurlata (Contd.)	615	00	13	02
		616	00	12	89
		617	00	00	54
		623	00	12	39
		632	00	00	71
		622	00	20	89
		175	00	02	66
		174	00	01	77
		179	00	00	34
		180	00	20	61
		183	00	00	44
		168	00	00	90
		82	00	05	68
		81	00	00	20
		83	00	00	27
		86	00	22	76
		91	00	08	44
		93	00	00	37
		97	00	08	76
		98	00	00	18
		100	00	00	31
		96	00	11	91
		94	00	22	25
		313	00	09	96
		314	00	00	10
		316	00	21	74
		338	00	17	20
		339	00	07	27
		371	00	14	66
		372	00	22	20
		373	00	04	96
		370	00	00	14
		368	00	07	39
		367	00	07	37
		366	00	01	17
		471	00	00	60
		475	00	00	10
		476	00	00	10
		478	00	05	58
		479	00	10	68

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Chiraura (Contd.)	480	00	00	15
		482	00	17	57
		533	00	00	54
		583	00	02	50
		619	00	19	65
		625	00	09	56
		624	00	00	40
		622	00	07	74
		623	00	01	21
		620	00	00	10
		653	00	00	17
		681	00	07	40
		679	00	00	10
		680	00	10	15
		683	00	01	50
		675	00	11	88
		674	00	08	44
		685	00	00	41
		692	00	03	19
		693	00	06	81
		694	00	08	67
		696	00	06	78
		727	00	12	40
		730	00	08	28
		726	00	00	83
		731	00	12	57
		725	00	00	37
		733	00	01	46
5	Raypur Kukhat	127	00	00	41
		265	00	01	39
		270	00	00	10
		268	00	21	74
		272	00	00	37
		275	00	11	80
		274	00	00	10
		280	00	13	23
		282	00	09	94
		283	00	12	55
		285	00	00	27
		289	00	08	35

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Raypur Kukhat (Contd.)	291	00	11	08
		292	00	00	64
		290	00	02	80
		294	00	21	60
		295	00	27	89
		325	00	07	84
		323	00	29	60
		321	00	12	20
		335	00	00	39
		346	00	21	67
		344	00	31	48
		450	00	11	87
		449	00	08	58
		452	00	13	96
		455	00	10	37
		457	00	04	62
		458	00	21	06
		467	00	03	60
		465	00	08	92
		464	00	11	90
		469	00	05	01
		463	00	02	35

[F. No. 11025(11)/20/2018-OR-I/E-27595]

SANTANU DHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2019

का. आ. 539.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में टूण्डला टर्मिनल से कानपुर टर्मिनल तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन्स

प्रभाग, निर्माण कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन्स, टूण्डला - गौरिया पाइपलाइन परियोजना, ई-160, प्रथम व द्वितीय तल, कमला नगर, आगरा (यू.पी.) – 282004 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील – कानपुर सदर

जिला – कानपुर नगर

राज्य – उत्तर प्रदेश

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	गदन खेडा	199	00	04	78
		198	00	04	29
		199	00	00	19
		200	00	19	33
		228	00	05	46
		201	00	00	11
		227	00	19	82
		223	00	13	79
		225	00	17	89
		216	00	00	11
		214	00	07	46
		213	00	00	10
2	बितौर	828	00	00	62
		827	00	26	37
		830	00	09	80
		826	00	10	11
		833	00	29	83
		834	00	11	97
		901	00	20	97
		902	00	18	03
		900	00	00	68
		904	00	23	10
		918	00	35	03

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	बितौर	919	00	18	81
		941	00	00	88
		941	00	12	30
		930	00	14	64
		940	00	07	46
		938	00	15	82
		937	00	01	25
		1157	00	22	54
		1159	00	04	06
		1160	00	00	10
		1154	00	11	04
		1155	00	07	20
		1136	00	00	20
		1126	00	22	51
		1127	00	04	76
		1117	00	00	22
		1115	00	05	92
		1114	00	20	43
		1112	00	00	39
		1110	00	18	09
		1111	00	00	10
		1639	00	18	37
		1641	00	00	85
		1642	00	11	55
		1643	00	06	36
		1648	00	00	25
		1662	00	08	10

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	बितौर	1686	00	00	24
		1687	00	21	46
		1688	00	10	37
		1689	00	05	76
		1690	00	06	91
		1802	00	07	65
		1800	00	08	52
		1801	00	12	25
		1794	00	16	83
		2535	00	09	61
		2540	00	01	10
		3307	00	12	13
		3304	00	16	01
		3308	00	01	52
		3311	00	00	16
		3317	00	00	36
		3321	00	36	28
		3341	00	02	18
		3344	00	14	90
		3342	00	12	91
		3429	00	00	43
		3434	00	05	93
		3435	00	01	42
		3436	00	06	29
		3433	00	00	36
		3432	00	13	58
		3440	00	00	20

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	बिनौर (जारी...)	3431	00	20	19
		3453	00	00	36
		3454	00	19	31
		3456	00	11	69
		3457	00	13	21
		3470	00	04	37
		3476	00	13	18
		3477	00	01	53
		3479	00	07	01
		3482	00	00	36
		3547	00	15	93
		3546	00	00	10
		3548	00	38	44
		3576	00	08	48
		3577	00	06	49
		3575	00	13	58
		3578	00	00	10
		3701	00	07	65
		3702	00	06	93
		3703	00	07	60
		3704	00	08	94
		3705	00	00	14
		3710	00	13	99
		3737	00	12	24
		3738	00	00	36
		3740	00	12	04
		3754	00	03	31

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	बिनौर (जारी...)	3753	00	10	55
		3756	00	00	10
		3751	00	10	69
		3749	00	02	16
		3750	00	12	04
		3983	00	28	52
		3986	00	13	60
		3987	00	03	57
		3980	00	16	55
		4056	00	28	83
		4054	00	00	10
		4057	00	27	44
		4058	00	00	10
		4063	00	00	10
3	भैरमपुर	475	00	03	05
		476	00	09	68
		477	00	15	43
		479	00	19	20
		480	00	03	12
		487	00	15	75
		491	00	00	48
		490	00	00	60
4	उदयपुर	155	00	17	95
		156	00	09	67
		182	00	00	53
		181	00	12	84
		180	00	46	91

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	उदयपुर	198	00	16	83
		223	00	09	67
		233	00	09	39
		229	00	00	36
		232	00	02	87
		231	00	09	71
		237/1404	00	02	78
		251	00	17	47
		237	00	16	50
		249	00	01	89
		246	00	08	81
		276	00	32	29
		275	00	08	79
		803	00	11	28
		804	00	00	10
		797	00	19	19
		800	00	01	74
		781	00	01	40
		784	00	22	36
		782	00	00	54
		783	00	07	70
		782	00	00	10
		786	00	05	00
		776	00	09	74
		874	00	10	07
		881	00	26	05
		884	00	23	22

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	उदयपुर (जारी...)	883	00	00	10
		885	00	28	89
		911	00	08	80
		912	00	17	00
		909	00	00	10
		908	00	09	75
		899	00	02	41
		900	00	21	42
		906	00	02	61
		901	00	17	93
		902	00	12	19
		1271	00	20	45
		1269	00	12	80
		1268	00	12	95
		1267	00	27	16
		1218	00	01	22
		1219	00	07	86
		1220	00	06	89
		1254	00	22	37
		1253	00	16	91
		1226	00	04	95
		1225	00	36	46
5	सीढी	1158	00	30	89
		1157	00	00	47
		1143	00	08	67
		1142	00	08	09
		1140	00	07	49

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	सीढी (जारी...)	1129	00	05	03
		1133	00	00	46
		1131	00	00	10
		1132	00	05	31
		1134	00	06	06
		1135	00	01	79
		1079	00	12	40
		1072	00	03	75
		1071	00	17	49
		1056	00	27	20
		1057	00	04	38
		950	00	20	73
		879	00	29	93
		876	00	02	17
		880	00	18	99
		865	00	12	39
		868	00	17	51
		867	00	07	89
		851	00	03	48
		854	00	12	09
		855	00	08	06
		856	00	16	28
		823	00	00	14
		822	00	00	12
		821	00	08	62
		820	00	03	43
		819	00	06	64

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	सीढी (जारी...)	818	00	00	10
		638	00	00	60
6	जादौपुर	217	00	02	82
		218	00	14	18
		214	00	20	72
		223	00	00	77
		224	00	09	32
		225	00	05	89
		227	00	21	55
		228	00	06	52
		231	00	15	13
		230	00	08	18
		232	00	07	09
		237	00	11	18
		238	00	07	33
		242	00	04	51
		239	00	03	13
		240	00	05	84
7	जामू	763	00	06	49
		765	00	00	10
		766	00	03	89
		767	00	00	69
		768	00	10	01
		769	00	09	54
		770	00	10	40
		797	00	10	64
		796	00	00	73

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	जामू (जारी...)	795	00	00	18
		793	00	06	57
		798	00	06	54
		792	00	01	27
		791	00	01	38
		790	00	10	62
		836	00	14	56
		837	00	12	07
		829	00	08	43
		828	00	17	68
		845	00	36	46
		847	00	00	10
		846	00	00	13
		871	00	29	40
		917	00	01	00
		918	00	00	23
		916	00	06	58
		958	00	21	07
		959	00	07	13
		960	00	08	73
		962	00	25	26
		1067	00	31	29
		1192	00	09	95
		1193	00	09	80
		1200	00	11	03
		1187	00	15	52
		1186	00	24	55

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	जामू (जारी...)	1185	00	04	17
		1180	00	05	99
		1208	00	05	01
		1209	00	04	40
		1210	00	01	22
		1218	00	23	09
		1219	00	00	37
		1220	00	10	44
		1221	00	19	36
		1222	00	02	18
		1228	00	02	40
		1256	00	00	61
		1234	00	17	45
		1235	00	10	68
		1254	00	18	65
		1709	00	07	43
		1830	00	00	36
		1831	00	05	31
		1833	00	17	48
8	विधनू	11	00	08	73
		17	00	00	13
		18	00	12	88
		21	00	15	11
		19	00	10	57
		20	00	00	10
		28	00	00	53
		29	00	02	59

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	बिधनू (जारी...)	30	00	11	60
		287	00	00	37
		438	00	03	50
		436	00	02	14
		290	00	27	19
		429	00	06	63
		435	00	00	80
		430	00	09	38
		427	00	00	85
		431	00	04	43
		432	00	04	63
		426	00	13	51
		423	00	00	37
		355	00	19	28
		353	00	08	42
		313	00	09	18
		352	00	23	43
9	खेरसा	13	00	30	69
		12	00	10	35
		20	00	00	10
		21	00	00	18
		9	00	04	33
		10	00	00	10
		8	00	06	38
		7	00	06	39
		6	00	03	39
		23	00	00	82

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	खेरसा (जारी...)	30	00	00	58
		51	00	06	43
		52	00	03	79
		49	00	11	50
		47	00	22	24
		48	00	01	25
		46	00	06	09
		174	00	23	83
		188	00	05	44
		189	00	12	84
		190	00	03	61
		192	00	08	42
		193	00	01	73
		196	00	01	60
		195	00	16	38
10	अफजलपुर	179	00	05	20
		203	00	16	27
		202	00	10	65
		197	00	21	28
		194	00	34	29
		194/207	00	00	94
11	लुधौरी	219	00	01	00
		215	00	00	24
		202	00	14	14
		204	00	16	08
		200	00	11	11
		207	00	05	84

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
12	लुधौरी (जारी...)	208	00	14	83
		209	00	02	62
		210	00	10	46
		213	00	06	80
		194	00	06	84
		231	00	00	10
		193	00	21	69
		192	00	13	81
		188	00	17	92
		187	00	06	99
		106	00	05	58
	हाजीपुर	176	00	04	31
		175	00	00	43
		174	00	13	62
		173	00	01	40
		166	00	12	07
		165	00	08	32
		162	00	10	74
		148	00	00	63
		163	00	00	35
		147	00	00	62
		149	00	14	36
		141	00	16	76
		140	00	04	03
		137	00	28	88
		138	00	00	10
		132	00	02	38

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	हाजीपुर (जारी...)	131	00	23	28
		128	00	03	14
		39	00	38	05
		17	00	16	42
		32	00	00	13
		18ब	00	23	38
		19	00	00	28
		20	00	22	07
		21	00	00	35
13	बाजपुर	213	00	02	53
14	भारू	307	00	00	10
		288	00	00	51
		297	00	16	86
		298	00	10	90
		296	00	00	49
		295	00	04	92
		299	00	00	43
		300	00	00	44
		301	00	00	90
		313	00	00	41
		315	00	19	39
		314	00	08	00
		316	00	12	94
		332	00	08	89
		320	00	00	16
		321	00	14	79
		329	00	01	01

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	भारू (जारी...)	328	00	01	36
		327	00	01	13
		326	00	00	61
		325	00	00	10
		246	00	22	94
		244	00	14	76
		243	00	00	53
		239	00	14	67
		484	00	00	30
		482	00	31	60
		486	00	00	44
		489	00	03	14
		487	00	06	12
		488	00	00	46
		474	00	26	88
		471	00	12	24
		469	00	04	39
		514	00	00	56
		529	00	02	57
		528	00	09	31
		530	00	05	54
		532	00	02	65
		531	00	08	52
		698	00	07	09
		697	00	09	71
		695	00	00	21
		696	00	02	11

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	भारू (जारी...)	694	00	11	88
		693	00	06	14
		772	00	14	44
		773	00	02	59
		774	00	01	88
		775	00	09	51
		776	00	14	52
		652	00	15	78

[फा. सं. 11025(11)/20/2018-ओआर-1/ई-27595]

शान्तनु धर, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 2019

S.O. 539.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Tundla Terminal to Kanpur Terminal should be laid by Indian Oil Corporation Limited. And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division), Construction Office, Northern Region Pipelines, Tundla-Gawria Pipeline Project, E-160,1st & 2nd floor, Kamlanagar, Agra(U.P.) – 282 004.

SCHEDULE**Tehsil:- Kanpur Sadar****District:- Kanpur Nagar****State :- Uttar Pradesh**

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Gadan Khera	199	00	04	78
		198	00	04	29
		199	00	00	19
		200	00	19	33
		228	00	05	46
		201	00	00	11

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Gadan Khera (Contd.)	227	00	19	82
		223	00	13	79
		225	00	17	89
		216	00	00	11
		214	00	07	46
		213	00	00	10
2	Binour	828	00	00	62
		827	00	26	37
		830	00	09	80
		826	00	10	11
		833	00	29	83
		834	00	11	97
		901	00	20	97
		902	00	18	03
		900	00	00	68
		904	00	23	10
		918	00	35	03
		919	00	18	81
		941	00	00	88
		941	00	12	30
		930	00	14	64
		940	00	07	46
		938	00	15	82
		937	00	01	25
		1157	00	22	54
		1159	00	04	06
		1160	00	00	10
		1154	00	11	04
		1155	00	07	20
		1136	00	00	20

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Binour (Contd.)	1126	00	22	51
		1127	00	04	76
		1117	00	00	22
		1115	00	05	92
		1114	00	20	43
		1112	00	00	39
		1110	00	18	09
		1111	00	00	10
		1639	00	18	37
		1641	00	00	85
		1642	00	11	55
		1643	00	06	36
		1648	00	00	25
		1662	00	08	10
		1686	00	00	24
		1687	00	21	46
		1688	00	10	37
		1689	00	05	76
		1690	00	06	91
		1802	00	07	65
		1800	00	08	52
		1801	00	12	25
		1794	00	16	83
		2535	00	09	61
		2540	00	01	10
		3307	00	12	13
		3304	00	16	01
		3308	00	01	52
		3311	00	00	16
		3317	00	00	36

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Binour (Contd.)	3321	00	36	28
		3341	00	02	18
		3344	00	14	90
		3342	00	12	91
		3429	00	00	43
		3434	00	05	93
		3435	00	01	42
		3436	00	06	29
		3433	00	00	36
		3432	00	13	58
		3440	00	00	20
		3431	00	20	19
		3453	00	00	36
		3454	00	19	31
		3456	00	11	69
		3457	00	13	21
		3470	00	04	37
		3476	00	13	18
		3477	00	01	53
		3479	00	07	01
		3482	00	00	36
		3547	00	15	93
		3546	00	00	10
		3548	00	38	44
		3576	00	08	48
		3577	00	06	49
		3575	00	13	58
		3578	00	00	10
		3701	00	07	65
		3702	00	06	93

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Binour (Contd.)	3703	00	07	60
		3704	00	08	94
		3705	00	00	14
		3710	00	13	99
		3737	00	12	24
		3738	00	00	36
		3740	00	12	04
		3754	00	03	31
		3753	00	10	55
		3756	00	00	10
		3751	00	10	69
		3749	00	02	16
		3750	00	12	04
		3983	00	28	52
		3986	00	13	60
		3987	00	03	57
		3980	00	16	55
		4056	00	28	83
		4054	00	00	10
		4057	00	27	44
		4058	00	00	10
		4063	00	00	10
3	Bhairampur	475	00	03	05
		476	00	09	68
		477	00	15	43
		479	00	19	20
		480	00	03	12
		487	00	15	75
		491	00	00	48
		490	00	00	60

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
4	Udaypur	155	00	17	95
		156	00	09	67
		182	00	00	53
		181	00	12	84
		180	00	46	91
		198	00	16	83
		223	00	09	67
		233	00	09	39
		229	00	00	36
		232	00	02	87
		231	00	09	71
		237/1404	00	02	78
		251	00	17	47
		237	00	16	50
		249	00	01	89
		246	00	08	81
		276	00	32	29
		275	00	08	79
		803	00	11	28
		804	00	00	10
		797	00	19	19
		800	00	01	74
		781	00	01	40
		784	00	22	36
		782	00	00	54
		783	00	07	70
		782	00	00	10
		786	00	05	00
		776	00	09	74
		874	00	10	07

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Udaypur (Contd.)	881	00	26	05
		884	00	23	22
		883	00	00	10
		885	00	28	89
		911	00	08	80
		912	00	17	00
		909	00	00	10
		908	00	09	75
		899	00	02	41
		900	00	21	42
		906	00	02	61
		901	00	17	93
		902	00	12	19
		1271	00	20	45
		1269	00	12	80
		1268	00	12	95
		1267	00	27	16
		1218	00	01	22
		1219	00	07	86
		1220	00	06	89
		1254	00	22	37
		1253	00	16	91
		1226	00	04	95
		1225	00	36	46
5	Sidhi	1158	00	30	89
		1157	00	00	47
		1143	00	08	67
		1142	00	08	09
		1140	00	07	49
		1129	00	05	03

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Sidhi (Contd.)	1133	00	00	46
		1131	00	00	10
		1132	00	05	31
		1134	00	06	06
		1135	00	01	79
		1079	00	12	40
		1072	00	03	75
		1071	00	17	49
		1056	00	27	20
		1057	00	04	38
		950	00	20	73
		879	00	29	93
		876	00	02	17
		880	00	18	99
		865	00	12	39
		868	00	17	51
		867	00	07	89
		851	00	03	48
		854	00	12	09
		855	00	08	06
		856	00	16	28
		823	00	00	14
		822	00	00	12
		821	00	08	62
		820	00	03	43
		819	00	06	64
		818	00	00	10
		638	00	00	60
6	Jadavpur	217	00	02	82
		218	00	14	18

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Jadavpur (Contd.)	214	00	20	72
		223	00	00	77
		224	00	09	32
		225	00	05	89
		227	00	21	55
		228	00	06	52
		231	00	15	13
		230	00	08	18
		232	00	07	09
		237	00	11	18
		238	00	07	33
		242	00	04	51
		239	00	03	13
		240	00	05	84
7	Jamoo	763	00	06	49
		765	00	00	10
		766	00	03	89
		767	00	00	69
		768	00	10	01
		769	00	09	54
		770	00	10	40
		797	00	10	64
		796	00	00	73
		795	00	00	18
		793	00	06	57
		798	00	06	54
		792	00	01	27
		791	00	01	38
		790	00	10	62
		836	00	14	56

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Jamoo (Contd.)	837	00	12	07
		829	00	08	43
		828	00	17	68
		845	00	36	46
		847	00	00	10
		846	00	00	13
		871	00	29	40
		917	00	01	00
		918	00	00	23
		916	00	06	58
		958	00	21	07
		959	00	07	13
		960	00	08	73
		962	00	25	26
		1067	00	31	29
		1192	00	09	95
		1193	00	09	80
		1200	00	11	03
		1187	00	15	52
		1186	00	24	55
		1185	00	04	17
		1180	00	05	99
		1208	00	05	01
		1209	00	04	40
		1210	00	01	22
		1218	00	23	09
		1219	00	00	37
		1220	00	10	44
		1221	00	19	36
		1222	00	02	18

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Jamoo (Contd.)	1228	00	02	40
		1256	00	00	61
		1234	00	17	45
		1235	00	10	68
		1254	00	18	65
		1709	00	07	43
		1830	00	00	36
		1831	00	05	31
		1833	00	17	48
8	Bidhnoo	11	00	08	73
		17	00	00	13
		18	00	12	88
		21	00	15	11
		19	00	10	57
		20	00	00	10
		28	00	00	53
		29	00	02	59
		30	00	11	60
		287	00	00	37
		438	00	03	50
		436	00	02	14
		290	00	27	19
		429	00	06	63
		435	00	00	80
		430	00	09	38
		427	00	00	85
		431	00	04	43
		432	00	04	63
		426	00	13	51
		423	00	00	37

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Bidhnoo (Contd.)	355	00	19	28
		353	00	08	42
		313	00	09	18
		352	00	23	43
9	Khersa	13	00	30	69
		12	00	10	35
		20	00	00	10
		21	00	00	18
		9	00	04	33
		10	00	00	10
		8	00	06	38
		7	00	06	39
		6	00	03	39
		23	00	00	82
		30	00	00	58
		51	00	06	43
		52	00	03	79
		49	00	11	50
		47	00	22	24
		48	00	01	25
		46	00	06	09
		174	00	23	83
		188	00	05	44
		189	00	12	84
		190	00	03	61
		192	00	08	42
		193	00	01	73
		196	00	01	60
		195	00	16	38
10	Afjalpur	179	00	05	20
		203/A	00	16	27

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Afjalpur (Contd.)	202	00	10	65
		197	00	21	28
		194	00	34	29
		194/207	00	00	94
11	Ludhauri	219	00	01	00
		215	00	00	24
		202	00	14	14
		204	00	16	08
		200	00	11	11
		207	00	05	84
		208	00	14	83
		209	00	02	62
		210	00	10	46
		213	00	06	80
		194	00	06	84
		231	00	00	10
		193	00	21	69
		192	00	13	81
		188	00	17	92
		187	00	06	99
		106	00	05	58
12	Hajipur	176	00	04	31
		175	00	00	43
		174	00	13	62
		173	00	01	40
		166	00	12	07
		165	00	08	32
		162	00	10	74
		148	00	00	63
		163	00	00	35

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Hajipur (Contd.)	147	00	00	62
		149	00	14	36
		141	00	18	17
		140	00	04	66
		137	00	28	88
		139	00	00	37
		139/554	00	01	06
		138	00	07	50
		415	00	07	12
		132	00	02	38
		131	00	32	29
		128	00	03	14
		39	00	38	05
		17	00	16	42
		32	00	00	13
		18	00	23	38
		19	00	00	28
		20	00	22	07
		21	00	00	35
13	Bajpur	213	00	02	53
14	Bharu	307	00	00	10
		288	00	00	51
		297	00	16	86
		298	00	10	90
		296	00	00	49
		295	00	04	92
		299	00	00	43
		300	00	00	44
		301	00	00	90
		313	00	00	41

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Bharu (Contd.)	315	00	19	39
		314	00	08	00
		316	00	12	94
		332	00	08	89
		320	00	00	16
		321	00	14	79
		329	00	01	01
		328	00	01	36
		327	00	01	13
		326	00	00	61
		325	00	00	10
		246	00	22	94
		244	00	14	76
		243	00	00	53
		239	00	14	67
		484	00	00	30
		482	00	31	60
		486	00	00	44
		489	00	03	14
		487	00	06	12
		488	00	00	46
		474	00	26	88
		471	00	12	24
		469	00	04	39
		514	00	00	56
		529	00	02	57
		528	00	09	31
		530	00	05	54
		532	00	02	65
		531	00	08	52

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Bharu (Contd.)	698	00	07	09
		697	00	09	71
		695	00	00	21
		696	00	02	11
		694	00	11	88
		693	00	06	14
		772	00	14	44
		773	00	02	59
		774	00	01	88
		775	00	09	51
		776	00	14	52
		652	00	15	78

[F. No. 11025(11)/20/2018-OR-I/E-27595]

SANTANU DHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2019

का. आ. 540.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में टूण्डला टर्मिनल से कानपुर टर्मिनल तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन्स प्रभाग, निर्माण कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन्स, टूण्डला - गौरिया पाइपलाइन परियोजना, ई-160, प्रथम व द्वितीय तल, कमला नगर, आगरा (यू.पी.) - 282004 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील – नरवल

जिला – कानपुर नगर

राज्य – उत्तर प्रदेश

क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1.	पिपरगवां	518	00	21	97
		517	00	08	40
		515	00	01	90
		521	00	02	39
		512	00	00	80
		511	00	03	66
		524	00	29	82
		526	00	21	24
		525	00	01	79
		529	00	01	20
		530	00	12	52
		581	00	05	82
		533	00	13	16
		552	00	00	21
		554	00	01	68
		559	00	00	93
		558	00	00	10
		553	00	11	53
		555	00	00	30
		557	00	10	93
		561	00	00	69
		483	00	20	08
		478	00	01	62
		677	00	15	79
		678	00	14	05
		473	00	01	35
		389	00	08	28
		390	00	18	63
		391	00	27	45
		392	00	09	07
		393	00	00	10
		394	00	00	12
		472	00	08	91
		467	00	12	32

तहसील – नरवल		जिला – कानपुर नगर	राज्य – उत्तर प्रदेश		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	पिपरगवां (जारी)	464	00	03	67
		465	00	09	52
		458	00	12	59
		457	00	02	40
		456	00	00	10
		451	00	19	88
		424	00	11	60
		1395	00	05	93
		1396	00	17	99
		1397	00	04	35
		194	00	32	12
		1402	00	20	32
		1404	00	07	11
		1405	00	04	09
		1445	00	02	06
		1417	00	03	86
		1415	00	04	47
		1420	00	04	58
		1414	00	03	22
		1413	00	00	10
		1769	00	24	43
		1778	00	07	92
		1776	00	06	96
		1771	00	03	78
		1773	00	04	89
		1774	00	00	33
		1794	00	14	64
		1793	00	00	63
		1792	00	09	63
		1841	00	14	12
		1798	00	06	73
		1800	00	02	38
		1840	00	09	20
		1838	00	05	50
		1837	00	00	51
		1839	00	08	23

तहसील – नरवल		जिला – कानपुर नगर	राज्य – उत्तर प्रदेश		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	पिपरगवां	1835	00	11	69
		1834	00	02	19
		1826	00	22	68
		1825	00	00	98
		1824	00	02	09
		1822	00	19	21
		1981	00	01	74
		1980	00	02	18
		1979	00	07	05
		1978	00	09	90
		1976	00	00	62
		1974	00	07	53
		1983	00	15	39
		1972	00	14	32
		2185	00	00	47
		2178	00	00	44
		2179	00	07	68
		2183	00	06	49
		2181	00	01	66
		2182	00	08	87
		2208	00	07	28
		2209	00	09	97
		2210	00	07	55
		2211	00	00	49
		2212	00	01	32
		2218	00	03	10
		2227	00	07	53
		2225	00	02	89
		2241	00	05	41
		2243	00	00	41
		2240	00	15	04
		2238	00	16	02
		2233	00	00	36
		2119	00	09	37
		2117	00	04	81
		2118	00	12	47

तहसील – नरवल		जिला – कानपुर नगर	राज्य – उत्तर प्रदेश		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	पिपरगवां	2114	00	09	41
		2079	00	20	13
		2080	00	16	69
2.	जरकलां	664	00	01	96
		667	00	00	10
		666	00	31	56
		669	00	20	88
		670	00	18	62
		671	00	07	29
		676	00	16	26
		689	00	04	82
		690	00	00	58
		691	00	30	13
		693	00	00	56
		700	00	01	25
		698	00	02	36
		696	00	01	60
		697	00	05	33
		695	00	00	74
		694	00	03	73
		706	00	09	53
		708	00	01	61
		711	00	22	56
		715	00	00	60
		714	00	01	97
		717	00	06	10
		718	00	26	04
		760	00	15	83
		758	00	04	81
		756	00	07	25
		748	00	08	02
		745	00	00	12
		746	00	10	06
		744	00	00	14
		741	00	05	11
		743	00	16	91

तहसील – नरवल		जिला – कानपुर नगर	राज्य – उत्तर प्रदेश		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
		742	00	05	04
3.	उचटी	872	00	18	15
		871	00	00	10
		881	00	05	83
		898	00	10	38
		896	00	07	09
		905	00	06	90
		910	00	20	30
		912	00	00	10
		768	00	05	62
		935	00	01	61
		936	00	13	32
		937	00	06	13
		938	00	05	43
		939	00	03	99
		940	00	04	08
		941	00	03	10
		933	00	06	78
		768	00	03	13
		699	00	04	63
		700	00	01	61
		698	00	03	63
		701	00	01	47
		696	00	04	16
		695	00	00	13
		702	00	02	13
		712	00	00	75
		704	00	11	35
		705	00	00	12
		707	00	01	96
		706	00	09	75
		686	00	11	89
		683	00	00	38
		684	00	07	29
		685	00	00	60

तहसील – नरवल			जिला – कानपुर नगर			राज्य – उत्तर प्रदेश		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
			4	5	6			
4.	गौरिया	247	00	03	27			
		243	00	00	28			
		11	00	00	07			
		15	00	01	35			
		16	00	09	68			
		5	00	00	26			
		42	00	05	29			

[फा. सं. 11025(11)/20/2018-ओआर-1/ई-27595]

शान्तनु धर, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 2019

S.O. 540.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Tundla Terminal to Kanpur Terminal should be laid by Indian Oil Corporation Limited. And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division), Construction Office, Northern Region Pipelines, Tundla-Gawria Pipeline Project, E-160,1st & 2nd floor, Kamlanagar, Agra (U.P.) – 282 004.

SCHEDULE**Tehsil:- Narwal****District:- Kanpur Nagar****State :- Uttar Pradesh**

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Pipar Gawan	518	00	21	97
		517	00	08	40
		515	00	01	90
		521	00	02	39
		512	00	00	80
		511	00	03	66
		524	00	29	82
		526	00	21	24
		525	00	01	79
		529	00	01	20
		530	00	12	52
		581	00	05	82

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Pipar Gawan	533	00	13	16
		552	00	00	21
		554	00	01	68
		559	00	00	93
		558	00	00	10
		553	00	11	53
		555	00	00	30
		557	00	10	93
		561	00	00	69
		483	00	20	08
		478	00	01	62
		677	00	15	79
		678	00	14	05
		473	00	01	35
		389	00	08	28
		390	00	18	63
		391	00	27	45
		392	00	09	07
		393	00	00	10
		394	00	00	12
		472	00	08	91
		467	00	12	32
		464	00	03	67
		465	00	09	52
		458	00	12	59
		457	00	02	40
		456	00	00	10
		451	00	19	88
		424	00	11	60
		1395	00	05	93
		1396	00	17	99
		1397	00	04	35
		194	00	32	12
		1402	00	20	32
		1404	00	07	11
		1405	00	04	09
		1445	00	02	06
		1417	00	03	86
		1415	00	04	47
		1420	00	04	58

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
	Pipar Gawan	1414	00	03	22
		1413	00	00	10
		1769	00	24	43
		1778	00	07	92
		1776	00	06	96
		1771	00	03	78
		1773	00	04	89
		1774	00	00	33
		1794	00	14	64
		1793	00	00	63
		1792	00	09	63
		1841	00	14	12
		1798	00	06	73
		1800	00	02	38
		1840	00	09	20
		1838	00	05	50
		1837	00	00	51
		1839	00	08	23
		1835	00	11	69
		1834	00	02	19
		1826	00	22	68
		1825	00	00	98
		1824	00	02	09
		1822	00	19	21
		1981	00	01	74
		1980	00	02	18
		1979	00	07	05
		1978	00	09	90
		1976	00	00	62
		1974	00	07	53
		1983	00	15	39
		1972	00	14	32
		2185	00	00	47
		2178	00	00	44
		2179	00	07	68
		2183	00	06	49
		2181	00	01	66
		2182	00	08	87
		2208	00	07	28
		2209	00	09	97

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
2	Pipar Gawan	2210	00	07	55
		2211	00	00	49
		2212	00	01	32
		2218	00	03	10
		2227	00	07	53
		2225	00	02	89
		2241	00	05	41
		2243	00	00	41
		2240	00	15	04
		2238	00	16	02
		2233	00	00	36
		2119	00	09	37
		2117	00	04	81
		2118	00	12	47
		2114	00	09	41
		2079	00	20	13
		2080	00	16	69
	Jarkalan	664	00	01	96
		667	00	00	10
		666	00	31	56
		669	00	20	88
		670	00	18	62
		671	00	07	29
		676	00	16	26
		689	00	04	82
		690	00	00	58
		691	00	30	13
		693	00	00	56
		700	00	01	25
		698	00	02	36
		696	00	01	60
		697	00	05	33
		695	00	00	74
		694	00	03	73
		706	00	09	53
		708	00	01	61
		711	00	22	56
		715	00	00	60
		714	00	01	97
		717	00	06	10

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
3	Jarkalan	718	00	26	04
		760	00	15	83
		758	00	04	81
		756	00	07	25
		748	00	08	02
		745	00	00	12
		746	00	10	06
		744	00	00	14
		741	00	05	11
		743	00	16	91
		742	00	05	04
	Uchati	872	00	18	15
		871	00	00	10
		881	00	05	83
		898	00	10	38
		896	00	07	09
		905	00	06	90
		910	00	20	30
		912	00	00	10
		768	00	05	62
		935	00	01	61
		936	00	13	32
		937	00	06	13
		938	00	05	43
		939	00	03	99
		940	00	04	08
		941	00	03	10
		933	00	06	78
		768	00	03	13
		699	00	04	63
		700	00	01	61
		698	00	03	63
		701	00	01	47
		696	00	04	16
		695	00	00	13
		702	00	02	13
		712	00	00	75
		704	00	11	35
		705	00	00	12
		707	00	01	96

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
4	Uchati	706	00	09	75
		686	00	11	89
		683	00	00	38
		684	00	07	29
		685	00	00	60
	Gawria	247	00	03	27
		243	00	00	28
		11	00	00	07
		15	00	01	35
		16	00	09	68
		5	00	00	26
		42	00	05	29

[F. No. 11025(11)/20/2018-OR-I/E-27595]

SANTANU DHAR, Under Secy.

शुद्धि – पत्र

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2019

का.आ. 541.—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962, (1962 का 50), की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में तारीख 13 जून 2017 को भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 1689 में प्रकाशित, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1902 (अ), 6 जून 2017 में निम्नलिखित रूप से संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, संख्याओं और शब्दों के स्थान पर

“श्री ए. बी. मोहेकर,

सक्षम अधिकारी

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड,

कोयली-अहमदनगर-सोलापुर पाइपलाइन परियोजना,

द्वितीय तल, 4/1, वरद संकुल,

नंदगाँव रोड, मनमाड,

महाराष्ट्र- 423104

संख्याओं और शब्दों के स्थान पर,

“श्री ए. बी. मोहेकर,

सक्षम अधिकारी

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड,

कोयली-अहमदनगर-सोलापुर पाइपलाइन परियोजना,

सर्वे न. 359/अ/7, प्लॉट-8,

विवेकानंद नगर-2, मनमाड (नासिक),
महाराष्ट्र- 423104

पढ़ा जाए।

[फा. सं. आर-11025(11) 239/2017-ओआर-I/ई-13892]

शान्तनु धर, अवर सचिव

ERRATUM

New Delhi, the 3rd April, 2019

S.O. 541 .—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas. S.O. No 1902(E) dated 06 June 2017, published in the Extra Ordinary Gazette of India No. 1689 dated 13 June, 2017 namely:-

In the said notification, for the numbers and words,

“Shri A. B. Mohekar,
Competent Authority,
Indian Oil Corporation Limited,
Koyali-Ahmednagar-Solapur Pipeline Project,
2nd Floor, 4/1, Varad Sankul
Nandgaon Road, Manmad,
Maharashtra-423104”

the numbers and words,

“Shri A. B. Mohekar,
Competent Authority,
Indian Oil Corporation Limited,
Koyali-Ahmednagar-Solapur Pipeline Project,
Survey No. 359/A/7, Plot-8,
Vivekanand Nagar-2, Manmad (Nashik),
Maharashtra-423104”

shall be substituted.

[F. No. R-11025(11)239/2017-OR-I/E-13892]

SANTANU DHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2019

का.आ. 542.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1096 तारीख 17 जुलाई, 2018 जो भारत के राजपत्र क्रमांक 29, तारीख 22 जुलाई – 28 जुलाई 2018 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में महाराष्ट्र राज्य में जिला अहमदनगर में तालुका राहुरी कोयली – अहमदनगर – सोलापुर पेट्रोलियम परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिनियम की प्रतियां जनता को तारीख 14 सितम्बर 2018 तक उपलब्ध करा दी गई थी ; और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट की है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाईपलाईन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी ।

पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाईपलाईन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

तालुका:- राहुरी	जिला:- अहमदनगर		राज्य:- महाराष्ट्र		
मौजे / ग्राम	सर्वे / ब्लॉक / सं. (प्लॉट सं.)	सब-डीव-सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर

1	2	3	4	5	6
लाख	197 / 1		00	10	26
त्रिंबकपुर	56 / 1		00	22	35
	57 / 1		00	06	53
	57 / 2		00	06	33
	57 / 3		00	06	14
धामोरी बुद्रुक	85 / 3		00	06	41
	85 / 2		00	05	48
	85 / 1 / 1		00	06	92
	85 / 1 / 2		00	07	68
	30 / 1		00	05	59
	31		00	01	94
	32 / 1		00	04	83
	40 / 1		00	02	04
	35 / 2		00	11	71
	34 / 1		00	10	59
	34 / 2		00	17	05
	28		00	18	18
	15		00	09	47
	16		00	01	64
	14 / 1		00	11	90
	14 / 2		00	09	81
	13		00	06	16
	17 / 2		00	00	09
	17 / 1		00	26	32
	11 / 1		00	14	40

1	2	3	4	5	6
धामोरी खुर्द	279		00	29	61
	280 / 1		00	09	77
	262		00	18	75
	263		00	10	74
	272		00	17	14
	271		00	00	95
	268		00	09	83
	267 / 1		00	08	57
	267 / 2		00	00	75

[फा. सं. आर-11025(11)/6/2018-ओआर-आई-23678]

शान्तनु धर, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd April, 2019

S.O. 542.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O.No.1096 dated 17th July 2018 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (here in after referred to as the said Act), Published in the Gazette of India, No.29 dated 22 – 28 July, 2018 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Koyali-Ahmednagar-Solapur Pipeline for the transportation of Petroleum Products in Taluka Rahuri in Ahmadnagar District in the State of Maharashtra by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 14 September 2018;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of said act submitted report to the Central Government;

And Whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Taluka:- Rahuri	District:- Ahmadnagar		State :- Maharashtra		
Mouje / Village	Survey/Block No.	Sub-Div-No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Lakh	197/1		00	10	26
Trimbakpur	56/1		00	22	35
	57/1		00	06	53
	57/2		00	06	33
	57/3		00	06	14
Dhamori Budruk	85/3		00	06	41

1	2	3	4	5	6
Dhamori Budruk	85/2		00	05	48
	85/1/1		00	06	92
	85/1/2		00	07	68
	30/1		00	05	59
	31		00	01	94
	32/1		00	04	83
	40/1		00	02	04
	35/2		00	11	71
	34/1		00	10	59
	34/2		00	17	05
	28		00	18	18
	15		00	09	47
	16		00	01	64
	14/1		00	11	90
	14/2		00	09	81
	13		00	06	16
	17/2		00	00	09
	17/1		00	26	32
	11/1		00	14	40
Dhamori Khurd	279		00	29	61
	280/1		00	09	77
	262		00	18	75
	263		00	10	74
	272		00	17	14
	271		00	00	95
	268		00	09	83
	267/1		00	08	57
	267/2		00	00	75

[F. No. R-11025(11)/6/2018-OR-I/E-23678]

SANTANU DHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2019

का. आ. 543.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1375 तारीख 5 सितम्बर, 2018 जो भारत के राजपत्र, प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में महाराष्ट्र राज्य में जिला नासिक में तालुका येवला कोयली - अहमदनगर - सोलापुर पेट्रोलियम परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिनियम की प्रतियां जनता को तारीख 25 अक्टूबर 2018 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट की है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाईन विछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाईन विछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाईन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तालुका - येवला	जिला - नासिक		राज्य - महाराष्ट्र		
मौजे/ग्राम	सर्वे/ब्लॉक/सं. (प्लॉट सं.)	सब-डिव-सं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आर	वर्ग मीटर

1	2	3	4	5	6
आनकाई	410		00	34	98
	406		00	24	50
	403		00	68	32
	401/ 2		00	00	01
	401/ 3		00	12	63
	401/ 4		00	12	71
	401/ 5		00	09	83
	376		00	00	20
	377		00	24	37
	378		00	14	81
	379		00	05	26
	381		00	34	89
	383		00	24	38
	384		00	12	78
	385/ 1/आ		00	29	86
	385/ 1		00	00	80
	385/ 2		00	25	48
	280		00	54	24
	277		00	05	31
	281		00	23	11
	282		00	05	89

1	2	3	4	5	6
आनकाई	286/1		00	30	92
	286/2		00	41	37
	240		00	02	51
	241		00	02	43
	238		00	11	17
	243		00	41	36
	221/2		00	00	20
	220		00	40	03
	218		00	18	42
	212		00	25	63
	215/4		00	00	20
	215/1		00	00	89
	213/2		00	15	94
	214/3		00	15	82
	214/2		00	15	29
	214/1		00	05	06
	207		00	38	37
	208		00	32	57
	200		00	01	34
	202/6		00	10	84
	195		00	21	54
	194		00	33	57
	191/1		00	12	75
	191/2		00	43	59

[फा. सं. आर-11025(11)6/2018-ओआर-I/ई-23678]

शान्तनु धर, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd April, 2019

S. O. 543.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 1375 dated the 5th September, 2018, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Koyali-Ahmednagar-Solapur Pipeline for the transportation of Petroleum Products in Taluka Yeola in Nashik District in the State of Maharashtra by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 25th October 2018;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of said act submitted report to the Central Government;

And Whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Taluka:- Yeola	District:- Nashik		State :- Maharashtra		
Mauje / Village	Survey/ Block No.	Sub-Div-No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.

1	2	3	4	5	6
Ankai	410		00	34	98
	406		00	24	50
	403		00	68	32
	401/2		00	00	01
	401/3		00	12	63
	401/4		00	12	71
	401/5		00	09	83
	376		00	00	20
	377		00	24	37
	378		00	14	81
	379		00	05	26
	381		00	34	89
	383		00	24	38
	384		00	12	78
	385/1/A		00	29	86
	385/1		00	00	80
	385/2		00	25	48
	280		00	54	24
	277		00	05	31
	281		00	23	11
	282		00	05	89
	286/1		00	30	92
	286/2		00	41	37
	240		00	02	51
	241		00	02	43
	238		00	11	17
	243		00	41	36
	221/2		00	00	20
	220		00	40	03
	218		00	18	42
	212		00	25	63
	215/4		00	00	20

	215/1		00	00	89
	213/2		00	15	94
	214/3		00	15	82
	214/2		00	15	29
	214/1		00	05	06
	207		00	38	37
	208		00	32	57
	200		00	01	34
	202/6		00	10	84
	195		00	21	54
	194		00	33	57
	191/1		00	12	75
	191/2		00	43	59

[F. No. R-11025(11) 6/2018-OR-I/E-23678]

SANTANU DHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2019

का.आ. 544.—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962, (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में उल्लेखित व्यक्ति को, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में, उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती है:

अधिसूचना

	सक्षम प्राधिकारी का नाम व पता	अधिकारिता का क्षेत्र
	(1)	(2)
1	श्री बसु साहू प्रचालन प्रबंधक सक्षम प्राधिकारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड दक्षिण पूर्वी क्षेत्र पाइपलाइन	ओडिशा राज्य
2	श्री आकाश केशरवाणी प्रचालन प्रबंधक सक्षम प्राधिकारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड दक्षिण पूर्वी क्षेत्र पाइपलाइन	छत्तीसगढ़ राज्य
3	श्री सुजीत कुमार किस्कु वरिष्ठ प्रचालन प्रबंधक प्रभारी सक्षम प्राधिकारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड दक्षिण पूर्वी क्षेत्र पाइपलाइन	झारखंड राज्य

[फा. सं. आर-11025(11)19/2018-ओआर-I/ई-27024]

शान्तनु धर, अवर सचिव

New Delhi, the 4th April, 2019

S. O. 544.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorizes the person mentioned in column (1) of the schedule given below to perform the functions of the Competent Authority under the said Act, in respect of the area mentioned in column (2) of the said.

SCHEDULE

	Name and Address of the Authority	Areas of Jurisdiction
	(1)	(2)
1	Shri Basu Sahu Operations Manager Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, South Eastern Region Pipelines	Odisha State
2	Shri Akash Kesharwani Operations Manager Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, South Eastern Region Pipelines	Chhattisgarh State
3	Shri Sujit Kumar Kisku Senior Operations Manager I/c Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, South Eastern Region Pipelines	Jharkhand State

[F. No. R-11025(11)19/2018-OR-I/E-27024]

SANTANU DHAR, Under Secy.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2019

का.आ. 545.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स श्री ए लूर्ड बेनेडिक्ट, पदारायपुरम, बेंगलोर, और अन्य एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, बेंगलोर के पंचाट (संदर्भ संख्या 11/2010) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 13.03.2019 को प्राप्त हुए थे।

[सं. एल-42012/74/2009-आईआर (डीयू)]

वी. के. ठाकुर, अनुभाग अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENTNew Delhi, the 28th March, 2019

S.O. 545.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 11/2010) of the *Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court*, Bangalore as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Sh. A. Lourd Benadict, Padarayapuram, Bangalore, and Others, and their workmen which were received by the Central Government on 18.03.2019.

[No. L-42012/74/2009 -IR(DU)]

V. K. THAKUR, Section Officer

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
BANGALORE**DATED : 13TH MARCH 2019

PRESENT : Justice Smt. Rathnakala, Presiding Officer

C.R No. 11/2010**I Party**

Sh. A. Lourd Benadict,
C/o Sh. R.A. Nathan,
No. U-32, 10th Main Road,
17th Cross, Ramakka Compound,
Padarayapuram,
Bangalore – 560 026.

II Party

The General Manager,
HMT Machine Tools Limited,
Bangalore Complex, HMT Post
Bangalore – 560 013.

Advocate for I Party : Mr. N. Nataraja

Advocate for II Party : Mr. B.C. Prabhakar

AWARD

The Central Government vide Order No.L-42012/74/2009-IR(DU) dated 10.03.2010 in exercise of the powers conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section 2(A) of Section 10 of Industrial Dispute act, 1947 (for brevity 'the Act' hereafter) referred the following Industrial Dispute for adjudication.

“Whether the action of the management of HMT Limited, Bangalore in terminating the services of Shri. A. Lourd Benadict, w.e.f 02.09.2008 is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled to?”

1. The 1st Party herein is employee of the 2nd Party joined as a sanitary helper and promoted as Junior Attender and has put in 24 years of services. On a complaint by the Jt. General Manager (P) that, the workman approached the Section Supervisor Sh. T. Ramachandraiah on 25.04.2007 at 9.45 am with a long spanner causing deep injury on the right side of his head. The 1st Party workman was kept under suspension and Disciplinary Action followed. He submitted his reply

to the charge sheet served on him. Departmental Enquiry was conducted by the enquiry officer. After a full pledged proceeding out of the 5 allegation found 3 of them are established i.e

- i) Riotous/disorderly behaviour within the Company premises during working hours.
- ii) Physical assault causing bodily injury.
- iii) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- iv) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- v) Left work spot before the scheduled time and absence from place of work without proper permission.

Which are misconducts as per certified standing orders of the company. The workman was issued 2nd Show cause notice by the Disciplinary Authority. He submitted his remarks to the same. The Disciplinary Authority vide order dated 02.09.2008 was of the opinion that the charge framed was of grave nature. In the light of his past records the Disciplinary Authority further held that there is no exiting circumstance to litigate the charges proved against him and terminated him from service. The appeal preferred by him before the Appellate Authority did not yield any result. On his challenge about the fairness of the Domestic Enquiry, an issue was raised regarding the validity of the Domestic Enquiry, same was tried as a preliminary issue and was found that, *the Domestic Enquiry held against the 1st Party is fair and proper*. Thereafter, the 1st Party adduced further evidence by filling a affidavit. Since, affidavit averments were touching on various subjects other than his plea of victimization and employment. Learned Counsel Sh. HSP for BCP sought the permission of the Court to cross examine him only on the point of victimization and past records. During the course of cross examination the workman identified 10 documents confronted to him by the management; they are Ex M-1 to Ex M-10. The 1st Party has produced documents Ex W-1 to Ex W-4.

2. Before this Tribunal he pleads that, he had applied for VRS subsequent to the charge sheet and the same was rejected. He comes from a minority community. The statement given by victim/R. Krishanan is unbelievable; no such incident as held proved has happened. The criminal case initiated by the police against him ended in acquittal. The Enquiry Report is biased. There are no eye witnesses to the incident. The Doctor who treated the victim is not examined before the Enquiry Officer. The Enquiry Officer has come to conclusion that, the injury is severe in nature, whereas it was only simple injury. He was honoured with efficiency award and his service is unblemished.

3. Counter to the above from management side is the 1st Party was suspended for 2 days on 12.05.1998 and 15.12.1998. On earlier occasions he was also punished, issued warning letters, memos and show cause notices. His service is not unblemished has claimed by him. The Enquiry Officer after considering the evidentiary materials has rightly held 3 allegations proved against him and for want of proof other 2 allegations are dropped.

4. With the above materials I have gone through the evidence placed before the Enquiry Officer and the Enquiry Report. During the enquiry the management examined 5 witnesses. MW-1 was the security guard at the gate no.1 on the alleged date and time the 1st Party passed through without producing the permission slip as required under the existing procedure and rules of the company; MW-2 is an employee of the 2nd Party who took the photographs of the scene of occurrence; MW-3 is the Deputy Engineer of the 1st Party workman. Though he was not at the spot, on coming to know about the incident he rushes to the spot and witnessed blood stains on the shop floor and cabin; he has also seen one box spanner which was used by the 1st Party to assault the injured; he has also gone to the hospital immediately thereafter to meet the injured; he has reported the matter to the management and has identified the said report which bears his signature. MW-4 is the injured; according to him the 1st Party workman entered his cabin, assaulted him with the spanner voluntarily. He has given complaint as per Ex ME-6. The 1st Party during cross examination questioned him about the motive for the incident which he explained that, the 1st Party workman was pressing for a trade change and he was questioning in this regard to the supervisor and the change was in process at HRM Department. MW-5 is the Head of Department and a circumstantial witness to the incident; he stated that on coming to know about the incident he rushed to the spot and observed blood stains on the shop floor, chair and table and he has given the report to the security in HRM Department.

5. During his deposition, the 1st Party workman denied the allegation and stated that, due to illness he left the factory through Gate No.1 without permission slip, thus he set up the defence of alibi. The Enquiry Officer has found that, the presence of the 1st Party on 25.04.2007 is proved as it is brought forth from the deposition of the 1st Party workman. He further infers from the evidentiary material the vengeance entertained by the workman against the complainant, since he was questioning the performance and informed the superior officer of the 1st Party that he is not performing; on that the superior officer i.e., the HOD had advised that, no performance attracts 'No work no pay'. He was waiting for an opportunity and assaulted MW-4 thereby causing injury and absconded. The Enquiry Officer was satisfied with the evidence of the victim and circumstantial witnesses. Though, there were no supporting evidence of eye witnesses. Thus, the charge nos. 1, 2 and 5 were held to be proved.

6. I find from the Enquiry Report that, the conclusion flows from the evidentiary material and it is not arbitrary or perverse before this Tribunal. During cross examination the 1st Party has identified his previous punishment order suffered by him. That by itself establishes that all the while he was a trouble shooter. The wound certificate of the injured was marked during the enquiry, accordingly he has suffered lacerated wound and 4 small abrasions which were of simple in nature.

7. The 1st Party in his 24 years of service has met with 10 memos, show cause notices and warnings on the allegation of habitual absence, in sub-ordination and insisting the co-employees to go on strike etc. Twice as a measure of punishment he was suspended temporarily from the work. With this kind of past records, it cannot be presumed that, the alleged incident was unintentional or instantaneous. Though, the injured had suffered minor injuries it need attention that 1st Party voluntarily enters the cabin of the superior officer with a tool in his hand, without any provocation, assaults him and disappears from the scene; unauthorizedly he slips through gate no. 1 probably to avoid being caught; Physical assault on a superior officer is a serious misconduct which needs to be met with proportionate punishment. He has not shown before this Tribunal that, due to any trade union activity he was victimized nor is discriminated from other co-employees who were punished in similar misconduct. Even now he is disputing the charges which are proved during the enquiry. The circumstances do not call for invoking the jurisdiction vested in this Tribunal under section 11(A) of the Industrial Dispute Act. Hence, the point for reference is answered affirmatively in favour of the management and the workman is not entitled for any relief.

AWARD

The reference is rejected

(Dictated, corrected and signed by me on 13th March, 2019)

Justice Smt. RATHNAKALA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2019

का.आ. 546.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स उप महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गाजियाबाद (यू.पी.) और अन्य एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 87/2012) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 26.03.2019 को प्राप्त हुए थे।

[सं. एल-42012/94/2011-आईआर (डीयू)]

वी. के. ठाकुर, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th March, 2019

S.O. 546.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 87/2012) of the *Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-2* New Delhi, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Deputy General Manager, Power Grid Corporation of India Ltd., Ghaziabad (U.P.) and Others, and their workmen which were received by the Central Government on 26.03.2019.

[No. L-42012/94/2011 -IR(DU)]

V. K. THAKUR, Section Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI

Present : Smt. Pranita Mohanty, Presiding Officer,
C.G.I.T.-Cum-Labour
Court-II, New Delhi

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 87/2012

Date of Passing Award- 6th March, 2019

Between :

Shri Raju,
S/o Sh. Pale Ram,
R/o Village & PO: Mandola,
Ghaziabad (U.P.)

... Workman

Versus

The Deputy General Manager,
Power Grid Corporation of India Ltd.,
Nanu Mandola,
Ghaziabad (U.P.)

... Management

Appearances:-

Claimant not present : For the Workman

Shri Jitender Yadav : For the Management

AWARD

The Government of India in Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing between employer i.e. the management of Power Grid Corporation of India Ltd., and its workman/claimant herein, under clause (d) of sub section (1) and sub section (2A) of section 10 of the Industrial Dispute Act 1947 vide letter No. L- 42012/94/2011 (IR(DU)) dated 17.02.2012 to this tribunal for adjudication to the following effect.

“Whether the action of the management of PGCIL in terminating the services of workman Shri Raju S/o Shri Pale Ram without complying with section 25-F of the ID Act, 1947 is justified? What relief workman is entitled to?”

Notice being sent, the claimant appeared and filed his statement of claim. The management also appeared and filed its written statement.

The claimant has alleged that since 01.07.1990 he was working as a helper with the management against a permanent post. His monthly salary was Rs. 12,000/-. On 17.05.1994 when he reported for duty the management refused to take him on duty and he was told that his service has been terminated. No written order of termination, notice for termination or termination compensation was paid to him following the procedure of ID Act. The workman then approached the Labour Department, where a conciliation proceeding was initiated. On failure of conciliation the appropriate government made this reference. It is the further stand of the workman that he was working against a permanent post and provision of section 25 of the ID Act was not followed by the management before terminating his service. Thereby he has challenged the order of termination and has claimed, for reinstatement to service.

The management in response to the notice appeared and challenged the maintainability of the proceeding. While denying the employer and employee relationship between the management and workman it has taken a plea that no order of termination against the workman was ever passed. The reference of the appropriate government is illegal and this tribunal is not competent to adjudicate the same. While pleading that the claimant has wrongly impleaded the management, it has denied all the assertions made by the workman in the claim petition.

On this rival pleading the following issues were framed for adjudication.

ISSUES

1. Whether there does not exist relationship of employee and employer between the parties?
2. Whether delay of 18 years in filing of claim frustrates the relief?
3. As in terms of reference.

After framing of issues, on behalf of the management an application was filed praying for hearing of the matter as a preliminary issue regarding the maintainability of the proceeding. By order dated 01.02.2017 that application was rejected and on the same day the other application filed by the workman for production of the document by the management was also allowed directing the management to produce the document giving liberty to the workman for production of the secondary evidence on the event of non production of the documents by the management.

It is seen from the record that the management has not filed the document which were called for. After disposal of all these miscellaneous petitions matter was adjourned for evidence to be adduced by the claimant/workman. Despite several opportunities given the claimant failed to produce witness and as such by order dated 02.08.2018 he was proceeded ex-parte and management was called upon to adduce evidence. Management also did not adduce evidence. And thus, the case was adjourned for award.

It is the principle of adjudication that any party to a proceeding asserting existence or non existence of a fact need to prove the same by adducing oral or documentary evidence. In this case the workman/claimant has failed to substantiate the claim and dispute raised against the management. In view of the same this tribunal has left with no option than passing a no dispute award against the workman. Copy be supplied to the parties and the record be consigned in the record room.

The reference is accordingly answered.

Dictated & Corrected by me.

6th March, 2019

PRANITA MOHANTY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2019

का.आ. 547.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स स्टेशन कमांडेंट, स्टेशन हेड क्वार्टर, बरेली कैंट, बरेली (यू.पी.) और अन्य एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2 नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 128/2015) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 26.03.2019 को प्राप्त हुए थे।

[सं. एल-14012/18/2015-आईआर (डीयू)]

वी. के. ठाकुर, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th March, 2019

S.O. 547.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 128/2015) of the *Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour* Court-2 New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Station Commandant, Station Head Quarter, Bareilly Cantt, Bareilly (U.P.), and Others, and their workmen which were received by the Central Government on 26.03.2019.

[No. L-14012/18/2015 -IR(DU)]

V. K. THAKUR, Section Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI

Present : Smt. Pranita Mohanty, Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour Court-II, New Delhi.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 128/2015

Date of Passing Award- 26th February, 2019

Between :

Shri Sharif Ali,
S/o Late Sh. Rahim Ahmed,
R/o Vill-Pargawan, PO- Umarsia,
Mehsil Sadar, Dist- Bareilly,
Bareilly (U.P.)-243004.

... Workman

Versus

The Station Commandant,
Station Head Quarter, Bareilly Cantt,
Bareilly,
Bareilly (U.P.) - 243001.

... Management

Appearances:-

Shri Abhinav, (Advocate) : For the Workman

None for the management : For the Management.

AWARD

The Government of India in Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing between employer i.e. the management of Station Head Quarter, Bareilly Cantt. and its workman/claimant herein, under clause (d) of sub section (1) and sub section (2A) of section 10 of the Industrial Dispute Act 1947 vide letter No. L- 14012/18/2015 (IR(DU) dated 12.08.2015 to this tribunal for adjudication to the following effect.

“Whether the demand of the Shri Sharif Ali workman for reinstatement and regularization of services of workman in Station Commandant, Station Head Quarter who worked with them since 26.12.2012 is valid & justified? If not to what relief the workman are entitled to? ”

Being noticed the workman filed claim statement stating therein that initially in the year 1995 he was appointed by the administrative commandant of Bareilly Cantt., as a gardner. At that time the appointment of the claimant/workman was causal in nature. On 26.12.2012 the administrative commandment instructed the workman to submit an application which he complied. Thereafter the service of the workman was regularized w.e.f. 26.12.2012. But suddenly, on 01.12.2014 i.e. 2 years thereafter, by an oral order the then colonel terminated his service. No reason was assigned nor any termination notice, notice pay or retrenchment compensation was paid to him at that time. The workman thereafter made representation to different authorities including the administrative commandant. But none of them paid any heed to his grievance. It is the further stand of the workman that during his employment he was receiving his salary through cheques from the regimental fund account and no showcause notice or charge sheet was ever prepared against him. He had worked for more than 240 days in a calendar year and in the “follow up action on minute of steering committee meeting for the 90th departmental (JCM) held on 27.09.2013 in Sena Bhawan New Delhi under the chairmanship of JS (E)” the workman/claimant has been re-designated as MTS and worker under the factories act. But the management never paid any heed to his grievance. Hence, having no other remedy he approached the Central Labour Commissioner, who in turn made a reference to this tribunal.

The management being noticed appeared and filed showcause admitting that the workman was employed in capacity of Mali as a Casual Labour w.e.f 26.12.2012. At that time his remuneration was Rs. 3000/- per month and the same was later revised to 3500/- and 3850/- per month. While admitting that the workman was getting salary through cheque from regimental fund the management has stated that there is no record regarding regularization of the service of the workman w.e.f. 26.12.2012. The management has also denied that decisions taken in the follow up action meeting stating that the same was not meant for the casual worker like the present workman and it was meant for the regular employees. Thereby the management has pleaded for dismissal of the claim.

On this pleading of the parties the following issues were framed

ISSUES

1. Whether the demand of the workman for reinstatement and regularization of the service in station Commandant, Station Head Quarter is valid and justified?
2. To what relief the workman is entitled to?

After the framing of issues the management stopped attending the court and by order dated 25.08.2017 the management has been proceeded ex-parte. Thereafter the workman examined himself as witness no. 1 and proved 3 documents as exhibit. Exhibit WW1/1 and WW1/2 are the representations dated 15.12.2014 and 23.12.2014 submitted by the workman to the administrative commandant and station commander respectively. Exhibit WW1/3 is a correspondence received from the administrative commandant by the workman, wherein he was intimated that his service has come to an end on 22.11.2014. In addition to that the workman has also filed the photocopy of the bank statement to prove that his salary was being credited regularly in the bank account being paid by the management. No oral or documentary evidence was adduced by the management.

FINDINGS

ISSUE NO. 1

The workman has claimed that he started working with the management in the year 1995 and continuously till 01.12.2014 when his service was terminated. Initially he was a casual worker in the post of gardner and on 26.12.2012 his service was regularized. The management has admitted all the dates except the fact that the service of the workman was regularized on 26.12.2012. Exhibit WW1/3 is a document issued to the workman on 20.12.2014 by the station staff officer for administrative commandant wherein the workman was intimated that he had worked till 22nd November, 2014 and his work is no more required. He was offered the salary for the entire month of Nov 2014. This letter which stands undisputed when read with oral testimony of the workman clearly proves that he had worked as a gardner for the management from 1995 till 22.11.2014. Whereas the workman claims that his service was regularized 26.12.2012 the management has denied the same. Even if the workman is accepted to be a casual employee on 26.12.2012, now it is to be seen what benefit he is entitled to and if his service was terminated illegally.

In the case of **Delhi Cantonment Board vs. CGIT and Others reported in 2006(88)DRJ75** the Hon'ble High Court of Delhi while dealing with section 10 and 25-F of the Industrial Dispute Act have clearly held that "*if the workman falls under the definition of the workman as stated in section 2 of the ID Act, there is no distinction between a permanent employee and temporary employee. As long as the person is employed to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical or supervisory work for hire or reward, he is a workman under the ID Act and to get the benefit of that Act.*" in the said judgment the Hon'ble High Court have also held that the service of such a workman cannot be terminated if he had put in 240 days of service in the year prior to the termination without compliance of section 25-F of the Act. The Hon'ble High Court have made reference to the case of **National Iron and Steel Company Limited vs. State of West Bengal reported in (1967)ILLJ 23SC** and **Mohan Lal vs. Management of Bharat Electronics reported in 1981LIC 806 SC**. On careful perusal of the aforesaid judgment and the principle decided therein it is found that if the workman succeeds in proving that he was terminated without following the procedure of section 25-F of the ID act and prior to his termination he had worked for 240 days in the preceding calendar year, his termination would be held illegal.

In this case the management had clearly admitted by the letter marked as WW1/3 and also in the written statement that the workman had worked till Nov 2014. The management has not disputed that the workman was working since 1995. Thus, it is held that the workman has successfully discharged the burden by proving of that he had worked for 240 days in the preceding calendar year and though he was a casual worker, compliance of section 25-F of the ID Act was mandatory as has been held by the Hon'ble High Court of Delhi in the case of Delhi Cantonment Board referred Supra. Accordingly for the reasons described it is held that the workman was illegally terminated and at the time of termination of his service he was neither served with notice, nor the notice pay or the retrenchment compensation was paid to him. His termination on 22.11.2014 is thus held to be illegal. Though the management has denied about the regularization of the workman's service on 26.12.2012 it has not taken the stand that the workman was not working with the management on that day.

Now the next question which need to be answered is can the workman be reinstated to service. The law is well settled that the casual workers should not be ordinarily reinstated to service and instead payment of retrenchment compensation should be allowed to compensate the loss. But here is a case where the workman has referred to a "follow up action on minute of steering committee meeting for the 90th departmental (JCM) held on 27.09.2013". The management had also admitted about the said meeting but with a plea that the decisions taken in the meeting is applicable to regular employees and not for the casual labourer employed out of regimental fund. But the workman has filed a photocopy of the minute of the said meeting. This document goes to show that a decision was taken for regularizing the service of Cooks Mali barber etc working in the army as has been done in the case of such workers working in Ordnance Factory, Hospital and Dispensaries. In the meeting it was further held that those workers shall be re-designated as MTS and be treated as workers defined under the Factories Act 1948.

On a plain reading of the said minute it is found that the benefit which was earlier extended to the cook Mali etc working in ordinance factory and hospital was extended to the cooks and Malis now working in the Command Headquarters.

It is now a settled law that for attracting the applicability of section 25-G of the ID Act the workman is not required to prove that he had worked for a period of 240 days in a calendar month preceding his termination. It is sufficient for him to plead and prove that while effecting retrenchment the employer violated the rule of "last come first go" without any tangible reason. The Hon'ble Apex Court in the case of **Harjinder Singh vs. Punjab State Warehouse Corporation reported in AIR 2010 SC Page 1116** and the Hon'ble High Court of Delhi in the case of **Management Municipal Corporation Delhi vs. Presiding Officer Industrial Tribunal WPC No. 6024/1999** have held the said view. Thus, while following the ratio of the above mentioned cases it is held that for non compliance of the provision of section 25-G of ID Act and for the decisions taken in the follow up action meeting to treat the Malis as MTS and considering the fact that the workman had worked for more than 240 days in the preceding calendar year of the date of termination, it is held that he is entitled to reinstatement to service as claimed by him. The issue No. 1 is accordingly answered in favor of the workman.

ISSUE No. 2

In view of the finding arrived in respect of issue no.1 it is held that the workman is entitled to relief of reinstatement w.e.f the date of termination and also held entitled to regularization of his service from 26.12.2012. Not only that he shall be paid the remuneration for the period from the date of termination till the reinstatement to service. This issue is accordingly answered. Hence, ordered.

ORDER

The reference be and the same is accordingly answered in favor of the workman. The management is directed to reinstate him to service with immediate effect after notification of the award and pay the back remuneration at the rate as he was getting on the date of his termination within 3 months from the date of notification of award together with interest at the rate of 12% on the accrued amount. If the management would fail to pay the remuneration to the workman within the time stipulated, it shall be liable to pay interest at the rate of 15% from the date when the amount falls due and till the final payment is made. Copy be supplied to the parties and the record be consigned in the record room.

The reference is accordingly answered.

Dictated & Corrected by me.

26th February, 2019

PRANITA MOHANTY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2019

का.आ. 548.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स एविएशन रिसर्च सेंटर (एआरसी), डीजीएस, कैबिनेट सेक्ट, दिल्ली और अन्य एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2 नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 132/2012) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 21.03.2019 को प्राप्त हुए थे।

[सं. एल-42012/44/2012-आईआर (डीयू)]

वी. के. ठाकुर, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th March, 2019

S.O. 548.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 132/2012) of the *Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-2 New Delhi* as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Aviation Research Centre (ARC), DGS, Cabinet Sectt, Delhi and Others, and their workmen which were received by the Central Government on 21.02.2019.

[No. L-42012/44/2012 -IR(DU)]

V. K. THAKUR, Section Officer

ANNEXURE**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI**

Present : Smt. Pranita Mohanty, Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour
Court-II, New Delhi.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE No. 132/2012

Date of Passing Award- 29th January, 2019

Between:

Sh. Sandeep Kumar,
S/o. Sh. Kabool Chand,
C/o Sh. Ahabad Hasan,
Advocate Chamber No. - 169,
Civil Court,
Saharanpur (U.P.)-24700.

... Workman

Versus

Aviation Research Centre (ARC),
DGS, Cabinet Sectt.,
East Block-V, R.K Puram
Delhi-110066.

... Management

Appearances:-

Shri Ahabad Hasan, Advocate : For the Workman.

Shri Atul Bhardwaj, Advocate : For the Management

AWARD

The Government of India in Ministry Of Labour has referred the present dispute existing between employer i.e. the management Aviation Research centre (for brevity herein after referred to as ARC) and its workman/claimant herein, under clause (d) of sub section (1) and sub section (2A) of section 10 of the Industrial Dispute Act 1947 vide letter no. L-42012/44/2012-IR (DU) dated 07.08.2012 to this tribunal for adjudication to the following effect.

“Whether the action of the management of Aviation Research Centre (ARC) Director General of Security(Cabinet Secretariat) New Delhi, in terminating the service of Sh. Sandeep Kumar S/o. Sh. Kabool Chand Ex-Casual Labour/daily wage worker w.e.f. 29.04.2006 is justified or not? If not what relief the workman is entitled to and from which date.”

2. The 1st party workman filed claim statement stating therein that he was engaged as a worker with the management 2nd party on permanent basis on 01.05.2004. From 01.05.2004 to 28.04.2006 for about 2 years he worked for the management with utmost satisfaction of the employer, without any break. Thereby he worked for a period of 240 days during one calendar year. On 26.10.2005 during the course of his duty and at the workplace, he met with an accident and had to undergo treatment at Safdarjang Hospital New Delhi. Thereafter, for some time the management assigned him light nature of work and the workman continued to work accordingly. On 29.04.2006 suddenly and without issuing any notice, and without any domestic enquiry he was illegally removed from service by an oral order. No notice pay was also paid to him at the time of his termination, he was working as a peon/runner in the office of the management and was being paid as a daily labourer. The workman though on repeated occasion by serving notice demanded his reinstatement, the same was not considered. At the time of termination no termination compensation was paid to him. The refusal by the management to reinstate him in service violated the principles of natural justice and mandatory provision of section 25-F of the Industrial Dispute Act 1947. The workman having no other efficacious remedy, raised an Industrial Dispute before the Regional labour commissioner. The conciliation proceeding was initiated, but the same failed and thereupon a failure report was submitted to the government. The appropriate government then made present reference. The workman has further pleaded that he is entitled to reinstatement with continuity of service w.e.f 29.04.2006 and full back wages. The other stand taken by the workman is that the management is bent upon to harass him since, in the date a dispute was raised by him for compensation before the Assistant Labour Commissioner Saharanpur registered as WCA No. 116/2008. The management while resisting the application took a plea that the workman never met with an accident in the work place.

3. The second party management in its reply through written statement has stated that present dispute is misconceived in as much as the first party workman was never an employee of the management. He was being engaged as a casual labour/daily wage worker intermittently for undertaking casual nature of work on need basis. Whenever he

was engaged for work the wage was being paid to him as per the rate fixed by the Delhi Government in accordance to number of days worked by him. It is the further stand that the workman Sh. Sandeep kumar was working as a casual labour since, May 2004 and was last engaged by ARC on 20.04.2006. For no calendar year he had worked for more than 240 days. In the written statement the management has furnished a detailed statement of the days when the workman Sandeep kumar was engaged for work. The management has further stated that the muster roll maintained by the office nowhere reveals that the workman had worked, for a period of 240 days in a calendar year during the relevant time period. The further contention of the management is that the claimant not being an employee of the management there was no need to comply with the provision of section 25-F of the Industrial Dispute Act. It has also been pleaded by the management that by order of the Government the engagement of the casual labour was stopped w.e.f. 16.10.2007 and the said work is now being out sourced and the person registered with the employment exchange only can be appointed to the post, provided, they have a minimum of 2 years continuous service experience as casual labour. The other stand of the management is that ARC is one of the sensitive directorate under Cabinet Secretariat engaged in discharge of sovereign function and do not come under the definition of industry. The dispute between the management and the casual labourers engaged for work cannot be treated as an Industrial Dispute. Thereby, the management challenged the maintainability of the present proceeding.

4. On the aforesaid pleadings of the parties the following issues are to be answered for proper and just adjudication of the dispute.

Issues :

1. Whether sovereign functions are being performed by ARC and as such it does not fall within the definition of Industry under the Industrial Dispute Act 1947.
2. As in terms of the reference, what relief the workman is entitled to.

5. The 1st party workman examined himself as WW1 and relied upon several documents i.e. the order passed by the Assistant Labour Commissioner in WCA No. 116/2008 the statement of the witnesses recorded in that proceeding on behalf of the management as WW1/2 and WW1/3. The second party management adduced oral evidence by examining its Joint Deputy Director as MW1 and produced a series of document marked in the series of MW1/1 to MW1/7. The documents relied upon by the management are the muster roll reflecting engagement of the workman on different date, the copy of the judgment passed in WCA No. 116/2008 the appeal preferred from the said judgment before the Hon'ble Court of Allahabad, the order passed therein and the extract of the book containing the general terms and conditions of employment of casual labours. The management has also filed the copy of the judgment passed by the Hon'ble Supreme Court in the case of Union of India and Others vs. Vartak Labour Union to convince that regularization of casual labourers is not the rule.

Findings

Issue No.1

6. This issue since has been framed to examine the maintainability of the proceeding has been taken up at the first instance.

7. The 2nd party management had admitted that the disputant workman was engaged for some time as a casual labour and the engagement was on need basis. The management being an important and sensitive directorate under the Cabinet Secretariat is not free to engage any outsider randomly. After due verification few number of casual worker are engaged on the basis of need. This department never carries on trade or business nor generates revenue. The nature of work being the sovereign function for the state, the management can never be construed as an industry nor the dispute between the workman and management is an Industrial Dispute. The witnesses examined on behalf of the management have stated that the management is basically engaged in Aviation Research activities and the institute is entrusted with the task of carrying out certain projects of national importance. In reply the Ld. A/R for the workman submitted that the definition of industry as laid down u/s 2J of the Industrial Dispute Act very well encompasses the management and the Industrial Dispute Act well applies to it.

8. In this regard reference can be made to the case of **Bangalore Water Supply and Scwering Board vs. R. Rajappa and Others reported in AIR 1978(SC) page 458** wherein the Hon'ble Apex Court by prescribing certain tests have expanded the definition of industry and on a careful perusal of the said judgment lead to a conclusion that the management of this case very well falls within the definition of industry, on application of a wider meaning to the same. Hence, the objection raised by the management that the 2nd party management that it is not an industry is not accepted and the proceeding is held maintainable in this regard. This issue is accordingly answered in favor of the workman.

Issue No.2

9. The management has alleged that the workman was engaged intermittently for work during the period between 07.05.2004 to 20.04.2006 alongwith other workers and the engagement was purely on need basis. Neither he was given appointment letter nor termination letter. Since, he was undertaking casual nature of work, wage was being paid to him according to the number of days he worked. No discrimination was shown to him nor any amount of wage has remained un paid. However, for the purpose of computing this wage the muster roll was maintained. On behalf of the management

the photocopy of the muster roll containing 23 pages has been filed and marked as Exhibit MW1/1. On the basis of this muster roll the management asserted to prove that the workman had never worked, for 240 days in any calendar year. In a calculation, annexed to the written statement, the management has stated that during the period between May 2004 to April 2005 he had worked for 236 days and again between May 2005 to April 2006 he had worked for 181 days. During one calendar year he had never worked for 240 days and as such his demand for regularization is baseless and vague.

10. In addition to that by examining in MW1 and 2 and by producing the extract of book dealing with the general terms and conditions for employment for Casual labour, Shri Atul Bhardwaj the Ld. A/R for the management argued that in 2007 the government by issuing order prevented engagement of casual labour w.e.f 16.10.2007. Since then, they said work are being out sourced. Thus, the claim of the workman for absorption and reinstatement cannot be allowed. MW1 is the Joint deputy Director of ARC. He was cross-examined at length by the workman and during cross-examination the witness admitted that the management marks the attendance of casual workers in the attendance register wherein the workers use to put their signature. When called upon to answer about the where about the said attendance register the witness admitted that no such register has been placed on record by the management.

11. Why such a vital document, created during an undisputed point of time has been withheld has not been explained by the management. The muster rolls filed do not contain any continuous page mark etc to believe that the same was the part of a continuous register and contains the details of the attendance of the workman. Had, the attendance register been produced by the management, who is the custodian of the same, it would have thrown light on the point of dispute. In this case, since. The workman has claimed to have worked for 240 days in a calendar year and management has denied the same the attendance register of the relevant time appears to be the most vital document in proving or disproving the same. In the case of **Ramesh Kumar vs. Presiding Officer Industrial Tribunal Panipat reported in 2018 LLR, 1229** the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana have held that when workman asked for attendance record and the management did not produce the same, adverse inference shall be drawn against the management. The facts of the said case squarely applies to the case in hand. In that case the workman was terminated from work by an oral order and the management had withheld the attendance register which was in its custody.

Hence, by applying the ratio of the case referred supra it is concluded that the oral evidence of the workman can be safely accepted to hold that he had worked for 240 days in the calendar year during the relevant period and the management could not disprove the same by producing the muster roll of some intermittent period. Moreover management is also liable for withholding material document in this regard.

12. The other grievance of the workman is that he was terminated from service by an oral order and at the time of termination the mandatory provision of section 25-F were not complied. This aspect needs no elaborate discussion since, the management has admitted the same with explanation that there being no employer and employee relationship between the parties, non compliance of section 25-F of the Industrial dispute act would not influence the proceeding. In support of its stand the management has relied upon the judgment of **Union of India and Others vs. Vartak Labour Union decided in Civil Appeal No. 2129-2130 of 2004** wherein the case of **state of Karnatak vs. Ummadevi** was discussed and held that the casual labour workers do not automatically become eligible to be absorbed against permanent vacancies.

13. On behalf of the workman reliance has been placed in the case of **Jasmer Singh vs. State of Harayana & other reported in 2015(144)FLR 837**, case of **Gauri Shankar vs. State of Rajasthan reported in 2015(145)FLR 671**, and the case of **Machinon Macknzie and Company vs. Mackainnon employees Union reported in 2015(145)FLR 184**. In all these judgments the Hon'ble Apex Court have come to hold that the workman even if a daily paid worker and completed more than 240 days of service in a calendar year, mandatory provision of section 25-F, 25-G and 25-H need to be complied with. The Hon'ble Apex Court have further held that when the principles of last come first go was not strictly adhered, the same amounts to a clear breach of section 25-G of the ID. Act. In the above mentioned judgments he Hon'ble Apex Court directed for reinstatement of the workman with full back wage and consequential benefit holding the termination illegal for non compliance of the mandatory provisions.

14. The Ld. A/R for the workman thus, argued that the ratio of the above cases fully applies to the case of the workman and considering the same, the tribunal should pass the order directing reinstatement of the workman with the back wage. Be it stated here that in this case the management has admitted about the non compliance of the mandatory provisions of 25-F and 25-G of the ID Act. The Hon'ble Apex Court in several pronouncement have held that when the principles of last come first go was not strictly adhered and when the provision of 25-F was not followed, the order of the termination is void ab initio in law and entails the workman for reinstatement.

15. The management in this case has taken a stand from the beginning that it works under and important Directorate of Central Secretariat and carries on research and projects of national importance. As such, it does not hire the service of too many casual workers. Whoever is engaged, that is after thorough security checking. Moreover the job of this workman ended in the year 2006 and from 2007 onwards the management has stopped hiring outsiders as casual workers. The Government of India notification to that effect, has been filed Exhibit MW1/8.

This is a document of Government of India, Cabinet Secretariat dated 27.09.2007 wherein the government while making provision of fund have issued direction to the ARC i.e. the management for outsourcing Seasonal/Casual work service at different unit of ARC in Delhi. In the said letter the ARC has further been directed to enter into contract with the concerned firm for providing manpower. The Ld. A/R for the management also drew the attention of this

tribunal to chapter 23 of the book i.e. Swamy's-establishment and administration which deals with the casual labour. He submitted that the service of the casual labour may be regularized in group D post provided this casual labour should have been recruited on this sponsorship of an employment exchange having 2years experience as casual labour. The present workman had never worked continuously for a period of 2 years nor he was a person sponsored through the employment exchange. As such when the management has started outsourcing the casual workers and there is no vacancy for permanent absorption of this workman, his prayer for reinstatement and regularization is not tenable under law.

To support his contention he has placed reliance in the case of **State of Karnatak and Others vs. Umadevi and Others reported in (2006) 4SCC page1 and in the case of Official Liquidator vs. Dayananada and others reported (2008)10SCC page 1** and submitted that in both the cases, Apex Court have deprecated the practice of absorption of daily wagers or casual workers against permanent post.

In the case of Umadevi refered supra, the constitution bench of the Apex Court have held

“Those who are working on daily wages formed a class by themselves, they cannot claim that they are discriminated as against those who have been regularly recruited on the basis of the relevant rules. No right can be founded on an employment on daily wages to claim that such employee should be treated on a par with a regularly recruited candidate, and made permanent in employment, even assuming that the principle could be invoked for claiming equal wages for equal work. There is no fundamental right in those who have been employed on daily wages or temporarily or on contractual basis, to claim that they have a right to be absorbed in service. As has been held by this Court, they cannot be said to be holders of a post, since, a regular appointment could be made only by making appointments consistent with the requirements of Articles 14 and 16 of the constitution. The right to be treated equally with the other employees employed on daily wages, cannot be extended to a claim for equal treatment with those who were regularly employed. That would be treating unequals as equals. It cannot also be relied on to claim a right to be absorbed in service even though they have never been selected in terms of the relevant recruitment rules. The arguments based on Articles 14 and 16 of the constitution are therefore overruled.”

16. On a careful reading of the judgment and on application of the facts to this case it is held that the workman for the change of the procedure, for non availability of regular post and for not being appointed on regular basis consistent with the requirement cannot be held entitled to reinstatement to service and regularization with back wages. This issue is accordingly answered.

Now the most important question is, to what benefit the workman is entitled to. When the workman claims back wage, the burden lies with the management to prove that he was gain fully employed during the period of dispute. In this case the management has not adduced any evidence to prove that the workman was gainfully employed after his termination. But at the same time it cannot be lost sight of the fact that there is no scope for his reinstatement and he had worked for 2 years only between May 2004 to April 2006 i.e. his first and last date of engagement. In the case of **Rashtrasant Tukdoji Maharaj Technical Education Sanstha Nagpur vs. Prashant Manikrao Kubitkar reported in 2017 LAB.I.C 2947, SC Hon'ble** have held that when the workman had worked for a period of 2 years only before his termination and such termination was found to be contrary to section 25-F and 25-G of the ID. Act, reinstatement in service is not the rule but an exception and ordinarily, grant of compensation would meet the ends of justice.

Hence, considering in the facts and circumstance of the case of the workman and the ratio of the judgment Rashtrasant Tukdoji Maharaja Technical Education referred supra, and also keeping in mind the short period for which the workman had worked for the management as casual labour, it is felt that an amount of Rs. 100,000/- shall be paid by the management to the workman as compensation for terminating his job without following the mandatory provisions and same would do substantial justice to the workman.

17. The reference is answered accordingly.

Dictated & Corrected by me.

PRANITA MOHANTY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2019

का.आ. 549.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली और अन्य एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1 नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 301/2011) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 26.03.2019 को प्राप्त हुए थे।

[सं. एल-42012/66/201-आईआर (डीयू)]

वी. के. ठाकुर, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th March, 2019

S.O. 549.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 301/2011) of the *Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-1* New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, New Delhi and Others, and their workmen which were received by the Central Government on 26.03.2019.

[No. L-42012/66/2011-IR(DU)]

V. K. THAKUR, Section Officer

ANNEXURE

IN THE COURT OF SHRI AVTAR CHAND DOGRA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT No. 1, DWARKA COURTS COMPLEX : NEW DELHI

ID No. 301/2011

Shri Mahender S/o. Shri Omkar,
Ex Nala Beldar,
Through Municipal Employees' Union,
Agarwal Bhawan,
GT Road, Tis Hazari,
Delhi -110054.

... Workman/Claimant

Versus

The Management of Municipal Corporation of Delhi,
Through its Commissioner,
Town Hall, Chandni Chowk,
Delhi 110006.
Now at Dr. S.P. Mukherjee Marg,
Civic Centre, J.L. Nehru Marg,
New Delhi 110002.

...Management

AWARD

This Award shall dispose of a reference which was made to this Tribunal by the appropriate Government vide its letter No. L-42012/66/2011-IR(DU) dated 12.08.2011 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (in short the Act) for adjudication of an industrial dispute, terms of which are as under:

‘Whether the action of the Management of Municipal Corporation of Delhi in terminating the services of Shri Mahender, Ex Nala Beldar w.e.f. 30/4/2009 is legal and justified ? What relief the workman is entitled to and from which date ?’

2. Both parties were put to notice and the claimant/workman filed statement of claim, with the averments that the workman joined into the employment of Management/MCD on 15/11/2003 as a Nala Beldar and initially he was posted in Ward No.24 Raghubir Nagar, Tagore Garden, New Delhi and in October, 2007 he was transferred to Ward No.102, Raghubir Nagar, West Zone, Delhi. He was being treated as a daily rated/muster roll worker and was being paid fixed wages, as revised from time to time under Minimum Wages Act, whereas his other counterparts who were doing the identical work of the same value, were treated as regular employees and were paid salary in proper pay-scale. The workman was discharging his duties to the entire satisfaction of his superiors and was having unblemished & uninterrupted record of service to his credit. It is pleaded that though the Management should have regularized services of the claimant/workman, but the Management terminated his services w.e.f. 30/4/2009 without assigning any reason and without following the principle of natural justice, which action of the Management is totally illegal, unjust and bad inasmuch as no notice or service compensation was offered or paid to him at the time of termination of his services. It is also pleaded that the Management had prepared a list of 175 Nos. of muster roll employees of West Zone and out of them 173 workers have been regularized and remaining two including the workman were totally ignored. The impugned termination of the workman is violative of Section 25-F, G and H of the Act and even fresh hands have also been taken into employment by the Management. A demand notice dated 9/6/2010 was issued to the Management but to no response. The workman approached the Conciliation Officer but to no effect. Prayer has been made for reinstatement of the workman with continuity of service and full back wages. He has also prayed for grant of cost of litigation as provided under Section 11(7) of the Act.

3. The claim petition has been resisted by the Management No.1/MCD who filed its written statement. While denying the allegations of the workmen, it has been alleged that the workman was engaged for specific work and for a particular period in exigency of work after due approval from the competent authority. While admitting that the workman was enrolled w.e.f. 16/11/2003 on the muster roll and worked upto 3/4/2009, it has been alleged that the

workman left the work and stopped coming to office after 14/4/2009 without any prior intimation and as such he himself abandoned the job. It has been stated that the workmen who joined the Management upto 31/3/2003 were regularized. It has been claimed that no notice is required in the case of daily wage workers. Prayer has been made for dismissal of the claim petition with costs.

4. On the pleadings of the parties, my learned Predecessor vide order dated 09/12/2011 framed following issues :-

- (1) Whether the claimant abandoned his job w.e.f. 15/4/2009 ? If yes, its effect?
- (2) As in terms of referee ?
- (3) Relief.

5. The Claimant/workman in support of his case examined himself as WW1 and tendered his affidavit Ex.WW1/A alongwith documents Ex.WW1/1 to Ex.WW1/11. On the other hand, the Management in order to rebut the case of the claimant examined Shri Ajay Gautam, Executive Engineer who also tendered his affidavit Ex.MW1/A.

6. I have carefully gone through the evidence adduced on record by both the parties and have given my thoughtful consideration to rival contentions of Shri Rajiv Aggarwal, A./R for the claimant and Shri Rajiv Bhardwaj, A/R for the Management. My findings on the above issues are as follows.

Issue No.1 and 2 :-

7. Both these issues are taken up together as the same can be conveniently disposed of by common discussion.

8. There is no dispute about preposition of law that onus to prove that claimant was in the employment of Management is always on the workman/claimant and it is for the workman to adduce evidence to prove factum of his employment with the Management. Such evidence may be in form of receipt of salary or wages for 240 days or record of his/her appointment or engagement for that year to show that he/she has worked with the employer for 240 days or more in a Calendar year. In this regard, reference may be made to Batala Coop. Sugar Mills Ltd. Vs. Sowaran Singh, (2005) 8 Supreme Court Cases 481 as well as Director Fisheries Terminated Division Vs. Bhikubhai Meghajibhai Gavda (2012) 1 SCC 47.

9. This Tribunal has to consider the oral as well as documentary evidence adduced on record so as to decide the question of relationship of employer and employee between the Management and the claimant herein. In this respect, it is appropriate to refer to the affidavit ExWW1/A of the claimant. It is clear from the perusal of the affidavit Ex.WW1/A that it is in consonance with the pleadings i.e. statement of claim filed by the claimant. The claimant has filed on record copy of the identity card (Ex.WW1/4 and Ex.WW1/7) wherein his designation has been shown as Nala Belder and he has been described as Muster Roll worker. Document Ex.WW1/8 being a Ward wise list of staff working in DEM West Zone (Ward No.102) shows that the claimant was working as regular Muster-Roll Belder and same is dated 23/11/2007. Document Ex.MW1/W-1 clearly shows that the workman/claimant regularly & continuously worked with the Management from 1st April, 2004 to 14/11/2008 and his attendance in a month was almost full, if weekly off & gazette Holidays are taken into consideration. Thus, It is evident from the pleading of the parties and evidence adduced on record that the claimant/workman had joined the Management on 15/11/2003 as Nala Beldar on daily rate/muster roll basis and he continuously worked with the Management till April, 2009. It emerges that the workman/claimant continued to work with the Management for about six years on daily wage/muster roll basis. It would not be out of place to mention here that although the Management has taken a plea that the workman was engaged for specific work and for a particular period in exigency of work after due approval from the competent authority, **however the Management has not produced any document to substantiate this plea.** I may mention that the employment under the Municipal Corporation of Delhi was not a private employment and the Corporation being a statutory body was liable to produce documents in support of its contention and non production of the relevant documents leads this Tribunal to draw adverse inference against the Management and to hold that the employment/engagement of the claimant/workman was not for a specific period. Therefore, it stands clearly proved on record that the claimant was engaged as Nala Beldar by the Management on daily wage./muster roll basis and as such, to my mind, the claimant is a “workman” within the definition of Section 2(S) of the Act. In this regard, reference can be made to the decision in the case of Devinder Singh Vs. Municipal Council, Sanaur, AIR 2011 Supreme Court 2532, wherein the Hon’ble Apex Court while interpreting the provisions of Section 2(S) of the Act which deals with the definition of “workman” has observed as under :-

“The source of employment, the quantum of recruitment, the terms & conditions of employment/ contract of service, the quantum of wages/ pay and mode of payment are not at all relevant for deciding whether or not a person is a workman within the meaning of Section 2(s) of the Act. The definition of workman also does not make any distinction between full time and part time employee or a person appointed on contract basis. There is nothing in the plain language of Section 2(s) from which it can be inferred that only person employed on regular basis or a person employed for doing whole time job is a workman and the one employed on temporary, part time or contract basis on fixed wages or as a casual employee or for doing duty for fixed hours is not a workman.”

It is clear from the perusal of aforesaid observations that even if a person is engaged on temporary, part time or contract basis or for doing any other kind of work and is duly paid wages for the said work, in that eventuality such a person would be covered by the definition of “workman” as provided in Section 2(S) of the Act.

10. As discussed above, in the case in hand engagement of the claimant as Nala Beldar stands established and as such this Tribunal has no hesitation to hold that there existed relationship of Employer-employee between the Management and the claimant herein and that the claimant had been working with the Management for about six years prior to his alleged termination on 30/4/2009. It may not be out of place to mention here that according to the claimant he worked upto 30/4/2009, whereas contention of the Management is that he worked only upto 14/4/2009 and after that he himself had abandoned the job. Even if it is assumed for the sake of arguments that the claimant/work absented from the job w.e.f. 15/4/2009 onwards and had abandoned the job himself, in that eventuality it was moral and legal duty of the Management to issue call back notice to the claimant prior to his termination. MW1 Shri Ajay Gautam – sole witness examined by the Management has admitted in his cross examination that the Management has not sent any call back notice to the workman to join his duties. He also admitted that no notice pay or service compensation was given or offered to the claimant before deleting his name from the muster roll of the Management. This goes to show that the Management terminated the services of the claimant/workman in violation of the provisions of Section 25-F of the Act.

11. I may mention that provisions of Section 25-F of the Act which provides for conditions precedent to retrenchment of workmen, are absolute and inexorable and it reads as under :-

“25-F : Conditions precedent to retrenchment of workmen –

No workman employed in any industry **who has been in continuous service for not less than one year under an employer** shall be retrenched by that employer until –

- (a) The workman has been given one month’s notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice;
- (b) The workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days’ average pay for every completed years of continuous service or any part thereof in excess of six months; and
- (c) Notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be specified by the appropriate Government by notification in the Official Gazette.”

The above provision makes it clear that the employer is required to give notice to the appropriate Government apart-from giving one month’s notice in writing or one month’s wages in lieu of the notice and payment of retrenchment compensation to the concerned workman. There is nothing on record to show that either any notice was issued by the Management or notice pay/compensation was paid to the workman/claimant prior to his termination. As such, the Management has violated the provisions of Section 25-F of the Act.

12. There is long line of decisions of Hon’ble Apex Court as well as of various High Courts that provisions of Section 25-F of the Act are mandatory in nature and termination of the workman from services in derogation of the provisions of Section 25-F of the Act will render action of the Management to be illegal and void under the law.

13. Since there is no evidence on record that any valid notice was issued by the Management to the workman at the time of termination or in lieu of such notice, any compensation was paid to her, as such action of the Management in terminating the services of the workman w.e.f. 25/1/2012 is held to be illegal and void.

14. Now the residual question is whether the claimant/work is entitled to any incidental relief of payment of back wages and/or reinstatement of service with full back wages. It is proved on record that claimant was continuously in the employment of the Management since 05/01/2007. There is no show cause notice or charge-sheet issued to the claimant/workman by the Management. Moreover, the job of the workman as Nala Beldar is considered to be of perennial and regular nature. Though claimant has pleaded and testified that he is totally unemployed since his termination on 30/4/2009. No evidence to the contrary has been adduced by the Management. Even if it is assumed that the workman/claimant is doing intermittent job, that can not be considered to be regular gainful employment of the claimant/workman herein.

15. The Hon’ble Apex Court in case “Deepali Gundu Surwase v. Kranti Junior Adhyapak Mahavidyalaya” reported as (2013) 10 SCC 324 has held as under :

“The propositions which can be culled out from the aforementioned judgments are :

- (i) In cases of wrongful termination of service, reinstatement with continuity of service and back wages is the normal rule.
- (ii) Ordinarily, an employee or workman whose services are terminated and who is desirous of getting back wages is required to either plead or at least make a statement before the adjudicating authority or the Court of first instance that he/she was not gainfully employed or was employed on lesser wages. If the employer wants to avoid payment of full back wages, then I has to plead and also lead cogent evidence to

prove that the employee/workman was gainfully employed and was getting wages equal to the wages he/she was drawing prior to the termination of service. This is so because it is settled law that the burden of proof of the existence of a particular fact lies on the person who makes a positive averment about its existence. It is always easier to prove a positive fact than to prove a negative fact. Therefore, once the employee shows that he was employed, the onus lies on the employer to specifically plead and prove that the employee was gainfully employed and was getting the same or substantially similar emoluments."

16. The Hon'ble Apex Court also held that different expressions are used for describing the consequence of termination of a workman's service/employment/engagement by way of retrenchment without complying with the mandate of Section 25-F of the Act. Sometimes it has been termed as ab initio void, sometimes as illegal per se, sometime as nullity and sometimes as non est. Leaving aside the legal semantics, we have no hesitation to hold that termination of service of an employee by way of retrenchment without complying with the requirement of giving one month's notice or pay in lieu thereof and compensation in terms of Section 25F (a) and (b) has the effect of rendering the action of the employer and nullity and the employee is entitled to continue in employment as if his service was not terminated. (*Anoop Sharma Vs. Executive Engineer, Public Health Division No.1 Panipat* (2010) 5 SCC 497).

17. A Bench of three Judges of the Hon'ble Supreme Court in the case of Hindustan Tin Works Private Limited v. Employees of Hindustan Tin Works Private Limited (1979) 2 SCC 80 held that relief of reinstatement with continuity of service can be granted where termination of service is found to be invalid. It would mean that the employer has taken away illegally the right to work of the workman contrary to the relevant law or in breach of contract and simultaneously deprived the workman of his earnings. If thus the act of employer is found to be totally illegal and arbitrary, in that eventuality the workman is required to be reinstated, with full back wages. Plain common sense also dictates that the removal of an order terminating the services of workmen must ordinarily lead to the reinstatement of the services of the workmen alongwith payment of back wages.

18. However, Hon'ble Apex Court in the case of General Manager, Haryana Roadways Vs. Rudan Singh, reported as 2005 SCC (L&S) 716 observed as under :-

"8. There is no rule of thumb that in every case where the Industrial Tribunal gives a finding that the termination of service was in violation of Section 25-F of the Act, entire back wages should be awarded. A host of factors like the manner and method of selection and appointment i.e. whether after proper advertisement of the vacancy or inviting applications from the employment exchange, nature of appointment namely, whether ad hoc, short term, daily wage, temporary or permanent in character, any special qualification required for the job and the like should be weighed and balanced in taking a decision regarding award of back wages. *One of the important factors which has to be taken into consideration is the length of service, which the workman had rendered with the employer. If the workman has rendered a considerable period of service and his services are wrongfully terminated, he may be awarded full or partial back wages keeping in view the fact that at this age and the qualification possessed by him he may not be in a position to get another employment. However, where the total length of service rendered by a workman is very small, the award of back wages for the complete period i.e. from the date of termination till the date of the award, which our experience shows is often quite large, would be wholly inappropriate. A regular service of permanent character cannot be compared to short or intermittent daily wage employment though it may be for 240 days in a calendar year.*"

19. Yet in another latest case of Bholanath Lal and others Vs. Shree Om Enterprises (P) Ltd., Manu/DE/1922/2018 (decided on 10/5/2018), Hon'ble High Court of Delhi while considering the question of illegal termination and reinstatement held as under :-

"The cases in which the competent court or tribunal finds that the employer has acted in gross violation of the statutory provisions and/or the principles of natural justice or is guilty of victimizing the employee or workman, then the court or tribunal concerned will be fully justified in directing payment of full back wages. In such cases, the superior courts should not exercise power under Article 226 or 136 of the Constitution and interfere with the award passed by the Labour Court, etc. merely because there is a possibility of forming a different opinion on the entitlement of the employee/workman to get full back wages or the employer's obligation to pay the same. The courts must always keep in view that in the cases of wrongful/illegal termination of service, the wrongdoer is the employer and the sufferer is the employee./workman and there is no justification to give a premium to the employer of his wrongdoings by relieving him of the burden to pay to the employee/ workman his dues in the form of full back wages."

A similar view has been taken in the case of Delhi Jal Board Vs. Vimal Kumar (decided on 5-4-2018) MANU/de/1322/2018 wherein service of a casual driver was terminated without any notice or payment of one month's salary in lieu of such notice. The Industrial Tribunal answering the reference held the action of the management to be illegal and in violation of Section 25-F of the Act. The Award was upheld by Hon'ble High Court of Delhi by observing as under :-

"In view of the above discussion, I am unable to discern any illegality or infirmity in the impugned Award, dated 29th May, 2003, of the Labour Court, to the extent that it holds the termination of the services of the respondent, by the petitioner, to be illegal and unlawful. I am entirely in agreement with the finding, of the Labour Court, that the services of the respondent were retrenched in violation of Section 25-F of the ID Act and

that, therefore, he was entitled to be reinstated in service with all consequential benefits. In view of the fact that going by the age of the respondent as disclosed in the counter affidavit filed before this Court, he would, today, be only 50 years of age, and also in view of the fact that the termination of his services as SCM Driver was not on account of any deficiency or shortcoming detected in the manner of discharge by the respondent, of his duties as such, I am of the opinion, that the facts of the present case, do not warrant any interference with the direction, of the Labour Court, to the petitioner to reinstate the respondent in service with the benefit of continuity of service. The petitioner is, therefore, directed to reinstate the respondent in service forthwith.

Inasmuch as the respondent has not been rendering any service to the petitioner since the date of his termination, however, the back wages payable to the respondent would be limited to 50 per cent of the wages which he would have drawn he had continued to serve the petitioner.....”

20. Having regard to the legal position as discussed above and the fact that the claimant was performing duty to a post of regular and perennial nature, this Tribunal is of the firm view that the claimant herein is entitled for reinstatement into service on the same post, with 60 per cent back wages, inasmuch as termination of the claimant/workman is per-se illegal and the claimant/workman is not gainfully employed anywhere since after his termination by the Management. The claimant/workman is also granted litigation costs of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) as provided under Section 11(7) of the Act and same shall also be paid by the Management. Award is passed accordingly.

Date : 20.3.2019

AVTAR CHAND DOGRA , Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2019

का.आ. 550.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली और अन्य एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1 नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 172/2016) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 26.03.2019 को प्राप्त हुए थे।

[सं. एल-42025/03/2019-आईआर (डीयू)]

वी. के. ठाकुर, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th March, 2019

S.O. 550.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 172/2016) of the *Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-1* New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The M/s. Jamia Milia Islamia, Jamia Nagar, New Delhi, and Others, and their workmen which were received by the Central Government on 26.03.2019.

[No. L-42025/03/2019-IR(DU)]

V. K. THAKUR, Section Officer

ANNEXURE

IN THE COURT OF SHRI AVTAR CHAND DOGRA : PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT No.1, DWARKA COURTS COMPLEX : NEW DELHI

ID No. 172/2016

Shri Mohsin Khan S/o. Shri Kamruddin Khan,
Through Delhi Karamchari Sangh (Regd.),
W-4, in front of Kalkaji Bus Depot,
Govind Puri,
New Delhi 110019

...Workman/Claimant

Versus

M/s. Jamia Milia Islamia,
Jamia Nagar,
New Delhi 110025

...Management

AWARD

This Award shall decide a claim petition directly filed by the workman./claimant Mohsin Khan under Section 2-A of the Industrial Disputes Act, 1947 with the averments that the workman was appointed by the Management to the post of Junior Engineer on 26-9-2006 and his last drawn wages were Rs.20000/- per month. The Management had not issued any letter of appointment in his favour. During the course of employment, he did not give any chance of complaint to the Management and his service record was well satisfactory. The Management neither paid any over time wages to her, nor provided any legal facilities like ESI, PF, Bonus, Pay Slip, Leave with wages etc to him despite regular demands. The Management became annoyed & started to get rid of workman but failed and on 11/6/2014 the management illegally terminated his services without any rhyme or reason and without paying any service compensation or without conducting any domestic enquiry against him and as such the termination of the claimant/workman is in violation of Section 25-F and 25-G of the Act. It is pleaded that a demand notice was sent to the Management by the workman/claimant on 4/1/2016 but to no response. The workman approached the Conciliation Officer but to no avail. The workman has worked with the Management continuously for more than 240 days in the preceding year. The workman neither absented from the services nor resigned himself. After illegal termination from service, the workman searched for the job at many places but he did not find any work and he is completely unemployed and he wants to join duty with the Management on the same post. The claimant has prayed for his reinstatement in service with continuity of service and with full back wages and all other consequential benefits.

2. The claim petition has been resisted by the Management who filed its written statement and took preliminary objections inter alia that the claimant was working as contractual employee under the project in the Department of Building & Construction on consolidated salary of Rs.8000/- and when the concerned Project became over, contractual services of the workman were discontinued. It is also alleged that the claim of the workman is barred by limitation and laches also. On merits, while denying the allegations of the workman, it has been pleaded that the contractual appointment of the workman was extended with breaks from time to time upto 9/4/2014. The work of the workman was not satisfactory as his work was being done with the help of other Engineers in the department for the project work. The contractual appointment of the workman could not be extended because the project under which the workman was working had got finished. It is alleged that the statement of claim of the workman is misleading. It is denied that the Management has violated the provisions of Section 25-F and 25-G of the Act. Prayer has been made for dismissal of the claim petition.

3) The claimant/workman filed rejoinder wherein he denied all the allegations made by the Management and reiterated his own case as set up in the claim petition.

4) On the pleadings of the parties, following issues were framed on 16/5/2017 :-

- i) Whether termination of the claimant on 13.4.2014 is wrong and illegal (sic. 11/6/2014) is wrong and illegal and is against the principles of natural justice as alleged ?
- ii) Whether the claimant is entitled for reinstatement alongwith full back wages, as alleged ?
- iii) Whether the claim is not legally maintainable in view of the various preliminary objections ?
- iv) Whether the claim is time barred as alleged ?

5) The Claimant in support of his case examined himself as W.W.1 and tendered his affidavit Ex.WW1/A alongwith documents Ex.WW1/1 to WW1/6.

6) On the other hand, the Management in order to rebut the case of the claimant examined two witnesses – one Mohd. Ashfaq, Asstt. Executive Engineer in Jamia Milia as MW1 who tendered his evidence by way of affidavit Ex.MW1/A and another Shri Syed Abbas Raz Naqvi, Section officer who also tendered his evidence by way of affidavit Ex.MW2/A.

7) I have carefully gone through the evidence adduced on record by both the parties and have give my thoughtful consideration to rival contentions of the parties counsel.

Issue No 4 :-

8) The Management has taken an objection that the claim petition is time barred and as such not maintainable. However, nothing has been shown on behalf of the Management as to how the claim petition is barred by limitation. It is fairly settled that provisions of Section 2-A of the Act enables a workman to approach Labour Court or Industrial Tribunal directly, without requirement of reference by Govt, in the cases where any employer discharges, dismisses, retrenches or otherwise terminates the serviced of an individual workman, for adjudication of the dispute after expiry of forty five days from the date he makes an application to the Conciliation Officer of the Appropriate Govt. However, clause (3) of Section 2-A of the Act clearly provides that such an application/claim shall be made to the Labour Court or Tribunal **before the expiry of three years from the date of his/her discharge, dismissal, retrenchment or otherwise termination of service.** According to the case of the workman/claimant, he was disengaged/terminated from service on 11/6/2014, whereas Management has taken a plea that services of the workman were discontinued on 9/4/2014 when the Project under which the workman/claimant was working got finished. Thus, the dispute between the parties is with respect to discharge/retrenchment of the workman.

9) Perusal of the record shows that the present petition was filed by the claimant on 9/12/2006. He has filed on record certificate dated 30/6/2016 (Ex.WW1/6) issued by the Conciliation Officer to the effect that though discussions were made on various dates but no settlement has been arrived at between the parties. The said certificate also recites that mandatory 45 days of filing the dispute of the claimant before the Conciliation Officer as provided under Section 2-A(2) of the Act has been completed. Even if it is presumed that the workman was retrenched/discharged from services on 9/4/2014 as alleged by the Management, in that eventuality also the present claim petition having been filed on 9/12/2016 i.e. within three years from the date of alleged retrenchment/discharge./termination etc., after complying with the provisions of Section 2-A(2) of the Act, is well within the period of limitation. As such, this issue is accordingly decided against the Management and in favour of the workman.

Issue No.1 to 3 :-

10) All these issues are being taken up together for the purpose of discussion and they can be conveniently disposed of.

11) It is clear from the pleading of the parties and evidence adduced on record especially certificate Ex.WW1/5 issued by Asstt.Registrar of Jamia Milia Islmia that the claimant was working to the post of Junior Engineer (Civil), on contract basis in the Building & Construction Department of the Management w.e.f. 26/9/2006 till 10/6/2014 with periodic extensions. Even MW2 Syed Abbas Raz Naqvi admitted that the workman worked with the Management from 26/9/2006 but volunteered he worked upto 9/4/2014 and not upto 10/6/2014. As such, the relationship of employer-employee between the parties stands established and the claimant is “workman” within the definition of Section 2(s) of the Act.

12) The workman/claimant while appearing as WW1 has testified that the Management had not issued any letter of appointment to him and that he used to work with sincerity and honesty, When he demanded legal/lawful facilities viz. annual increment, DA, HRA, Pay slip etc., the Management in order to get rid of him illegally terminated his service on 11/6/2014 without any rhyme or reason. On the contrary, contention of the Management is that the claimant/workman was working as Junior Engineer (Civil) under a project against contingencies of the project, on contractual basis w.e.f. 26/9/2006 till 9/4/2014 with periodic extensions and breaks. Copy of the agreement dated 26/9/2006 regarding contractual engagement of the workman/claimant with the Management has been filed on record as Ex.WW1/M-1, perusal of which shows that the claimant was engaged to meet the requirements of project titled “Under Special Grant sanctioned by UGC” which was/is likely to be accomplished by 31st March, 2007. Document Ex.WW1/M-2 (dated 26/9/2006) is the joining report of the claimant, whereas vide office order dated 30/3/2007 (Ex.WW1/M-3) contractual appointment of various Junior Engineers inclusive of the claimant was renewed from 1/4/2007 to 30/6/2007 or till further orders, **whichever is earlier.** It is undisputed fact that the workman/claimant continued to work with the Management till 12/6/2014 which fact is also admitted by MW1 Mohd. Ashfaq in his cross examination. . However, the Management has not filed on record any document in support of its contention that contractual appointment of the claimant as Junior Engineer was extended beyond 30/6/2007 periodically with breaks or that the specific project to which the workman was engaged/employed had come to an end in 2014. Though MW1 Mohd. Ashfaq deposed in his cross examination that during the period from 2006 to 2014 there were approx. 20 civil project (small and big), however he admitted that at present other civil project/s are still continuing. As such, contention of the Management that the workman worked on contractual basis with periodic extensions with specific breaks for a specific project and that when the said project came to an end, the services of the claimant were disengaged/discontinued and therefore the claim petition is not maintainable, can not be accepted,

13) The workman /claimant has deposed in his statement that during the course of employment, he did not give any chance of complaint to the Management and his service record was well satisfactory. The Management neither paid any over time wages to her, nor provided any legal facilities like ESI, PF, Bonus, Pay Slip, Leave with wages etc to him despite regular demands. The Management became annoyed & started to get rid of workman but failed and on 11/6/2014 the management illegally terminated his services without any rhyme or reason and without. At the time of termination, the Management has not paid service compensation to him and without conducting any enquiry. Thus the Management has violated the provisions of Section 25-F and 25-G of the Act.

14) The Management has not adduced any evidence to prove that any notice or compensation in lieu of notice period was issued to the claimant prior to his termination. MW1 Mohd. Ashfaq showed his ignorance whether the Management had paid service compensation and gratuity amount to the workman at the time of his termination or whether any show cause notice as issued to the workman prior to his termination or whether any domestic enquiry was conducted against the workman before his termination. He clarified that he himself had not given any show cause notice to the workman. Thus, it stands established from the evidence adduced on record that no charge sheet was served upon the claimant nor any enquiry was conducted against him prior to his termination. Further, the Management has failed to prove that retrenchment benefits have been paid to the claimant at the time of his termination from services. As such, there is violation of the provisions of Section 25-F of the Act.

15) There is long line of decisions of Hon’ble Apex Court as well as of various High Courts that provisions of Section 25-F of the Act are mandatory in nature and termination of the workman from services in derogation of the provisions of Section 25-F of the Act will render action of the Management Bank to be illegal and void under the law.

16) Since there is no evidence on record that any valid notice was issued by the Management to the workman at the time of termination or in lieu of such notice any compensation was paid to him, as such action of the Management in terminating the services of the workman is held to be illegal and void.

17) Now the residual question is whether the claimant/work is entitled to any incidental relief of payment of back wages and/or reinstatement of service with full back wages. The workman/claimant has testified that after illegal termination, he searched for the job at many places but did not find any job and thus, he is completely unemployed and depended upon his parents. The Management has not adduced any evidence to show that the claimant is gainfully employed or earning his livelihood after the date of his termination.

18) The Hon'ble Apex Court in case **"Deepali Gundu Surwase v. Kranti Junior Adhyapak Mahavidyalaya"** reported as (2013) 10 SCC 324 has held as under :

"The propositions which can be culled out from the aforementioned judgments are :

- i) In cases of wrongful termination of service, reinstatement with continuity of service and back wages is the normal rule.
- ii) Ordinarily, an employee or workman whose services are terminated and who is desirous of getting back wages is required to either plead or at least make a statement before the adjudicating authority or the Court of first instance that he/she was not gainfully employed or was employed on lesser wages. If the employer wants to avoid payment of full back wages, then I has to plead and also lead cogent evidence to prove that the employee/workman wads gainfully employed and was getting wages equal to the wages he/she wads drawing prior to the termination of service. This is so because it is settled law that the burden of proof of the existence of a particular fact lies on the person who makes a positive averments about its existence. It is always easier to prove a positive fact than to prove a negative fact. Therefore, once the employee shows that he was employed, the onus lies on the employer to specifically plead and prove that the employee was gainfully employed and was getting the same or substantially similar emoluments."

19) The Hon'ble Apex Court also held that different expressions are used for describing the consequence of termination of a workman's service/employment/engagement by way of retrenchment without complying with the mandate of Section 25F of the Act. Sometimes it has been termed as ab initio void, sometimes as illegal per se, sometime as nullity and sometimes as non est. Leaving aside the legal semantics, we have no hesitation to hold that termination of service of an employee by way of retrenchment without complying with the requirement of giving one month's notice or pay in lieu thereof and compensation in terms of Section 25F (a) and (b) has the effect of rendering the action of the employer and nullity and the employee is entitled to continue in employment as if his service was not terminated. (*Anoop Sharma Vs. Executive Engineer, Public Health Division No.1 Panipat* (2010) 5 SCC 497).

20) A Bench of three Judges of the Hon'ble Supreme Court in the case of **Hindustan Tin Works Private Limited v. Employees of Hindustan Tin Works Private Limited** (1979) 2 SCC 80 held that relief of reinstatement with continuity of service can be granted where termination of service is found to be invalid. It would mean that the employer has taken away illegally the right to work of the workman contrary to the relevant law or in breach of contract and simultaneously deprived the workman of his earnings. If thus the act of employer is found to be totally illegal and arbitrary, in that eventuality the workman is required to be reinstated, with full back wages. Plain common sense also dictates that the removal of an order terminating the services of workmen must ordinarily lead to the reinstatement of the services of the workmen alongwith payment of back wages.

21) However, Hon'ble Apex Court in the case **General Manager, Haryana Roadways Vs. Rudan Singh**, reported as 2005 SCC (L&S) 716 observed as under :-

"8. There is no rule of thumb that in every case where the Industrial Tribunal gives a finding that the termination of service was in violation of Section 25-F of the Act, entire back wages should be awarded. A host of factors like the manner and method of selection and appointment i.e. whether after proper advertisement of the vacancy or inviting applications from the employment exchange, nature of appointment namely, whether ad hoc, short term, daily wage, temporary or permanent in character, any special qualification required for the job and the like should be weighed and balanced in taking a decision regarding award of back wages. *One of the important factors which has to be taken into consideration is the length of service, which the workman had rendered with the employer. If the workman has rendered a considerable period of service and his services are wrongfully terminated, he may be awarded full or partial back wages keeping in view the fact that at this age and the qualification possessed by him he may not be in a position to get another employment. However, where the total length of service rendered by a workman is very small, the award of back wages for the complete period i.e. from the date of termination till the date of the award, which our experience shows is often quite large, would be wholly inappropriate. A regular service of permanent character cannot be compared to short or intermittent daily wage employment though it may be for 240 days in a calendar year.*"

22. Yet in another latest case of **Bholanath Lal and others Vs. Shree Om Enterprises (P) Ltd., Manu/DE/1922/2018** (decided on 10/5/2018), Hon'ble High Court of Delhi while considering the question of illegal termination and reinstatement held as under :-

“The cases in which the competent court or tribunal finds that the employer has acted in gross violation of the statutory provisions and/or the principles of natural justice or is guilty of victimizing the employee or workman, then the court or tribunal concerned will be fully justified in directing payment of full back wages. In such cases, the superior courts should not exercise power under Article 226 or 136 of the Constitution and interfere with the award passed by the Labour Court, etc. merely because there is a possibility of forming a different opinion on the entitlement of the employee/workman to get full back wages or the employer’s obligation to pay the same. The courts must always keep in view that that in the cases of wrongful/illegal termination of service, the wrongdoer is the employer and the sufferer is the employee./workman and there is no justification to give a premium to the employer of his wrongdoings by relieving him of the burden to pay to the employee/ workman his dues in the form of full back wages.”

A similar view has been taken in the case of **Delhi Jal Board Vs. Vimal Kumar (decided on 5-4-2018)** **MANU/de/1322/2018** wherein service of a casual driver was terminated without any notice or payment of one month’s salary in lieu of such notice. The Industrial Tribunal answering the reference held the action of the management to be illegal and in violation of Section 25-F of the Act. The Award was upheld by Hon’ble High Court of Delhi by observing as under :-

“In view of the above discussion, I am unable to discern any illegality or infirmity in the impugned Award, dated 29th May, 2003, of the Labour Court, to the extent that it holds the termination of the services of the respondent, by the petitioner, to be illegal and unlawful. I am entirely in agreement with the finding, of the Labour Court, that the services of the respondent were retrenched in violation of Section 25-F of the ID Act and that, therefore, he was entitled to be reinstated in service with all consequential benefits. In view of the fact that going by the age of the respondent as disclosed in the counter affidavit filed before this Court, he would, today, be only 50 years of age, and also in view of the fact that the termination of his services as SCM Driver was not on account of any deficiency or shortcoming detected in the manner of discharge by the respondent, of his duties as such, I am of the opinion, that the facts of the present case, do not warrant any interference with the direction, of the Labour Court, to the petitioner to reinstate the respondent in service with the benefit of continuity of service. The petitioner is, therefore, directed to reinstate the respondent in service forthwith.

Inasmuch as the respondent has not been rendering any service to the petitioner since the date of his termination, however, the back wages payable to the respondent would be limited to 50 per cent of the wages which he would have drawn he had continued to serve the petitioner.....”

23) Having regard to the legal position as discussed above and the fact that the claimant was performing duty to a post of regular and perennial nature, this Tribunal is of the firm view that the claimant herein is entitled for reinstatement into service on the same post, with 50 per cent back wages, inasmuch as termination of the claimant/workman is per-se illegal, particularly when the job is of regular and perennial nature and the claimant/workman is not gainfully employed anywhere since after his termination by the Management. Award is passed accordingly.

Date :18.3.2019

AVTAR CHAND DOGRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2019

का.आ. 551.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स कार्यकारी अभियंता (विद्युत विभाग), सीपीडब्ल्यूडी, देहरादून, विद्युत मंडल, देहरादून और अन्य एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2 नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 54/2015) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 26.03.2019 को प्राप्त हुए थे।

[सं. एल-42011/24/2015-आईआर (डीयू)]

वी. के. ठाकुर, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th March, 2019

S.O. 551.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 54/2015) of the *Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-2* New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Executive Engineer (Electrical Division), CPWD, Dehradun Central Electrical Division, Dehradun and Others, and their workmen which were received by the Central Government on 26.03.2019.

[No. L-42011/24/2015 -IR(DU)]

V. K. THAKUR, Section Officer

ANNEXURE**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI**

Present : Smt. Pranita Mohanty, Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour
Court-II, New Delhi.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 54/2015

Date of Passing Award- 14th March, 2019

Between:

Shri Amit Kumar, Wireman
As represented by
All India Central PWD (MRM)
Karamchari Sangathan (Regd),
House No. 4823, Gali No. 13,
Balbir Nagar Extension,
Shahdra, Delhi- 110032

... Workman

Versus

The Executive Engineer (Electrical Division),
CPWD, Dehradun Central Electrical Division,
Subhash Road,
Dehradun- 248001

... Management

Appearances:-

Shri Satish Kumar Sharma, (Advocate) : For the Workman

Shri Atul Bhardwaj, (Advocate) : For the Management

AWARD

The Government of India in Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing between employer i.e. the management of CPWD, Dehradun Central Electrical Division, and its workman/claimant herein, under clause (d) of sub section (1) and sub section (2A) of section 10 of the Industrial Dispute Act 1947 vide letter No. L- 42011/24/2015 (IR(DU)) dated 27.03.2015 to this tribunal for adjudication to the following effect.

“Whether the workman Shri Amit Kumar is working on a prohibited nature of work and if so whether CPWD should consider him regularizing after termination the continuation of contract work on the said employment?”

Being noticed the workman and the management entered appearance and filed claim petition and written statement respectively, containing their stand.

The workman has stated that he started working with the management as a Wireman through a contractor w.e.f. 01.06.2004 at Central Electrical Division, CPWD Dehradun at ARC Sarsawa, Saharanpur. On 20.11.2012 his service was illegally terminated and at the time of termination no notice, notice pay, or retrenchment compensation etc were paid. During the course of his engagement he had worked for more than 240 days in a calendar year justifying regularization of his service. After his illegal termination the management engaged a substitute who is much junior to this workman, since he was discharging a perennial nature of work. Being aggrieved he approach the Conciliation Officer and upon his interference the workman was reinstated w.e.f. 01.05.2014. But again his service was terminated w.e.f. 27.01.2015 when he along with the co-workers demanded payment of minimum wage at par with their counter-part regular employees. The demand by the workman for the minimum wage was because the work discharged by him was similar to the work done by the regular employees. The workman had also demanded through the Union for his regular absorption since he had the requisite qualification and management had sufficient sanctioned post at that time.

The further contention of the workman is that in order to deprive the workman of his legitimate right the management went on changing contractors, though the workers remained the same. Under the provisions of section 25(5) of the Contract Labour (abolition and regulation) Act 1970, the workman is legally entitled to regular pay scale and admissible allowances at par with the regular work charged wireman. **The Hon'ble High Court of Delhi in CWP No. 4817 of 1999 (CPWDMRM Karamchari Sangathan vs. Union of India)** directed the Ministry of Labour for constitution of a board to look into the aspect of Contract Labour system prevalent in the CPWD. Pursuant thereto, a board was constituted and as per the recommendation of the said board, the Ministry of Labour issued notification on 31.07.2002 for abolition of Contract Labour system for 15 category of post including Khallasi and Wireman. Though the notification was circulated specifically to Urban Development Ministry, CPWD etc, the later did not implement the same. There was camouflage between the contractor and the management not to regularize the service of present

workman. In gross violation of the Provisions of Contract Labour (Abolition and Regulation) Act 1970 the management though required to register itself for engaging Contract Labour and the contractor required to obtain the license for the same, neither the management nor the contractor had not complied with the same. On the contrary, went on engaging Contract Labours in prohibitory category. Thus, the act of the management in terminating the employment of the workman is illegal and his employment should have been regularized by the management w.e.f. 20.11.2012 with full back wages and other service benefits.

The management filed written statement challenging the maintainability of this proceeding for non-joinder of parties as the contractor under whom the workman was employed is a necessary party. While denying employer employee relationship between the management and the workman the answering management has stated that in the case of State of Karnataka vs. Uma Devi, the Hon'ble Supreme Court have clearly prohibited absorption of casual/contractual workers engaged in different department on regular basis and to consider them at par with the regular employees. While specifically denying the claim of the workman that he was engaged as a wireman through contractor w.e.f 23.10.2004 and that his service was terminated on 20.11.2012 the management has pleaded that the Executive Engineer (E) CPWD Dehradun after obtaining a registration certificate from Central Labour Authority, had invited open tender from contractors for different purposes and the contractor so selected might have engaged the present workman. The management has no knowledge about the workman working for 240 days or more as he was an employee of the contractor. This management has also denied the stand of the reinstatement of the workman, on 01.05.2014 for intervention of the conciliation officer and the subsequent termination w.e.f. 04.02.2015. While denying that there are vacancies in the permanent cadre of wireman the management pleaded ignorance about the eligibility criteria if met by the workman. With such assertion, the management has claimed for dismissal of the claim petition. The workman then filed rejoinder alleging suppression of fact by the management.

On this rival pleading the following issues were framed for adjudication.

ISSUES

1. Whether the workman Sh. Vivek Kumar Tyagi was working on a prohibited nature of work? If so its effect?
2. If so, whether CPWD should consider him for regularizing, after terminating the continuation of contract work on the said employment? If so its effect?

During the hearing the workman examined himself as WW1 and proved, the copy of the demand for minimum wage advanced, through the Union before the management, indicating the salary due, drawn and the balance to be paid as Exhibit WW1/2. He has also filed the complaint filed before the Labour Commissioner initiating the conciliation proceeding, the report of the 50th meeting of the Central Advisory Contract Labour Board which has been marked as WW1/5, the Gazette notification of the decision of the government, taken on the report of the Advisory Board, prohibiting different categories of employment in contract labour process as Exhibit WW1/6. A letter written by Assistant Labour Commissioner to DG, CPWD requesting action on priority basis in view of the Gazette notification dated 31.07.2002 regarding abolition of contract Labour in respect of certain categories of workers. The workman has also filed the copy of the judgment of the Hon'ble High Court of Delhi passed in WPC No. 8741 of 1998 which has been marked as WW1/4. The workman has relied upon this judgment for the direction given by the Hon'ble High Court of Delhi directing implementation of the decision taken to abolish the Contract Labour in particular job/work in view of the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of All India Statutory Corporation. On behalf of the workman the judgment passed by this tribunal in another proceeding filed as exhibit WW1/8.

The management examined its Executive Engineer as MW1 who proved the registration certificate issued by the Central Labour Authority for executing work through contractor which has been marked as MW1/1. While no other documents have been filed this witness has clearly denied during his cross-examination about the employer and employee relationship between the parties.

In the written statement, the management has challenged the maintainability of the proceeding on non-joinder of necessary party. While maintaining the stand that the claimant/workman was admittedly engaged by a contractor and the said contractor being his employer is a necessary party to the proceeding, the A/R for management argued for dismissal of the claim petition on the ground of nonjoinder of necessary party alone.

Thus, before analyzing the claim of the workman on the basis of the oral & documentary evidence adduced, it is necessary to examine, whether the claimant who as per the claim statement was an employee of the contractor can maintain a dispute against the management? For an answer to this proposition, the Tribunal has to take note of the law contained in section 10 of the Contract Labour (Regulation & Prohibition) Act 1970 (in short The Contract Labour Act) which makes provision for prohibition of Employment of Contract Labour. For sake of convenience, Provisions of section 10 of Contract Labour Act are reproduced below.

“10- Prohibition of employment of Contract Labour:-

- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Appropriate Government may, after consultation with the Central Board or, as the case may be, a State Board, prohibit, by notification in the Official Gazette, employment of contract labour in any process, operation or other work in any establishment.

- (2) Before issuing any notification under sub-section (1) in relation to an establishment, the Appropriate Government shall have regard to the conditions of work and benefits provided for the contract Labour in that establishment and other relevant factors, such as—
- Whether the process, operation or other work is incidental to, or necessary for the industry, trade, business, manufacture or occupation that is carried on in the establishment;
 - Whether it is of perennial nature, that is to say, it is of sufficient duration having regard to the nature of industry, trade, business, manufacture or occupation carried on in that establishment;
 - Whether it is done ordinarily through regular workmen in that establishment or an establishment similar thereto;
 - Whether it is sufficient to employ considerable number of whole-time workmen.

If a question arises whether any process or operation or other work is of perennial nature, the decision of the Appropriate Government thereon shall be final.”

This provision, thus provides that the Appropriate Government may by notification in the Official Gazette, prohibit employment of contract labour in any process, operation or other work in any establishment.

Thus the question arises, when for issuance of notification by Appropriate Government engagement of Contract Labour is prohibited, what would be the status of the Contract Labour employed at the establishment?

The issue came up before the Hon'ble Supreme Court of India in Steel Authority of India (2001(7) SCC-1) and the Hon'ble Apex Court ruled there in, that, there can't be automatic absorption of contract Labourer by Principal Employer on issuance of notification by Appropriate Government, on abolition of contract Labour system. In the said judgment the Hon'ble Supreme Court have categorized the aggrieved Contractual Labourers for such situation in to 3 following categories;

- Where Contract Labour engaged is prohibited either for the abolition notification by Appropriate Government or for the abolition order passed by industrial adjudicator.
- Where Contract was found to be sham and nominal, rather a camouflage, conferring right on the workman as employee of Principal Employer.
- Where in discharge of a statutory obligation of maintaining a canteen in an establishment the principal employer availed the service of the contractor.

The Hon'ble Apex Court ruled that neither section 10 of the Contract Labour act nor any other provision in that act expressly or by necessary implication provides for automatic absorption of Contract Labour. Hence, the principal employer cannot be ordered for absorption of the Contract Labour working in the establishment. In the said judgment the Hon'ble Apex Court also held that on issuance of prohibitory notification u/s 10 of the contract labour Act prohibiting employment of contractual labour, in an Industrial Dispute brought by the contract labour challenging the condition of the service, the industrial adjudicator has to consider the question whether the contractor has been interposed either on the ground of having undertaken to produce any given result for the establishment or for the supply of Contract Labour. If the contract is found to be sham or camouflage the so called Contract Labour shall be treated as the employee of the principal employer, who shall be directed to regularize the services of the contract labour. By any means, the industrial adjudicator has to take up the exercise to ascertain the effective supervision test to find out if the contract labour is an employee of the contractor or the principal employer.

In view of the legal position discussed above it is concluded that the claimant can maintain a dispute against the management since he agitates that the contract agreement between the management and the contractor is sham and nominal.

FINDINGS

ISSUE No. 1

The workman Amit Kumar has pleaded that he was working as a wireman and for the notification made by the government u/s 10 of the contract labour Act the nature of the work done by him came under the prohibited category leading to his termination. To substantiate the same the workman has filed the copy of the Gazette notification Marked as WW1/5. The management has not disputed that the work of the Wireman comes under the prohibited category and for the said notification the work of the workman was dispensed with by the contractor who had employed him and not by the management CPWD. It is the stand of the workman that the contract between the management CPWD and different contractor is sham. On different point of time though contractor were changing, the present workman and many of his co-workers were working continuously completing 240 days in a calendar year. The workman in his oral testimony has stated that he was working under the direct supervision and control of management CPWD. Thus, it is now to be seen, if the workman was really an employee of the contractor or the management. The agreement between the management and the contractor for the year 2014-15 has been filed and marked as Exhibit MW1/2. This is a contract for 12 months starting from April 2014 ending on April 2015 for maintenance of electrical fitting, running of pump maintenance of light etc. no contract covering the period 01.06.2004 to 20.11.2012 during which the workman claims to have worked

has been filed by the management. Thus, from the said evidence there is absolutely no material to conclude that claimant/workman was an employee of the contractor. If at all there exist any contract between management and any contractor that would not influence the status of the workman. The workman has filed the representation submitted by the Union demanding minimum wage for the present workman and many others. This has not been disputed by the management too.

In the case of Steel Authority of India referred Supra, the Hon'ble Apex court have also prescribed for the effective control test to ascertain about the relationship of the workman with the management or the contractor. Not only that in the case of Chintaman Rao (1958(II)LLJ252) the Apex court ruled that the concept of employment involves 3 ingredients (i) Employer (ii) Employee (iii) Contract of Employment. The employer is one who employs or engages the service of other person. The employee is one who works for another for hire. The employment is the contract of service between the employer and employee were under the employee agrees to serve the employer subject to his control and supervision. In the case of Foot corporation of India reported in (1985(ii)LLJ4) the Hon'ble Apex Court pronounced that the contract of employment discloses a relationship of command and obedience between them. Where a contractor employs a workman to do the work which he contracted with a third person to accomplish, the workman of the contractor would not become more than the workman of the third person.

In the case of Shankar Balajiwaje reported in 1962(1)LLJ119 the Hon'ble Supreme Court have clarified that the control of the management which is a necessary element of the relationship of master and servant is not directed towards providing or dictating the nature of the article to be produced or the work to be done, but refers to other incident having the bearing on the process of the work the person carries out. The manner of work is to be distinguished from the type of work to be performed. Thus, from the above analysis of the Principle of Law, it emerges that the effective control is a test to determine the employer employee relationship between the parties.

In this proceeding, the workman is all along maintaining that he was working under the supervision and control of the management CPWD and not the contractor. He has stated so while testifying as WW1. WW1 is the executive engineer of the, management. During cross-examination this witness had admitted that the officials of the management were giving guidance and checking the work of the workman at the spot. This statement alone indicates the effective supervision of the work of the workman by the management which lead to a conclusion that the workman was the employee of the management and the contract between the management and the contractor as pleaded by the management is a camouflage. Issue no. 1 is accordingly answered in favor of the workman and it is held that he was working for a prohibited nature of work and for gazette notification by the Appropriate Government his service was dispensed, with effect from 20.11.2012. Issue no. 1 is accordingly answered.

ISSUE No. 2

Once it is held that workman was working for a prohibited nature of work and his employment came to an end for the Gazette notification, the next important question need to be answered is what should be the position of the workman thereafter. In the case of Steel Authority of India referred supra it has been held that there cannot be automatic absorption of Contract Labour by the principal employer on the issuance of the notification by the Appropriate Government. The management CPWD in its pleading has maintained that the claimant/workman is not their workman. He also argued that the effective control test prescribed in the case of Hussain Bhai referred supra is also not the conclusive test. By relying upon the case of Balwant Rai Saluja vs. Air India limited (2014) 9SCC407, he submitted that other relevant factors like

- (i) Who appoints the workers;
- (ii) Who pays the salary/remuneration;
- (iii) Who has the authority to dismiss;
- (iv) Who can take disciplinary action;
- (v) Whether there is continuity of service;
- (vi) Extent of control and supervision, i.e. whether there exists complete control and supervision.

are also to be considered to ascertain whether there exists complete control and supervision. While answering issue no. 1 it has already been held that the management CPWD for having effective control is the employer of the workman. Now it is to be seen what relief the workman is entitle to.

The workman has all along pleaded that the provision of section 25-F was not complied when his service was brought to an abrupt end. The management has admitted that no statutory notice for one month or one month's pay in lieu of the notice and retrenchment compensation was paid to the workman offering the explanation that the workman not being the employee of the management, the latter is under no obligation to comply 25-F of the ID Act. On the other hand the workman has stated that by rendering continuous service for a period of more than 1 year as contemplated under section 25-B of the Act, he is entitled to the retrenchment compensation by the management. In this regard the workman has relied upon several pronouncement of the Supreme Court.

At the cost of repetition be its stated that there is no dispute about the termination of the work of the workman and its date. It also stands crystallized that neither notice pay nor retrenchment compensation was paid. For the finding

that there was a relationship of employer and employee between the parties on the date of retrenchment it is held that the retrenchment of the workman is violative of the provision of section 25F of the Act.

It is a settled principle of law that in case of wrongful retrenchment dismissal or discharge, the normal rule is to award reinstatement. But where a case falls in any of the exception to the General Rule, the industrial adjudicator has discretion to award reasonable and adequate compensation in lieu of reinstatement. Section 11A of the Act vest the industrial adjudicator with discretion to give “such other relief to the workman “ in case of discharge or dismissal, depending upon the circumstances of the individual case, where for some valid reasons it considers the reinstatement with or without conditions will not be fair or proper. In this case the workman though stated in the claim petition that the nature of work discharged by him was perennial in nature and there are regular vacancies for the said post, no evidence regarding the vacancy has been adduced. The workman has not obtained any information regarding the vacant positions in the management against which he can be reinstated. But at the same time it is found that the witness examined on behalf of the management has admitted that the nature of work discharged by the workman was perennial in nature, but denied about the vacancies and stated that the management being a department of the government is recruiting its employees following its recruitment rule and there are no vacancies against which he can be absorbed. No document to that effect has also been filed by the management. Hence, considering the stand taken by both the parties and the evidence adduced, no circumstances have been made out for a deviation from the general rule of reinstatement.

From the evidence adduced by the workman it has emerged that he was engaged by the management through contractor by creating a make belief contract agreement and even management could not prove those contract agreement. On a careful examination of the evidence on record, it is found that the management was his real employer and his service was disengaged when he tried to seek right of payment of minimum wages as notified by the appropriate government from time to time. On behalf of the workman some documents have been filed showing the amount of wage paid to him in much less quantity than notified as the minimum wage by the government. His retrenchment has also been found to be void for non compliance of section 25-F of the ID Act. Hence, the question now comes up for consideration if the workman is entitled to full back wages from the date of termination till this order alongwith the relief of reinstatement. To get the relief of full back wages it is obligatory on the part of the workman to establish that he remained unemployment having no source of income from the date of his retrenchment. In his affidavit evidence by saying so he discharged the primary burden for the same. The rebuttal evidence is then to be adduced by the management. The management witness No. 1 has not whispered a word to negative the stand of the workman that he is unemployed.

The Ld. A/R for the workman strenuously argued that this is a fit case for reinstatement, in addition to full back wages together with retrenchment compensation. The Hon'ble High Court of Delhi in the case of Ashok kumar and others vs. Hindustan vegetable oil co. reported in 2017 SCC Page 9516 after referring to judgment of Hindustan tin works Pvt. Ld. Reported in (1979) 2 SCC 80 and the case of **Bhava Nagar Municipal Corporation vs. Jadeja Govubha Chhanubha reported in (2014) 16 SCC page 130** have opined that when the petitioner served for a brief period before their termination, and the matter comes up for a decision by the industrial adjudicator after lapse of reasonably long time, payment of compensation and back wages as would be proper will justify the claim of the workman instead of reinstatement. But in this case it is found that the workman had worked for the management for a long period from 2004 to 2012 and his termination had taken place 7 years before the date of this award. These circumstances persuade this tribunal to award 20% of the back wage from the date of retrenchment till this award becomes operative. It is also directed that the management shall consider the case of the claimant for regularization of his service pursuant to the policy framed on account of prohibitory notification depending upon his eligibility. In case the workman is found eligible to be regularized in service as per the one time policy formulated by the government following the direction given by the Hon'ble Apex Court in the case of Uma Devi (2006(4)SCC1) the entire process would be concluded within a period of 4 months from the date when the award becomes enforceable. In alternative it is directed that in case the workman is not found suitable for regularization, an amount of Rs. 200,000/- Shall be paid to him as retrenchment compensation including 20% of the back wages and this will not carry any interest. Hence, ordered.

ORDER

The claim be and the same is allowed on contest. It is directed that the management shall pay 20% of the back wages to the workman from the date of his termination till the date when the award become enforceable. The management is also directed to consider the reinstatement of the workman subject to his eligibility for such reinstatement pursuant to the one time policy set out by the government as per the direction of the Hon'ble Supreme Court given in the case of Uma Devi (2006(4)SCC1). The entire process would be concluded within a period of 4 months from the date when the award becomes enforceable. In alternative it is directed that in case the workman is not found suitable for regularization, an amount of Rs. 200,000/- Shall be paid to him as retrenchment compensation in addition to 20% of the back wages and this will not carry any interest. A copy of the award be sent to the appropriate government for publication and necessary compliance. Copy be supplied to the parties and the record be consigned in the record room.

The reference is accordingly answered.

14th March, 2019

PRANITA MOHANTY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2019

का.आ. 552.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स कार्यकारी अभियंता (विद्युत विभाग), प्रबंधनसीपीडब्ल्यूडी, देहरादून और अन्य एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2 नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 52/2015) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 26.03.2019 को प्राप्त हुए थे।

[सं. एल-42011/22/2015-आईआर (डीयू)]

वी. के. ठाकुर, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th March, 2019

S.O. 552.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 52/2015) of the *Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-2* New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Executive Engineer (Electrical Division) CPWD, Dehradun and Others, and their workmen which were received by the Central Government on 26.03.2019.

[No. L-42011/22/2015-IR(DU)]

V. K. THAKUR, Section Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI

Present : Smt. Pranita Mohanty, Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour
Court-II, New Delhi

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 52/2015

Date of Passing Award- 14th March, 2019

Between :

Shri Vivek Kumar Tyagi, AC Operator/wireman
As represented by
All India Central PWD (MRM)
Karamchari Sangathan (Regd),
House No. 4823, Gali No. 13,
Balbir Nagar Extension,
Shahdra, Delhi- 110032

... Workman

Versus

The Executive Engineer (Electrical Division),
CPWD, Dehradun Central Electrical Division,
Subhash Road,
Dehradun- 248001

... Management

Appearances:-

Shri Satish Kumar Sharma, (Advocate) : For the Workman

Shri Atul Bhardwaj, (Advocate) : For the Management

AWARD

The Government of India in Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing between employer i.e. the management of CPWD, Dehradun Central Electrical Division, and its workman/claimant herein, under clause (d) of sub section (1) and sub section (2A) of section 10 of the Industrial Dispute Act 1947 vide letter No. L- 42011/22/2015 (IR(DU)) dated 27.03.2015 to this tribunal for adjudication to the following effect.

“Whether the workman Shri Vivek Tyagi is working on a prohibited nature of work and if so whether CPWD should consider him regularizing after terminating the continuation of contract work on the said employment?”

Being noticed the workman and the management entered appearance and filed claim petition and written statement respectively containing their stand.

The workman has stated that he was engaged as Ac Operator/wireman through a contractor by the Executive Engineer Dehradun Central Electrical Engineer CPWD at Sarswa Saharanpur for the day to day maintenance work w.e.f. 19.04.2008. On 20.11.2012 his service was illegally terminated and at the time of termination no notice, notice pay, retrenchment compensation etc. were paid. During the course of his engagement he had worked for more than 240 days in a calendar year justifying regularization of his service. After his termination the management engaged a substitute much junior to him since he was discharging a perennial nature of work. Being aggrieved the workman approach the Conciliation Officer in the labour department and upon his interference the workman was reinstated by the management w.e.f. 25.04.14. But again his service was terminated w.e.f. 28.02.15, when he alongwith the co-workers demanded payment of minimum wages at par with their counter-part regular employees. His demand was for payment of minimum wages, since the nature of work discharged by him was similar to the work done by the regular employees. The workman had also demanded through the union for regular absorption since he had the requisite qualification and management had sufficient sanctioned post at that time.

The further contention of the workman is that in order to deprive the workman of his legitimate right the management went on changing contractors, though the workers remained the same. Under the provisions of section 25(5) of the Contract Labour (abolition and regulation) Act 1970, the workman is legally entitled to regular pay scale and admissible allowances at par with the regular work charged wireman. **The Hon’ble High Court of Delhi in CWP No. 4817 of 1999 (CPWDMRM Karamchari Sangathan vs. Union of India)** directed the Ministry of Labour for constitution of a board to look into the aspect of Contract Labour system prevalent in the CPWD. Pursuant thereto, a board was constituted and as per the recommendation of the said board, the Ministry of Labour issued notification on 31.07.2002 for abolition of Contract Labour system for 15 category of post including Khallasi and Wireman. Though the notification was circulated specifically to Urban Development Ministry, CPWD etc, the later did not implement the same. There was camouflage between the contractor and the management not to regularize the service of present workman. In gross violation of the Provisions of Contract Labour (Abolition and Regulation) Act 1970 the management though required to register itself for engaging Contract Labour and the contractor required to obtain the license for the same, neither the management nor the contractor had not complied with the same. On the contrary, went on engaging Contract Labours in prohibitory category. Thus, the act of the management in terminating the employment of the workman is illegal and his employment should have been regularized by the management w.e.f. 20.11.2012 with full back wages and other service benefits.

The management filed written statement challenging the maintainability of this proceeding for non-joinder of parties as the contractor under whom the workman was employed is a necessary party. While denying employer employee relationship between the management and the workman the answering management has stated that in the case of State of Karnatak vs. Uma Devi, the Hon’ble Supreme Court have clearly prohibited absorption of casual/contractual workers engaged in different department on regular basis and to consider them at par with the regular employees. While specifically denying the claim of the workman that he was engaged as a wireman through contractor w.e.f 23.10.2004 and that his service was terminated on 20.11.2012 the management has pleaded that the Executive Engineer (E) CPWD Dehradun after obtaining a registration certificate from Central Labour Authority, had invited open tender from contractors for different purposes and the contractor so selected might have engaged the present workman. The management has no knowledge about the workman working for 240 days or more as he was an employee of the contractor. This management has also denied the stand of the reinstatement of the workman, on 01.05.2014 for intervention of the conciliation officer and the subsequent termination w.e.f. 04.02.2015. While denying that there are vacancies in the permanent cadre of wireman the management pleaded ignorance about the eligibility criteria if met by the workman. With such assertion, the management has claimed for dismissal of the claim petition. The workman then filed rejoinder alleging suppression of fact by the management.

On this rival pleading the following issues were framed for adjudication.

ISSUES

1. Whether the workman Sh. Vivek Kumar Tyagi was working on a prohibited nature of work? If so its effect?
2. If so, whether CPWD should consider him for regularizing, after terminating the continuation of contract work on the said employment? If so its effect?

During the hearing the workman examined himself as WW1 and proved, the copy of the demand for minimum wage advanced, through the Union before the management, indicating the salary due, drawn and the balance to be paid as Exhibit WW1/2. He has also filed the complaint filed before the Labour Commissioner initiating the conciliation proceeding, the report of the 50th meeting of the Central Advisory Contract Labour Board which has been marked as WW1/5, the Gazette notification of the decision of the government, taken on the report of the Advisory Board, prohibiting different categories of employment in contract labour process as Exhibit WW1/6. A letter written by

Assistant Labour Commissioner to DG, CPWD requesting action on priority basis in view of the Gazette notification dated 31.07.2002 regarding abolition of contract Labour in respect of certain categories of workers. The workman has also filed the copy of the judgment of the Hon'ble High Court of Delhi passed in WPC No. 8741 of 1998 which has been marked as WW1/4. The workman has relied upon this judgment for the direction given by the Hon'ble High Court of Delhi directing implementation of the decision taken to abolish the Contract Labour in particular job/work in view of the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of All India Statutory Corporation. On behalf of the workman the judgment passed by this tribunal in another proceeding filed as exhibit WW1/8.

The management examined its Executive Engineer as MW1 who proved the registration certificate issued by the Central Labour Authority for executing work through contractor which has been marked as MW1/1. While no other documents have been filed this witness has clearly denied during his cross-examination about the employer and employee relationship between the parties.

In the written statement, the management has challenged the maintainability of the proceeding on non-joinder of necessary party. While maintaining the stand that the claimant/workman was admittedly engaged by a contractor and the said contractor being his employer is a necessary party to the proceeding, the A/R for management argued for dismissal of the claim petition on the ground of nonjoinder of necessary party alone.

Thus, before analyzing the claim of the workman on the basis of the oral & documentary evidence adduced, it is necessary to examine, whether the claimant who as per the claim statement was an employee of the contractor can maintain a dispute against the management? For an answer to this proposition, the Tribunal has to take note of the law contained in section 10 of the Contract Labour (Regulation & Prohibition) Act 1970 (in short The Contract Labour Act) which makes provision for prohibition of Employment of Contract Labour. For sake of convenience, Provisions of section 10 of Contract Labour Act are reproduced below.

“10- Prohibition of employment of Contract Labour:-

- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Appropriate Government may, after consultation with the Central Board or, as the case may be, a State Board, prohibit, by notification in the Official Gazette, employment of contract labour in any process, operation or other work in any establishment.
- (2) Before issuing any notification under sub-section (1) in relation to an establishment, the Appropriate Government shall have regard to the conditions of work and benefits provided for the contract Labour in that establishment and other relevant factors, such as_
 - (a) Whether the process, operation or other work is incidental to, or necessary for the industry, trade, business, manufacture or occupation that is carried on in the establishment;
 - (b) Whether it is of perennial nature, that is to say, it is of sufficient duration having regard to the nature of industry, trade, business, manufacture or occupation carried on in that establishment;
 - (c) Whether it is done ordinarily through regular workmen in that establishment or an establishment similar thereto;
 - (d) Whether it is sufficient to employ considerable number of whole-time workmen.

If a question arises whether any process or operation or other work is of perennial nature, the decision of the Appropriate Government thereon shall be final.”

This provision, thus provides that the Appropriate Government may by notification in the Official Gazette, prohibit employment of contract labour in any process, operation or other work in any establishment.

Thus the question arises, when for issuance of notification by Appropriate Government engagement of Contract Labour is prohibited, what would be the status of the Contract Labour employed at the establishment?

The issue came up before the Hon'ble Supreme Court of India in Steel Authority of India (2001(7) SCC-1) and the Hon'ble Apex Court ruled there in, that, there can't be automatic absorption of contract Labourer by Principal Employer on issuance of notification by Appropriate Government, on abolition of contract Labour system. In the said judgment the Hon'ble Supreme Court have categorized the aggrieved Contractual Labourers for such situation in to 3 following categories;

- (i) Where Contract Labour engaged is prohibited either for the abolition notification by Appropriate Government or for the abolition order passed by industrial adjudicator.
- (ii) Where Contract was found to be sham and nominal, rather a camouflage, conferring right on the workman as employee of Principal Employer.
- (iii) Where in discharge of a statutory obligation of maintaining a canteen in an establishment the principal employer availed the service of the contractor.

The Hon'ble Apex Court ruled that neither section 10 of the Contract Labour act nor any other provision in that act expressly or by necessary implication provides for automatic absorption of Contract Labour. Hence, the principal

employer cannot be ordered for absorption of the Contract Labour working in the establishment. In the said judgment the Hon'ble Apex Court also held that on issuance of prohibitory notification u/s 10 of the contract labour Act prohibiting employment of contractual labour, in an Industrial Dispute brought by the contract labour challenging the condition of the service, the industrial adjudicator has to consider the question whether the contractor has been interposed either on the ground of having undertaken to produce any given result for the establishment or for the supply of Contract Labour. If the contract is found to be sham or camouflage the so called Contract Labour shall be treated as the employee of the principal employer, who shall be directed to regularize the services of the contract labour. By any means, the industrial adjudicator has to take up the exercise to ascertain the effective supervision test to find out if the contract labour is an employee of the contractor or the principal employer.

In view of the legal position discussed above it is concluded that the claimant can maintain a dispute against the management since he agitates that the contract agreement between the management and the contractor is sham and nominal.

FINDINGS

ISSUE No. 1

The workman Vivek Kumar Tyagi has pleaded that he was working as a Ac Operator/wireman and for the notification made by the government u/s 10 of the contract labour Act the nature of the work done by him came under the prohibited category leading to his termination. To substantiate the same the workman has filed the copy of the Gazette notification Marked as WW1/5. The management has not disputed that the work of the Ac Operator/Wireman comes under the prohibited category and for the said notification the work of the workman was dispensed with by the contractor who had employed him and not by the management CPWD. It is the stand of the workman that the contract between the management CPWD and different contractor is sham. On different point of time though contractor were changing, the present workman and many of his co-workers were working continuously completing 240 days in a calendar year. The workman in his oral testimony has stated that he was working under the direct supervision and control of management CPWD. Thus, it is now to be seen, if the workman was really an employee of the contractor or the management. The agreement between the management and the contractor for the year 2014-15 has been filed and marked as Exhibit MW1/2. This is a contract for 12 months starting from April 2014 ending on April 2015 for maintenance of electrical fitting, running of pump maintenance of light etc. no contract covering the period 19.04.2008 to 20.11.2012 during which the workman claims to have worked has been filed by the management. Thus, from the said of evidence there is absolutely no material to conclude that claimant/workman was an employee of the contractor. If at all there exist any contract between management and any contractor that would not influence the status of the workman. The workman has filed the representation submitted by the Union demanding minimum wage for the present workman and many others. This has not been disputed by the management too.

In the case of Steel Authority of India referred Supra, the Hon'ble Apex court have also prescribed for the effective control test to ascertain about the relationship of the workman with the management or the contractor. Not only that in the case of Chintaman Rao (1958(II)LLJ252) the Apex court ruled that the concept of employment involves 3 ingredients (i)Employer (ii) Employee (iii) Contract of Employment. The employer is one who employees or engages the service of other person. The employee is one who works for another for hire. The employment is the contract of service between the employer and employee were under the employee agrees to serve the employer subject to his control and supervision. In the case of Foot corporation of India reported in (1985(ii)LLJ4) the Hon'ble Apex Court pronounced that the contract of employment discloses a relationship of command and obedience between them. Where a contractor employes a workman to do the work which he contracted with a third person to accomplish, the workman of the contractor would not become more than the workman of the third person.

In the case of Shankar Balaji waje reported in 1962(1)LLJ119 the Hon'ble Supreme Court have clarified that the control of the management which is a necessary element of the relationship of master and servant is not directed towards providing or dictating the nature of the article to be produced or the work to be done, but refers to other incident having the bearing on the process of the work the person carries out. The manner of work is to be distinguished from the type of work to be performed. Thus, from the above analysis of the Principle of Law, it emerges that the effective control is a test to determine the employer employee relationship between the parties.

In this proceeding, the workman is all along maintaining that he was working under the supervision and control of the management CPWD and not the contractor. He has stated so while testifying as WW1. MW1 is the executive engineer of the, management. During cross-examination this witness had admitted that the officials of the management were giving guidance and checking the work of the workman at the spot. This statement alone indicates the effective

supervision of the work of the workman by the management which lead to a conclusion that the workman was the employee of the management and the contract between the management and the contractor as pleaded by the management is a camouflage. Issue no. 1 is accordingly answered in favor of the workman and it is held that he was working for a prohibited nature of work and for gazette notification by the Appropriate Government his service was dispensed, with effect from 20.11.2012. Issue no. 1 is accordingly answered.

ISSUE No. 2

Once it is held that workman was working for a prohibited nature of work and his employment came to an end for the Gazette notification, the next important question need to be answered is what should be the position of the workman thereafter. In the case of Steel Authority of India referred supra it has been held that there cannot be automatic absorption of Contract Labour by the principal employer on the issuance of the notification by the Appropriate Government. The management CPWD in its pleading has maintained that the claimant/workman is not their workman. He also argued that the effective control test prescribed in the case of Hussain Bhai referred supra is also not the conclusive test. By relying upon the case of Balwant Rai Saluja vs. Air India limited (2014) 9SCC407, he submitted that other relevant factors like

- (i) Who appoints the workers;
- (ii) Who pays the salary/remuneration;
- (iii) Who has the authority to dismiss;
- (iv) Who can take disciplinary action;
- (v) Whether there is continuity of service;
- (vi) Extent of control and supervision, i.e. whether there exists complete control and supervision.

are also to be considered to ascertain whether there exists complete control and supervision. While answering issue no. 1 it has already been held that the management CPWD for having effective control is the employer of the workman. Now it is to be seen what relief the workman is entitle to.

The workman has all along pleaded that the provision of section 25-F was not complied when his service was brought to an abrupt end. The management has admitted that no statutory notice for one month or one month's pay in lieu of the notice and retrenchment compensation was paid to the workman offering the explanation that the workman not being the employee of the management, the latter is under no obligation to comply 25-F of the ID Act. On the other hand the workman has stated that by rendering continuous service for a period of more than 1 year as contemplated under section 25-B of the Act, he is entitled to the retrenchment compensation by the management. In this regard the workman has relied upon several pronouncement of the Supreme Court.

At the cost of repetition be its stated that there is no dispute about the termination of the work of the workman and its date. It also stands crystallized that neither notice pay nor retrenchment compensation was paid. For the finding that there was a relationship of employer and employee between the parties on the date of retrenchment it is held that the retrenchment of the workman is violative of the provision of section 25F of the Act.

It is a settled principle of law that in case of wrongful retrenchment dismissal or discharge, the normal rule is to award reinstatement. But where a case falls in any of the exception to the General Rule, the industrial adjudicator has discretion to award reasonable and adequate compensation in lieu of reinstatement. Section 11A of the Act vest the industrial adjudicator with discretion to give "such other relief to the workman " in case of discharge or dismissal, depending upon the circumstances of the individual case, where for some valid reasons it considers the reinstatement with or without conditions will not be fair or proper. In this case the workman though stated in the claim petition that the nature of work discharged by him was perennial in nature and there are regular vacancies for the said post, no evidence regarding the vacancy has been adduced. The workman has not obtained any information regarding the vacant positions in the management against which he can be reinstated. But at the same time it is found that the witness examined on behalf of the management has admitted that the nature of work discharged by the workman was perennial in nature, but denied about the vacancies and stated that the management being a department of the government is recruiting its employees following its recruitment rule and there are no vacancies against which he can be absorbed. No document to that effect has also been filed by the management. Hence, considering the stand taken by both the parties and the evidence adduced, no circumstances have been made out for a deviation from the general rule of reinstatement.

From the evidence adduced by the workman it has emerged that he was engaged by the management through contractor by creating a make belief contract agreement and even management could not prove those contract agreement. On a careful examination of the evidence on record, it is found that the management was his real employer and his service was disengaged when he tried to seek right of payment of minimum wages as notified by the appropriate government from time to time. On behalf of the workman some documents have been filed showing the amount of wage paid to him in much less quantity than notified as the minimum wage by the government. His retrenchment has also been found to be void for non compliance of section 25-F of the ID Act. Hence, the question now comes up for consideration if the workman is entitled to full back wages from the date of termination till this order alongwith the relief of reinstatement. To get the relief of full back wages it is obligatory on the part of the workman to establish that he

remained unemployment having no source of income from the date of his retrenchment. In his affidavit evidence by saying so he discharged the primary burden for the same. The rebuttal evidence is then to be adduced by the management. The management witness No. 1 has not whispered a word to negative the stand of the workman that he is unemployed.

The Ld. A/R for the workman strenuously argued that this is a fit case for reinstatement, in addition to full back wages together with retrenchment compensation. The Hon'ble High Court of Delhi in the case of Ashok kumar and others vs. Hindustan vegetable oil co. reported in 2017 SCC Page 9516 after referring to judgment of Hindustan tin works Pvt. Ltd. Reported in (1979) 2 SCC 80 and the case of **Bhava Nagar Municipal Corporation Vs. Jadeja Govubha Chhanubha reported in (2014) 16 SCC page 130** have opined that when the petitioner served for a brief period before their termination, and the matter comes up for a decision by the industrial adjudicator after lapse of reasonably long time, payment of compensation and back wages as would be proper will justify the claim of the workman instead of reinstatement. But in this case it is found that the workman had worked for the management for a long period from 2004 to 2012 and his termination had taken place 7 years before the date of this award. These circumstances persuade this tribunal to award 20% of the back wage from the date of retrenchment till this award becomes operative. It is also directed that the management shall consider the case of the claimant for regularization of his service pursuant to the policy framed on account of prohibitory notification depending upon his eligibility. In case the workman is found eligible to be regularized in service as per the one time policy formulated by the government following the direction given by the Hon'ble Apex Court in the case of Uma Devi (2006(4)SCC1) the entire process would be concluded within a period of 4 months from the date when the award becomes enforceable. In alternative it is directed that in case the workman is not found suitable for regularization, an amount of Rs. 200,000/- Shall be paid to him as retrenchment compensation including 20% of the back wages and this will not carry any interest. Hence, ordered.

ORDER

The claim be and the same is allowed on contest. It is directed that the management shall pay 20% of the back wages to the workman from the date of his termination till the date when the award become enforceable. The management is also directed to consider the reinstatement of the workman subject to his eligibility for such reinstatement pursuant to the one time policy set out by the government as per the direction of the Hon'ble Supreme Court given in the case of Uma Devi (2006(4)SCC1). The entire process would be concluded within a period of 4 months from the date when the award becomes enforceable. In alternative it is directed that in case the workman is not found suitable for regularization, an amount of Rs. 200,000/- Shall be paid to him as retrenchment compensation in addition to 20% of the back wages and this will not carry any interest. A copy of the award be sent to the appropriate government for publication and necessary compliance. Copy be supplied to the parties and the record be consigned in the record room.

The reference is accordingly answered.

Dictated & Corrected by me.

PRANITA MOHANTY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2019

का.आ. 553.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स कार्यकारी अभियंता (विद्युत विभाग), सीपीडब्ल्यूडी, देहरादून और अन्य एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2 नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 53/2015) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 26.03.2019 को प्राप्त हुए थे।

[सं. एल-42011/23/2015-आईआर (डीयू)]

वी. के. ठाकुर, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th March, 2019

S.O. 553.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 53/2015) of the *Central Government Industrial-Tribunal-cum* Labour Court-2 New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Executive Engineer (Electrical Division), CPWD, Dehradun and Others, and their workmen which were received by the Central Government on 26.03.2019.

[No. L-42011/23/2015-IR(DU)]

V. K. THAKUR, Section Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI

Present : Smt. Pranita Mohanty, Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour
Court-II, New Delhi

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 53/2015**Date of Passing Award- 7th March, 2019****Between :**

Shri Sanjay Singh, wireman
As represented by
All India Central PWD (MRM)
Karamchari Sangathan (Regd),
House No. 4823, Gali No. 13, Balbir Nagar Extension,
Shahdra, Delhi- 110032.

... Workman

Versus

The Executive Engineer (Electrical Division),
CPWD, Dehradun Central Electrical Division,
Subhash Road,
Dehradun-

... Management

Appearances:-

Shri Satish Kumar Sharma, (Advocate) : For the Workman

Shri Atul Bhardwaj, (Advocate) : For the Management

AWARD

The Government of India in Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing between employer i.e. the management of CPWD, Dehradun Central Electrical Division, and its workman/claimant herein, under clause (d) of sub section (1) and sub section (2A) of section 10 of the Industrial Dispute Act 1947 vide letter No. L- 42011/23/2015 (IR(DU)) dated 27.03.2015 to this tribunal for adjudication to the following effect.

“Whether the workman Shri Sanjay Singh is working on a prohibited nature of work and if so whether CPWD should consider him regularizing after terminating the continuation of contract work on the said employment?”

Being noticed the workman and the management entered appearance and filed claim petition and written statement respectively containing their stand.

The workman has stated that he started working with the management as a wireman through a contractor w.e.f. 23.10.2004 at Central Electrical Division, CPWD Dehradun. On 20.11.2012 his service was illegally terminated and at the time of termination no notice, Notice Pay, retrenchment compensation etc were paid. During the course of his engagement he had worked for more than 240 days in a calendar year justifying regularization of his service. After his termination the management engaged a substitute, junior to this workman since he was discharging a perennial nature of work. Being aggrieved he approach the Conciliation Officer in the labour department and for his intervention the management reinstated the workman w.e.f. 01.05.2014. But again his service was terminated w.e.f. 04.02.2015, when he alongwith the co-workers demanded payment of minimum wages at par with their counter-part regular employees. His demand was for payment of minimum wages, since the nature of work discharged by him was similar to the work done by the regular employees. The workman had also demanded through the union for regular absorption since he had the requisite qualification and management had sufficient sanctioned post at that time.

The further contention of the workman is that in order to deprive the workman of his legitimate right the management went on changing contractors, though the workers remained the same. Under the provisions of section 25(5) of the Contract Labour (abolition and regulation) Act 1970, the workman is legally entitled to regular pay scale and admissible allowances at par with the regular work charged wireman. **The Hon’ble High Court of Delhi in CWP No. 4817 of 1999 (CPWDMRM Karamchari Sangathan vs. Union of India)** directed the Ministry of Labour for constitution of a board to look into the aspect of Contract Labour system prevalent in the CPWD. Pursuant thereto, a board was constituted and as per the recommendation of the said board, the Ministry of Labour issued notification on 31.07.2002 for abolition of Contract Labour system for 15 category of post including Khallasi and Wireman. Though the notification was circulated specifically to Urban Development Ministry, CPWD etc, the later did not implement the

same. There was camouflage between the contractor and the management not to regularize the service of present workman. In gross violation of the Provisions of Contract Labour (Abolition and Regulation) Act 1970 the management though required to register itself for engaging Contract Labour and the contractor required to obtain the license for the same, neither the management nor the contractor had not complied with the same. On the contrary, went on engaging Contract Labours in prohibitory category. Thus, the act of the management in terminating the employment of the workman is illegal and his employment should have been regularized by the management w.e.f. 20.11.2012 with full back wages and other service benefits.

The management filed written statement challenging the maintainability of this proceeding for non-joinder of parties as the contractor under whom the workman was employed is a necessary party. While denying employer employee relationship between the management and the workman the answering management has stated that in the case of State of Karnatak vs. Uma Devi, the Hon'ble Supreme Court have clearly prohibited absorption of casual/contractual workers engaged in different department on regular basis and to consider them at par with the regular employees. While specifically denying the claim of the workman that he was engaged as a wireman through contractor w.e.f 23.10.2004 and that his service was terminated on 20.11.2012 the management has pleaded that the Executive Engineer (E) CPWD Dehradun after obtaining a registration certificate from Central Labour Authority, had invited open tender from contractors for different purposes and the contractor so selected might have engaged the present workman. The management has no knowledge about the workman working for 240 days or more as he was an employee of the contractor. This management has also denied the stand of the reinstatement of the workman, on 01.05.2014 for intervention of the conciliation officer and the subsequent termination w.e.f. 04.02.2015. While denying that there are vacancies in the permanent cadre of wireman the management pleaded ignorance about the eligibility criteria if met by the workman. With such assertion, the management has claimed for dismissal of the claim petition. The workman then filed rejoinder alleging suppression of fact by the management.

On this rival pleading the following issues were framed for adjudication.

ISSUES

1. Whether the workman Sh. Sanjay Singh was working on a prohibited nature of work? If so its effect?
2. If so, whether CPWD should consider him for regularizing, after terminating the continuation of contract work on the said employment? If so its effect?

During the hearing the workman examined himself as WW1 and proved, the copy of the demand for minimum wage advanced, through the Union before the management, indicating the salary due, drawn and the balance to be paid as Exhibit WW1/2. He has also filed the complaint filed before the Labour Commissioner initiating the conciliation proceeding, the report of the 50th meeting of the Central Advisory Contract Labour Board which has been marked as WW1/5, the Gazette notification of the decision of the government, taken on the report of the Advisory Board, prohibiting different categories of employment in contract labour process as Exhibit WW1/6. A letter written by Assistant Labour Commissioner to DG, CPWD requesting action on priority basis in view of the Gazette notification dated 31.07.2002 regarding abolition of contract Labour in respect of certain categories of workers. The workman has also filed the copy of the judgment of the Hon'ble High Court of Delhi passed in WPC No. 8741 of 1998 which has been marked as WW1/4. The workman has relied upon this judgment for the direction given by the Hon'ble High Court of Delhi directing implementation of the decision taken to abolish the Contract Labour in particular job/work in view of the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of All India Statutory Corporation. On behalf of the workman the judgment passed by this tribunal in another proceeding filed as exhibit WW1/8.

The management examined its Executive Engineer as MW1 who proved the registration certificate issued by the Central Labour Authority for executing work through contractor which has been marked as MW1/1. While no other documents have been filed this witness has clearly denied during his cross-examination about the employer and employee relationship between the parties.

In the written statement, the management has challenged the maintainability of the proceeding on non-joinder of necessary party. While maintaining the stand that the claimant/workman was admittedly engaged by a contractor and the said contractor being his employer is a necessary party to the proceeding, the A/R for management argued for dismissal of the claim petition on the ground of nonjoinder of necessary party alone.

Thus, before analyzing the claim of the workman on the basis of the oral & documentary evidence adduced, it is necessary to examine, whether the claimant who as per the claim statement was an employee of the contractor can maintain a dispute against the management? For an answer to this proposition, the Tribunal has to take note of the law contained in section 10 of the Contract Labour (Regulation & Prohibition) Act 1970 (in short The Contract Labour Act) which makes provision for prohibition of Employment of Contract Labour. For sake of convenience, Provisions of section 10 of Contract Labour Act are reproduced below.

“10- Prohibition of employment of Contract Labour:-

- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Appropriate Government may, after consultation with the Central Board or, as the case may be, a State Board, prohibit, by notification in the Official Gazette, employment of contract labour in any process, operation or other work in any establishment.

- (2) Before issuing any notification under sub-section (1) in relation to an establishment, the Appropriate Government shall have regard to the conditions of work and benefits provided for the contract Labour in that establishment and other relevant factors, such as—
- Whether the process, operation or other work is incidental to, or necessary for the industry, trade, business, manufacture or occupation that is carried on in the establishment;
 - Whether it is of perennial nature, that is to say, it is of sufficient duration having regard to the nature of industry, trade, business, manufacture or occupation carried on in that establishment;
 - Whether it is done ordinarily through regular workmen in that establishment or an establishment similar thereto;
 - Whether it is sufficient to employ considerable number of whole-time workmen.

If a question arises whether any process or operation or other work is of perennial nature, the decision of the Appropriate Government thereon shall be final.”

This provision, thus provides that the Appropriate Government may by notification in the Official Gazette, prohibit employment of contract labour in any process, operation or other work in any establishment.

Thus the question arises, when for issuance of notification by Appropriate Government engagement of Contract Labour is prohibited, what would be the status of the Contract Labour employed at the establishment?

The issue came up before the Hon'ble Supreme Court of India in Steel Authority of India (2001(7) SCC-1) and the Hon'ble Apex Court ruled there in, that, there can't be automatic absorption of contract Labourer by Principal Employer on issuance of notification by Appropriate Government, on abolition of contract Labour system. In the said judgment the Hon'ble Supreme Court have categorized the aggrieved Contractual Labourers for such situation in to 3 following categories;

- Where Contract Labour engaged is prohibited either for the abolition notification by Appropriate Government or for the abolition order passed by industrial adjudicator.
- Where Contract was found to be sham and nominal, rather a camouflage, conferring right on the workman as employee of Principal Employer.
- Where in discharge of a statutory obligation of maintaining a canteen in an establishment the principal employer availed the service of the contractor.

The Hon'ble Apex Court ruled that neither section 10 of the Contract Labour act nor any other provision in that act expressly or by necessary implication provides for automatic absorption of Contract Labour. Hence, the principal employer cannot be ordered for absorption of the Contract Labour working in the establishment. In the said judgment the Hon'ble Apex Court also held that on issuance of prohibitory notification u/s 10 of the contract labour Act prohibiting employment of contractual labour, in an Industrial Dispute brought by the contract labour challenging the condition of the service, the industrial adjudicator has to consider the question whether the contractor has been interposed either on the ground of having undertaken to produce any given result for the establishment or for the supply of Contract Labour. If the contract is found to be sham or camouflage the so called Contract Labour shall be treated as the employee of the principal employer, who shall be directed to regularize the services of the contract labour. By any means, the industrial adjudicator has to take up the exercise to ascertain the effective supervision test to find out if the contract labour is an employee of the contractor or the principal employer.

In view of the legal position discussed above it is concluded that the claimant can maintain a dispute against the management since he agitates that the contract agreement between the management and the contractor is sham and nominal.

FINDINGS

ISSUE No. 1

The workman sanjay singh has pleaded that he was working as a wireman and for the notification made by the government u/s 10 of the contract labour Act the nature of the work done by him came under the prohibited category leading to his termination. To substantiate the same the workman has filed the copy of the Gazette notification Marked as WW1/5. The management has not disputed that the work of the wireman comes under the prohibited category and for the said notification the work of the workman was dispensed with by the contractor who had employed him and not by the management CPWD. It is the stand of the workman that the contract between the management CPWD and different contractor is sham. On different point of time though contractor were changing, the present workman and many of his co-workers were working continuously completing 240 days in a calendar year. The workman in his oral testimony has stated that he was working under the direct supervision and control of management CPWD. Thus, it is now to be seen, if the workman was really an employee of the contractor or the management. The agreement between the management and the contractor for the year 2014-15 has been filed and marked as Exhibit MW1/2. This is a contract for 12 months starting from April 2014 ending on April 2015 for maintenance of electrical fitting, running of pump maintenance of light etc. no contract covering the period 23.10.2004 to 20.11.2012 during which the workman claims to have worked

has been filed by the management. Thus, from the said of evidence there is absolutely no material to conclude that claimant/workman was an employee of the contractor. If at all there exist any contract between management and any contractor that would not influence the status of the workman. The workman has filed the representation submitted by the Union demanding minimum wage for the present workman and many others. This has not been disputed by the management too.

In the case of Steel Authority of India referred Supra, the Hon'ble Apex court have also prescribed for the effective control test to ascertain about the relationship of the workman with the management or the contractor. Not only that in the case of Chintaman Rao (1958(II)LLJ252) the Apex court ruled that the concept of employment involves 3 ingredients (i) Employer (ii) Employee (iii) Contract of Employment. The employer is one who employs or engages the service of other person. The employee is one who works for another for hire. The employment is the contract of service between the employer and employee were under the employee agrees to serve the employer subject to his control and supervision. In the case of Foot corporation of India reported in (1985(ii)LLJ4) the Hon'ble Apex Court pronounced that the contract of employment discloses a relationship of command and obedience between them. Where a contractor employs a workman to do the work which he contracted with a third person to accomplish, the workman of the contractor would not become more than the workman of the third person.

In the case of Shankar Balaji waje reported in 1962(1)LLJ119 the Hon'ble Supreme Court have clarified that the control of the management which is a necessary element of the relationship of master and servant is not directed towards providing or dictating the nature of the article to be produced or the work to be done, but refers to other incident having the bearing on the process of the work the person carries out. The manner of work is to be distinguished from the type of work to be performed. Thus, from the above analysis of the Principle of Law, it emerges that the effective control is a test to determine the employer employee relationship between the parties.

In this proceeding, the workman is all along maintaining that he was working under the supervision and control of the management CPWD and not the contractor. He has stated so while testifying as WW1. WW1 is the executive engineer of the, management. During cross-examination this witness had admitted that the officials of the management were giving guidance and checking the work of the workman at the spot. This statement alone indicates the effective supervision of the work of the workman by the management which lead to a conclusion that the workman was the employee of the management and the contract between the management and the contractor as pleaded by the management is a camouflage. Issue no. 1 is accordingly answered in favor of the workman and it is held that he was working for a prohibited nature of work and for gazette notification by the Appropriate Government his service was dispensed, with effect from 20.11.2012. Issue no. 1 is accordingly answered.

ISSUE No. 2

Once it is held that workman was working for a prohibited nature of work and his employment came to an end for the Gazette notification, the next important question need to be answered is what should be the position of the workman thereafter. In the case of Steel Authority of India referred supra it has been held that there cannot be automatic absorption of Contract Labour by the principal employer on the issuance of the notification by the Appropriate Government. The management CPWD in its pleading has maintained that the claimant/workman is not their workman. He also argued that the effective control test prescribed in the case of Hussain Bhai referred supra is also not the conclusive test. By relying upon the case of Balwant Rai Saluja vs. Air India limited (2014) 9SCC407, he submitted that other relevant factors like

- (i) Who appoints the workers;
- (ii) Who pays the salary/remuneration;
- (iii) Who has the authority to dismiss;
- (iv) Who can take disciplinary action;
- (v) Whether there is continuity of service;
- (vi) Extent of control and supervision, i.e. whether there exists complete control and supervision.

are also to be considered to ascertain whether there exists complete control and supervision. While answering issue no. 1 it has already been held that the management CPWD for having effective control is the employer of the workman. Now it is to be seen what relief the workman is entitle to.

The workman has all along pleaded that the provision of section 25-F was not complied when his service was brought to an abrupt end. The management has admitted that no statutory notice for one month or one month's pay in lieu of the notice and retrenchment compensation was paid to the workman offering the explanation that the workman not being the employee of the management, the latter is under no obligation to comply 25-F of the ID Act. On the other hand the workman has stated that by rendering continuous service for a period of more than 1 year as contemplated under section 25-B of the Act, he is entitled to the retrenchment compensation by the management. In this regard the workman has relied upon several pronouncement of the Supreme Court.

At the cost of repetition be its stated that there is no dispute about the termination of the work of the workman and its date. It also stands crystallized that neither notice pay nor retrenchment compensation was paid. For the finding

that there was a relationship of employer and employee between the parties on the date of retrenchment it is held that the retrenchment of the workman is violative of the provision of section 25F of the Act.

It is a settled principle of law that in case of wrongful retrenchment dismissal or discharge, the normal rule is to award reinstatement. But where a case falls in any of the exception to the General Rule, the industrial adjudicator has discretion to award reasonable and adequate compensation in lieu of reinstatement. Section 11A of the Act vest the industrial adjudicator with discretion to give “such other relief to the workman “ in case of discharge or dismissal, depending upon the circumstances of the individual case, where for some valid reasons it considers the reinstatement with or without conditions will not be fair or proper. In this case the workman though stated in the claim petition that the nature of work discharged by him was perennial in nature and there are regular vacancies for the said post, no evidence regarding the vacancy has been adduced. The workman has not obtained any information regarding the vacant positions in the management against which he can be reinstated. But at the same time it is found that the witness examined on behalf of the management has admitted that the nature of work discharged by the workman was perennial in nature, but denied about the vacancies and stated that the management being a department of the government is recruiting its employees following its recruitment rule and there are no vacancies against which he can be absorbed. No document to that effect has also been filed by the management. Hence, considering the stand taken by both the parties and the evidence adduced, no circumstances have been made out for a deviation from the general rule of reinstatement.

From the evidence adduced by the workman it has emerged that he was engaged by the management through contractor by creating a make belief contract agreement and even management could not prove those contract agreement. On a careful examination of the evidence on record, it is found that the management was his real employer and his service was disengaged when he tried to seek right of payment of minimum wages as notified by the appropriate government from time to time. On behalf of the workman some documents have been filed showing the amount of wage paid to him in much less quantity than notified as the minimum wage by the government. His retrenchment has also been found to be void for non compliance of section 25-F of the ID Act. Hence, the question now comes up for consideration if the workman is entitled to full back wages from the date of termination till this order alongwith the relief of reinstatement. To get the relief of full back wages it is obligatory on the part of the workman to establish that he remained unemployment having no source of income from the date of his retrenchment. In his affidavit evidence by saying so he discharged the primary burden for the same. The rebuttal evidence is then to be adduced by the management. The management witness No. 1 has not whispered a word to negative the stand of the workman that he is unemployed.

The Ld. A/R for the workman strenuously argued that this is a fit case for reinstatement, in addition to full back wages together with retrenchment compensation. The Hon'ble High Court of Delhi in the case of Ashok kumar and others vs. Hindustan vegetable oil co. reported in 2017 SCC Page 9516 after referring to judgment of Hindustan tin works Pvt. Ltd. Reported in (1979) 2 SCC 80 and the case of **Bhava Nagar Municipal Corporation vs. Jadeja Govubha Chhanubha reported in (2014) 16 SCC page 130** have opined that when the petitioner served for a brief period before their termination, and the matter comes up for a decision by the industrial adjudicator after lapse of reasonably long time, payment of compensation and back wages as would be proper will justify the claim of the workman instead of reinstatement. But in this case it is found that the workman had worked for the management for a long period from 2004 to 2012 and his termination had taken place 7 years before the date of this award. These circumstances persuade this tribunal to award 20% of the back wage from the date of retrenchment till this award becomes operative. It is also directed that the management shall consider the case of the claimant for regularization of his service pursuant to the policy framed on account of prohibitory notification depending upon his eligibility. In case the workman is found eligible to be regularized in service as per the one time policy formulated by the government following the direction given by the Hon'ble Apex Court in the case of Uma Devi (2006(4)SCC1) the entire process would be concluded within a period of 4 months from the date when the award becomes enforceable. In alternative it is directed that in case the workman is not found suitable for regularization, an amount of Rs. 200,000/- Shall be paid to him as retrenchment compensation including 20% of the back wages and this will not carry any interest. Hence, ordered.

ORDER

The claim be and the same is allowed on contest. It is directed that the management shall pay 20% of the back wages to the workman from the date of his termination till the date when the award become enforceable. The management is also directed to consider the reinstatement of the workman subject to his eligibility for such reinstatement pursuant to the one time policy set out by the government as per the direction of the Hon'ble Supreme Court given in the case of Uma Devi (2006(4)SCC1). The entire process would be concluded within a period of 4 months from the date when the award becomes enforceable. In alternative it is directed that in case the workman is not found suitable for regularization, an amount of Rs. 200,000/- Shall be paid to him as retrenchment compensation in addition to 20% of the back wages and this will not carry any interest. A copy of the award be sent to the appropriate government for publication and necessary compliance. Copy be supplied to the parties and the record be consigned in the record room. The reference is accordingly answered.

Dictated & Corrected by me.

PRANITA MOHANTY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2019

का.आ. 554.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स सम्राट होटल आईटीडीसी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली और अन्य एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-1 नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 125/2013) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 26.03.2019 को प्राप्त हुए थे।

[सं. एल-42011/143/2013-आईआर (डीयू)]

वी. के. ठाकुर, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th March, 2019

S.O. 554.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 125/2013) of the *Central Government Industrial-Tribunal-cum Labour Court-1 New Delhi* as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Samarat Hotel ITDC, Chankayapuri, New Delhi and Others, and their workmen which were received by the Central Government on 26.03.2019.

[No. L-42011/143/2013-IR(DU)]

V. K. THAKUR, Section Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI AVTAR CHAND DOGRA : PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT No.1. : NEW DELHI**

ID No. 125/2013

- (1) Shri S.K. Gaur s/o. late Shri R.D. Gaur
- (2) Shri Thomas Paul s/o. late Shri S.J. Paul
- (3) Shri Vinod Kumar s/o. late Shri Shivbir singh
- (4) Shri Sube Singh s/o. late Shri Kishore Lal, and
- (5) Shri Lallan Kumar singh s/o. late Shri Ram Bhaj

Represented by Shri S.S. Upadhyaya, President,
ALL INDIA ITDC MAZDOOR JANTA UNION,
C-48-49, Ashok Hotel Staff Quarters,
50-B, Chandkyapuri, New Delhi.

...Workmen/Claimant

Versus

- (1) The Management of Samrat Hotel – a Unit of ITDC
50-B, Chankayapuri, New Delhi -21.
- (2) Management of ITDC
New Delhi.

...Management/ Respondent

AWARD

This Award shall decide a reference which was made to this Tribunal by the Appropriate Government vide its letter No.L-42011/143/2013/IR(DU) dated 6/9/2013 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (in short the Act) for adjudication of an industrial dispute, terms of which are as under:-

“Whether the termination of services of workmen Shri S.K. Gaur, Thomas Paul, Vinod Kumar Singh, Sube Singh and Lallan Kumar w.e.f. 6.1.2011 without following Section 25-F of Industrial Disputes Act, 1947 by the Management of Samrat Hotel/ITDC is legal and justified ? And whether the workmen are entitled for regular job with the management working since 20 years with take management ? What relief the workmen are entitled to?”

2. Both parties were put to notice and workmen abovenamed filed joint statement of claim, with the averments that they were working as Cook/Utility Worker with the Management of ITDC in Shastri Bhawan through management of Samrat Hotel since 1990 onwards continuously and their period of service was extended from time to time by issuing letters to them till January, 2011. However, on 6/1/2011 the Management of Samrat Hotel terminated their services on baseless ground, without following the procedure of law as well as without paying any compensation of service to them and same is in violation of Section 25-F of the Act. It is pleaded that the workmen approached the Conciliation Officer but to no relief regarding their regularization. However, the Management of ITDC re-appointed the workmen **w.e.f. 12/1/2011 (after a gap of six days)** for **posting** in Qutab Hotel (Training Cell) which is not lawful and justified and also amounts to break in service. It is alleged that the workmen have been working for more than 20 years continuously, without any break in service but they have not been given regular pay scale. It is also alleged that Management of ITDC has also regularize 31 employees working in Ashok Hotel in the regular pay scale on the basis of service rendered by them, when the workmen herein have been denied the benefit of regularization and are being paid less salary and are deprived of other benefits. As such, prayer has been made that break in service of the workmen from 6/1/2011 to 11/1/2011 be treated as illegal and they be treated in continuous service for all purposes since 1990 onwards and further that the workmen be regularized in regular pay scale of their respective category from the day of their engagement with the Management of ITDC.

3. The claim of the Workman has been resisted by the Management Samrat Hotel who filed its written statement and took preliminary objections that the claim petition is not maintainable inasmuch as the claimants were appointed for a fixed term on the basis of a contract at National Press Centre, Cafeteria, Shastri Bhawan and the said contract could be terminated as per the terms of the contract. As per terms of the contract, the services of the workmen were terminated when the contract of ITDC for running the Cafeteria at National Press Centre, Shastri Bhawan was not extended and determined and as such, the claimants are covered by the provisions of Section 2(oo)(bb) of the Act. It is alleged that since the employment of the claimants/workmen was determined in terms of the contract entered by them with the Management, provisions of Section 25-F are not attracted. It is denied that the claimants are doing similar job or that they are entitled to same wages and fringe benefits as given to regular employees of the Management. Prayer has been made for dismissal of the claim petition.

4. Vide order dated 11/12/2013 my learned Predecessor framed following issues :-

- (i) Whether the claimants were appointed for a fixed term ? If so, its effect ?
- (ii) Whether determination of service of the claimant do not amount to retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act, 1947 ?
- (iii) As in terms of reference ?

5. The Claimants in support of their case examined themselves as WW2 to WW6 besides examining Shri S.S.Upadhyay, President of All India ITDC Mazdoor Janta Union as WW1 who all tendered their respective affidavits Ex.WW1/A to Ex.WW6/A and relied on number of documents which will be referred to while giving findings to various issues, wherever required.

6. On the other hand, the Management examined two witnesses - one Shri Rajiv Jain, Senior Assistant (HR) as MW1 who tendered his evidence by way of affidavit Ex.MW1/A and relied on the documents Ex.,MW1/1 to Ex.MW1/2 and Ex.WW3/17 besides examining MW2 Shri Lohit Joshi, Manager (HR) who also tendered his evidence by way of affidavit Ex.MW2/A and relied on documents Ex.MW2/1 to Ex.MW2/16.

7. I have heard Shri S.S. Upadhyay, A/R for the workmen and Shri Rajiv Jain, Representative of the Management and have also gone through the records carefully and my findings are as follows.

8. **Issue No.1 to 3 :-**

All these issues being co-related are taken up together and they can be disposed of conveniently by a common discussion.

9. At the outset I may mention that relationship of employee-employer between the claimants and Management is not in dispute. It is the case of the workmen that although they were working under the Management since 1990, however their services were illegally terminated on 6/1/2011 as neither any prior notice was issued nor any payment of compensation in lieu of notice period was issued. On the contrary, stand of the Management is that claimants/workmen were appointed on a fixed term which could be terminated as per the terms of the contract and same was co-terminus, as contract to run the Cafeteria by ITDC in Shastri Bhawan was discontinued. Perusal of the appointment letters Ex.MW1/1 (colly.) issued on 4/8/1990 by the Management ITDC to the claimants/workmen shows that the workmen/claimants were appointed on contract basis. Though it was stipulated in the said appointment letter dated 4/8/1990 that their service was liable to be terminated at any time during the period of the contract in case ITDC ceases to operate the Cafeteria or contract of ITDC is terminated with National Press Centre for running the Cafeteria at Shastri Bhawan for any other reason whatsoever and **the said contract was for fixed term of two years only**, however important fact is that the workmen herein continued to work with the Management for more than 20 years pursuant to office orders Ex.WW3/2 to Ex.3/8 whereby their contract period was extended from time to time, without any reference to the earlier

terms/condition as stipulated in the original appointment letters Ex.MW1/1 (colly.). Therefore, the said contract/agreement dated 4/8/1990 was not in existence when the services of the claimants/workmen were terminated on 6/1/2011. Be that as it may, it is undisputed fact that as on date, the workmen are still in the employment of the Management, inasmuch as they have already taken back into service w.e.f. 12/1/2011. So, the moot question arises for consideration is whether **break in service of the workmen from 6/1/2011 to 11/1/2011 was legal and justified**. Even if it is assumed that the contract in favour of ITDC for running Cafeteria in Shastri Bhawan had come to an end in or around January 2011, in that eventuality also it was obligatory on the part of the Management to give prior notice to the workmen regarding their retrenchment, since the workmen herein who were working with the Management since the year 1990, were not party to the said contract/agreement between ITDC. MW1 Shri Rajiv Jain and MW2 –Lalit Joshi – both witnesses of the Management have admitted that no notice or notice pay was given to the claimants before their termination. Even no retrenchment compensation, gratuity etc. was given to the claimants at the time of their termination on 6/1/2011. In these circumstances, this Tribunal has no hesitation to hold that break in service of the workmen from 6/1/2011 to 11/1/2011 was neither legal nor justifiable and as such, the workmen/claimants are entitled to get wages for the period of their break in service i.e. from 6/1/2011 to 11/1/2011.

10. During the course of arguments, learned A/R for the claimants submitted that action of the Management in not regularizing the services of the workmen having worked for more than 20 years continuously is unjustified. Ld. A/R for the workmen drawn my attention to the Certified Standing Orders (Modified) of Hotel Samrat, ITDC, New Delhi (Ex.WW2/24) to urge that Section 3(b) of the said Standing Order clearly provides that any temporary employee who has been in continuous employment of Hotel Samrat for 12 months may be absorbed as a permanent hand **subject to availability of vacancy** in the permanent cadre of the particular trade/section/department and that such an employee shall always be monthly-rated unless specifically agreed to otherwise. It was also urged that matter regarding regularization of their services was taken by the Working Committee of the Union in its meeting held on 10/11/2011 and a demand notice was issued to the Management for regularization of workmen as cooks, commi and UT.

11. Per contra, learned A/R for the Management relied on a number of judgements to contend that there is no fundamental right of those workers who have been employed as daily wage or temporarily or on contractual basis to claim that they have a right to be absorbed in service. Even such workers even serving for a long number of years will not become entitled to claim regularization if they are not working against sanctioned post/s.

12- There is no dispute about preposition of law on the point. Hon'ble Supreme Court in the case of **Hari Nandan Prasad and another Vs. Food Corporation of India** (2014) 7 Supreme Court cases 190 held as under :-

“... We are of the opinion that when there are posts available, in the absence of any unfair labour practice, the Labour Court would not give direction for regularization only because a worker has continued as daily wage worker/adhoc/temporary worker for number of year. Further, if there are no posts available, such a direction for regularization would be impracticable. In the abovesaid circumstances, giving of direction to regularise a person, only on the basis of number of years put in by such a worker as daily wage et., may amount to backdoor entry into the service which is an anathema to Article 14 of the Constitution. Further such a direction would not be given when the concerned worker does not meet the eligibility requirement of the post in question as per the Recruitment Rules. **However, wherever it is found that similarly situated workmen are regularized by the employer itself under some scheme or otherwise and the workmen in question who have approached Industrial/Labour Court are at par with them, direction of regularization in such cases may be legally justified, otherwise non regularization of the left over workers itself would amount to invidious discrimination qua them in such cases and would be violative of Article 14 of the Constitution. Thus, the Industrial adjudicator would be achieving the equality of upholding Article 14 rather than violating this constitutional provision.**”

From the above ruling, it is clear that ordinarily the Labour Court/Industrial Adjudicator should not issue direction for regularization of the workman engaged/working on casual/daily wage basis irrespective of his length of service unless there is a Scheme/policy of the Management & **similarly situated workmen have been regularized by the employer/Management under the said policy/Scheme and benefit of such scheme/policy has been declined to the other.**

13. The claimants while appearing as WW2 to WW6 have specifically deposed that the Management of Ashok Hotel- a unit of ITDC regularize the services of such 31 employees, by issuing order dated 17/8/2010 (copy Ex.WW5/8) and even at that time, the Management did not consider to regularize their services in the regular pay scale of their respective category. The said order shows that 31 Nos. of workmen working as commis and laundrymen have been given benefit of regular pay scale w.e.f. 1st April, 2010. However, the date of appointment/engagement of such 31 Nos. of workmen is not mentioned in the said order of regularization. MW 2 Lohit Joshi- Manager (HR) of the Management admitted that claimants have worked regularly since 1990 in Shastri Bhawan, on contract basis. He also admitted that the claimant have been working in Ashok Institute of Hospitality and Tourism Management (HRD) continuously from 12/13th January, 2011 and that no letter (of appointment) was issued to them after 23/8/2007.

14. From the above evidence adduced on record, it is evident that the workmen have been under the employment/engagement of the Management for the last 28 years and they are being paid wages at a consolidate rate and not in the regular pay-scale. This clearly shows that the workmen/claimants are being paid lesser pay than those who are similarly placed and are doing the same/equal work. This action of the Management is not only discriminatory & unjustified but also amounts to unfair labour practice. Such unfair labour practice is required to be curbed, because it is fairly settled that Certified Standing Orders having a statutory flavor, prescribe the conditions of service and same shall

be deemed to be incorporated in contract of the employment of each workmen with his employer. It would, therefore, follow as a corollary that the employer will have to classify the workmen and failure to classify would be violative of the ID Act,

15. Hon'ble the Apex Court in the case of **State of Punjab and others Vs. Jagjit Singh and others, 2017Lab.L.C. 427** while upholding the principle of "equal pay for equal work" even for temporary employees observed as under :-

"The principle of "equal pay for equal work" can be extended to temporary employees (differently described as work-charged, daily wage, casual, ad-hoc, contractual and the like). It is fallacious to determine artificial parameters to deny fruits of labour. An employee engaged for the same work, can not be paid less than another, who performs the same duties and responsibilities. Certainly not, in a welfare State. Such an action besides being demeaning, strikes at the very foundation of human dignity. Any one, who is compelled to work at a lesser wage, does not do so voluntarily. He does so, to provide food and shelter to his family, at the cost of his self respect and dignity, at the cost of his self worth, and at the cost of his integrity. For he knows, that his dependents would suffer immensely, if he does not accept the lesser wage. Any act, of paying less wages, as compared to others similarly situate, constitutes an act of exploitative enslavement, emerging out of a domineering position. Undoubtedly, the action is oppressive, suppressive and coercive, as it compels involuntary subjugation. "

16. Having regard to the above, this Tribunal is of the considered opinion that action of the Management in not regularizing the workman Shri Ravinder Kumar Yadav despite rendering service for more than 20 years continuously is unjustified and unwarranted. The workmen /claimants are entitled to be regularized to the post of their respective cadre.

17. Now the question arises for consideration is as to from which date the workmen/claimants are entitled to be given benefit of regularization. As per para 15 of the statement of claim, a demand/legal letter dated 10/11/2011 was sent to the Management for their regularization and copy of the same has been placed on record as Ex,WW1/3. It is pertinent to mention here that on the controversy between the parties, the reference to this Tribunal was made by the Appropriate Government vide letter dated 6/9/2013 and by that time the claimants/workmen even after their re-engagement had completed more than two years' service. In these circumstances, this Tribunal is of the considered view that the workmen/claimants are entitled to get benefit of regularization in the regular pay-scale existing to their respective post/s, w.e.f. 6/9/2013 with all consequential benefits viz.annual increment and other prevalent benefits/facilities like HRA, dearness allowance etc.

Relief :-

In view of my aforesaid findings, the Management is directed to regularize the workman/claimant w.e.f. 6/9/2013 in the regular pay-scale of their respective posts/cadre, with all consequential benefits and arrears of the same be also paid to him. The Award is passed accordingly.

Date : 18.3.2019

AVTAR CHAND DOGRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2019

का.आ. 555.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स उप महानिदेशक कैटीन सेवा (डीडीजीएससी), मेसर्स आईएचक्यू रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली और अन्य एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2 नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 22/2017) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 26.03.2019 को प्राप्त हुए थे।

[सं. एल-14012/01/2017-आईआर (डीयू)]

वी. के. ठाकुर, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th March, 2019

S.O. 555.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 22/2017) of the *Central Government Industrial-Tribunal-cum* Labour Court-2 New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Dy Director General Canteen Services (DDGSC), M/s. IHQ Ministry of Defence, New Delhi and Others, and their workmen which were received by the Central Government on 26.03.2019.

[No. L-14012/01/2017-IR(DU)]

V. K. THAKUR, Section Officer

ANNEXURE**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI**

Present : Smt. Pranita Mohanty, Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour
Court-II, New Delhi

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 22/2017

Date of Passing Award- 25th February, 2019

Between :

Sh. Pradeep Kumar Kalyan,
S/o. Late Sh. Palturam,
R/o. H. No. 70/19, Ganpati Enclave,
Gali No. 5, Purvavali, Distt- Ganeshpur,
Haridwar

... Workman

Versus

1. The Dy. Director General Canteen Services (DDGSC),
M/s. IHQ, Ministry of Defence,
Army QMGS Branch, L-Block Room No. 16,
Church Road, New Delhi-110001.

2. The Commandant,
M/s. Army Hospital, Roorkee,
Haridwar

...Managements

Appearances:-

Shri Nihal Ahmed, Advocate : For the Workman

None for the management, Advocate : For the Management

AWARD

The Government of India in Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing between employer i.e. the management of (DDGCH), IHQ, Ministry of Defence, and its workman/claimant herein, under clause (d) of sub section (1) and sub section (2A) of section 10 of the Industrial Dispute Act 1947 vide letter No. L-14012/01/2017 (IR(DU) dated 01.06.2017 to this tribunal for adjudication to the following effect.

“Whether the action of the management in changing the terms and conditions of service of the workman and terminating his services is illegal and unjustified? If so, is the workman entitled for reinstatement in service with full back wages and all consequential benefits? Or what other relief the workman is entitled to?”

The claimant/workman by filing the claim statement has challenged the order of termination dated 12.02.2014 passed by the management by letter dated 14.04.2013. It has been contended by the workman that he was a regular employee of the management/respondent serving as salesman in Unit Run Canteen of Military Hospital Roorkee. Initially the workman was employed as a regular employee and the said fact was communicated to him by the management vide letter No. 12009/CSD/Acct(PC)/05 dated 09.06.2005. But on a later date his service was converted to contractual appointment and again by letter dated 15.04.2013 his service was terminated without assigning any reason. Though the workman was a permanent employee of the management and the condition of the service was regulated as per the conditions of service applicable to Civilian Employees of Unit Run Canteen and his service was regularized in due course, the management in a whimsical manner terminated his service and all the effort made by the claimant/workman to contact the management turned out futile. No domestic enquiry for any misconduct was ever initiated against him. Being aggrieved the workman gave written representation on 11.03.2013 to the Commanding Officer Military Hospital Roorkee and another representation through the General Secretary of All India Defence Civilian Canteen Employees Union. But none of his representations were considered by the management. Before his termination, the management informed him that he was appointed for a period of one year with a consolidated pay of Rs. 6,600/- per month. Though the workman joined in service on 12.02.2014 another letter was served on him stating that his service would come to an end on 20.08.2014. The workman again made representation challenging the termination and claiming to be a regular employee. But the management took no action on the same.

The workman then approached the Hon'ble High Court of Uttarakhand by filing writ petition seeking quashing of the impugned order and reinstatement in service. But the Hon'ble High Court directed him to approach The Central Administrative Tribunal. Though the workman had filed an application before the Central Administrative Tribunal New Delhi the same was dismissed for want of jurisdiction. Having no other efficacious remedy, the workman

approached the Deputy Chief Labour Commissioner Dehradun. There, steps were taken for conciliation, but no fruitful result could be achieved. The Labour Commissioner referred the matter to this tribunal. Hence, the proceeding.

Notice was issued to the management/respondent. Pursuant there to management No. 2 entered appearance and received the claim statement. But thereafter management No. 2 neither opted to file written statement nor contested the proceeding. On behalf of management No. 1 nobody appeared. Hence, both the managements were proceeded ex-parte by order dated 05.02.2018 and for non filing of the written statement no issues were framed for answering.

During course of hearing the workman Pradeep Kumar Kalyan testified as workman witness No. 1 and proved certain documents which were marked in a series of Exhibit WW1/1 to WW1/10. These documents include the appointment letter dated 05.04.2013 changing the terms and conditions of the service of the workman from permanent to temporary, the letter of the management for termination of service, the representation made by the workman to the commanding officer to know the reason of termination the letter of the All India Defence Civilian Canteen employees Union and the information regarding pay scale, communication made to the Deputy Director and Commanding Officer Military Hospital Roorkee alleging illegal termination and the order passed by the Hon'ble CAT etc.

In his sworn testimony the workman has stated that he was initially appointed as a salesman in the Unit Run Canteen of Military Hospital Roorkee in the year 1999 and his service was regularized in the year 2005 w.e.f. 04.01.2001 in the pay scale of 3050-75-3950-80-4590 by the orders of the management dated 09.06.2005. A letter to that effect was communicated to him. At that time like any other regular employee he was asked to produce medical fitness certificate character certificate and police verification report etc. When his life was going on smoothly suddenly the management communicated an order on 15.04.2013 (Annexure A-1) stating that his service was temporary and had come to an end on 31.03.2013. All the efforts made by the workman to know the reason thereof yield no result. Though he made a representation no action was taken. The workman then tried to resolve his grievance through the union and the union made correspondence with the management in this regard. On 15.02.2013 he had received a letter of assurance from the management wherein he was intimated that his appointment in the year 2005 on regular basis is illegal as no permanent employee can be appointed in the unit run canteen by citing the judgment of the Hon'ble Supreme Court. Thereafter a letter was issued cancelling his appointment dated 09.06.2005. At that point of time the workman was informed that his pay scale has been changed and the tenure of service would be up till 28.02.2014. This letter was exhibited as WW1/5. On 12.02.2014 the management passed an order terminating his service. Being aggrieved he first filed a writ petition before the Hon'ble High Court of uttrakhand and then approached the CAT New Delhi and being advised approach the ministry of labour who made a reference to the following effect.

“Whether the action of the management in changing the terms and conditions of service of the workman and terminating his services is illegal and unjustified? If so, is the workman entitles to for reinstatement in service with full back wages and all consequential benefits? Or what other relief the workman is entitled to?”

As indicated above the management has been set ex-parte. The workman has filed a document which is a letter dated 15.04.2013 issued to him by the Ltnt Cornel, Registrar and OCTps medical hospital roorkee this has been marked exhibit WW1/1. In this letter the workman was intimated that his mother Bala devi was working as Ward Assistant in hospital and for her poor economic condition the then commandant appointed him as a salesman in CSD on 04.01.2001. There is no mention in official record regarding his status as a permanent employee. The appointment being temporary in nature, as per the rules of Government of India, Commandant Military Hospital has no jurisdiction to make permanent appointment. The Hon'ble Supreme Court of India has issued an order to make temporary appointment to all CSD Canteens. As such, his service is terminated giving him one month advance notice.

The said advance notice received by the workman has been marked as exhibit WW1/2. The workman has also filed another document marked as WW1/5 which reveals that his pay scale was revised and fixed at Rs. 6600/- w.e.f. 15.04.2013. Apart from this, the workman has filed copies of the representation made by him to different authorities.

From all these documents and pleading it appears the workman was working as a salesman in Unit Run Canteen of the Military Hospital from 1999 till 28.02.2014 when his service was terminated. The workman has admitted that the termination was pursuant to an order passed by the Hon'ble Supreme Court of India. It is a matter of plight that the management did not participate to apprise the tribunal about the legal position and status of the workman. But in the case of **R.R. Pillai (Dead) through LRs vs. Commanding officer HQ SAC (U) and others reported in (2009) 13 SCC page 311** the Hon'ble Supreme Court have held that the employees of the Unit Run Canteen are not the Government servants. But there is no evidence on record if the service condition of the persons already in employment would be changed thereby, as has been done in the case of present workman.

From the statement and evidence adduced by the workman it appears that the service condition of the workman was changed in the year 2012 by reducing his pay scale to 6600/- and making his appointment to a fixed term period of one year. The document marked as WW1/1 which is a letter given to the workman by the Registrar and OCPS military hospital roorkee clearly indicates that an order has been received from the supreme court to make all the appointments in Unit Run Canteen temporary. That itself is proof of the fact that, earlier his service was permanent. No good reasons have been assigned by the management nor any copy of the order of the Supreme Court containing the direction has been filed. Thus, the act of the management No. 2 in changing the service condition of the workman and terminating his service is held to be illegal and unjustified.

The workman has not adduced any evidence to prove that there are still vacancies in the Unit Run Canteen Military Hospital Roorke. In such a situation this tribunal does not feel it proper to give a finding and direction for his reinstatement to service. Moreover the workman at present is 52 years old. In such a situation, this tribunal is of the opinion that payment of compensation for the illegal termination and also for the remaining year of service of the workman, would serve the end of justice. The reference is accordingly answered. Hence, ordered.

ORDER

The claim be and the same is allowed ex-parte against both the managements. The management No. 2 is directed to pay compensation of Rs. 5,00,000/- to the workman for his illegal termination and in lieu of the services which could have been rendered by the workman till the age of superannuation. Management no. 2 shall make payment to the workman within 3 months from the date of publication of the award in the Gazette of Government of India, failing which the workman shall be at liberty of realizing the same through process of law alongwith interest at the rate of 12% per annum from the date, when the amount falls due and till the final payment is made. Copy be supplied to both the parties. Consign the record after compliance.

The reference is answered accordingly.

Dictated & Corrected by me.

PRANITA MOHANTY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2019

का.आ. 556.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स कार्यकारी अभियंता एन डिवीजन, सीपीडब्ल्यूडी, नई दिल्ली और अन्य एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2 नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 52/2006) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 26.03.2019 को प्राप्त हुए थे।

[सं. एल-42012/110/2005-आईआर (डीयू)]

वी. के. ठाकुर, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th March, 2019

S.O. 556.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 52/2006) of the *Central Government Industrial-Tribunal-cum Labour Court-2 New Delhi* as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Executive Engineer, N Division, CPWD, New Delhi and Others, and their workmen which were received by the Central Government on the Executive Engineer, N Division, CPWD, New Delhi. 26.03.2019.

[No. L-42012/110/200 -IR(DU)]

V. K. THAKUR, Section Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI

Present : Smt. Pranita Mohanty, Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour Court-II, New Delhi.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE No. 52/2006

Date of Passing Award- 13th February, 2019

Between :

Shri Surender, Beldar,
All India Central PWD
(MRM) Karamchari Sangathan (Reg.)
H.No. 4823, Gali No. 13, Balbir Nagar Extension,
Shahdra, Delhi-110032.

... Workman

Versus

The Executive Engineer,
N Division, CPWD,
I.P. Bhawan, New Delhi.

... Management

Appearances:-

Shri Satish Sharma, Advocate : For the Workman

Shri Atul Bhardwaj, Advocate : For the Management

AWARD

The Government of India in Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing between employer i.e. the management of C.P.W.D, and its workman/claimant herein, under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of section 10 of the Industrial Dispute Act 1947 vide letter No. L-42012/110/2005(IR(CM-II) dated 13.09.2006 to this tribunal for adjudication to the following effect.

“Whether the action of management of C.P.W.D of not regularizing the services of Shri Surender w.e.f.14.08.1978 and also of non- payment of equal pay for equal work during 14.08.1978 to 10.05.82 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to? ”

The workman in the claim statement has stated that he was initially appointed as a Beldar on Muster Roll basis w.e.f. 14.08.1978 under the management of CPWD. On 11.5.1982 his service was regularized and he was posted as Beldar in the office of the Executive Engineer North Division CPWD. Thereafter he was transferred from place to place and in due course got promotion as mason and now working in the unfiltered water division CPWD New Delhi. After his regularization of his service, he made several request and representation to the management demanding equal pay at par with his counterpart w.e.f. 14.08.1978. But the management paid no heed to the same. At this juncture the workman came to know about the order passed by the Hon’ble Supreme Court in the case of **Surinder Singh and Another vs. Engineer in Chief of CPWD and others passed in writ petition (Civil) No 59-60 and 563-70 of 1983 wherein the Hon’ble Supreme Court** had issued a direction for regularization of service of the Beldars and to pay equal pay for equal work at par with the regular employees. After that judgment dated 17.01.1986 passed by the Hon’ble Supreme Court, the management of CPWD issued order in respect of muster roll workmen and different pay was fixed for different categories of muster roll workers and the payment was allowed w.e.f 1.04.1987. The arrears were also paid to the workmen. 1113 workmen then filed numbers of LCAs before the CGIT New Delhi in the year 1988 claiming equal salary and allowance at par with their regular counterpart in CPWD w.e.f. their initial date of appointment on muster roll. Award was passed by the CGIT on 20.06.1989 directing CPWD to pay the arrear amount alongwith interest at 12% and to pay the interest at the rate of 15% from the date of order till final payment was made. All the efforts made by the CPWD upto Supreme Court challenging the order failed. The said workmen then approached the Regional Labour Commissioner praying implementation of the award and the Labour Commissioner issued direction for recovery of 4,84,19,918/-. The said order was again challenged before the Hon’ble High Court and Supreme Court and CPWD failed in its effort. The present workman was not one among the 1113 workmen mentioned above. Since he could not get the benefit, represented before the management which was not considered. Hence, with the copy of the application for espousal he filed the present claim petition praying a direction to the management to pay him equal remuneration at par with the regular employee for the period from 14.08.1978 to 11.05.1982 on the principle of equal pay for equal work and arrear thereof.

Notice was served on the management CPWD who entered appearance and filed written statement. In the written statement CPWD admitted the date of appointment of the workman on muster roll, the date of regularization of his service, the pay scale allowed to the workman after regularization and the order of the Hon’ble Supreme Court. But only plea taken by the management is that the service of this workman was regularized on 11.05.82 i.e. prior to the judgment passed by the Hon’ble Supreme Court on 17.01.86. After 17.01.86 all the Muster Roll employees were regularized and salary was paid to them at par with their counterpart regular employees. The judgment of the Apex Court in the case of Surinder Singh and Another vs. Engineering in Chief CPWD is not applicable to the present workman.

On this rival pleading the following issues were framed.

ISSUES

1. Whether the action of the management of CPWD of not regularizing the services of Shri Surender w.e.f. 14.08.1978 is legal and justified? If so its effect.
2. Whether non-payment of equal pay for equal work to Shri Surender during 14.08.78 to 10.05.82 is legal and justified?
3. If not, to what relief the workman is entitled to?

The workman testified as WW1 and tendered a series of document marked as WW1/1 to WW1/5. He was cross-examined at length by the management. Similarly the management examined one of its Executive Engineer as MW1 who too proved the document marked as MW1 to MW1/3. The workman also cross-examined this witness.

FINDINGS**ISSUE Nos. 1 and 2**

These two issues being interdependent and interlinked have been taken up for consideration together.

The workman has claimed that his service should have been regularized w.e.f. 14.08.78 and he should have been paid the remuneration from that day at par with his regular counterpart. In the sworn testimony he has stated that all other person who had approached the Hon'ble High Court are being paid equal remuneration from the date of their joining but he has been discriminated by the management. During cross-examination he admitted that the judgment of the Supreme Court in the case of Surinder referred supra was pronounced on 17.01.86, and prior to that w.e.f. 11.05.82 his service was regularized. On behalf of the workman his appointment letter, regularization letter etc have been proved and it is not disputed that he was not a muster roll employee when the judgment was passed in the case of Surinder by the Hon'ble Supreme Court. MW1 the witness for the department has stated that consequent upon the judgment of the Hon'ble Supreme Court passed in the case of Surinder, the benefit of equal pay for equal work was implemented from 17.01.86 and office order was issued. On that day since the present workman was a regular employee w.e.f. 11.05.82, his case was not taken under the fold of that office order. Thus, the question which now remains to be answered is if the judgment of surrender passed by the Hon'ble Apex Court is applicable to the present workman and he is entitled to get the benefits of salary as regular employee on the principle of equal pay for equal work w.e.f. the date of his initial appointment i.e. from 14.08.78.

The order of the Hon'ble Supreme Court passed in the case of **Surinder Singh and Another vs. Engineers in Chief of CPWD reported in (1986) SCC 639** has been filed and exhibited as WW1/2. On a careful reading of the said judgment it is seen that in the last part of the order the Hon'ble Apex Court have held that the Central Government and State Government are expected to function like model and enlighten all public sector undertaking employer. While allowing the writ petition, the Hon'ble Supreme Court by following the judgment passed in the case of Nehru Yuvak Kendra, directed to pay to the petitioner and all other daily rated employees the same salary and allowance as are paid to regular and permanent employees in that cadre w.e.f. the date they were respectively employed. In the said judgment the Hon'ble Apex Court took into consideration the plight of several temporary daily wagers kept in service without their service being regularized.

Thus, from the observation of the Hon'ble Apex Court in the judgment of surrender referred supra, it is seen that there is no restriction imposed regarding applicability of the judgment to the persons already regularized or waiting to be regularized. The only direction contained in the judgment is that for equal work done, equal remuneration is payable to the daily rated workers from the date of their initial appointment alongwith the allowances as are paid to the regular and permanent employees. Hence, when the management has clearly admitted that no regular salary/remuneration and allowance was paid to the present workman for the period of his initial appointment i.e. 14.08.78 and till he was regularized on 10.05.82 it is held that the management is liable to pay him equal remuneration at par with the regular and permanent employees for that period. Both the issues were answered in favour of the workman.

ISSUE No. 3

In view of the discussion made in the preceding paragraph and finding arrived it is directed that the workman is entitled to equal pay at par with the regular employees of his cadre w.e.f. 14.08.1978. The issue is accordingly answered. Hence, ordered.

ORDER

The claim be and the same be is allowed on contest. It is directed that the management shall extend the benefit of equal remuneration for equal work to the present workman at par with his counterpart regular employees w.e.f. 14.08.78 and refix his pay accordingly. The arrears accrued shall be paid to the workman within 2 months from the date of the publication of the award. Since the workman was not an applicant in the writ petition and had approached this tribunal after 24 years, he is not entitled to any interest over the accrued amount. However, if the management would fail to pay the arrears within the time stipulated, it shall be liable to pay interest at the rate of 15% per annum from the date on which the amount falls due to be paid i.e. 2 months after the notification and till the final payment is made.

The reference is answered accordingly.

Dictated & Corrected by me.

PRANITA MOHANTY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2019

का.आ. 557.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स अध्यक्ष, एचएमटी, मजदूर संघ, कपासन, बंगलौर और अन्य एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, बंगलौर के पंचाट (संदर्भ संख्या 04/2014) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 13.03.2019 को प्राप्त हुए थे।

[सं. एल-42011/124/2013-आईआर (डीयू)]

वी. के. ठाकुर, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th March, 2019

S.O. 557.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 04/2014) of the *Central Government Industrial-Tribunal-cum* Labour Court, Bangalore as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The President, HMT Mazdoor Sangh, Cottonpet, Bangalore and Others, and their workmen which were received by the Central Government on 13.03.2019.

[No. L-42011/124/2013-IR(DU)]

V. K. THAKUR, Section Officer

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
BANGALORE**

DATED : 5th MARCH 2019

PRESENT : JUSTICE SMT. RATHNAKALA, Presiding Officer

C R No. 04/2014

I Party

The President,
HMT Mazdoor Sangh @
BMS Office, Cottonpet,
BANGALORE – 560 053.

II Party

The Managing Director,
HMT, HMT Bhavan,
Mekhri Circle, Hebbal,
BANGALORE – 560 032.

Appearances :

I Party : Shri Prem Kumar, President

II Party : Shri B. C. Prabhakar, Advocate

AWARD

1. The Central Government vide order No. L-42011/154/2013-IR(DU) dated 28.02.2014 in exercise of the power conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) made this reference for adjudication with the following Schedule:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of HMT Machine Tools Ltd., Bangalore, deputing Shri S. Gajendrapathy, Master Craftsman and Shri V Ramesh Babu Rao, Sr. Operator, Vide their Office Order dated 10.05.2013, is legal and justified. If not, to what reliefs are they entitled?”

2. In pursuance of the reference of Order both parties have filed their statements and adduced their evidence.

Today it is the submission from both sides that in accordance with the deputation order the I Party workmen reported to duty as consensus was arrived between them and the management. Thereafter, all of them are transferred to Bangalore.

In that view of the matter the reference becomes infructuous and no more relief can be granted.

ORDER

Reference is closed

(Dictated to U D C, transcribed by him, corrected and signed by me on 5th March 2019)

Justice Smt. RATHNAKALA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2019

का.आ. 558.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स कार्यकारी अभियंता (विद्युत विभाग), सीपीडब्ल्यूडी, देहरादून और अन्य एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2 नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 60/2015) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 26.03.2019 को प्राप्त हुए थे।

[सं. एल-42011/21/2015-आईआर (डीयू)]

वी. के. ठाकुर, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th March, 2019

S.O. 558.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 60/2015) of the *Central Government Industrial-Tribunal-cum Labour Court-2 New Delhi* as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Executive Engineer (Electrical Division), CPWD, Dehradun and Others, and their workmen which were received by the Central Government on 26.03.2019.

[No. L-42011/21/2015-IR(DU)]

V. K. THAKUR, Section Officer

ANNEXURE**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI**

Present : Smt. Pranita Mohanty, Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour Court-II, New Delhi.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 60/2015**Date of Passing Award- 14th March, 2019****Between :**

Shri Vijay Prakash, Khalasi
As represented by
All India Central PWD (MRM)
Karamchari Sangathan (Regd),
House No. 4823, Gali No. 13,
Balbir Nagar Extension,
Shahdra, Delhi- 110032.

... Workman

Versus

The Executive Engineer (Electrical Division),
CPWD, Dehradun Central Electrical Division,
Subhash Road,
Dehradun- 248001.

... Management

Appearances:-

Shri Satish Kumar Sharma, (Advocate) : For the Workman

Shri Atul Bhardwaj, (Advocate) : For the Management

AWARD

The Government of India in Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing between employer i.e. the management of CPWD, Dehradun Central Electrical Division, and its workman/claimant herein, under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of section 10 of the Industrial Dispute Act 1947 vide letter No. L- 42011/21/2015 IR(DU) dated 10.03.2015 to this tribunal for adjudication to the following effect.

“Whether the action of the management of CPWD, Dehradun Central Electrical Division in removing from the service of Shri Vijay Prakash w.e.f. 20.11.2012 as alleged by the Union is not a violation of the section G&H of ID Act, 1947? If yes, whether the demand of the Union for his reinstatement and regularization in the service is legal and justified? If not, what relief the workmen are entitled to?”

Being noticed the workman and the management entered appearance and filed claim petition and written statement respectively, containing their stand.

The workman has stated that he started working with the management as a Khalasi through a contractor w.e.f. 20.11.2011 at Central Electrical Division, CPWD Dehradun at Sarsawa, Saharanpur. On 20.11.2012 his service was illegally terminated and at the time of termination no notice, notice pay, or retrenchment compensation etc were paid. During the course of his engagement he had worked for more than 240 days in a calendar year justifying regularization of his service. After his illegal termination the management engaged a substitute who is much junior to this workman, since he was discharging a perennial nature of work. Being aggrieved he approach the Conciliation Officer and upon his interference the workman was reinstated w.e.f. 01.05.2014. But again his service was terminated w.e.f. 04.02.2015 when he alongwith the co-workers demanded payment of minimum wage at par with their counter-part regular employees. The demand by the workman for the minimum wage was because the work discharge by him was similar to the work done by the regular employees. The workman had also demanded through the Union for his regular absorption since he had the requisite qualification and management had sufficient sanctioned post at that time.

The further contention of the workman is that in order to deprive the workman of his legitimate right the management went on changing contractors, though the workers remained the same. Under the provisions of section 25(5) of the Contract Labour (abolition and regulation) Act 1970, the workman is legally entitled to regular pay scale and admissible allowances at par with the regular work charged wireman. **The Hon’ble High Court of Delhi in CWP No. 4817 of 1999 (CPWDMRM Karamchhari Sangathan vs. Union of India)** directed the Ministry of Labour for constitution of a board to look into the aspect of Contract Labour system prevalent in the CPWD. Pursuant thereto, a board was constituted and as per the recommendation of the said board, the Ministry of Labour issued notification on 31.07.2002 for abolition of Contract Labour system for 15 category of post including Khallasi and Wireman. Though the notification was circulated specifically to Urban Development Ministry, CPWD etc, the later did not implement the same. There was camouflage between the contractor and the management not to regularize the service of present workman. In gross violation of the Provisions of Contract Labour (Abolition and Regulation) Act 1970 the management though required to register itself for engaging Contract Labour and the contractor required to obtain the license for the same, neither the management nor the contractor had not complied with the same. On the contrary, went on engaging Contract Labours in prohibitory category. Thus, the act of the management in terminating the employment of the workman is illegal and his employment should have been regularized by the management w.e.f. 20.11.2012 with full back wages and other service benefits.

The management filed written statement challenging the maintainability of this proceeding for non-joinder of parties as the contractor under whom the workman was employed is a necessary party. While denying employer employee relationship between the management and the workman the answering management has stated that in the case of State of Karnatak vs. Uma Devi, the Hon’ble Supreme Court have clearly prohibited absorption of casual/contractual workers engaged in different department on regular basis and to consider them at par with the regular employees. While specifically denying the claim of the workman that he was engaged as a wireman through contractor w.e.f 23.10.2004 and that his service was terminated on 20.11.2012 the management has pleaded that the Executive Engineer (E) CPWD Dehradun after obtaining a registration certificate from Central Labour Authority, had invited open tender from contractors for different purposes and the contractor so selected might have engaged the present workman. The management has no knowledge about the workman working for 240 days or more as he was an employee of the contractor. This management has also denied the stand of the reinstatement of the workman, on 01.05.2014 for intervention of the conciliation officer and the subsequent termination w.e.f. 04.02.2015. While denying that there are vacancies in the permanent cadre of wireman the management pleaded ignorance about the eligibility criteria if met by the workman. With such assertion, the management has claimed for dismissal of the claim petition. The workman then filed rejoinder alleging suppression of fact by the management.

On this rival pleading the following issues were framed for adjudication.

ISSUES :

1. Whether the workman Sh. Sanjay Singh was working on a prohibited nature of work? If so its effect?
2. If so, whether CPWD should consider him for regularizing, after terminating the continuation of contract work on the said employment? If so its effect?

During the hearing the workman examined himself as WW1 and proved, the copy of the demand for minimum wage advanced, through the Union before the management, indicating the salary due, drawn and the balance to be paid as Exhibit WW1/2. He has also filed the complaint filed before the Labour Commissioner initiating the conciliation proceeding, the report of the 50th meeting of the Central Advisory Contract Labour Board which has been marked as WW1/5, the Gazette notification of the decision of the government, taken on the report of the Advisory Board, prohibiting different categories of employment in contract labour process as Exhibit WW1/6. A letter written by Assistant Labour Commissioner to DG, CPWD requesting action on priority basis in view of the Gazette notification dated 31.07.2002 regarding abolition of contract Labour in respect of certain categories of workers. The workman has also filed the copy of the judgment of the Hon'ble High Court of Delhi passed in WPC No. 8741 of 1998 which has been marked as WW1/4. The workman has relied upon this judgment for the direction given by the Hon'ble High Court of Delhi directing implementation of the decision taken to abolish the Contract Labour in particular job/work in view of the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of All India Statutory Corporation. On behalf of the workman the judgment passed by this tribunal in another proceeding filed as exhibit WW1/8.

The management examined its Executive Engineer as MW1 who proved the registration certificate issued by the Central Labour Authority for executing work through contractor which has been marked as MW1/1. While no other documents have been filed this witness has clearly denied during his cross-examination about the employer and employee relationship between the parties.

In the written statement, the management has challenged the maintainability of the proceeding on non-joinder of necessary party. While maintaining the stand that the claimant/workman was admittedly engaged by a contractor and the said contractor being his employer is a necessary party to the proceeding, the A/R for management argued for dismissal of the claim petition on the ground of nonjoinder of necessary party alone.

Thus, before analyzing the claim of the workman on the basis of the oral & documentary evidence adduced, it is necessary to examine, whether the claimant who as per the claim statement was an employee of the contractor can maintain a dispute against the management? For an answer to this proposition, the Tribunal has to take note of the law contained in section 10 of the Contract Labour (Regulation & Prohibition) Act 1970 (in short The Contract Labour Act) which makes provision for prohibition of Employment of Contract Labour. For sake of convenience, Provisions of section 10 of Contract Labour Act are reproduced below.

“10- Prohibition of employment of Contract Labour:-

- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Appropriate Government may, after consultation with the Central Board or, as the case may be, a State Board, prohibit, by notification in the Official Gazette, employment of contract labour in any process, operation or other work in any establishment.
- (2) Before issuing any notification under sub-section (1) in relation to an establishment, the Appropriate Government shall have regard to the conditions of work and benefits provided for the contract Labour in that establishment and other relevant factors, such as_
 - (a) Whether the process, operation or other work is incidental to, or necessary for the industry, trade, business, manufacture or occupation that is carried on in the establishment;
 - (b) Whether it is of perennial nature, that is to say, it is of sufficient duration having regard to the nature of industry, trade, business, manufacture or occupation carried on in that establishment;
 - (c) Whether it is done ordinarily through regular workmen in that establishment or an establishment similar thereto;
 - (d) Whether it is sufficient to employ considerable number of whole-time workmen.

If a question arises whether any process or operation or other work is of perennial nature, the decision of the Appropriate Government thereon shall be final.”

This provision, thus provides that the Appropriate Government may by notification in the Official Gazette, prohibit employment of contract labour in any process, operation or other work in any establishment.

Thus the question arises, when for issuance of notification by Appropriate Government engagement of Contract Labour is prohibited, what would be the status of the Contract Labour employed at the establishment?

The issue came up before the Hon'ble Supreme Court of India in Steel Authority of India (2001(7) SCC-1) and the Hon'ble Apex Court ruled there in, that, there can't be automatic absorption of contract Labourer by Principal Employer on issuance of notification by Appropriate Government, on abolition of contract Labour system. In the said judgment the Hon'ble Supreme Court have categorized the aggrieved Contractual Labourers for such situation in to 3 following categories;

- (i) Where Contract Labour engaged is prohibited either for the abolition notification by Appropriate Government or for the abolition order passed by industrial adjudicator.
- (ii) Where Contract was found to be sham and nominal, rather a camouflage, conferring right on the workman as employee of Principal Employer.
- (iii) Where in discharge of a statutory obligation of maintaining a canteen in an establishment the principal employer availed the service of the contractor.

The Hon'ble Apex Court ruled that neither section 10 of the Contract Labour act nor any other provision in that act expressly or by necessary implication provides for automatic absorption of Contract Labour. Hence, the principal employer cannot be ordered for absorption of the Contract Labour working in the establishment. In the said judgment the Hon'ble Apex Court also held that on issuance of prohibitory notification u/s 10 of the contract labour Act prohibiting employment of contractual labour, in an Industrial Dispute brought by the contract labour challenging the condition of the service, the industrial adjudicator has to consider the question whether the contractor has been interposed either on the ground of having undertaken to produce any given result for the establishment or for the supply of Contract Labour. If the contract is found to be sham or camouflage the so called Contract Labour shall be treated as the employee of the principal employer, who shall be directed to regularize the services of the contract labour. By any means, the industrial adjudicator has to take up the exercise to ascertain the effective supervision test to find out if the contract labour is an employee of the contractor or the principal employer.

In view of the legal position discussed above it is concluded that the claimant can maintain a dispute against the management since he agitates that the contract agreement between the management and the contractor is sham and nominal.

FINDINGS

ISSUE No. 1

The workman Vijay Prakash has pleaded that he was working as a Khallasi and for the notification made by the government u/s 10 of the contract labour Act the nature of the work done by him came under the prohibited category leading to his termination. To substantiate the same the workman has filed the copy of the Gazette notification Marked as WW1/5. The management has not disputed that the work of the Khallasi comes under the prohibited category and for the said notification the work of the workman was dispensed with by the contractor who had employed him and not by the management CPWD. It is the stand of the workman that the contract between the management CPWD and different contractor is sham. On different point of time though contractor were changing, the present workman and many of his co-workers were working continuously completing 240 days in a calendar year. The workman in his oral testimony has stated that he was working under the direct supervision and control of management CPWD. Thus, it is now to be seen, if the workman was really an employee of the contractor or the management. The agreement between the management and the contractor for the year 2014-15 has been filed and marked as Exhibit MW1/2. This is a contract for 12 months starting from April 2014 ending on April 2015 for maintenance of electrical fitting, running of pump maintenance of light etc. no contract covering the period 20.11.2011 to 20.11.2012 during which the workman claims to have worked has been filed by the management. Thus, from the said of evidence there is absolutely no material to conclude that claimant/workman was an employee of the contractor. If at all there exist any contract between management and any contractor that would not influence the status of the workman. The workman has filed the representation submitted by the Union demanding minimum wage for the present workman and many others. This has not been disputed by the management too.

In the case of Steel Authority of India referred Supra, the Hon'ble Apex court have also prescribed for the effective control test to ascertain about the relationship of the workman with the management or the contractor. Not only that in the case of Chintaman Rao (1958(II)LLJ252) the Apex court ruled that the concept of employment involves 3 ingredients (i) Employer (ii) Employee (iii) Contract of Employment. The employer is one who employees or engages the service of other person. The employee is one who works for another for hire. The employment is the contract of service between the employer and employee were under the employee agrees to serve the employer subject to his control and supervision. In the case of Foot corporation of India reported in (1985(ii)LLJ4) the Hon'ble Apex Court pronounced that the contract of employment discloses a relationship of command and obedience between them. Where a contractor employes a workman to do the work which he contracted with a third person to accomplish, the workman of the contractor would not become more than the workman of the third person.

In the case of Shankar Balajiwaje reported in 1962(1)LLJ119 the Hon'ble Supreme Court have clarified that the control of the management which is a necessary element of the relationship of master and servant is not directed towards providing or dictating the nature of the article to be produced or the work to be done, but refers to other incident having the bearing on the process of the work the person carries out. The manner of work is to be distinguished from the type of work to be performed. Thus, from the above analysis of the Principle of Law, it emerges that the effective control is a test to determine the employer employee relationship between the parties.

In this proceeding, the workman is all along maintaining that he was working under the supervision and control of the management CPWD and not the contractor. He has stated so while testifying as WW1. MW1 is the executive engineer of the, management. During cross-examination this witness had admitted that the officials of the management were giving guidance and checking the work of the workman at the spot. This statement alone indicates the effective supervision of the work of the workman by the management which lead to a conclusion that the workman was the employee of the management and the contract between the management and the contractor as pleaded by the management is a camouflage. Issue no. 1 is accordingly answered in favor of the workman and it is held that he was working for a prohibited nature of work and for gazette notification by the Appropriate Government his service was dispensed, with effect from 20.11.2012. Issue no. 1 is accordingly answered.

ISSUE No. 2

Once it is held that workman was working for a prohibited nature of work and his employment came to an end for the Gazette notification, the next important question need to be answered is what should be the position of the workman thereafter. In the case of Steel Authority of India referred supra it has been held that there cannot be automatic absorption of Contract Labour by the principal employer on the issuance of the notification by the Appropriate Government. The management CPWD in its pleading has maintained that the claimant/workman is not their workman. He also argued that the effective control test prescribed in the case of Hussain Bhai referred supra is also not the conclusive test. By relying upon the case of Balwant Rai Saluja vs. Air India limited (2014) 9SCC407, he submitted that other relevant factors like

- (i) Who appoints the workers;
- (ii) Who pays the salary/remuneration;
- (iii) Who has the authority to dismiss;
- (iv) Who can take disciplinary action;
- (v) Whether there is continuity of service;
- (vi) Extent of control and supervision, i.e. whether there exists complete control and supervision.

are also to be considered to ascertain whether there exists complete control and supervision. While answering issue no. 1 it has already been held that the management CPWD for having effective control is the employer of the workman. Now it is to be seen what relief the workman is entitle to.

The workman has all along pleaded that the provision of section 25-F was not complied when his service was brought to an abrupt end. The management has admitted that no statutory notice for one month or one month's pay in lieu of the notice and retrenchment compensation was paid to the workman offering the explanation that the workman not being the employee of the management, the latter is under no obligation to comply 25-F of the ID Act. On the other hand the workman has stated that by rendering continuous service for a period of more than 1 year as contemplated

under section 25-B of the Act, he is entitled to the retrenchment compensation by the management. In this regard the workman has relied upon several pronouncement of the Supreme Court.

At the cost of repetition be its stated that there is no dispute about the termination of the work of the workman and its date. It also stands crystallized that neither notice pay nor retrenchment compensation was paid. For the finding that there was a relationship of employer and employee between the parties on the date of retrenchment it is held that the retrenchment of the workman is violative of the provision of section 25F of the Act.

It is a settled principle of law that in case of wrongful retrenchment dismissal or discharge, the normal rule is to award reinstatement. But where a case falls in any of the exception to the General Rule, the industrial adjudicator has discretion to award reasonable and adequate compensation in lieu of reinstatement. Section 11A of the Act vest the industrial adjudicator with discretion to give “such other relief to the workman “ in case of discharge or dismissal, depending upon the circumstances of the individual case, where for some valid reasons it considers the reinstatement with or without conditions will not be fair or proper. In this case the workman though stated in the claim petition that the nature of work discharged by him was perennial in nature and there are regular vacancies for the said post, no evidence regarding the vacancy has been adduced. The workman has not obtained any information regarding the vacant positions in the management against which he can be reinstated. But at the same time it is found that the witness examined on behalf of the management has admitted that the nature of work discharged by the workman was perennial in nature, but denied about the vacancies and stated that the management being a department of the government is recruiting its employees following its recruitment rule and there are no vacancies against which he can be absorbed. No document to that effect has also been filed by the management. Hence, considering the stand taken by both the parties and the evidence adduced, no circumstances have been made out for a deviation from the general rule of reinstatement.

From the evidence adduced by the workman it has emerged that he was engaged by the management through contractor by creating a make belief contract agreement and even management could not prove those contract agreement. On a careful examination of the evidence on record, it is found that the management was his real employer and his service was disengaged when he tried to seek right of payment of minimum wages as notified by the appropriate government from time to time. On behalf of the workman some documents have been filed showing the amount of wage paid to him in much less quantity than notified as the minimum wage by the government. His retrenchment has also been found to be void for non compliance of section 25-F of the ID Act. Hence, the question now comes up for consideration if the workman is entitled to full back wages from the date of termination till this order alongwith the relief of reinstatement. To get the relief of full back wages it is obligatory on the part of the workman to establish that he remained unemployment having no source of income from the date of his retrenchment. In his affidavit evidence by saying so he discharged the primary burden for the same. The rebuttal evidence is then to be adduced by the management. The management witness No. 1 has not whispered a word to negative the stand of the workman that he is unemployed.

The Ld. A/R for the workman strenuously argued that this is a fit case for reinstatement, in addition to full back wages together with retrenchment compensation. The Hon'ble High Court of Delhi in the case of Ashok kumar and others vs. Hindustan vegetable oil co. reported in 2017 SCC Page 9516 after referring to judgment of Hindustan tin works Pvt. Ld. Reported in (1979) 2 SCC 80 and the case of **Bhava Nagar Municipal Corporation vs. Jadeja Govubha Chhanubha reported in (2014) 16 SCC page 130** have opined that when the petitioner served for a brief period before their termination, and the matter comes up for a decision by the industrial adjudicator after lapse of reasonably long time, payment of compensation and back wages as would be proper will justify the claim of the workman instead of reinstatement. But in this case it is found that the workman had worked for the management for a long period from 2004 to 2012 and his termination had taken place 7 years before the date of this award. These circumstances persuade this tribunal to award 20% of the back wage from the date of retrenchment till this award becomes operative. It is also directed that the management shall consider the case of the claimant for regularization of his service pursuant to the policy framed on account of prohibitory notification depending upon his eligibility. In case the workman is found eligible to be regularized in service as per the one time policy formulated by the government following the direction given by the Hon'ble Apex Court in the case of Uma Devi (2006(4)SCC1) the entire process would be concluded within a period of 4 months from the date when the award becomes enforceable. In alternative it is directed that in case the workman is not found suitable for regularization, an amount of Rs. 200,000/- Shall be paid to him as retrenchment compensation including 20% of the back wages and this will not carry any interest. Hence, ordered.

ORDER

The claim be and the same is allowed on contest. It is directed that the management shall pay 20% of the back wages to the workman from the date of his termination till the date when the award become enforceable. The management is also directed to consider the reinstatement of the workman subject to his eligibility for such reinstatement pursuant to the one time policy set out by the government as per the direction of the Hon'ble Supreme Court given in the case of Uma Devi (2006(4)SCC1). The entire process would be concluded within a period of 4 months from the date when the award becomes enforceable. In alternative it is directed that in case the workman is not found suitable for regularization, an amount of Rs. 200,000/- Shall be paid to him as retrenchment compensation in addition to 20% of the back wages and this will not carry any interest. A copy of the award be sent to the appropriate government for publication and necessary compliance. Copy be supplied to the parties and the record be consigned in the record room.

The reference is accordingly answered.

Dictated & Corrected by me.

PRANITA MOHANTY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2019

का.आ. 559.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स कार्यकारी अभियंता (विद्युत विभाग), सीपीडब्ल्यूडी, देहरादून और अन्य एवं उनके कर्मचारी के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय-2 नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 79/2014) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 26.03.2019 को प्राप्त हुए थे।

[सं. एल-42011/71/2014-आईआर (डीयू)]

वी. के. ठाकुर, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 28th March, 2019

S.O. 559.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 79/2014) of the *Central Government Industrial-Tribunal-cum* Labour Court-2 New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to The Executive Engineer (Electrical Division), CPWD, Dehradun and Others, and their workmen which were received by the Central Government on 26.03.2019.

[No. L-42011/71/2014-IR(DU)]

V. K. THAKUR, Section Officer

ANNEXURE**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI**

Present : Smt. Pranita Mohanty, Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour Court-II, New Delhi.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 79/2014**Date of Passing Award- 7th March, 2019****Between :**

Shri Suraj Narayan, Khallasi,
All India CPWD(MRM) Karmachari Sangathan,
HN 4823, Gali No. 13,
Balbir Nagar Ext., Shahadra,
New Delhi- 110032.

... Workman

Versus

The Executive Engineer (Electrical Division),
CPWD, Dehradun Central Electrical Division,
Subhash Road,
Dehradun-

... Management

Appearances:-

Shri Satish Kumar Sharma, (Advocate) : For the Workman

Shri Atul Bhardwaj, (Advocate) : For the Management

AWARD

The Government of India in Ministry of Labour & Employment has referred the present dispute existing between employer i.e. the management of CPWD, Dehradun Central Electrical Division, and its workman/claimant herein, under clause (d) of sub section (1) and sub section (2A) of section 10 of the Industrial Dispute Act 1947 vide letter No. L- 42011/71/2014 (IR(DU)) dated 09.09.2014 to this tribunal for adjudication to the following effect.

“Whether the workman is entitled for grant of Promotional pay scale of Rs. 950/- 1500/- w.e.f. 01.04.1991 under in-situ promotion scheme with all the consequential benefits with arrears?”

Being noticed the workman appeared and filed the claim statement stating therein that he was initially appointed as a khallasi on 06.05.1974 in the project MRM Nepal. On completion of said project and as per the settlement dated 09.06.83 the workman working there was transferred to India and continued to work as the employee of the management. The workman was granted the pay scale of unskilled category at the time of his appointment and transfer. But he was reappointed in India in the post of semiskilled category i.e. Assistant operator assistant wireman etc. He reached the maximum pay scale in the unskilled category on 01.04.1999 and as per the order dated 13.09.91 issued by the DOPT he is entitled to in-situ promotion applicable to Group-C and Group-D employee. The CPWD pursuant to the circular of the DOPT merged the unskilled and semiskilled category as per the arbitration award w.e.f. 01.01.73 and the arrear of the salary on this account was granted w.e.f. 1.04.1981. In view of the merger of semiskilled and unskilled category w.e.f. 01.01.73 the grant of in-situ promotion to the next higher scale lost its meaning. After the merger, the employees are to get promotion in-situ to next higher scale available in the normal line/hierarchy of promotion. The workers union submitted their representation for revision of pay scale granted to khallasi and Beldar (unskilled category) on their in-situ promotion accordingly available in the normal line/hierarchy. The department though initially agreed and collected information regarding the financial implication, on later date took a back foot. Thus, it is claimed that the workman is entitled to draw the pay in the scale of 952/- to 1500/- under in-situ promotion w.e.f. 01.12.1993. The workman though has been granted the benefits of ACP w.e.f. 09.08.1999 in the pay scale of 3050 to 4590/- in unskilled category and second MACP w.e.f. 01.09.2008 with grade pay of 2000/- and again third MACP w.e.f. 01.09.2008 with grade of 2400/- are all wrong. The workman as per the order of DGW, CPWD dated 09.06.2011 is entitled to get selection grade as a skilled workman after completion of 8 years in grade pay of 2400/- and his selection grade is to be treated as first ACP and thus, he is entitled to grade pay of 2400/- under second MACP and 2800/- under third MACP w.e.f. 01.09.2008. He has further pleaded that the Hon'ble CAT Principal Bench Delhi, the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana and Hon'ble Supreme Court have upheld the demand of the workman in this regard. Thereby the workman has asserted for passing of the award.

The management appeared and filed written statement denying the stand taken by the workman. The contention raised by the management is that this proceeding is not maintainable as there exists no industrial dispute between the parties. The further contention of the management is that the claimant was initially appointed as Beldar in the project in Nepal and after completion of project reappointed as khallasi in India w.e.f. 05.10.1977 in the pay scale of 180/- to 290/-. At the time of initial appointment he was unskilled worker and his subsequent appointment on transfer was also made in the same unskilled category. While admitting that on 13.09.1991 the DOPT had issued order for grant of in-situ promotion to grade C and D employees on the basis of a qualifying competitive departmental examination, management took the stand that the claimant being a khallasi, was not a semiskilled worker and the arbitration award 1998 for merging the assistant category to the main category i.e. semiskilled to skilled does not apply to him. The management has also denied about the entitlement of the workman for ACP w.e.f. 1999 in the pay scale of 3050/- to 4590/- meant for skilled category. The management has also pleaded that the workman is not entitled to the selection grade which is applicable to skilled category only on completion of 8 years and also not entitled to grade pay of 2400/- as claimed by him. The other stand of the management is that the judgment passed by Hon'ble High Court of Punjab and Haryana has no applicability to the present case of claimant.

On this rival pleading the following issues were framed for adjudication.

ISSUES :

1. Whether the workman is entitled for grant of promotional pay scale of Rs. 950/- to 1500/- w.e.f. 01.04.1991 under in-situ promotion scheme with all the consequential benefits with arrears? Of so its effect?
2. To what relief the workman is entitled to and from which date?

During the course of hearing the workman examined himself as witness no. 1 and proved the recruitment manual as Exhibit WW1/2. He has also Exhibited the copy of the settlement on the basis of which he was transferred to India from Nepal affected on 09.06.1983 and this document has been marked as WW1/1 he has also filed the notification of DOPT dated 13.09.1991 directing grant of in-situ promotion to group c and group d employee which has been marked as WW1/3. The workman has also filed another document marked as WW1/5 issued by the directorate general of works CPWD to the superintending engineers wherein direction was given for review of the cases of Khallasi and Beldar who had been granted in-situ promotion in the scale of 800/- to 1150/- and the financial implication in case they are granted in-situ promotion in the pay scale of 952/- to 1500/- instead of 800/- to 1150/-. The workman has also filed the order of the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana passed in the case of Union of India vs. Raj Pal and others and the judgment of the Central Administrative Tribunal Principal Bench Delhi, and the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India to prove its stand that he should have been granted the selection grade scale on account of the merger of semiskilled to skilled category and should have been granted the pay scale of 950 to 1500/- under in-situ promotion w.e.f. 1.12.2013 thereby guiding the benefits of ACP second MACP and third MACP in skilled category. He has filed the order of the management granting him ACP and MACP.

Similarly the management examined one of its Executive Engineer as MW1 who proved the office memorandum of ministry of finance for grant of ACP to Group C and D and the order granting ACP to the workman.

FINDINGS**ISSUE No. 1**

Admitted facts are that the workman was initially appointed as a khallasi on 06.05.1974 in project MRM in Nepal and was transferred as a Khallasi to India as per the settlement dated 09.06.83. The stand of the workman is that he was in the unskilled category while working in MRM project and was also transferred to India in the same category. At that time as per the recruitment rule and manual the promotional post of unskilled category was semiskilled category i.e. Assistant Operator, Assistant wireman etc. The copy of that manual has been marked as exhibit WW1/2. But at the time of his transfer on 01.04.1991 the workman had reached the maximum scale of unskilled category i.e. Rs. 750/- to 940/-. On 13.09.1991 the DOPT issued a circular for grant of in-situ promotion to Group C and D employees which was carried out by the management as a result of which the pay scale of 800 to 1150/- meant for semiskilled workers was allowed to unskilled category of the workers since as per the arbitration award of 1988 the Assistant category (Semiskilled) had merged with skilled category w.e.f. 01.01.73. On account of that the in-situ promotion of the workman to semiskilled category lost its force and he demanded in-situ promotion to the next higher category i.e. skilled category. Though this demand was initially accepted, later on refused and the workman retired in the category of semiskilled workers, though ACP second MACP and third MACP was allowed to him. To support his contention the workman has relied upon the judgment of the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana in the case of **Union of India and Others vs. Raj Pal and Others decided in CWP No. 19387 of 2011**. It is the contention of the workman that the same judgment has been upheld by the **Hon'ble CAT Principal Bench and the Hon'ble Supreme Court in SLP (CC) No. 7467 of 2013**.

The witness examined on behalf of the management while admitting about the circular of DOPT stated that the workman was appointed in the post of Khallasi and retired in the same post. During cross-examination he admitted that on 06.09.2017 his department had issued an order for grant of pay scale of 950/- to 1500/- to the unskilled workers w.e.f. 01.04.1991. The order has been exhibited as MW1/W1 there is no dispute that the cadre of semiskilled workers had merged with the skilled workers w.e.f. 01.01.73 as per the arbitration award 1988. This was the award passed prior to the order issued by the DOPT on 13.09.1991 directing grant of in-situ promotions which was made effective w.e.f. 01.01.73 and the arrear was made payable w.e.f. 01.04.81. Thus, it is found that the order of the management dated 18.11.97 for grant of in-situ promotion to Khallasis to the cadre of semiskilled allowed in then the pay scale of 800/- to 1150/- is contrary to the arbitration award and the circular of the DOPT. He should have been granted the pay scale of 950/- to 1500/- under in-situ promotion w.e.f. 01.12.1993 and his ACP, second MACP and third MACP should have been accordingly determined. This issue is accordingly decided in favour of the workman.

ISSUE No. 2

In view of the finding of the issue no. 1 the workman is held entitled to the benefit of promotional pay scale of Rs. 950/- to 1500/- w.e.f. 01.12.93 under in-situ promotion and the same shall be taken into consideration for re-fixation of his pay in ACP and Second MACP and third MACP as a consequence thereof. Hence, ordered.

ORDER

The reference be and the same is answered in favour of the workman. It is directed that the management shall re-fix the salary of the workman in the pay scale of 950/- to 1500 w.e.f. 01.12.93 in in-situ promotion. In view of this

direction the ACP and second MACP and third MACP allowed to the workman shall be accordingly revised keeping in view the pay scale of the workman to be fixed on in-situ promotion. The pay on such fixation and the differential arrear, shall be paid to the workman by the management within 3 months from the date when this award would become enforceable, failing which the workman would be at liberty of getting the order executed and on such event the management will be liable to pay the interest at the rate of 12% per annum from the date when amount falls due i.e. on completion of 3 months from the date of publication of award till final payment is made. Copy be supplied to the parties and the record be consigned in the record room.

The reference is accordingly answered.

Dictated & Corrected by me.

PRANITA MOHANTY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2019

का.आ. 560.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार पश्चिम रेलवे के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 73/2013) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 03.04.2019 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41011/119/2012-आईआर (बी-1)]

बी. एस. बिष्ट, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd April, 2019

S.O. 560.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 73/2013) of the *Central Government Industrial-Tribunal-cum-Labour Court Ahmedabad* as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of North Western Railway and their workmen, received by the Central Government on 03.04.2019.

[No. L-41011/119/2012 -IR(B-1)]

B. S. BISHT, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, AHMEDABAD

Present : Pramod Kumar Chaturvedi, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,

Ahmedabad, Dated 14th March, 2019

Reference: (CGITA) No. 73/2013

1. The General Manager,
Western Railway, Churchgate,
Mumbai – 400020
2. The General Manager,
North Western Railway,
Jaipur (Rajasthan)
3. The Chief Project Manager,
Western Railway, Kalupur,
Ahmedabad (Gujarat)
4. The Chief Project Manager,
North Western Railway,
Jaipur (Rajasthan)

... First Parties

V/s

The President,
Paschim Railway Karmachari Parishad,
B/28, Narayan Park, Behind Chandkheda Railway Station,
Sabarmati, Ahmedabad (Gujarat)

....Second Party

For the First Party No. 2 & 4 : Shri N.J. Acharya
 For the First Party No. 3 : Shri H.R. Raval
 For the Second Party : Shri R.S. Sisodiya

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-41011/119/2012-IR(B-I) dated 05.04.2013 referred the dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Chief Project Manager, Western Railway, Ahmedabad and others by not paying the family pension to widows of deceased employees viz. ShriDhuraswami, ShriChinnapaenLingan, ShriMayavanTangraj and ShriMatiKeshvan is justified and legal? If not, to what relief the workmen are entitled to?”

1. The reference dates back to 05.04.2013 and received on 22.04.2013 from Ministry of Labour and Employment, New Delhi for adjudication and passing the award.
2. After issuing notice to the parties, second party submitted the statement of claim Ex. 3 on 27.12.2013. The first party no. 3 submitted the written statement Ex. 9 on 03.11.2017 and the first party no. 2 and 4 submitted the written statement Ex. 10 on 15.12.2017.
3. The second party union The President, Paschim Railway KarmachariParishad, B/28, Narayan Park, Behind Chandkheda Railway Station, Sabarmati, Ahmedabad, hereinafter referred to as ‘Union’ in his statement of claim has alleged that the union raised a charter of demand against the management of the first party The General Manager, Western Railway, Northern Western Railway and the Chief Projects Managers of the aforesaid railways, hereinafter referred to as ‘first party’ wherein the Conciliation Officer cum Assistant Commissioner of Labour issued notice to the first party employer but the dispute regarding the charter of demand could not be resolved, therefore, this schedule of reference was referred to this Tribunal for adjudication. The brief facts of the case are that the workmen namely Dhuraswami, ChinnapaenLingan, MayavanTangraj and MatiKeshvan died on 20.03.1991, 01.05.1990, 03.05.1992 and 05.04.2001 respectively during the course of employment after serving the employer continuously for 15 years but their legal heirs/widows denied the benefits of family pension as per the Railway Service Pension Rules, 1993 despite the specific provisions of family pension in Rule/Section 75(2) which are reproduced as under:

“75(2) Without prejudice to the provisions contained in Sub Rule (3), where, railway servant dies;

- (a) After completion of one year of continuous service, or
- (b) Before completion of one year of continuous service provided the deceased railway servant concerned immediately prior to his appointment to the service or post or examined by the appropriate medical authorities and declared fit by that authority for railway services;
- (c) After retirement from service and was on the date of death in receipt of pension or compassionate allowance, referred to in Chapter V other than the pension referred to in Rule 53.”

It is further alleged that in the similarly conditioned cases, the widows are sanctioned the benefit of family pension while the widows of the aforesaid deceased employees were denied the benefit of family pension without giving any cogent and proper reason. The Supreme Court in a reported decisions in 1996 (1) SLR 28, Prabhavati Devi V/s Union of India has held, if a workman having temporary status died while in service, the widow and his children are entitled for family pension if the workman served for more than 1 year. Thus he has prayed that the widows of the aforesaid deceased workmen be sanctioned the family pension from the date of their death and also be given the arrear of pension.

4. The first party Western Railway, Ahmedabad appeared through advocate and submitted the written statement Ex. 9 and The General Manager, North Western Railway, Jaipur submitted the written statement Ex. 10. The first party The General Manager, Western Railway, Ahmedabad through Senior Personnel Officer submitted in the written statement Ex. 9 that these workmen were not engaged under his territory jurisdiction, therefore, they have no liability regarding the widows of the deceased workmen. The General Manager, North Western Railway, Jaipur through Deputy Chief Engineer submitted in the written statement Ex. 10 that the issue was raised before Assistant Labour Commissioner (Central), Ajmer by the Secretary, Paschim Railway KarmachariParishad, Ahmedabad, hereinafter referred to as ‘PRKP’ in the year 2004 for benefits of pension which was rejected by the Assistant Labour Commissioner (Central), Ajmer. Thereafter, the same issue was raised by PRKP on 20.08.2004 before the Assistant Labour Commissioner (Central), Baroda for grant of benefit of provident fund, gratuity and family pension to the legal heir/widow of deceased workman ChinnapaenLingan where the North Western Railway, Jaipur agreed to pay the necessary dues to the widow of the deceased workman ChinnapaenLingan, a gang-man working as temporary status workman. Same were paid vide letter no. E/1054/ ChinnapaenLingan and E/523/1/JP dated 19.08.1998. The details of the dues paid are as follows, PF Rs. 3931/-, Service Gratuity Rs. 1852/-, hence total Rs. 5783/-. The first party

management also communicated by letter dated 11.06.2008 to Smt. Karupal C. requesting her to submit the PF account no. of ChinnapaenLingan along with the valid account no. but the union PRKP failed to submit the details. It is further submitted that adjudication of the reference relates to benefit of pension that can only be sanctioned by due procedure of railway rules and law. The reference is not maintainable and barred by territorial jurisdiction. Hence the reference is liable to be dismissed.

5. The first party submitted the documents vide list Ex. 11 regarding the information of conciliation pending before the Assistant Labour Commissioner, a letter of the Ministry of Labour and Employment regarding pending of reconciliation before the Assistant Labour Commissioner and charter of demands etc.

6. On the basis of the pleadings, the following issues arise:

- i. Whether the action of the management of Chief Project Manager, Western Railway, Ahmedabad and others by not paying the family pension to widows of deceased employees viz. ShriDhuraswami, ShriChinnapaenLingan, ShriMayavanTangraj and ShriMatiKeshvan is justified and legal?
- ii. To what relief, if any, the widows of the deceased concerned workmen are entitled?

7. **Issue No. i and ii:** As both the issues are interrelated, therefore, are decided together. The burden of proof of these issues lies on the second party union who was examined vide affidavits Ex. 12 of Karupai, the widow of ChinnapaenLingan, Ex. 13 of Monnymeghla widow of MayavanTangraj, Ex. 14 of Saroja widow of MatiKeshvan and Ex. 15 of Navamma widow of Dhuraswami who reiterated the averments made in the statement of claim. They have stated that their aforesaid husbands served the Western and North Western Railway from the year 1979 to till death after serving more than 10 years. Their husbands were posted in North Western Railway at the time of their death. They all having the temporary status and as per the Railway Rules were entitled for the family pension which are as under:

“75(2) Without prejudice to the provisions contained in Sub Rule (3), where, railway servant dies;

- (d) After completion of one year of continuous service, or
- (e) Before completion of one year of continuous service provided the deceased railway servant concerned immediately prior to his appointment to the service or post or examined by the appropriate medical authorities and declared fit by that authority for railway services;
- (f) After retirement from service and was on the date of death in receipt of pension or compassionate allowance, referred to in Chapter V other than the pension referred to in Rule 53.”

8. All these witnesses in their affidavits have further stated that despite the rules, they were denied the family pension. The advocate for the Railway did not prefer to cross-examine the witnesses.

9. I perused the evidence and heard the arguments of advocates for the parties. From the bear perusal of Rule 75 (2), as stated above, it appears that the widows were eligible for family pension; therefore, favourable directions ought to be issued to the first party The General Manager, North Western Railway, Jaipur. No order is required to be passed against the General Manager, Western Railway, Ahmedabad as having no liability on the ground that the deceased workmen expired while serving the North Western Railway.

10. The General Manager, North Western Railway, Jaipur is directed to sanction family pension to the widows of the deceased workmen namely Dhuraswami, ChinnapaenLingan, MayavanTangraj and MatiKeshvan within one month from the publication of the award and as the second party union and the first parties Western Railway and North Western Railway have not submitted the service record of the deceased workmen, therefore, in case, these widows are ineligible for family pension, The General Manager, North Western Railway, Jaipur shall pass appropriate orders giving detailed reasons within a month from the publication of the award regarding the denial of the family pension. Both the issues are decided accordingly.

11. The award is passed accordingly.

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2019

का.आ. 561.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार पश्चिम रेलवे के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 10/2018) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 03.04.2019 को प्राप्त हुए थे।

[सं. एल-41011/43/2017-आईआर (बी-1)]

बी. एस. बिष्ट, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd April, 2019

S.O. 561.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 10/2018) of the *Central Government Industrial-Tribunal-cum-Labour Court Ahmedabad* as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of North Western Railway and their workmen, received by the Central Government on 03.04.2019.

[No. L-41011/43/2017-IR(B-1)]

B. S. BISHT, Under Secy.

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,
AHMEDABAD**

Present : Pramod Kumar Chaturvedi, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court,
Ahmedabad, Dated 07th March, 2019

Reference: (CGITA) No. 10/2018

1. The Divisional Railway Manager,
Western Railway, Divisional Office,
Asarwa, Near Chamunda Bridge,
Ahmedabad (Gujarat)
2. The Divisional Finance Manager,
Western Railway, Divisional Office,
Asarwa, Near Chamunda Bridge,
Ahmedabad (Gujarat)
3. The Divisional Railway Manager,
Western Railway, Divisional Office,
Pratapnagar,
Baroda (Gujarat)
4. The Divisional Finance Manager,
Western Railway, Divisional Office,
Pratapnagar,
Baroda (Gujarat)
5. The General Manager,
Western Railway, Churchgate,
Mumbai – 400020

...First Parties

V/s

The Joint Divisional Secretary,
Paschim Railway Karmachari Parishad,
Sanand Railway Station, PO Nid Road, Sanand,
Ahmedabad (Gujarat)

....Second Party

For the First Parties : Shri H.R. Raval
For the Second Party : Shri R.S. Sisodiya

AWARD

The Government of India/Ministry of Labour, New Delhi by reference adjudication Order No. L-41011/43/2017-IR(B-I) dated 22.01.2018 referred the dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Ahmedabad (Gujarat) in respect of the matter specified in the Schedule:

SCHEDULE

“Whether the demand of the union, Paschim Railway Karmachari Parishad, Ahmedabad against the management of Divisional Railway Manager, Western Railway, Ahmedabad and Divisional Railway Manager, Western Railway, Baroda claiming the temporary status date 09.03.1980 instead of 30.10.1981 of Shri Devjibhai A. Thakor and seeking grant of benefit accordingly i.e. length of service, 3rd MACP, arrears of salary, gratuity, leave encashment, commutation and pension is legal, fair and justified? If so, then what relief the workman is entitled to and what other directions are necessary in the matter?”

1. The reference dates back to 22.01.2018 and received on 05.02.2018 from Ministry of Labour and Employment, New Delhi for adjudication and passing the award.
2. All the parties issued notice Ex. 2 on 14.05.2018 to appear on 14.06.2018. Acknowledgement slips of notice were also received from all the parties vide Ex. 3 to 8. Shri H.R. Raval filed his vakalatpatra Ex. 9 on behalf of the first party. The case was listed for filing of statement of claim by the second party union.
3. Shri R.S. Sisodiya, The Joint Divisional Secretary, Paschim Railway Karmachari Parishad, Sanand Railway Station, PO Nid Road, Sanand, Ahmedabad stated that he does not want to press the case.
4. Therefore, the reference is disposed of as not pressed by the second party union.

P. K. CHATURVEDI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2019

का.आ. 562.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उत्तर पूर्वी रेलवे के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण लखनऊ के पंचाट (संदर्भ संख्या 70/2012) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 03.04.2019 को प्राप्त हुए थे।

[सं. एल-41011/48/2012-आईआर (बी-1)]

बी. एस. बिष्ट, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd April, 2019

S.O. 562.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 70/2012) of the *Central Government Industrial-Tribunal-cum-Labour Court Lucknow* as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of North Eastern Railway and their workmen, received by the Central Government on 03.04.2019.

[No. L-41011/48/2012-IR(B-1)]

B. S. BISHT, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL—CUM—LABOUR COURT LUCKNOW

PRESENT : RAKESH KUMAR, Presiding Officer

I.D. No. 70/2012

Ref. No. L-41011/48/2012-IR(B-I) dated: 29.08.2012

BETWEEN :

Shri Jai Prakash Singh
S/o Shri Ganesh Singh
Loco Colony Maveya,
North Eastern Railway, Lucknow

AND

1. Divisional Railway Manager (Personnel)
North Eastern Railway
DRM Office, Ashok Road, Lucknow
2. Sr. Divisional Electrical Engineer
Lucknow Junction, Lucknow.
3. Sr. Section Engineer Electrical (S./C)
Lucknow Junction, Lucknow.

AWARD

1. By order No. L-41011/48/2012-IR(B-I) dated: 20.08.2012 the Central Government in the Ministry of Labour, New Delhi in exercise of powers conferred by clause (d) of sub section (1) and sub section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred this industrial dispute between Shri Jai Prakash Singh, S/o Shri Ganesh Singh, Loco Colony Mavya, North Eastern Railway, Lucknow and Divisional Railway Manager (Personnel), North Eastern Railway, DRM Office, Ashok Road, Lucknow & Sr. Divisional Electrical Engineer, Lucknow Junction, Lucknow & Sr. Section Engineer Electrical (S/C), Lucknow Junction, Lucknow for adjudication.
2. The reference under adjudication is:

“WHETHER THE ACTION OF THE MANAGEMENT OF NORTH EASTERN RAILWAY, LUCKNOW IN NOT PROMOTING SHRI JAI PRAKASH SINGH S/O SHRI GANESH SINGH, KHALASI GRADE-I BY NOT ALLOWING HIM BENEFIT OF SENIORITY FROM 1987, IS LEGAL AND JUSTIFIED? TO WHAT RELIEF THE CONCERNED WORKMAN IS ENTITLED?”
3. The workman, Jai Prakash Singh has raised the present industrial dispute claiming seniority from 1987 and other consequential benefits. The management of the railways denied the claim by filing a detailed written statement, stating therein that the claim of the workman does not sustain in light of relevant Rules; and it has prayed that the claim of the workman is liable to be rejected without any benefit to the workman concerned.
4. The workman did not file any rejoinder in spite of the fact that several opportunities had been afforded to him; resultantly date was fixed for filing of parties' documents. The management filed documentary evidence in support of its pleading; whereas the workman did not file any document in support of its claim.
5. However, during the course of proceedings on 15.10.2018 the workman moved an application, W-31 for withdrawal of the case, which was not objected by authorized representative of the management.
6. Therefore, in view of application, W-13 of the workman for withdrawal of the case and no opposition from the management, it appears there remains nothing to adjudicate upon in the case as no grievance left with the workman. Resultantly no relief is required to be given to the workman concerned. The reference under adjudication is answered accordingly.
7. Award as above.

LUCKNOW

31st January, 2019

RAKESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2019

का.आ. 563.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण लखनऊ के पंचाट (संदर्भ संख्या 12/2017) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 03.04.2019 को प्राप्त हुए थे।

[सं. एल-41011/10/2016-आईआर (बी-1)]

बी. एस. बिष्ट, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd April, 2019

S.O. 563.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 12/2017) of the *Central Government Industrial-Tribunal-cum-Labour Court Lucknow* as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of Uttar Railway and their workmen, received by the Central Government on 03.04.2019.

[No. L-41011/10/2016-IR(B-1)]

B. S. BISHT, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL—CUM—LABOUR COURT LUCKNOW

PRESENT : RAKESH KUMAR, Presiding Officer

I.D. No. 12/2017

Ref. No. L-41011/10/2016-IR(B-I) dated: 21.02.2017

BETWEEN :

Shri Raghwendra Pratap Singh
Sh. Ram NiwashYadav, Sh. Ramesh Chand
Sh. Rai Chand & Praveen Kumar
C/o Sri Prawej Alam
283/63 kh, Gharhi Kanoura (Premwati Nagar)
PO-Manak Nagar, Lucknow – 11

AND

Sr. Divisional Personnel Officer
Nortehrnr Railway
DRM Office, Hazratganj
Lucknow.

AWARD

1. By order No. L-41011/10/2016-IR(B-I) dated: 21.02.2017 the Central Government in the Ministry of Labour, New Delhi in exercise of powers conferred by clause (d) of sub section (1) and sub section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred this industrial dispute between ShriRaghwendraPratap Singh, Sh. Ram NiwashYadav, Sh. Ramesh Chand, Sh. Rai Chand & Praveen Kumar C/o Sri PrawejAlam, 283/63 kh, GharhiKanoura (Premwati Nagar), PO-Manak Nagar, Lucknow – 11 and Sr. Divisional Personnel Officer, Nortehrnr Railway, DRM Office, Hazratganj, Lucknow for adjudication.

2. The reference under adjudication is:

“KYA PRABANDAHAN, UTTAR RAILWAY, LUCKNOW DWARA VIVAAD MEIN ULLEKH SHRI RAAGHVENDRA PRATAP SINGH, RAM NIWAS YADAV, RAMESH CHANDRA, RAI CHANDRA VA PRAVEEN KUMAR KO DINANK 29.07.2004 KO NAUKARI SE NIKALA JANA NYAYUCHIT EVAM VAIDH HAI? YADI HANI TO KAAMGAAR KIS RAAHAT KO PANE KE HAQDAAR HAIN?”

3. The order of reference was endorsed to the workmen with direction to the party raising the dispute to filed the statement of claim along with relevant documents, list of reliance and witnesses with the Tribunal within fifteen days of the receipt of the order of reference and also forward a copy of such a statement to each one of the opposite parties involved in this dispute under rule 10 (B) of the Industrial Disputes (Central), Rules, 1957.

4. The order of reference was registered in the Tribunal on 27.03.2017 and the office was directed to issue registered notice to the workman for filing the statement of claim with list of reliance & list of witnesses on 28.04.2017. On the date fixed i.e. 28.04.2017 the A/R workman was present in person; but did not file any statement of claim and prayed for another date for filing the statement of claim; accordingly, 08.06.2017 was fixed for filing the claim statement on behalf of the workman.

5. The workman did not file statement of claim on subsequent dates i.e. 31.08.2017, 24.10.2017, 18.12.2017, 19.02.2018, 21.05.2018, 02.08.2018, 29.10.2018 and 29.01.2019. More the opposite party filed is authority on 31.08.2017, when the workmen did not file state of claim in spite of several dates, the case was reserved for award keeping in view the reluctance of the workmen to contest their case.

6. In the above circumstances, it appears that the workmen do not want to pursue its claim on the basis of which it has raised the present industrial dispute; therefore, the present reference order is decided as if there is no grievance left with the workmen. Resultantly no relief is required to be given to the workmen concerned. The reference under adjudication is answered accordingly.

7. Award as above.

LUCKNOW

25th February, 2019

RAKESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2019

का.आ. 564.—राष्ट्रपति, न्यायाधीश (सेवानिवृत्ति) रविन्द्र नाथ मिश्रा-॥ पीठासीन अधिकारी केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह-श्रम न्यायालय/राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, कोलकाता को दिनांक 06.04.2019 से छः माह की आगे की अवधि तक अथवा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह-श्रम न्यायालय/राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, मुंबई-1 के पीठासीन अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपते हैं।

[सं. अ-11016/03/2015-सीएलएस-II]

संजीव नंदा, अवर सचिव

New Delhi, the 4th April, 2019

S.O. 564.—In President is pleased to extend the period of additional charge of the post of Presiding Officer, Central Government industrial Tribunal-cum-Labour Court/National Industrial Tribunal, Mumbai-1 entrusted to Justice (Retd.) Ravindra Nath Mishra-II, Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court/National Industrial Tribunal, Kolkata for a further period of six months with effect from 06.04.2019 or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

[No. A-11016/03/2015-CLS-II]

SANJEEV NANDA, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2019

का.आ. 565.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. ॥ चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 349/2005) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 05.04.2019 को प्राप्त हुए थे।

[सं. एल-12012/318/2000-आईआर (बी-1)]

बी. एस. बिष्ट, अवर सचिव

New Delhi, the 5th April, 2019

S.O. 565.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 349/2005) of the *Cent. Govt. Indus.-Tribunal-cum-Labour Court* No. II, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of State Bank of Patiala and their workmen, received by the Central Government on 05.04.2019.

[No. L-12012/318/2000 -IR(B-1)]

B. S. BISHT, Under Secy.

ANNEXURE**IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, CHANDIGARH****Present :** Sh. A.K. Singh, Presiding Officer**ID No. 349/2005****Registered on:-17.08.2005**Sh. S.P. Kakria, R/o 347-D, Model Town Extension,
Durgi Road, Ludhiana.

...Workman

VersusState Bank of Patiala, through General Manager, Operation,
Head Office, The Mall, Patiala

...Management

AWARD

Passed on: 19.03.2019

Central Government vide Notification No. L-12012/318/2000/IR(B-I) Dated 07.11.2000, under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(hereinafter called the Act), has referred the following Industrial dispute for adjudication to this Tribunal:-

“Whether the action of the management of State Bank of Patiala in terminating the services of Shri S. P. Kakaria S/o Shri Devi Dayal is legal and just? If not to what relief the concerned workman is entitled?”

1. Both the parties were put to the notice and the claimant/workman filed his statement of claim with the averments that he was appointed on 20.06.1962 as Cashier at Faridkot Branch. During his services, he remained posted at different branches at different period and was finally posted as Head-Cashier, Ludhiana Branch, in the month of June, 1980. Due to ongoing split and differences of the union and selection of workman as President of the minority-union management issued the charge-sheet dated 27.11.1995 while the workman was under suspension. The workman submitted reply to the charge-sheet inter alia explaining the facts of the disciplinary authority which was not considered by the disciplinary authority and decided to initiate the enquiry. Sh. T.S. Lakra later on Sh. K.K. Mittal was appointed as enquiry officer and Sh. S.K. Gupta was appointed as presenting officer. During the course of enquiry, workman demanded certain documents for defence but the same were not allowed by the enquiry officer and with the connivance of the management presenting officer the workman was not permitted to defend his case properly. The enquiry officer conducted the enquiry and submitted his enquiry report, holding that charge no.1 partly proved while charge no.2 proved which are related with the major and minor charges. The finding of the enquiry officer for all the charges are perverse not based on any evidence. The disciplinary authority acted on the perverse order of the enquiry officer inflicted the punishments of dismissal after issuing show cause notice which the workman had submitted detailed reply. The disciplinary authority did not adhere an opportunity to the workman for personal hearing and pass the order of dismissal which is totally against to the charges leveled against the workman. The disciplinary authority did not apply its judicious mind and brushed aside the defence of workman holding departmental enquiry legal and fair. The order passed by the disciplinary authority is neither speaking order nor any legal reasoning is given for inflicting the punishment. The workman filed appeal against the order of the disciplinary authority before the appellate authority who passed an order rejecting the appeal without stating any reasons in a summary manner. It has been alleged that the finding of the enquiry officer as well as order of dismissal by the disciplinary authority are based on conjectures and assumption with pre-determined notion to inflict the punishment of dismissal to the workman. Prayer has been made for setting aside the dismissal order of disciplinary authority as well as appellate authority reinstatement with full back wages and consequential benefits.

2. The claim petition has been resisted by the management, who filed written statement and took preliminary objection that reference is without jurisdiction and not maintainable as the petitioner S.P. Kakria was guilty of serious acts on which he was charge-sheeted. He is committed serious act of misconduct as he did not comply the direction and circulars related to the dispatching case remittance of the notes of the bank. Consequently, enquiry was initiated as per bank rules and regulations against workman and workman was charge-sheeted on 27.11.1995. After conducting fair and proper enquiry the enquiry officer submitted its report. It is admitted that the charge no.2 is fully proved whereas charge no.1 is partly proved. The competent authority after receiving the enquiry report and satisfying himself from the finding of the enquiry officer issued show cause notice dated 30.06.1999 to the petitioner/workman to show cause as to why penalty of dismissal in terms of Bipartite Settlement read with provisions of Shastri/Desai Award may not be imposed upon him. The workman did not turn up for personal hearing making the disciplinary authority to presume that he has nothing further to state in his defence. The disciplinary authority going through the findings of the enquiry officer and applying his own mind awarded the punishment of dismissal with immediate effect which is legal, just, proper and is quite commensurate with the gravity of the charges. Aggrieved by the punishment order dated 01.12.1999 of the disciplinary authority, the workman filed an appeal before the appellate authority, which was rejected by the appellate authority finding therein plea taken by the petitioner/workman worthless. The management has reserved its right to prove the acts of misconduct committed by the petitioner before this Hon'ble Court in case this Hon'ble Court finds any infirmity with the enquiry by leading oral as well as documentary evidence. The reference is bad in law being mis-joinder and non-joinder of the parties. It is also alleged that serious acts of misconduct committed by the workman as contained in the charge sheet served upon the workman the gravity of the charges differ from employee to employee depending upon the duties and responsibilities of employees. Thus, it is submitted that after conducting fair and proper enquiry as per rules, enquiry officer has submitted enquiry report on which order of dismissal is passed by the

disciplinary authority and it is subsequently upheld by the appellate authority. Thus, prayer has been made for the dismissal of the claim petition.

3. It is a matter of record that claimant/workman was dismissed from service vide order dated 01.12.1999 in pursuance to the domestic enquiry conducted against him. Perusal of record shows that this Tribunal vide detailed order dated 10.10.2011 has held that the departmental enquiry was conducted in fair and proper manner after giving proper opportunity to the workman to defend himself and as such, the enquiry was not conducted against the principle of natural justice.

4. During the course of arguments, learned counsel for the claimant/workman submitted that since claimant/workman has already rendered more than 36 years of service in the management-bank the punishment of dismissal from service awarded against the workman/claimant vide impugned order dated 01.12.1999 is very very harsh and disproportionate to the charges leveled against him. Ld. Counsel for the workman also submitted that workman having good service record all throughout his carrier and not a single memo was issued to the petitioner/workman and there was no finding that the respondent-management has suffered any financial loss. It is also contended that no charges of embezzlement or misappropriation had been leveled against the workman either in the charge sheet or anywhere in the report. It is further contended by the workman counsel that other officials who were also alleged to be involved in the chain of events have been relieved with minor punishment of “**Censor**” while workman is dismissed from service negating pensioner benefits for which the workman is legally entitled to in lieu of more than three decades of services rendered to the respondent-management. Looking to these uncontroverted facts the respondent-authority should not imposed the penalty of dismissal from service. Ld. Counsel of the workman has also contended that the punishment of dismissal to the workman is discriminatory in nature as apparently it is a case of contributory negligence and rest of the employees already charge-sheeted where censored only. Ld. Counsel has placed reliance on the decisions of Hon’ble Supreme Court in the case of **Girish Bhushan Goyal Versus BHEL and another, 2014(3) Recent Services Judgements 364; and of Gujarat High Court in the appellant establishment of Cholpadi Jagannath Kamath Vs. PSV Mallya & others, 2006(3) Recent Services Judgments 494** as well as in the case of **Rajendra Yadav vs. State of M.P. and others, CWP No.1334 of 2013, dated 13.02.2013** to urge that since the punishment so awarded to him is exorbitant and disproportionate, lenient view be taken while exercising powers under Section 11-A of the Act.

5. Per contra, learned counsel for the management argued that action of the disciplinary authority in passing the dismissal order is commensurate to the gravity of misconduct proved against the workman. It is also submitted by the learned counsel for the management-bank that role of the Court in the matter of departmental proceedings is very limited and the Court cannot substitute its own views or finding arrived on the basis of the evidence available on record. In the matter of imposition of sentence, the scope for interference by the Court is very limited to exceptional cases. The punishment imposed by the disciplinary authority cannot be subjected to judicial review. In this connection, learned counsel of the bank has drawn my attention towards the judgment of the Hon’ble apex court in the case of **S.R. Tiwari Versus Union of India (2013(7) Scale Page 417)** and in the case of **Depot Manager, APSRTC Vs. Raghudha Shiv Shankar Prasad 2007(1) RSJ Page 331** as such, the workman is not entitled to any leniency.

6. There is no dispute that Section 11-A of the Act empowers this Tribunal to interfere with the quantum of punishment in appropriate cases(see decision of Hon’ble Apex Court in the case of **Pepsu Road Transport Corporation Versus Rawel Singh, 2008 AIR (SCW) 2099;** of Punjab & Haryana High Court in the case/s of **Punjab National Bank Vs. The Presiding Officer, CGIT & another 2012(2) SLR 631; Harnek Singh Versus State of Haryana & others 2010(3) SLR 276** and **Joginder Lal Versus The Presiding Officer, Labour Court, Ambala & another 1996 SCT 436.** The discretion is to be exercised judiciously in such cases where order of punishment is quite harsh & disproportionate to the gravity of misconduct of the official concerned on the basis of evidence on record.

7. At the very outset, it can be inferred that the alleged misconduct of the workman was result of contributory negligence of Manager, Head-Cashier(workman), Cashier, Deputy Cashier, who were involved with the remittance of the case transferred to Kotak Pura Branch, resulting shortage of Rs.2950/- and surplus amount. It transpires from the enquiry report that in fact the counting and recounting of remitting money before remittance to some other branch has to be done by the team of officials(more than five officials) and being Head-Cashier, it is the duty of workman, Head-Cashier to ensure quality and quantity of remittance as per norms of bank. To my mind, it was a case of contributory negligence of all the employees who were charged separately for the alleged contributory misconduct but nevertheless being Head-Cashier, workman was subjected to punishment of dismissal whereas other officials including Naresh Kumar, who was accompanying with the remitted money to the branch during the course of related transaction and compensation of money was subjected only punishment of “censor”.

8. Considering the scope of judicial review on the quantum of punishment and referring to various cases in Jai Bhagwan Vs. Commissioner of Police & Ors., 2013(4) S.C.T. 607: (2013) 11 SCC 187, the Apex Court held as under:-

“What is the appropriate quantum of punishment to be awarded to a delinquent is a matter that primarily rests in the discretion of the disciplinary authority. An authority sitting in appeal over any such order on punishment is by all means entitled to examine the issue regarding the quantum of punishment as much as it is entitled to examine whether the charges have been satisfactorily proved. But when any such order is challenged before a Service Tribunal or the High Court the exercise of discretion by the competent authority in determining and awarding punishment is generally respected except where the same is found to be so outrageously disproportionate to the gravity of the misconduct that the Court considers it be arbitrary in that it is wholly unreasonable. The superior courts and the Tribunal invoke the doctrine of proportionality which has been gradually accepted as one of the facets of judicial review. A punishment that it so excessive or disproportionate to the offence as to shock the conscience of the Court is seen as unacceptable even when courts are slow and generally reluctant to interfere with the quantum of punishment. The law on the subject is well settled by a series of decisions rendered by this Court.....”

9. Coming to the case at hand, even assuming that finding regarding the misconduct is left undisturbed the circumstances in which the workman is alleged to have disobeyed the instructions and rules of Bank did not justify the extreme penalty of his dismissal. It is not disputed that there was shortage of staff in cash department and matter is referred by the manager of bank to superior authority but the concerned authority did not pay attention to this effect resulting the alleged misconduct inadvertently by the workman and other officials of bank charged separately for the same offence related with some transactions. As per inquiry report charge no.1 related to major misconduct is partly proved but there is nothing on record to prove that who were else responsible for remaining part of misconduct. This is contended by the learned counsel of workman that the employees who were associated with workman related with cash department and charged for the misconduct done in same transaction, they were punished only with minor punishment of “censor”. In this connection, learned counsel of workman has drawn my attention towards the judgment of Hon’ble Supreme Court in the case of Rajender Yadav Vs. State of M.P. and others, civil appeal no.1334 of 2013, decided on 13.02.2013, the principle enunciated in para 12 runs as follow:-

“The doctrine of Equality applies to all who are equally placed; even among persons who are found guilty. The persons who have been found discrimination while imposing punishment when all of them are involved in the same incident. Parity among co-delinquents has also to be maintained when punishment is being imposed. Punishment should not be disproportionate while comparing the involvement of co-delinquents who are parties to the same transaction or incident. The Disciplinary Authority cannot impose punishment which is disproportionate.”

10. The principle stated above, has been applied by the Hon’ble Supreme Court. The earlier one is Director General of Police and others Vs. G. Dasayan 1998(2), S.C.C. 407. On the basis of principle enunciated by Hon’ble Supreme Court regarding the equality and discrimination, this Tribunal is of the considered opinion that if cashier Naresh who was accompanying with the remitted money on 13.10.1992 and 16.11.1992 respectively and admittedly made good shortage of money was served with simple punishment of ‘censor’ then being Head-Cashier the validity of punishment on higher side i.e. dismissal from service is certainly shockingly disproportionate as no employer would ever impose in due circumstances.

11. In the case of Girish Bhushan Goyal(supra), there were allegations of misconduct of negligence against the official/appellant under Rule 5(5) and 5(9) of the BHEL Conduct Rules and hence dismissal of the appellant from service in that case was considered to be disproportionate to the gravity of misconduct. Similarly, facts in the case of Cholpadi Jagannath Kamath(supra) were that the bank officer while sanctioning loans in favour of certain parties had exceeded his limits/powers and thus misconducted himself. Since there was nothing on record to show that the Bank suffered losses due to such misconduct on the part of the said charged officer, Hon’ble Court while setting aside the order of his dismissal from service, granted him the relief of retirement benefits and other monetary benefits but without any back wages. The Hon’ble Supreme Court in the case of Surender Prashad Shukla Vs. State of Jharkhand and others(1) at para 9 and 10 has held that the order of dismissal of Police Constable for negligence of not having enquire from his son about the car stolen by his son and kept in front of the government quarter occupied by him has shockingly disproportionate to the negligence proved against him.

12. The consequence of dismissal order served on workman after rendering services of more than 36 years not only results inflicting disproportionate punishment on him in terms of bad name and reputation but also deprived the workman of his retiral benefits for which he has got statutory entitlement whereas his inadvertent negligence to my mind, attracts minor penalty likewise other officials connected with the remittance of bank money.

13. Thus, it is a settled law that punishment of the penalty to be imposed by the disciplinary authority against the charged official is to be commensurate with the gravity of alleged misconduct. Having regard to the ratio of aforesaid rulings, coupled with gravity of the misconduct relating to negligence of workman, this Tribunal is of considered opinion that the quantum of punishment awarded to the workman/claimant by the management is disproportionate & excessively high, inasmuch as procedural laps in remittance of bank money of other bank is not a kind of misconduct of moral turpitude or indulging in corrupt practices, warranting imposition of penalty of dismissal/removal from service. To my

mind, dismissal order against the workman/claimant is disproportionate hence, dismissal order served upon the workman is hereby quashed. The workman becomes entitled to all the retiral and pensionary benefits under the relevant rules for which he is statutory entitled to. It is made clear that workman will not be entitled to get any back wages from the date of dismissal to the date of superannuation in the light of his alleged negligence. The management is directed to pay the retiral benefits including pension and other arrears due to him within 8 weeks from the publication of the award.

14. The reference is answered accordingly.

A. K. SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2019

का.आ. 566.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ पटियाला प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. II, दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 175/2015) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 05.04.2019 को प्राप्त हुए थे।

[सं. एल-12025/01/2019-आईआर (बी-1)]

बी. एस. बिष्ट, अवर सचिव

New Delhi, the 5th April, 2019

S.O. 566.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 175/2015) of the *Cent. Govt. Indus.-Tribunal-cum-Labour Court No. II, Delhi* as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of State Bank of Patiala and their workmen, received by the Central Government on 05.04.2019.

[No. L-12025/01/2019 -IR(B-1)]

B. S. BISHT, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI

Present : Smt. Pranita Mohanty, Presiding Officer, C.G.I.T.-Cum-Labour Court-II, New Delhi.

INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 175/2015

Date of Passing Award- 29th January, 2019

Between:

Smt. Rajeshri Devi
W/o Sh. Summari,
R/o D-615/3, Gali No. 1,
Ashok Nagar, Shahdra,
New Delhi-110093.

... Workman/Applicant

Versus

1. The Managing Director,
State Bank of Patiala,
Head Office At,
Patiala, Punjab.

... Managements/Respondents

2. State Bank of Patiala,
Through Its G.M./A.G.M,
Regional Office At,
Lodhi Colony,
New Delhi- 110003.

Appearances:-

Shri Adarsh Kumar, Advocate : For the Workman

Shri Pardaman Singh Batra, Advocate : For the Management

AWARD

This is an application filed by the workman invoking the provision of section 2A of ID Act 1947 for adjudication of her claim. The management, State Bank of Patiala Delhi was noticed. The management/respondent entered appearance through their A/R and filed written statement to the claim statement of the workmen.

The 1st party workman in the claim statement has stated that since, Oct. 1999 she was working as a Safai karamachari/peon on daily wage for the management and she was discharging her duty in the State of Bank of Patiala Zonal stationery depot, Govind puri New Delhi. She was getting the daily wage at the rate of Rs. 50/-. Though time and again she was representing and demanding regularization of her service and to be declared as a permanent employee, the management did not pay any heed. On the contrary on 03.03.2014 her service was terminated without following the statutory provision. Neither she was served with termination notices nor one month salary in lieu of notice was paid. She was not even paid the termination compensation. Several representation made by her were duly forwarded to the head office demanding her regularization. The State Bank of Patiala employees union among others made a demand for absorption of the part time workers against regular post on the pay scale admissible. The management though accepted the demand of the union did not oblige the workman by regularizing her service. It is further case of workman that for the part time workers working in other branches though specific orders were passed by the management for regularization, no such order was passed in her case. She has further stated that since the date of termination she is jobless and not gainfully employed anywhere. Hence, on 07.01.2015 she sent a notice to the management in terms of section 10 of the ID act. The management though received a notice did not take any action. Finding no other way she filed a claim petition before this tribunal praying a direction to the management to reinstate her to service with all back wages and declare her as a permanent employee of the management.

Notice being sent, the 2nd party management entered appearance and filled written statement refuting the stand of the workman. It has been specifically pleaded that the workman is guilty of suppression of facts. She was never a daily wage worker of the management. The nature of work as discharged by the workman was of casual nature and on need basis. For the work done, she was being paid Rs 50/- per day. While challenging the maintainability of the proceeding, the management has stated that the claimant not being there employee. There was no need of complying section 25-F of the ID Act. The management has also taken a plea that in the case of **Secretary State of Karnataka vs. Uma Devi (2006) 4 SCC** the Hon'ble Apex Court have stated that the daily wage earners are not entitled to other allowances and the court are not expected to issue direction for making such persons permanent in service. By placing reliance in the case of Director Institute of Management Development U.P vs. Pushpa Srivastav 1992(3) SCR 712 the respondent have further pleaded that when the appointment was purely contractual and on adhoc basis and terminable without notice, the appointee has no right to continue in the post and to claim regularization. With this, the management took a stand that the workman is not entitled to benefit sought for and the prayer should be rejected.

On these rival pleadings the following issues were framed to be answered:

Issues

1. Whether the claim petition is maintainable.
2. Whether the claim petition has been filed with the concealment of facts.
3. Whether the claimant was a casual worker of the management and not working as a daily wager.
4. Whether the claimant workman had worked for 240 days in a calendar year.
5. To what relief claimant/workman is entitled to.

In order to substantiate it's stand the workman examined herself as WW1 and filed a number of document which have been marked in a series of Exhibit WW1/1 to WW1/75. The management though had filed a written statement, did not choose to adduce any oral or documentary evidence. The workman had filed a petition for a direction to be issued to the management for production of original or duly attested photocopies of certain document. This petition was allowed by order dated 05.04.2017 directing the management to produce the documents on 09.05.2017 positively. The documents which the workman intended production included the muster roll attendance register, salary register bonus, register etc. But the management did not comply the order and as such, the workman was allowed to adduce the secondary evidence.

FINDINGS**ISSUE No. 3 and 4**

These two issues being interdependent and important for deciding this dispute have been taken up for consideration together.

It is the stand of the workman that she was working with the SB of Patiala as a daily wage employee and working for four days in a week in the branch at Govind Puri New Delhi. Her job was that of a sweeper and getting Rs. 50/- per day as wage. Besides that she was also helping in the bank work by receiving dak and by putting her signature in receipt register. In addition to that she was also discharging other duty as per the direction of the authority. The State Bank of Patiala employees union made a demand for regularization of the service of the part time workers. Meetings were held between the management and union and demands advanced by the union were accepted. One of the demands was for regularization of the service of the part time workers. It was agreed between the union and the management that the service of the part time workers who have completed 2 years of satisfactory service in the scale as on 01.04.2014 shall be upgraded to the next higher scale i.e. from 1/3 to 1/2 to 3/4 to full scale. Though the workman was hopeful that her service will be regularized w.e.f. 01.04.2014 suddenly on 03.03.2014 management terminated her service without following the statutory provisions. Thus, on behalf of the workman it has been argued that her service need to be regularized from daily wagger to regular employee as per the agreement between the management and the workers union and also for the reason that she had worked for more than 240 days in a calendar year during the relevant time period.

In the written statement the management has denied the status of the workman as a daily wage earner or as a person who had worked for more than 240 days in a calendar year. It is necessary to mention here that the workman had asked the management to produce her attendance register, muster roll, payment register, etc which could have thrown light on the claim of the workman. But the management, without assigning any reason failed to produce the documents. Those being the documents of the management, it is obviously not possible for the workman to produce the same. However, the workman has produced several documents marked in a series of Exhibit WW1/32 to WW1/44. These documents are records relating to payment of wage to the workman towards the work done by her between the period 31.05.2008 to 31.07.2008. Not only that the workman has also filed photocopies of the peon book of State Bank of Patiala Zonal Stationery Depot for the period from July 1999 to Dec 2000 and in the appropriate column this workman had put her signature indicating the date and time of receipt of the Dak. Thereby the workman has asserted that during this period, she was discharging her duty as a peon and completed 240 days in a calendar year.

Some better evidence could have been produced to prove and disprove the claim of the workman for discharging duty as a peon for more than 240 days in a calendar year. There is no doubt about the fact that the respondent/management is the custodian of those documents and despite direction failed to produce the same. On that count, adverse inference is bound to be drawn against the management/respondent. In the case of **Ramesh Kumar vs. Presiding Officer Industrial Tribunal reported in 2018 LLR 1229 The Hon'ble High Court of Punjab and Haryana** have held that when the management failed to produce the relevant records like attendance register, muster roll etc though the said records were summoned by the workman before the tribunal, adverse inference is to be drawn against the management. In this case the Hon'ble High Court Punjab and Haryana have referred to the judgment of Hon'ble Supreme Court in **Gopal Krishanji Ketkar vs. Mohamed Haji Latif and others, AIR 968 SC 1413**, where in the Hon'ble Apex Court have held that the burden of proving the fact was on the management as it is a party which possesses the best evidence. The party cannot rely upon the abstract doctrine of Onus of proof.

In this case though the workman a low grade employee had called for the document, the management without showing good reason did not produce the same. In the circumstance the secondary evidence adduced by the workman become admissible and the same goes to prove that the workman had worked for 240 days and more in a calendar year entitling her for regularization of service.

It is necessary to discuss the stand taken by the management that the workman was not a daily wage earner but a casual worker and his service cannot be regularized in view of the judgment rendered by Hon'ble supreme court in the case of **Secretary State of Karnatak vs. Uma Devi** referred Supra.

It is worth mentioning here that the Hon'ble Supreme Court in the case of **Devinder Singh vs. Municipal Council reported in AIR 2011 SC Page 2532** have clearly held that

“The source of employment, the method of recruitment, the terms and conditions of employment/contract of service, the quantum of wages/pay and the mode of payment are not at all relevant for deciding whether or not a person is a workman within the meaning of section 2(S) of the Act. The definition of workman also does not make any distinction between full-time and part-time employee or a person appointed on contract basis. There is nothing in the plain language or section 2(S) from which it can be inferred that only a person employed for doing whole-time job is a workman and the one employed on temporary, part-time or contract basis on fixed wages or as is casual employee or for doing duty for fixed hours is not a workman”.

In the case of **ONGC Ltd. vs. Petroleum Coal Labour Union and others reported in 2015 LAB I.C Page 2483** the Hon'ble Supreme Court while discussing about the unfair labour practice and after discussing the different pronouncement on the subject and also by referring to the case of **Maharashtra SRPC case reported in SCC page 573** came to hold that the decision rendered in the case of **Uma Devi** referred supra, it can be concluded that Umadevi does not denude the Industrial Tribunal and Labour Court of their statutory power to order permanency of the workers who have been victims of unfair labour practice on the part of the employer.

In this case the workman has led satisfactory evidence that she had worked for more than 240 days in a calendar year and the management instead of regularizing her service, terminated the same. Several documents have been Exhibited on behalf of the workman which show that the incharge of the Depot on several occasion had made

correspondence with the higher officials for creation of part time sweeper post in that depot. This is evident from the documents marked as Exhibit WW1/4, WW1/3, WW1/5, WW1/6, WW1/7, WW1/8, WW1/9, WW1/11 and WW1/12 etc. From these documents it is evidently clear that the management though took steps for creation of a part-time sweeper post in its Shastri Nagar Branch, deliberately omitted to do so to the disadvantage of the workman. Not only that when the management took a decision to regularize the job of the part-time workers w.e.f 01.04.2014 the service of the workman was terminated w.e.f 03.03.2014 which was no doubt designed to deprive the workman of her statutory right. This amounts to unfair labour practice at the instance of the management.

It has been admitted by the management in the written statement that the provision of 25-F of the ID Act was not complied. The explanation offered is that the workman is not an employee of the Bank. In the case of Devinder Singh vs. Municipal Council refers Supra the Hon Apex Court have held that whatever the name given to the workman and whatever the nature of the work discharged either full time or part-time, no distinction can be drawn for deciding whether he is a workman within the meaning of section 2(s) of the ID Act. In that view of the matter and for the admission of the management that section 25-F was not complied, it is held that the workman is entitled to the statutory benefits. Accordingly issue no. 3 and 4 are answered in favor of the workman to the extent that she was working as a daily wager under the management/respondent and had worked for more than 240 days in a calendar year which makes her entitled to regularization of her service at the instance of the management.

Issue No. 1 and 2

In view of the findings arrived in respect of 3 and 4 it is held that claim petition is maintainable and the workman has not concealed any relevant fact. These issues are accordingly answered.

Issue No. 5

While answering issue no 3 and 4 it has been held that the workman is entitled to regularization of her service. The admitted position is that the management while terminating her service had not complied with the provision of the section 25-F by giving one month notice or the notice period pay or the retrenchment compensation etc. Hence, it is held that the workman is entitled to be reinstatement to service w.e.f 03.03.2014 as a sweeper with the pay as would be admissible. Since the workman has laid evidence that after her termination she has not been gainfully employed anywhere and the said contention of the workman has remained uncontroverted, it is directed that she shall be paid the back wages for the said period as a mode of compensation. This issue is accordingly answered.

In view of the findings recorded under issue no. 1, 2,3 and 4 the workman is held entitled to relief claimed.

The claim of the workman is accordingly answered.

Dictated & Corrected by me.

PRANITA MOHANTY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2019

का.आ. 567.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण बेंगलूर के पंचाट (संदर्भ संख्या 10/2006) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 08.04.2019 को प्राप्त हुए थे।

[सं. एल-12012/229/2005-आईआर (बी-1)]

बी. एस. बिष्ट, अवर सचिव

New Delhi, the 8th April, 2019

S.O. 567.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 10/2006) of the *Cent. Govt. Indus.-Tribunal-cum-Labour Court Bangalore* as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of Tungabhadra Grameena Bank and their workmen, received by the Central Government on 08.04.2019.

[No. L-12012/229/2005 -IR(B-1)]

B. S. BISHT, Under Secy.

ANNEXURE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIUBNAL-CUM-LABOUR COURT
BANGALORE

DATED : 19TH MARCH 2019

PRESENT : Justice Smt. Rathnakala, Presiding Officer

C.R No. 10/2006

I Party

Sh. B. Malleshappa,
 S/o Late B. Hanumanthappa,
 Since deceased by his LR's:

1. Smt. Mahadevamma,
 W/o Late B. Hanumanthappa
2. Sh. B. H. M. Suresh Kumar,
 S/o Late B. Hanumanthappa
3. Sh. B. H. M. Sunil Kumar,
 S/o Late B. Hanumanthappa
4. Sh. B.H.M. Sukumar
 S/o Late B. Hanumanthappa
5. Sh. B.H.M. Sumankumar,
 S/o Late B. Hanumanthappa
 All are r/o No. 17, Kuppaiah Camp,
 (Matti), Kamalapura, Hospet Taluk, Bellary District.
6. Sh. B.H.M. Sujatha, D/o Late B. Hanumanthappa,
 W/o Obalesh, R/o Guntkal, Ananthapura District,
 Andhra Pradesh

II Party

The Chairman,
 Tungabhadra Grameena Bank,
 Head Office,
 Post Box No. 55, Gandhinagar,
 Bellary – 583103,
 Karnataka.

Appearances

I Party : Shri C.R. Patil, Advocate

II Party : Shri N. Srinivas Rao, Advocate

AWARD

The Central Government vide Order No.L-12012/229/2005-IR(B-I) dated 27.02.2006 in exercise of the powers conferred by Clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section 2(A) of Section 10 of Industrial Dispute act, 1947 (for brevity 'the Act' hereafter) referred the following Industrial Dispute for adjudication.

“Whether the action of the management of Tungabhadra Grameena Bank in imposing the penalty of dismissal from the services on Shri B. Malleshappa, with effect from 29.12.2004 is legal and justified? If not, to what relief he is entitled to?”

1. The claim of the 1st Party workman is he belongs to

Schedule Caste and joined the service of 2nd Party as Clerk cum Cashier. He has put in 20 years of continuous service with the 2nd Party until he was dismissed from the service on 29.12.2004. The facts leading to the dispute is while working on deputation at Udbal Branch with the permission of his Branch Manager he visited the Maski Branch during evening hours. Consequent upon an altercation between him and the Branch Manager of Maski Branch, a police complaint was lodged against him and FIR was registered. He was issued charge sheet for the alleged misconduct stated therein. Domestic Enquiry was held, after a full pledged enquiry, the Enquiry Officer submitted his report dated 14.06.2004 holding that, the charges levelled against the 1st Party stand proved and he has committed misconduct in terms of Regulations 17-19 of Tungabhadra Gramin Banks (Officers and Employees) Service Regulation 2000. The

Disciplinary Authority accepted the Enquiry Report and dismissed him from service w.e.f 20.12.2004 after giving him a personal hearing regarding the punishment and dismissal. During the personal hearing, the 1st Party admitted the charge and apologised.

2. The 2nd Party in their statement while justifying their action have stated that, before placing the dismissal order Domestic Enquiry was conducted following the principles of natural justice and as per the service rules applicable. He was charge sheeted several times for several misconducts committed by him and punishment was imposed, he was also warned/reprimanded several times for unauthorized absence, disobedience of orders, for his behaviour etc,. The punishment imposed on him is just and proper.

3. On the rival statement pertaining to the validity of the Domestic Enquiry a preliminary issue was raised and is answered affirmatively in favour of the management. Thereafter the 1st Party workman has adduced evidence pertaining to his unemployment; he has submitted that Criminal Case initiated against him on the same set of allegation has ended in his acquittal.

4. Both parties have submitted their written arguments. According to the 1st party since the Criminal Case was pending the Enquiry officer ought to have waited for the final result of Criminal Case. Immediately after the alleged incident the Branch Manager contacted the Head Office and appraised the alleged incident and with their permission lodged the complaint after two days, but said complaint is not produced purposefully. The Disciplinary Authority in its order has recorded that the complainant was assaulted by family members of the charge sheeted employee but the complainant himself has not alleged in his complaint that he was assaulted. Even the Enquiry Officer has not stated that he was assaulted. Since the order of dismissal is based on imaginary allegation the punishment order may be set aside.

4. The 2nd party in their written submission have stated that before passing punishment order, he had admitted before the Disciplinary Authority pleading guilty of the charges and prayed for lenient view. The findings of the Enquiry Officer is well reasoned based on the evidentiary material. As per the Judgement of the Hon'ble Apex Court in Mahindra and Mahindra Limited vs N B Naravade 2005-I-LLJ1129(SC) and the Judgement of our Hon'ble High Court in Anthony Swamy A V and Management of St. Joseph Medical College 2009-I-LLJ-481, use of abusive, filthy language against Superior Officer, did not call for lesser punishment than dismissal.

5. To epitomize the allegation of the charge sheet, 1st Party workman went to the Branch Manager at 4.45pm enquired about the salary for the month of July 2003 with the Branch Manager Sh. K Nandappa. After verifying the salary sheet Sh. K Nandappa informed him that his salary was Rs. 656.76. On Hearing that the 1st party workman was enraged, abused him with filthy language. The Branch Manager tried to pacify him and explained that salary will be paid as per the work done and the salary pay slips are prepared at Head Office level and there is no Managers involvement. At that stage workman instigated his family members i.e., his wife and children to assault the Manager with chappal, immediately his wife Smt. Mahadevamma rushed towards the Branch Manager and held his shirt in the chest and his children advanced towards him with the chappal, at that stage the Officials of the Bank and 2 customers present over there helped and released the Branch Manager from the clutches of the 1st Party and his family members. He threatened the Branch Manger and left the place. Above act amounts to misconduct in terms of Regulation 17 and 19 of Thungabhadra Gramin Banks (Officers and Employees) Service Regulation 2000.

6. During Domestic Enquiry the management had produced/exhibited 7 documents pertaining to posting of 1st Party in Udbal Branch, the report of the Branch Manager pertaining to the incident the complaint lodged by him to the Police, Statement of the Officials and customers who were present in the Bank during the incident, notice issued to the 1st Party calling for explanation regarding the incident of 18.07.2003. The Branch Manager Sh. K. Nandappa/ complainant was the 1st witness for the management he detailed the incident, wherein the 1st Party and his family members entered the Bank premises on 18.07.2003 at 4.45 pm, he has further stated that, the 1st Party instigated his family members to assault the complainant with chappal. Consequently, his wife and his sons damaged the furniture of the Branch and at the instance of the staff members he was rescued. 9 eye witnesses supported the evidence of the

injured complainant. There was unshaken evidence that the 1st Party left the Udbal Branch with the permission to go over to Muski Branch.

7. On a overall scrutiny of the evidentiary material it emanates that, the 1st Party did not engage any co-employees for his assistance, his presence at the Bank premises on 18.07.2003 at 4.45 pm was not under challenge. The incident of incitement, intimidation and threatening the Superior Officer is established by the evidence of the victim and the eye witnesses who were present at the spot. He along with sons was in custody for 1 day. Of course there was delay of two days to lodge Police Complaint. But delay is understandable, for taking administrative approval and to lodge the complaint there was a time gap of 2 days. Acquittal from the Criminal Case by itself is not a ground for the Disciplinary Authority to absolve the charge sheeted employee from the allegation of misconduct which is punishable under their service rules. The parameter for appreciating evidence in a Departmental Enquiry differs from Criminal Trial. He has apologised before the Disciplinary Authority about the incident and undertaken not to repeat the same in future, his unemployment or his apology are not the mitigating circumstance to reduce the punishment. It is not a instantaneous incident; during the working hours he has gone to the Bank along with his family members. The circumstance would drive an inference that, his presence with the family members in the Bank premises was not unintentional, it is his voluntary act to incite his family members to abuse Superior Officer filthily; he has disturbed the functioning of the Bank during the duty hours. He has not shown any other reason for his outraging behaviour against the Complainant.

8. The Enquiry Officer on a thread bare has discussed the evidence of the witnesses and has held the charges levelled against the workman stands true. Before this Tribunal he has attempted to take the benefit of the proposition victimization. He is not a Trade Union activist to take the shelter under the defence of 'Victimization'. Perhaps he is under the impression that, the Disciplinary Authority imposed the punishment by presuming that the Branch Manager was assaulted. Dehors the observation on the allegation of assault then also I find no reason to intervene in the punishment order. Inciting the family members to assault his Superior Officer is not less than the offence of the actual assault itself. During the pendency of the proceedings 1st Party has expired and his class 1 Legal Heirs are brought on record on his place. However, when it is found that, the punishment order is justified there cannot be anymore relief in favour of the deceased 1st Party workman/Legal Heirs. Hence, the following.

AWARD

The reference is rejected

(Dictated, corrected and signed by me on 19th March, 2019)

Justice Smt. RATHNAKALA, Presiding Officer